

जयपुर जैन भुवेताम्बर
समाज
डायरेक्टरी
१५८४


श्रावण

जयपुर जन श्वेताम्बर समाज डायरेक्ट्री (विवरणिका) 1984 के प्रकाशन पर हम सचको हादिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है ।

समाज के बहुमुखी उपयोग के लिए प्रवाणित की जाने वाली इस डायरेक्ट्री की सामग्री के सकलन, विश्लेषण, सम्पादन एवं मुद्रण आदि का काय वडा श्रम एवं व्ययसाध्य था पर जयपुर के दो प्रतिष्ठित परिवारो ने मिलकर इसे सहज सरल बनाने म जो यागदान दिया है वह अभिनन्दनीय है ।

समाज हितपी उदार हृदय श्री भीमराजजी कोठारी सुपुत्र स्व श्री घीसोत्तालजी कोठारी एवं श्री कमलचदजी सुराणा सुपुत्र स्व श्री राजमलजी सुराणा द्वारा मुक्त हस्त से प्रदत्त आर्थिक सहयोग एवं उनकी सतत सक्रियता के वल पर ही तीन महिने के अल्प समय मे इसका सकलन, मुद्रण एवं प्रकाशन आदि सभव हो सका है ।

हृदय के अतस्तल से हम उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं ।



दिवंगत सेठ श्री केसरीमल जी साहब कोठारी

FINE LARBURE LASERTIP



1. सम्पादकीय	1
2. सयोजक की कलम से	3
3 संयोजन एवं प्रकाशन समिति	8
4. जयपुर श्वे० जैन समाज द्वारा संचालित लोकोपकारी संस्थाएँ	9
5. निर्देशन एवं सूचनाएँ	30

परिवार परिचय

6. शब्द संक्षेप सूची	i
7. अक्षर अनुक्रम मे गोत्रो की सारणी	iii
8. शुद्धि पत्र	viii
9. सुभाषित	x
10. अक्षर अनुक्रम मे परिवार विवरण	1

परिशिष्ट

11. अविवाहित युवतियों की सूची	1
12. " युवकों की सूची	19
13. बेरोजगार व्यक्तियों की सारणी	45
14 व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की नामावली	
i डॉक्टर	
ii चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	48
iii इन्जीनियर	57
iv शिक्षक	63
v एडवोकेट	67
vi केन्द्र व राज्य० सरकार के प्रशासनिक अधिकारी	77
15. विभिन्न तालिकाएँ	
i जनगणना	78
ii धर्म सम्प्रदाय गणना	78
iii अन्य साख्यिकी	78
16. सहयोगी कार्यकर्ताओं एव संगठनों की सूची	79
17. शुद्धि-पत्र (परिशिष्ट)	81

मुद्रक
मयूर प्रिण्टर्स,
एम० आई० रोड,
जयपुर ।

परिगणइनिषिडकारण वेर तेसि पयडडई ।

—सूत्रकृताग

जो सग्रहवृत्ति मे उलभे हुए हैं, वे ससार मे अपने प्रति बर ही बडाते है ।



सच्च च हिय च मिय ग्राहण च ।

—प्रश्न व्याकरण सूत्र

ऐसा सत्य वचन बोलो जो हित, मित और ग्राह्य हो ।



समाहिकारण ए तमेव समाहि पडिलवभई ।

—भगवती सूत्र

जा हमरे को कठिनाई को दूर करने व उनके कल्याण का प्रयत्न करता है, वह स्वयं भी सुख और कल्याण प्राप्त करता है ।



समो निदा पससासु, समो सासावमाणओ ॥

—उत्तराध्ययन

जो हानि लाभ, दु ख सुख, जीवन मरण, निदा-प्रशसा और मान-अपमान मे समभाव रखता है, वही महा मानव है ।

लोक व्यवहार

‘हम तो कबहुं न निज घर आये ।
पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये ।’

अध्ययात्मयोगी कवि दानतराय ने भले ही यह बात आध्यात्मिक दृष्टि से कही हो, पर आज के सामाजिक संदर्भों पर भी उक्त बात घटित होती है। महानगरीय सभ्यता का वितान इतना व्यापक-विस्तृत और वक्र रूप में तना जा रहा है कि एक ही धार्मिक-सामाजिक धरातल पर जीने वाले और एक ही नगर-क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपने ही लोगों से मिल नहीं पाते हैं। विज्ञान और तकनीकी विकास के फलस्वरूप प्राप्त द्रुतगामी साधनों से वे दूर-दूर की यात्रा तो कर आते हैं पर अपने ही इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के सुख-दुख में भागीदार बनने के अवसर बहुत कम जुटा पाते हैं। इस विसंगति का एक बहुत बड़ा कारण है पारस्परिक सम्पर्क व जानकारी का अभाव। जयपुर नगर का बहुव्यापी विस्तार इस स्थिति का अपवाद नहीं है।

जयपुर राजस्थान प्रान्त की राजधानी है। यहाँ सभी धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं। जैन धर्म का यहाँ व्यापक प्रभाव रहा है। जयपुर रियासत के अधिकांश दीवान जैनधर्मावलम्बी थे। जैन मन्दिरों, उपाश्रयों और हस्तलिखित ग्रंथ भण्डारों का यहाँ प्राचुर्य है। देश की आजादी के बाद विभिन्न स्थानों एवं प्रान्तों से आकर बड़ी संख्या में यहाँ जैन धर्मानुयायी बसे हैं। दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों जैन परम्पराओं का यहाँ के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में वर्चस्व रहा है। श्वेताम्बर परम्परा में मन्दिरमार्गी-खरतरगच्छ-तपागच्छ, स्थानकवासी एवं तेरापंथी सम्प्रदायों के प्रतिनिधि संघ हैं। ओसवाल, श्रीमाल, श्री श्रीमाल, पोरवाल, पल्लीवाल आदि विभिन्न जातियों के जैन धर्मानुयायी यहाँ बहुसंख्या में हैं। इन सबकी पारिवारिक जानकारी हो, सबसे सामाजिक सौहार्द का भाव बढे, ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता सभी बराबर अनुभव करते आ रहे हैं। इस दिशा में प्रस्तुत डायरेक्ट्री का प्रकाशन एक सक्रिय कदम कहा जा सकता है।

उत्साही उदारमना युवक श्री भीमराज जी कोठारी एवं श्री कमलचन्द जी सुराणा ने अपने सुपुत्र चि० नरेन्द्र एव सुपुत्री सौ० कां० चन्द्रा के विवाहोपलक्ष्य में इस डायरेक्ट्री को प्रकाशित करने

का शुभ स्वरूप लिया और इसी लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया । इसके लिए हम उनके आभारी हैं ।

समय और साधना की सीमा टाँते हुए भी हमने समाजोपयोगी इस कार्य का पूरा करने का प्रयत्न किया । हमारा उद्देश्य रहा है कि डायरेक्ट्री का विभिन्न रूपों में उपयोग हो । इसी दृष्टि से अन्त में कई परिशिष्ट दिये गये हैं यथा—विवाह योग्य युवक—युवतियों की सूची, इजीनियर, डाक्टर, चार्टर्ड एंगलटेंटो, घनीला, शिक्षार्थी व तकनीकी कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की सूची, बेराजगार व्यक्तियों की सूची आदि । समाज विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए भी इसका उपयोग हो सके, इस दृष्टि से जनगणना सम्बन्धी विभिन्न तालिकाएँ भी दी हैं ।

इस डायरेक्ट्री में लगभग ढाई हजार परिवारों का परिचय दिया गया है । परिचय गोत्रा के आधार पर अक्षरादि क्रम से दिया है । परिचय में परिवार के मुखिया का प्रथम दर्शाते हुए अथ सदस्यों का विवरण दिया है । इस विवरण में अथ बातों के अलावा शैक्षणिक योग्यता व पद—व्यवसाय का उल्लेख भी किया गया है । परिवार का मूल स्थान भी दिया गया है । जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि कितने परिवार कहाँ कहाँ से आकर जयपुर में बसे हैं । परिचय देते समय वारह या वारह वर्ष से कम अवस्था के बालक—बालिकाओं का नाम आदि छोड़ दिया है । उनी सग्या मात्र अंकित कर दी है जिसे पारिवारिक सूचना के मध्य काष्ठक बनाकर बताया गया है ।

जन धर्म का आत्म-कल्याण के साथ साथ लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों पर विशेष बल रहा है । जयपुर नगर में जन श्वेताम्बर समाज द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, वित्तीय सहायता आदि विभिन्न सेवा कार्यों के क्षेत्रों में कई सस्थाएँ कार्यरत हैं । डायरेक्ट्री के प्रारम्भ में इन सस्थाओं का सक्षिप्त परिचय भी दिया गया है जिससे धर्म के सामाजिक प्रभाव का परिचय मिलता है ।

इस डायरेक्ट्री के निर्माण एवं प्रकाशन में ज्ञात अज्ञात अनेक व्यक्तियों ने हमें प्रत्यक्ष एवं पराक्ष में विभिन्न रूपों में सहयोग प्राप्त हुआ है । उन सबके प्रति हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं ।

आशा है, यह प्रकाशन सामाजिक एकता एवं सौहार्द भाव मजबूत करने में विशेष सहायक एवं प्रबल सिद्ध होगा ।

विभिन्न रियासतों को एकीकृत कर राजस्थान को एक राज्य बनाने के साथ ही जयपुर को प्रदेश की राजधानी बनाया गया। राजधानी के नगर का एक विशेष महत्त्व हुआ करता है, वही महत्त्व जयपुर को भी प्राप्त हुआ। प्रदेश के कोने-कोने से लोग आकर जयपुर में बसने लगे। कुछ लोग राजकीय सेवाओं के कारण स्थानान्तरित होकर भी आए। लोगों ने यहाँ नये उद्योग एवं व्यवसाय प्रारम्भ किए और विभिन्न धन्धों के लोगों को भी जयपुर में आकर रहने में अधिक लाभ दृष्टिगोचर हुआ। प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए राजधानी में अपने संस्थानों के शाखा कार्यालय स्थापित होने के कारण और अन्य कार्यालयों के यहाँ खुलने के कारण भी यहाँ आकर रहना सम्भव हुआ। कुल मिलाकर इस प्रकार के सभी आगमनों से जयपुर नगर की जनसंख्या और दूर-दूर तक आवादी क्षेत्र दिन दूने और रात चौगुने विस्तृत होते गये।

जयपुर की यह एक विशेषता रही है कि जो लोग यहाँ अस्थायी रूप से भी बाहर से आकर रहे हैं वे भी धीरे-धीरे यहाँ के ही हो गये। रहने को घर, आपसी व्यवहार वालों का परिवार और आजीविका के साधन सब यही जुटा लिए। यह सब होते हुए भी एक बात की बड़ी कमी यह रही कि उनका अपनी जाति, धर्म, मान्यता एवं विचार के लोगों से निकट का सम्पर्क नहीं बन पाया। यही कारण है कि वे वैवाहिक सम्बन्धों से जुड़ने की दिशा में उपलब्ध सूत्रों के होते हुए भी दूर-दूर तक तलाश करने की चेष्टा में शक्ति, समय और धन का अपव्यय करते रहते हैं और तब भी विशेष लाभ नहीं मिल पाता। यह प्रयत्न भी सभी के लिए सम्भव नहीं हुआ करता। अज्ञात परिवारों की अल्पतम जानकारी के आधार पर किए गए सम्बन्ध आज कितने सफल सिद्ध हो रहे हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी ही अन्य समस्याएँ बहुत समय से प्रबुद्ध व्यक्तियों के मन को कचोटती रही हैं और इनका हल ढूँढने का प्रयत्न भी चालू रहा है पर कुछ छटपुट प्रयत्न फलीभूत नहीं हो सके अथवा उनका कोई मूर्त रूप समाज के सामने उपस्थित नहीं किया जा सका।

दैवयोग से उत्साही, विचारशील एवं उदार युवक श्री भीमराज जी कोठारी सुपुत्र स्व० श्री धीसीलाल जी कोठारी हागकाग से जयपुर आये। वहाँ उनका व्यवसाय चलता है। उन्होंने मुझ से

श्री जन श्वेताम्बर समाज, जवाहर नगर के युवा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने भी जवाहर नगर की यस्ती के बहुत से फाम भरवाए देने का कष्ट किया। नगर युवा मण्डलों में प्राप्तानन्द जैन सेवा मण्डल एवं तपागच्छ सघ के मन्त्री श्री मोतीलाल जी भडवतिया का विशेष सहयोग मिला और पूरे पयु पण पव मे एकजुट होकर फाम भरवाये गए। अन्तिम दौर में जैन युवा परिषद् (परतर-गच्छ सघ) ने भी बहुत प्रयास किया। ग्रामेर के मंदिर में आसोज की तीज से एक वार्षिक पूजा आयोजित की जाती है। उस अवसर पर भी थोड़ा प्रयास किया गया इस आशा में कि बहुत बड़ी सत्या में लोग वहाँ धाते हैं अतः वाची रह गये लोग भी अपने फाम भर लेंगे "फाम अभियान" की व्यवस्था की गई पर केवल 30-40 फाम ही भरे गये और उसके कुछ दिना वाद 20-25 फाम और प्राप्त हुए जिन्हें पूजा में धाने वाले व्यक्तियों ने पीछे भर कर देने का आश्वासन दिया था।

डायरेक्ट्री तयार करने के लिए समय-समय पर उत्साहवर्धक संदेश भी हमें मिले हैं। जयपुर से वाहर के भी पत्र मिले हैं जिनमें मुद्रित डायरेक्ट्री की प्रतियाँ पहले से मुद्रित कराने की इच्छा प्रकट की है।

इस आशा और निराशा के वातावरण में उमर वर हम इस स्थिति में आये कि लगभग 2550 परिवारों के भरे हुए फाम हमारे पास संग्रहित हो गये हैं। भरे हुए फाम कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख 15 अक्टूबर निश्चित की गई जिसकी सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित कर दी गई पर संयोग की बात है कि फामों का आना 5 अम्बर तक और इसके बाद भी चालू रहा है। तैरा-पथी समाज के मन्त्री श्री राजजुमार जी बरडिया ने शुरू में ही अपने स्तर पर अपने समाज के लिए फाम भरवाये थे। उमर उल्ल में फाम भ्रपूर्ण और भ्रस्पष्ट थे। जिन्हे पाठ-भात दिन का समय लाकर व्यवस्थित किया गया पर उनसे प्राप्त हुए उतने स्वयं से फाम भ्रभी भी भ्रपूर्ण हो छाने जा सके। कारण उतनी वनी अन्तिम दौर के समय पूरा करना उमर उठी था। हमें इसका उन्म मेद है।

फामों को गोप्रवार अक्षर क्रम में और उन गोशों में छाए नामों से भी पुनः अक्षरक्रम में व्यवस्थित किया गया। अधिष्ठित योग्यता, धर्म, मूल विनास, पता आदि में संक्षिप्त-रचना किया गया है। ऐसे संक्षिप्त-रचना की जाणकारी अन्त में भी गई ताकिना मे उपलब्ध है।

फामों के आधार पर कुछ परिशिष्टियाँ भी जोड़ी गईं। नगर के श्वेताम्बर जैन समाज द्वारा गृहस्थित विभिन्न रचनात्मक और विद्यापीठ सम्पादा से संक्षिप्त जाणकारी भी जोड़ी गई है। विवाह योग्य युवा-युवतियों की सूची देगकर सरसता में तालिका अम्बरों के लिए योग्य रर वयू

को हूँडा जा सकेगा। इन सूचियों में परिवार संख्या दी गई है। उसके आधार पर फार्मों में दी गई विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हमने अपनी ओर से डायरेक्ट्री को सर्वांग उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। पर समय कम मिला, साधन सीमित थे। काम में हाथ बटाने वालों की संख्या जितनी चाहिए थी नहीं उपलब्ध हो पाई। बार-बार प्रयत्न करने, व्यक्तिगत सम्पर्क करने के उपरान्त भी कई महानुभावों ने फार्म भरकर नहीं लौटाए। इन सबके होते हुए भी कुछ करने की ललक ने हमें साहस नहीं खोने दिया और उसी के बल पर यह सब कुछ बन पड़ सका।

फार्मों में भरी गई सूचना में कई प्रकार की खामियाँ थीं। उन्हें जहाँ तक सम्भव हुआ ठीक करने का प्रयत्न किया फिर भी सूचना-संकलन में असावधानी एवं प्रमाद हो सकता है। छपाई की तावड़-तोड़ में भी अशुद्धियाँ रहना संभव है। उन सबके लिए हम शुद्ध हृदय से क्षमाप्रार्थी हैं। यदि पाठकों की जानकारी में ऐसी कमियाँ नजर आवें तो कृपया वे सूचित करने का कष्ट करें। समाज में इस प्रकार की डायरेक्ट्री का यह पहला प्रयत्न है इसलिए कतिपय सूचनायें अधूरी एवं अपूर्ण भी हो सकती हैं पर यह तो मानना पड़ेगा कि यह प्रयत्न सबके लिए दिशासूचक है। आगे इससे भी अधिक सुसज्जित, उपयोगी और व्यापक डायरेक्ट्री तैयार करने के प्रयास की आशा की जा सकती है। जल्दी में और अधूरे रूप में प्रकाशित यह डायरेक्ट्री समाज में परस्पर परिचय, सहकार, मेल-जोल व पारिवारिक सम्बन्ध दृढ एवं विस्तृत कर सकेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इसमें जो भी अच्छाईयाँ दिखाई दें वे सब सहयोगियों के कारण सम्भव हुई हैं और जो कुछ भी कमियाँ और दोष रहे हैं वे मेरे स्वयं की कमी तथा अन्य परिस्थितियों के कारण सम्भव हुई हैं। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

सामग्री-संकलन, ग्रन्थ आदि सम्पादन में विभिन्न सस्थाओं, संगठनों, कार्यकर्ता बन्धुओं, विद्यालय के शिक्षकों व शिक्षार्थियों का जो अकथनीय सहयोग मिला है उन सबके लिए मैं अपने हृदय के अतः स्तल से आभार स्वीकार करता हूँ। कार्यालय का सारा भार और व्यवस्था श्री वृज बिहारीलाल माथुर ने करके जो निश्चिन्तता मुझे प्रदान की है उसे मैं नहीं भुला सकता। सम्पादक मण्डल के मेरे साथियों का मैं किन शब्दों में आभार स्वीकार करूँ? उनके बल पर ही ढलते जीवन के इन क्षणों में यह भारी भरकम काम पूरा कर समाज की सेवा में उपस्थिति करना सम्भव हो सका। इन चन्द शब्दों के साथ इस विवरणिका को समाज की सेवा में समर्पित करने में मुझे बड़ा आत्मतोष हो रहा है।

कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन

—सौभाग्यमल श्री श्रीमाल



दिवंगत सेठ श्री घीसीलाल जी साहब कोठारी
जन्म 1915, स्वर्गवास 1975



दिवंगत सेठ श्री राजमल जी साहब सुराणा
जन्म 1907, स्वर्गवास 1976

जयपुर श्वेताम्बर जैन समाज द्वारा संचालित लोकोपकारी संस्थाएँ

□ डॉ० नरेन्द्र भानावत

जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। अहिंसा के दो रूप हैं—एक निषेधपरक और दूसरा विधिपरक। किसी भी प्राणी के प्राणों का हनन नहीं करना तथा किसी भी प्राणी को मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाना अहिंसा का निषेधपरक रूप है। पीड़ित मानवता की सेवा करना, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को हर सम्भव सहयोग प्रदान करना, उनके सुख-दुख में सहभागी बनना, उनके सर्वांगीण विकास के लिए यथाशक्ति मदद करना, प्राणिमात्र को अपने समान समझना अहिंसा का विधिपरक रूप है। भगवान् महावीर ने मैत्री और सेवा को महान् धर्म बताया है। तीर्थंकरों द्वारा साधु-साध्वी, श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना के पीछे आत्म-कल्याण एव लोकोपकारी-कल्याण की महत्त्वपूर्ण भावना निहित रही है। जैन साधु और साध्वी अपने प्रवचनों में लोकोपकार पर सदैव बल देते रहे हैं। फलस्वरूप उनकी प्रेरणा से स्थापित आज देश में अनेक लोकोपकारी संस्थाएँ, बिना किसी धर्म, जाति और वर्ण के भेदभाव के, सार्वजनिक रूप से सेवा कार्य में सक्रिय हैं।

जयपुर नगर जैन धर्मावलम्बियों का प्रमुख केन्द्र है। यहाँ श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों परम्पराओं का विविध क्षेत्रों में प्रभाव रहा है। श्वेताम्बर परम्परा के प्रमुख सम्प्रदाय है :—मूर्तिपूजक खरतरगच्छ, एव तपागच्छ, स्थानकवासी और तेरापंथी। इन सम्प्रदायों के प्रभावशाली आचार्यों, मुनियों और साध्वियों का यहाँ निरन्तर आगमन होता रहा है और उनके सदुपदेशों की प्रेरणा के फलस्वरूप शिक्षा, चिकित्सा एव अन्य सेवा क्षेत्रों में कई संस्थाएँ अस्तित्व में आई हैं। यहां विविध क्षेत्रों में कार्यरत जयपुर नगर की श्वेताम्बर जैन समाज द्वारा संचालित प्रमुख संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है :—

(1) शैक्षणिक संस्थाएँ

जैन धर्म में शिक्षा और स्वाध्याय को विशेष महत्त्व दिया गया है। ज्ञान के महत्त्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार धागे में पिरोई हुई सुई कहीं खो नहीं सकती है, उसी प्रकार ज्ञान

सम्पन्न आत्मा ससार में भटकती नहीं है। ज्ञान द्वारा वस्तु के यथाथ स्वस्व की जानकारी मिलती है और वह मोक्ष प्राप्ति में प्रमुख साधन है। यही कारण है कि सत-सतिया और श्रावक-श्राविकाओं का ज्ञान-प्राप्ति एवं ज्ञान के प्रचार प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सत सतियों के सदुपदेशों की प्रेरणा के फलस्वरूप विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, पुस्तकालयों, वाचनालयों, शास्त्र भंडारों, छात्रावासों आदि की स्थापना हुई है। प्रस्तुत है ज्ञान हुई इन संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण —

क महाविद्यालय

1 श्री श्वे स्या जन सुबोध महाविद्यालय — इस संस्था की स्थापना प्रसिद्ध जन सत श्री माधव मुनिजी की प्रेरणा से सन् 1925 में एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में हुई। सन् 1934 में उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1944 में माध्यमिक विद्यालय, 1954 में इंटर कॉलेज तथा सन् 1961 में स्नातक स्तर तक के महाविद्यालय में क्रमोन्नत होकर नया पीया राज जयपुर नगर की प्रमुख शिक्षण संस्था के रूप में अपनी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ दे रहा है। कॉलेज में कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकाय हैं। साध्यकारी निकाएँ भी चलती हैं। पहले यह कॉलेज जोहरी बाजार स्थित भवन में चलता था परन्तु वर्तमान में रामबाग गार्डन के पास निर्मित नये भवन में इसकी प्रवृत्तियाँ संचालित हैं। यह कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय में भाग्यता प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। इसका संचालन श्री श्वेताम्बर स्थानकारी जन सुबोध शिक्षा समिति द्वारा होता है जिसके वर्तमान में अध्यक्ष श्री उमरावमल डड्डा तथा मनो श्री उमरावमल चौरडिया हैं। प्रारम्भ में मिडिल स्कूल स्तर पर संस्था का नैतिक ज्ञान में प्रधानाध्यापक श्री सोभायमल श्रीश्रीमाल की एत संस्था का वर्तमान स्वस्व प्रदान करती है। भूतपूर्व प्राचार्य सन् ० श्री बालचन्द्र बंद की मेवाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही हैं। इनके वर्तमान प्राचार्य श्री नयमल गलेछा हैं।

2 श्री वीर बालिका महाविद्यालय — इसकी स्थापना श्री वीर बालिका नचालक मण्डल की ओर से भगवान् महावीर के 2500 वें परिनिर्वाण वर्ष सन् 1974 में की गयी। कॉलेज स्थापित करने और उसको व्यवस्थित रूप देने का ठोस नाम सोभायमल श्रीश्रीमान द्वारा दिया जा संचालक मण्डल के समर्पण में रह चुके हैं। प्रारम्भ में इसकी संस्थाएँ वीर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवम में ही लगती थी परन्तु इसका पुरानी होतवाली के स्थान में स्वतन्त्र भवन है। यहाँ स्नातक स्तरीय कला और वाणिज्य संकाय हैं। यह कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा भाग्य है। वर्तमान में इसमें लगभग 950 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। स्नातक मण्डल के अध्यक्ष श्री विमलचन्द्र सुराणा हैं और मनो हैं श्री राजरूप टाक। डॉ० (श्रीमती) शान्ता भावायत प्रारम्भ से ही इसकी निरीक्षण हैं।

3. संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय :—आचार्य तुलसी की प्रेरणा से तेरापंथ सम्प्रदाय के चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जयाचार्य की जन्म शताब्दी पर उनकी स्मृति में सन् 1983 में इस कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ छात्राओं के लिये कला और वाणिज्य में स्नातक स्तर तक के अध्ययन की सुविधा है। यह कॉलेज शास्त्रीनगर-रामनगर में स्थित है। वर्तमान में संचालन समिति के अध्यक्ष श्री धनराज दूगड़ एवं मन्त्री श्री निर्मलकुमार सुराणा हैं। डॉ० सुमन मेहरोत्रा इसकी प्रिंसिपल हैं।

ख. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

4. श्री एस. एस. जैन सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय :—श्री एस. एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति द्वारा संचालित यह विद्यालय जयपुर के प्राचीन विद्यालयों में से एक है। जौहरी बाजार स्थित सांगानेरी गेट के पास इसका अपना विशाल भवन है। यह विद्यालय दो पारियों में चलता है और कुल मिलाकर इस समय दो हजार से अधिक छात्र इसमें अध्ययनरत हैं। यहाँ कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकायों में अध्ययन की व्यवस्था है। यहाँ का परीक्षा परिणाम औसतन 90 प्रतिशत रहता आया है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड की योग्यता सूची में भी समय-समय पर यहाँ के छात्र स्थान पाते रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में नये-नये प्रयोग करने में भी यह विद्यालय सक्रिय रहा है। इलेक्ट्रो-निक्स मशीनों एवं श्रव्य-दृश्य उपकरणों के माध्यम से शिक्षा देने की यहाँ विशेष व्यवस्था है। शिक्षेतर प्रवृत्तियों में भी इस विद्यालय की विशेष भूमिका रही है। वर्तमान में इसके प्रधानाचार्य श्री उत्तमसिंह करणवट हैं।

5. श्री सुबोध बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय :—इसकी स्थापना सन् 1918 में हुई। सन् 1973 के पूर्व यह उच्च प्राथमिक शाला के रूप में ही था पर अब क्रमोन्नत होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ कला एवं वाणिज्य में 11 वी कक्षा तक के अध्ययन की व्यवस्था है। इसका संचालन एस. एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति द्वारा होता है। वारह गंगागौर के रास्ते में स्थित इस संस्थान का निजी भवन है। श्रीमती विजय लक्ष्मी चौरडिया इसकी प्रधानाध्यापिका हैं।

6. श्री वीर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय :—इसकी स्थापना सन् 1925 में साध्वी श्री स्वर्णाश्री जी की प्रेरणा से हुई। इसका संचालन श्री वीर बालिका संचालक मण्डल द्वारा होता है। कुन्दीगरो के भैरु जी के रास्ते में इस संस्था का निजी भवन है। प्रारम्भ से लेकर हायर सैकेण्डरी तक इस विद्यालय में दो हजार से अधिक छात्राएँ अध्ययनरत हैं। यहाँ कला एवं वाणिज्य दोनों संकायों के अध्ययन की व्यवस्था है। यह विद्यालय अपने ज्ञानदार परीक्षा परिणाम, शिक्षेतर प्रवृत्तियों

भादि के लिये विस्थापित है। स्व० श्रीमती प्रकाशवती सिंहा का प्रधानाध्यापिका के रूप में सस्था को उत्कृष्टनीय योगदान रहा है। वर्तमान में श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव इसकी प्रधानाध्यापिका हैं।

7 श्री श्वेजन माध्यमिक विद्यालय —सन् 1945 में स्थापित यह सस्था श्री श्वे जेन समाज द्वारा संचालित है। पी.वालो के रास्ते में सस्था का निजी भवन है। यहाँ सफेण्डरी स्तर तक कला एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन की व्यवस्था है। वर्तमान में जयला कॉलोरी में इसका नया भवन निर्माणाधीन है। वर्तमान में संचालन समिति के अध्यक्ष श्री मेहताबचंद गालेछा एवं मंत्री श्री गुलाब चंद गालेछा हैं। प्रधानाध्यापक हे श्री घरणीन्द्र जन।

8 श्री जन श्वे तेरापथी माध्यमिक विद्यालय —मातीसह भोमिया के रास्ते में स्थित इस शिक्षण सस्थान की स्थापना १९०० सेठ श्री सूरजमलजी वाठिया द्वारा सन् 1913 में हुई। यहाँ कला एवं वाणिज्य में दसवीं कक्षा तक शिक्षण की सुन्दर व्यवस्था है। इसका गणालन श्वेताम्बर तेरापथी समाज ही शिक्षण समिति द्वारा होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री धनराज दूगड एवं मंत्री श्री निमलकुमार सुराणा हैं।

(2) धार्मिक शिक्षणालय

जय समाज की दृष्टि जहाँ लौकिक शिक्षण का प्रचार-प्रसार की प्रेरणा रही है वहाँ धार्मिक शिक्षण को भी उसने महत्त्व दिया है। धार्मिक शिक्षण को व्यवस्थित रूप देने के लिये रम्बई, पूना, ब्रह्मदनगर, वीकानेर आदि शहरों में स्त्रोत्र रूप से धार्मिक परीक्षा बोर्ड हैं जो देश भर में विभिन्न स्तरों की धार्मिक परीक्षाएँ संचालित करने हैं। पर जयपुर में नई धार्मिक परीक्षा बोर्ड है और न ही व्यवस्थित रूप में धार्मिक परीक्षा की नियमित व्यवस्था है। धार्मिक शिक्षण देने के लिये समय-समय पर शिक्षण शिविरों एवं स्वाध्याय शिविरों के आयोजन आवश्यक होते हैं। जुबिलानुसार विद्यालयों में और विविध प्रकार छात्रावासों, मन्दिरों, स्थानों एवं उपाध्ययन स्थलों में धार्मिक शिक्षण देने की व्यवस्था रहती है। चातुर्मास काल में माधु माधवियों की प्रेरणा से इस प्रकार विशेष ध्यान रहता है। शेष काल में भी जिनानु छात्र प्राप्ति रहते हैं। जयपुर में 'बोडा रास्ता स्थित सात भवन में स्थानवन्तासी समाज द्वारा एवं पी.वालो का रास्ता में स्थापनाद सभा भवन में सप्ताहिक समाज द्वारा तथा बजाज नगर स्थित जन सिद्धान्त शिक्षण सस्थान में जय धर्म दर्शन के अध्ययन की व्यवस्था एवं सुविधा है।

(3) छात्रावास

शिक्षा एवं संस्कार-निर्माण में छात्रावासों का विशेष महत्त्व है। इनमें रहकर छात्र जीवन निर्वाहकारी शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ जीवन निर्माणकारी प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। जैन समाज द्वारा देश के विभिन्न भागों में कई छात्रावास चलाये जाते हैं जहाँ आवास, भोजन, शिक्षण आदि की रियायती मूल्य पर अथवा निःशुल्क व्यवस्था रहती है। जयपुर में ऐसे छात्रावासों की कमी है पर कुछ वर्षों से दो छात्रावास कार्य कर रहे हैं।

1. श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान.—आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से 16 नवम्बर, 1973 को इस संस्थान की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य पारम्परिक विद्वता के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न संस्कारशील जैन विद्वान् तैयार करना है। इसमें मुख्यतः हायर सैकेण्डरी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ये छात्र स्थानीय महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य व विज्ञान का अध्ययन करने के साथ-साथ संस्थान में संस्कृत, प्राकृत व जैन धर्म-दर्शन से सम्बन्धित विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। वर्तमान में दस छात्र संस्थान में हैं। स्व. श्री लाभचन्द लोढा द्वारा निर्मित साधना भवन में यह संस्थान चलता है जो महावीर उद्यान पथ पर बजाज नगर में स्थित है। संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्रों को आवास, भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था प्रदान की जाती है। श्री कन्हैयालाल लोढा संस्थान के अधिष्ठता हैं। संस्थान के दो छात्रों—श्री धर्मचन्द जैन तथा श्री गौतमचन्द जैन ने राजस्थान विश्वविद्यालय की एम. ए. संस्कृत की परीक्षा में योग्यता सूची में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

2. श्री विचक्षण छात्रावासः—प्रवर्तिनी विचक्षण श्री जी. म. सा. की पुण्य स्मृति में इसकी स्थापना की गई। यहाँ रहकर छात्र व्यावहारिक शिक्षण के साथ-साथ धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका संचालन श्वेताम्बर जैन खरतरगच्छ सघ द्वारा होता है। यह टोंक फाटक पर स्थित है। वर्तमान में इसकी व्यवस्था श्री सोहनमल सुराणा देखते हैं।

(4) पुस्तकालय/वाचनालय/हस्तलिखित ग्रन्थ भण्डार

साहित्य के संरक्षण, संवर्धन, निर्माण एवं प्रचार-प्रसार में जैन चतुर्विध सघ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। जैन समाज में साक्षरता का अच्छा प्रचार है। सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त जैन बन्धु मिलेंगे। स्वाध्याय, व्याख्यान-श्रवण आदि की परम्परा होने से श्रुतज्ञान की ओर समाज का विशेष ध्यान रहता आया है। यही कारण है कि स्थान-स्थान पर मन्दिरों व उपाश्रयों में शास्त्र

भण्डार व पुस्तकालय वाचनालय, की व्यवस्था बनाधि रूप में होगी ही । जयपुर में प्रमुख पुस्तकालय, वाचनालय, शास्त्रभण्डार आदि निम्नलिखित हैं —

1 आचार्य श्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार शोध प्रतिष्ठान — वधमातृ स्थानकवासी जैन श्रावक मय जयपुर द्वारा संचालित इस भण्डार की स्थापना आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा जी प्रेरणा से सन 1959 में की गयी । पुज्य श्री विनयचन्द जी म सा स्थानकवासी समाज के प्रभावी आचार्य थे । उनका जयपुर में स्विट्स्वार्स के रूप में विराजना रहा । उही की स्मृति में इस शास्त्र भण्डार का नामकरण किया गया है । स्व श्री सोहनमल बाठारी का इस भण्डार में व्यवस्थित रूप देने में विशेष प्रयत्न रहा है । यह शास्त्र भण्डार चौडा रास्ता स्थित लाल भवन में ऊपर की मजिल पर है । इस भण्डार में लगभग 30,000 हस्तलिखित ग्रंथ और 150 गुटके संग्रहित हैं । प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह के साथ-साथ शोध कार्य को तुलनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिये यहाँ विभिन्न धर्मों में सम्बन्धित स्तरीय एवं महत्वपूर्ण मुद्रित पुस्तकों तथा शोध गन्धर्वी पत्र पत्रिकाओं का अच्छा संग्रह है । डा नरेन्द्र भानावत इसके मानद निदेशक हैं । इस भण्डार की ओर से आचार्य श्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार ग्रंथ सूची भाग एक का प्रकाशन हुआ है जिसमें लगभग चार हजार हस्तलिखित ग्रंथों का परिचय दिया गया है । इसका सम्पादन डा नरेन्द्र भानावत ने किया है । भण्डार में हस्तलिखित ग्रंथों के साथ दुर्लभ अलात्मक चित्रों एवं नशों का भी अच्छा संग्रह है । शोधार्थी यहाँ एकलित सामग्री का लाभ उठाते हैं । वर्तमान में इसकी व्यवस्था श्री श्रीचन्द गोलेछा और श्री नयमन हीरावत देखते हैं ।

2 स्वाध्याय चिन्तन केंद्र चल-पुस्तकालय — इसकी स्थापना आचार्य श्री हस्तीमल जी म सा जी प्रेरणा से मई, 1978 में की गयी । इसका उद्देश्य सन् साहित्य में पठन-पाठन एवं स्वाध्याय में जन साधारण की रुचि उत्पन्न कर उचित मानसिक एवं आत्मिक विकास करना है । इस पुस्तकालय के सदस्य को घर-घर आर उनको खर्च के अनुभूत पुस्तकों दी जाती हैं । सदस्यता शुल्क दो रूपों में प्रतिमाह एवं मरुदा राशि 21/-रु रगी गयी है । पुस्तकालय में लगभग 4 हजार पुस्तकें हैं । लगभग 500 परिवार इसके सम्पर्क में । राजाज नाम स्थित माधवा भवन में यह स्थित है । श्री श्रीचन्द बाठारी इसके सयोजक हैं ।

3 श्री जन श्वे मिश्र मण्डल पुस्तकालय — इस पुस्तकालय की स्थापना श्री रतनचन्द कोचर द्वारा सन् 1927 में की गई । यह भी राजा के सामने म स्थित आत्मानन्द भवन में है । इसमें लगभग पाँच हजार पुस्तकें तथा दो सौ पचास हस्तलिखित ग्रंथों का अच्छा संग्रह है । श्री जन श्वे तपाच्छ मय इसका संचालन करता है ।

4. श्री जैन श्वे. खतरगच्छ संघ पुस्तकालय:—यह पुस्तकालय मोतीसिंह भोमियो के रास्ते में शिवजी राम भवन के सामने उपाश्रय में स्थित है। इसमें पाँच हजार से अधिक पुस्तकें व लगभग पन्द्रह सौ हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। श्री जैन श्वे. खतरगच्छ संघ इसका संचालन करता है।

5. श्री शान्ति जैन पुस्तकालय:—इस पुस्तकालय की स्थापना सन् 1924 में की गयी। यह साँगानेरी गेट स्थित सुबोध स्कूल में है। इसमें लगभग सात हजार पुस्तकें हैं। श्री वर्धमान स्थानक-वासी जैन श्रावक सव, जयपुर द्वारा इसका संचालन होता है। वर्तमान में इसकी व्यवस्था श्री उदयचन्द कोठारी देखते हैं।

6. सम्यक् ज्ञान मोक्ष मार्ग वाचनालय:—इसकी स्थापना स्व. श्री अमर चन्द नाहर, जो उच्च कोटि के मौन साधक और ध्यान योगी थे, के द्वारा की गई। इसमें अन्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों के साथ श्रीमद रायचन्द का साहित्य विशेष रूप से संगृहीत है। यह सोथली वालों के रास्ते में है।

7. श्री गुलाब पुस्तकालय:—यह पुस्तकालय कुन्दीगर भेरूजी के रास्ते में मिलाप भवन में स्थित है। इसमें अन्य धार्मिक पुस्तकों के अतिरिक्त तेरापथी सम्प्रदाय के आचार्यों एवं मुनियों का साहित्य विशेष रूप से संगृहीत है। श्री श्वे. तेरापथी जैन समाज जयपुर द्वारा इसका संचालन होता है।

(5) साहित्य-प्रकाशन संस्थाएँ

जैन साहित्य विविध एवं विशाल है। साहित्य के निर्माण, संरक्षण, संवर्धन एवं विकास में जैन आचार्यों, मुनियों एवं श्रावकों का विशेष योगदान रहा है। साहित्य के संरक्षण के लिये प्रायः मन्दिरों एवं उपाश्रयों के साथ शास्त्र भण्डार अवश्य जुड़ा रहा है। शास्त्र भण्डार में जैन साहित्य के साथ-साथ जैनैतर साहित्य की भी उदार भाव से सुरक्षा एवं संकलना की गयी है। महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ करना और कराना भी श्रुत सेवा का अग्र माना गया है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणों के समय जहाँ कई राजकीय शास्त्र भण्डार नष्ट हो गये वहाँ जैन ग्रन्थ भण्डार सुरक्षित रहे जो आज भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है। मुद्रण के आविष्कार होने के साथ जैन साहित्य के प्रकाशन की ओर भी जैन समाज का ध्यान गया और कई महत्त्वपूर्ण प्रकाशन-संस्थाएँ आज सेवारत हैं। जयपुर में प्रमुख प्रकाशन संस्थाएँ निम्न हैं.—

1 सम्यक्ज्ञान प्रचारक मण्डल — जनाचार्य श्री रतनचन्द्र जी म सा की स्वर्गवास शताब्दी के पुनीत अवसर पर सवत 2002 मे आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा की प्रेरणा से इस सस्थान की स्थापना की गई। प्रारम्भ म इसका कार्यालय जोधपुर मे था जो बाद मे जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। मण्डल की विभिन्न प्रवृत्तिया मे से साहित्य का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। अब तक मंडल की ओर से आगमिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, कथात्मक, स्तवनात्मक, प्रवचनात्मक साहित्य के रूप मे 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। साहित्य सदस्यता योजना के अन्तगत 501/-र देकर सदस्य बना जा सकता है। इसका कार्यालय वापूवाजार मे है।

2 जन इतिहास समिति — आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा की प्रेरणा से सवत् 2022 मे जैन धर्म के प्रामाणिक इतिहास लेखन के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गयी। इसका कार्यालय चौडा रास्ता स्थित लाल भवन मे है। आचार्य श्री हस्तीमलजी म सा के निर्देशन मे जन धर्म का मौलिक इतिहास नाम से तीन भाग प्रकाशित हो चुके हैं। धागे के भाग भी निर्माणाधीन है। इतिहास के अलावा जैन आचार्य विरतावली, पट्टावली प्रबंध मन्त्र और ऐतिहासिक ताल के तीन तीथकर ये पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्तमान मे इसके अध्यक्ष श्री इन्दरचन्द हीरावत एव मंत्री श्री चन्द्रराज सिपवी हैं।

3 राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान — भगवात् महावीर के 2500 वें परिनिर्वाण वष मे राजस्थान सरकार द्वारा जैन साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रन्थो को प्राणित करने की एक योजना बनी थी। उस योजना के अंतगत उस समय "वल्पसूत्र" एव "राजस्थान वा जन साहित्य" ग्रन्थ प्रकाशित किये गये। साथ ही यह विचार आया कि जन विद्या-क्षेत्र के सब जनपयोगी ग्रन्थो को प्रकाशित करने के लिए एक स्थायी प्रकाशन समिति का गठन किया जाय। तत्कालीन शासन सचिव श्री देवेन्द्रराज मेहता के मयोजन मे राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान अस्तित्व मे आया। इस सस्थान द्वारा अब सब लगभग बीस ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। शोधार्थियों, सामाज्य पाठकों, एव विद्वानो के लिए ये ग्रन्थ बडे उपयोगी रहे हैं। इसका कार्यालय मोतीसिंह भोगियों के रास्ते मे स्थित गोलेछा हवेली मे है। श्री राजरूप टांक इसके अध्यक्ष एव श्री देवेन्द्रराज मेहता मंत्री हैं।

4 अखिल भारतीय जन विद्वत् परिषद् — इस परिषद् की स्थापना सन् 1978 मे की गयी। परिषद् द्वारा जन विद्या एव समय समय पर आयोजित विभिन्न सम्मेलिणो एव व्याख्यामालाओं से सम्बन्धित साहित्य प्रकाशित किया जाता है। अब तक छह प्रतिवेदन प्रकाशित किए जा चुके हैं। विद्वानो एव अनुभवो चिन्तका के विचार जन साधारण तक पहुँचाने की दृष्टि से परिषद् ने 'ज्ञानप्रसार

पुस्तकमाला' की ट्रैक्ट प्रकाशन योजना आरम्भ की है। जिसके अन्तर्गत तान ट्रैक्ट प्रकाशित हो चुके हैं। प्रत्येक का मूल्य एक रुपया रखा गया है। कोई व्यक्ति 101/-रुपया देकर "ट्रैक्ट साहित्य सदस्यता" ग्रहण कर सकता है। परिषद् द्वारा ऐसे 108 ट्रैक्ट प्रकाशित करने की योजना है। इसके सयोजक-सम्पादक डा. नरेन्द्र भानावत हैं। इसका कार्यालय सी-235ए, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर में है।

5. गतिमान प्रकाशन:—श्री महेन्द्र जैन के सयोजन में इस संस्था द्वारा सुसस्कारवर्धक कथा-साहित्य और प्रेरणादायक काव्य संग्रह समय-समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। इसका कार्यालय किशनपोल बाजार में है।

6. विश्व कल्याण प्रकाशन:—श्री हीराचन्द वैद के सयोजन में आज से 16 वर्ष पूर्व यह प्रकाशन संस्थान आरम्भ किया गया। इसकी ओर से धार्मिक-आध्यात्मिक प्रेरणा जगाने वाली लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसका कार्यालय आत्मानन्द सभा भवन, घी वालों के रास्ते में था। अब इसका सारा कार्य मेहसाणा (गुजरात) से होता है।

7. श्री उमरावचन्द जरगड़ प्रकाशन:—स्व. उमरावचन्द जरगड़ जैन दर्शन व साहित्य के गम्भीर अध्येता, कुशल सम्पादक व लेखक थे। उन्होंने कई पुस्तकों का सम्पादन, अनुवाद व अर्थ-विवेचन कर उन्हें स्वयं प्रकाशित किया। उनके प्रमुख प्रकाशन हैं—श्री देवचन्दजी कृत चतुर्विंशति जिन स्तवन, प्रार्थना और तत्त्वज्ञान, आनन्दघन ग्रन्थावली आदि। प्रकाशन कार्यालय का पता है:—श्री विजयचन्द जरगड़, जौहरी बाजार (इमलीवाले पंसारी के ऊपर)।

(6) जैन पत्र-पत्रिकाएँ

सामाजिक नव जागरण, धार्मिक आस्था के विकास तथा साहित्य और सस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में जैन पत्र-पत्रिकाओं की प्रभावकारी भूमिका रही है। पूरे देश में लगभग दो सौ जैन पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। इन पत्र-पत्रिकाओं की अपनी सीमा और शक्ति है। सत् साहित्य के प्रति रुचि जगाने एवं साहित्य के निर्माण में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भी जैन पत्र-पत्रिकाओं की विशिष्ट देन रही है। जयपुर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख जैन पत्र-पत्रिकाएँ इस प्रकार हैं:—

1. जिनवाणी:—आज से 41 वर्ष पूर्व आचार्य श्री हस्तीमलजी म. सा. की प्रेरणा से इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन श्री जैन रत्न विद्यालय भोपालगढ़ एवं जोधपुर से आरम्भ हुआ। पर कुछ वर्षों बाद ही इसका कार्यालय सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के साथ जयपुर स्थानान्तरित कर दिया

गया। लगभग तीस वर्षों से सम्बन्धित प्रचारक मण्डल, जयपुर द्वारा इसका नियमित प्रकाशन हो रहा है। डॉ. नरेन्द्र भानावत इसके मानद सम्पादक हैं और डॉ. (श्रीमती) शान्ता भानावत इसकी सम्पादिका हैं। डॉ. भानावत के सम्पादन में इस पत्रिका के साप्ताहिक, मासाधिक, त्रैमासिक, श्रावक वष, साधना, ध्यान, जैन सस्कृति और राजस्थान तथा कम सिद्धान्त विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। भगवान् महावीर के 2500 व परिनिवारण वष में प्रकाशित जैन पत्रिकाओं में 'जिनवाणी' का "जैन सस्कृति और राजस्थान" विशेषांक अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया और उसे "लक्ष्मीदेवी जैन पुरस्कार" से सम्मानित कर स्वर्णपदक प्रदान किया गया। "जिनवाणी" का वार्षिक मुद्रक 20/- तथा श्राजीव नदस्यता मुद्रक 25/-र है। यह पत्र जैन धर्म, साहित्य, इतिहास और सस्कृति विषयक प्रतिनिधि पत्र है और शोधार्थियों के लिए भी बड़ा उपयोगी है। इसका कार्यालय वापूवाजार में है।

2 वल्लभ सन्देश—प्रसिद्ध जागृक विजय वल्लभ सूरी क नाम पर इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन् 1972 में आरम्भ किया गया। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों एवं मन्त्रदायों में समान्य स्थापित करते हुए धार्मिक सौहार्द भाव जगाना एवं समाज में धार्मिक व सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का प्रकाश में लाना है। जैन पत्र-पत्रिकाओं में यह पत्र पत्रों को बड़ी कमी है। "वल्लभ-सन्देश" ने प्रकाशन द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इसके सस्थापक सम्पादक स्व. श्री रामचरण कोचर ने इस पत्र के द्वारा जैन धार्मिक एतता का समुचित रूप से विशाल में सहायनीय प्रकाश किया। गौड भवन, वमला माग, मो-सरोम जयपुर में इसका प्रकाशन होता है। इसका वार्षिक मूल्य बीस रुपया तथा श्राजीवन नदस्यता मुद्रक 35/-र है। वर्तमान में इसके सम्पादक श्री निमनचन्द कोचर हैं।

3 जैन समाज—जयपुर के लिये यह गौरवपूर्ण बात है कि एक मात्र जैन दैनिक पत्र "जैन समाज" का प्रकाशन तार वर्षों से जयपुर में ही रहा है "टाइम्स प्रेस इन्टरनेशनल" का प्रकाशन यह पत्र जैन पत्रकारिता क्षेत्र में विनिष्ट उपलब्धि है। इसका सस्थापक सम्पादक श्री जिनेंद्र कुमार जैन के सहज, निष्ठा, श्रम और लगन का ही परिणाम है कि यह चार पृष्ठों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। यह समाज में सामाजिक चेतना और धार्मिक महिष्यता का भाव जगाने तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों को उत्तम करने में इस पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पत्र ने विनिष्ट वर्षों, सत्रिय मस्याओं, प्रसिद्ध विद्वानों, धारार्यों एवं समाजसेवियों पर विशेषांक प्रकाशित करने की स्वस्थ परम्परा आरम्भ की है। इसका प्रकाशन 2073, पौ. राता का रास्ता, जयपुर-3 से होता है। इसका वार्षिक मूल्य 100/र ०० तथा एक प्रति का मूल्य 30 पैसे हैं।

4. **मणिभद्र** :—श्री जैन ष्वे० तपागच्छ संघ जयपुर के मुख पत्र के रूप में “मणिभद्र” नामक यह वार्षिक पत्र गत 26 वर्षों से पयुंषण पर्व पर नियमित रूप से प्रकाशित होता है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयक सामग्री के साथ-साथ तपागच्छ संघ की वार्षिक गतिविधियों का विवरण रहता है। इसका प्रकाशन श्री आत्मानन्द सभा भवन, घी वालों का रास्ता, जयपुर-3 से होता है।

5. **महावीर इन्टरनेशनल** :—महावीर इन्टरनेशनल के बुलेटिन के रूप में इसका प्रकाशन होता है। इसमें महावीर इन्टरनेशनल की विभिन्न शाखाओं की गतिविधियों का विवरण रहता है। इसके सम्पादक श्री आर० एस० कुमट हैं।

6. **धर्मचक्र**—राजस्थान प्रान्तीय जैन संगम के नारी जागरण मंच महिला संगम द्वारा “धर्म चक्र” मासिक पत्रिका का प्रकाशन सकलेचा भवन, हल्दियों का रास्ता से आरम्भ हुआ है। इसकी प्रधान सम्पादक डॉ० चन्द्रा भारिल्ल है। इसकी आजीवन सदस्यता 251 रु० व वार्षिक सदस्यता 25 रु० है। मणि वहिन केडिया इसकी व्यवस्थापक है।

(7) चिकित्सालय एवं औषधालय

जैन धर्म में अहिंसा के विधि रूप में प्रेम, दया, मैत्री, करुणा और सेवा को विशेष महत्त्व दिया गया है। दीन-दुखियों और रोगियों की सेवा करना पुनीत कार्य माना गया है। इसी भावना से प्रेरित होकर औषधदान के रूप में चिकित्सालय एवं औषधालय की प्रवृत्ति जैन समाज के सेवा-क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जयपुर की चिकित्सा-क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं का परिचय इस प्रकार है जहाँ बिना किसी जाति, वर्ण व धर्म के भेदभाव के सब की सेवा की जाती है—

1. **संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल एवं शोध संस्थान**:—सुप्रसिद्ध रत्न व्यवसायी खेलशंकर भाई दुर्लभजी ने अपनी मातुश्री एवं पिताश्री की स्मृति में सन् 1958 में संतोकबा दुर्लभजी ट्रस्ट की स्थापना की और इसके अन्तर्गत सन् 1963 में संतोकबा दुर्लभजी निदान केन्द्र की स्थापना की। यह निदान केन्द्र सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने स्थित है। यहाँ पर रियायती दरों पर सब प्रकार की निदान सुविधाएँ उपलब्ध है। सन् 1969 में संतोकबा दुर्लभजी प्रसव केन्द्र और सन् 1971 में संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल को विकसित किया गया। अस्पताल में जनरल वार्ड प्राईवेट वार्ड एवं चिकित्सा सम्बन्धी अन्य कक्ष आधुनिक उपकरणों एवं साज-सज्जा से युक्त है। यहाँ हर प्रकार के रोगों की जांच के लिये निदान केन्द्र बने हुए है। यह अपने ढंग का समस्त राजस्थान में एक ही चिकित्सा केन्द्र है। यहाँ विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवाएँ 24 घण्टे उपलब्ध है।

2 श्री अमर जय मेडिकल रिलिफ सोसायटी —चौडा रास्ता स्थित तात भवन म स्थानतचामी मुनि श्री अमरपन्थीजी म० तम्ये समय ता विराजे घोर गरी उता रगगास हुमा । उही ती स्मृति म इस सोसायटी ती स्थापना 24 फरवरी 1961 को की गयी । इन तस्था ता तम्ये मोतीसिंह भोमिया ती रास्ते म स्थित ताल हुयेली मे आरम्भ हुमा । वहाँ वागाता म श्री चिंतिया मुविषा उपलब्ध है । तस्था ता तया भरा चौडा रास्ता म है । जयपुर म प्रमुख चिंतियातयो म इतरी गखना है । यहाँ चिंतियालय, महिला विभाग चिंतियालय, एसरे चिंतिया, परीक्षाए प्रयोगशाला, दोनो तगाती की व्यवस्था, परिवार नियोजना मताह मुविषा उपलब्ध ह । इतरी विभाग मे २००० थी स्वरूपताद तारडिया एत श्री सागरमल डागा का महस्वपूण वागसा त्सा है । मागापटीके प्रत्यगत था स्वरूपतान्द तारडिया प्रमुति गृह भी स्थापित है । यही तवती चिंतियापती मूख्य पर चिंतिया मुविषाएँ उपलब्ध हैं । इनके अध्यक्ष श्री उमरावरत तोरणिया एत मत्री श्री एत एत रांत है ।

3 एत जोरास्टर एण्ड क० पौली चिंतिया —गग० जोरास्टर एण्ड तम्याती के मसापर सठ श्री राजमज गातेछा एत श्री माहनमल गातेछा ती स्मृति म यह चिंतिया आरम्भ ती गयी । पातवती, मिजादम्माइल राड पर स्थित इन चिंतिया म प्रमुभवो चिंतियातया डागा चिंतियाती पुत पर रोतिया ता परामश त विदात मुतम तस्या जाता है ।

4 पक्षी चिंतियातया गृह —आरम्भ म तवरसात त रूप म आरम्भ की गयी प्रुति बड़े-बड़न माज प्राधुनिक मुविषाया मे मुक्त तमी चिंतियागृह त रूप ते चिंतियातये गयी है । यहाँ बीमार बंदरा, त्पूरी, तोना, तोल, कीषा, पादि त मयापवित्र तरीत मे इतान चिंतिया तया है । पावन पणियो ती मरदम पट्टी ती जाती है घोर पातग्यातामुमार उहे इतनरा पादि ती दिन जाती है । स्वस्थ हान पर पक्षिया ती मुक्त चिंतिया ती तिये दाड दिता जाता है । यह चिंतिया गृह मागापती पट ती पात मुवाग चिंतियातये क बाहर स्थित है । इतरा मतातय श्री रे० स्थापनामी आत मप जयपुर डागा होता है ।

5 भगवान् महावीर विश्वांग सहायता समिति —भगवान् महावीर त 2500 व परिचिसाण महात्म त उपल य मे सत 1975 म इन समिति ती स्थापना मतात जत ममाज के महताम मे की गयी । इन समिति ता मुन तम्ये चिंतियाती ती इतिम एत तगातर उहू रसातयती जीतन जीती की मुविषा प्रदान तस्या है । यह तये इन इन मे तगाता जाता है ति चिंतियातये मारतर बंड सतता है, तूष पर पड़ तगाता है तया गाईचित पाति भी पला मतात है । पर मतात पागमेहू एत मताभाति तगता है । पतराष्ट्रीय तधा म यह "जयपुर तीत ताय म प्रसिद्ध है । यहाँ देता ते

विभिन्न क्षेत्रों से विकलांग व्यक्ति आकर कृत्रिम पर लगवाते हैं। पैर निःशुल्क दिये जाते हैं। वापस जाने का किराया, दवाई, भोजन, आवास आदि की भी निःशुल्क व्यवस्था है। यह समिति सवाईमानसिंह अस्पताल के परिसर में स्थित है। कोई भी व्यक्ति 250 रुपये देकर समिति का सदस्य बन सकता है। 2500 रुपये देकर समिति का आजीवन सदस्य बना जा सकता है। अब तक इस संस्था द्वारा लगभग 22,000 लोगों को कृत्रिम पाँव तथा पोलियो वाले को कैलिपर दिये जा चुके हैं। लगभग 600 व्यक्तियों को ट्राइ-साईकिल एव श्रवणयंत्र दिये जा चुके हैं। लगभग 500 विकलांग व्यक्तियों को चाय की दुकान, पान की दुकान, सिलाईमशीन, खिलौने, गुब्बारे, खाती का सामान, बूटपालिस जैसे छोटे-मोटे धंधों में सहयोग देकर स्वावलम्बी बनाने की दिशा में पहल की गयी है। इसके विकास में समिति के सचिव श्री डी. आर. मेहता एव अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अस्थि विशेषज्ञ डा. पी. के. सेठी, मास्टर रामचन्द्र आदि की सेवाएँ उल्लेखनीय हैं। विकलांग वर्ष के अन्तर्गत इस समिति को प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

6. महावीर इन्टरनेशनल मेडीसन बैंक.—भ० महावीर के 2500 वें निर्वाण वर्ष में रॉटरी क्लब के पैटर्न पर महावीर इन्टरनेशनल की स्थापना की गयी। इस संस्था की जयपुर शाखा की ओर से सवाईमानसिंह अस्पताल में मेडीसन बैंक खोला गया है। इसके माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने वाले जरूरतमन्द रोगियों का सब प्रकार की औषधियाँ निःशुल्क दी जाती हैं। हर परिवार में प्रायः रोगी के स्वस्थ हो जाने के बाद उपयोग में न आने वाले दवाइयाँ बची रहती हैं। उनको एकत्र करने के लिये संस्था की ओर से जयपुर के प्रमुख स्थानों पर मेडीसन बैंक्स, रखे हुए हैं। प्रतिवर्ष लगभग चार-पाँच लाख रुपये की दवाइयाँ रोगियों को निःशुल्क दी जाती हैं। इनमें से लगभग पचास प्रतिशत दवाइयाँ घरों से एकत्र हो जाती हैं। इसके संयोजक श्री दुलीचन्द्र ढूंगड़ की सेवाएँ विशेष उल्लेखनीय और प्रेरणास्पद हैं। इसके अन्तर्गत रक्तदान और नेत्रदान का विशेष अभियान चलाया जाता है। इस संस्थान ने कोर्निया ग्राफिटिंग का कार्य भी हाथ में लिया है। जनाना अस्पताल में भी इसकी एक शाखा जरूरतमन्द रोगियों को निःशुल्क दवा वितरण का कार्य करती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री उमरावमल चौरड़िया एव मन्त्री श्री एच० एम० सिववी हैं। संस्था को जैन-जैनेतर सभी समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है।

7. पशु क्रूरता निवारण समिति :—श्री डी० आर० मेहता की प्रेरणा से स्थापित इस समिति का मुख्य उद्देश्य पशुओं के प्रति की जाने वाली क्रूरता को रोकना, उनके प्रति करुणाभाव जागृत करना एव रूग्ण पशुओं को चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त कराना है। पशुओं के कल्याण सम्बन्धी नियमों एव कानूनों से जनमानस को परिचित कराना एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित आदेशों

पर कल्लखाने बंद करवाने का काय भी समिति करती है। सौ-वर्ष प्रसाधनो मे बडती हुई हिंसा के विरोध मे जामत जागत कर ऐसे प्रसाधनो वा उपयोग न करो की दिशा मे भी समिति ने भातावरण बनाने के लिये डोक्यूमेन्टरी फिल्मो का प्रदर्शन किया है तथा "इनकी जिंदगी आपका फैशन" शीर्षक से एक सचित्र पुस्तिका प्रकाशित की है। यू कालोरी स्थित पशु चिकित्सालय मे समिति ने झोर से रूग्ण, अघ्राहिज, असहाय एवं लावारिस पशुओं की देखभाल एवं चिकित्सा के लिये एक बाड न निर्माण किया गया है। इस समिति ने अध्ययन श्री गुमानमल चौरडिया एवं सचिव डॉ० तोरुलमिंद महनोत हैं। इसका कार्यालय रामलाता जी के रास्ते मे है।

8 अरण्यत विलनिक —यहाँ असहायो एवं जक्करमद रोगिया वा उचित परामर्श एवं आर्यक दवाई नि शुकत दी जाती है। इसकी स्थापना 1975 मे डॉ० एस एम दूगड ने की। वे ही इसके मचा नक हैं। यह 3 द 15 जवाहरनगर मे चलता है।

9 ज्ञान विलनिक —पुपिया धर्मशाला स्थित इस विलनिक की स्थापना आज से 10 वर्ष पूर्व श्री जोगीचंद ज्ञानचंद मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई। इससे प्रतिदिन लगभग 500 रोगी लाभ उठाते है। श्री हरती नंद मेहता (राणजी) इसकी देखभाल करते हैं।

(8) विविध संस्थाएँ एवं ट्रस्ट

शिक्षा, साहित्य एवं चिकित्सा जत्ने विभिन्न उद्देश्यों के प्रतिरिक्त बहुमुनी उद्देश्यों वा लेकर चलने वाली कई संस्थाएँ एवं ट्रस्ट जयपुर जै ममाज मे पावतत हैं। जो जावारी हम उपलब्ध हो सकी है, उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रमुख संस्थाओं एवं ट्रस्टो वा परिचय दिया जा रहा है —

1 श्री वधमान श्ये स्या जैन आर्यक सघ —इस सघ की स्थापना सन् 1936 मे हुई। यह सघ जयपुर श्ये स्या जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था है। इसका मुख्य कार्यालय चौडा रास्ता स्थित लालभवन मे है। सघ द्वारा जित प्रवक्तियो वा सचाराव हीता है उनमे मुख्य हैं—आचार्य श्री विद्याचंद ज्ञान भंडार, श्री अमर जन मेडोराज रिनिक मोसायटी, पद्मी चिकित्सालय, धार्मिक व नैतिक शिक्षालय, श्री शान्ति जैन पुस्तकालय, अतिथिगृह, वर्तन भण्डार, श्री एस एस जैन सुबोध शिक्षा समिति जिसके अन्तगत मंचालित हैं—सुबोध महाविद्यालय, सुबोध उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुबोध वास्तव्या विद्यालय, सुबोध प्राथमिक विद्यालय। वर्तमान मे सघ के अध्यक्ष श्री इंदरचंद होरावत एवं मंत्री श्री गुमानमल चौरडिया है।

2. श्री जैन श्वे. तपागच्छ संघः—इसका मुख्य कार्यालय घी वाली के रास्ते में स्थित श्री आत्मानन्द जैन सभा भवन में है। यह संघ श्वे. तपागच्छ जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था है। इस संघ द्वारा जिन प्रवृत्तियों का संचालन होता है, उसमें मुख्य हैं:—श्री जैन श्वे. तपा. मन्दिर, उपाश्रय आत्मानन्द जैन सभा भवन, धार्मिक पाठशाला, जैन मित्र मण्डल पुस्तकालय, वर्तमान आयम्बिल शाला, आत्मानन्द जैन सेवक मण्डल, जैन कला चित्र दीर्घा तथा 'मणिभद्र' वार्षिक पत्र का प्रकाशन। वर्तमान में संघ के अध्यक्ष श्री हीराचन्द चौधरी एवं मंत्री श्री मोतीलाल भड़कतिया हैं।

3. श्री जैन श्वे. खरतरगच्छ संघः—यह संघ जयपुर जैन खरतरगच्छ समाज की प्रतिनिधि संस्था है। इसका मुख्य कार्यालय मोतीसिंह भोमियों के रास्ते में स्थित शिवजीराम भवन में है। संघ द्वारा विविध धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक प्रवृत्तियों का संचालन होता है। इनमें मुख्य हैं—खरतर-गच्छ समाज के जैन मन्दिर, श्री बालचन्द फूलचन्द धूपिया धर्मशाला, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ भण्डार एवं पुस्तकालय, धार्मिक शिक्षण केन्द्र, महिला समिति, युवक संगठन आदि। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री मेहताचन्द गोलेछा एवं मंत्री श्री सुभागचन्द नाहटा हैं।

4. श्री जैन श्वे. तेरापंथी सभाः—इसकी स्थापना सन् 1933 में हुई। यह सभा तेरापंथी समाज की विविध प्रवृत्तियों का संचालन करती है। कुन्दीगरी के भैरूजी के रास्ते में स्थित मिलाप भवन इसका मुख्य कार्यालय है। सभा द्वारा संचालित मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं—तेरापंथी सभा भवन, तेरा-पंथी माध्यमिक विद्यालय, महिला महाविद्यालय, तेरापंथी महिला मंडल व कन्या मण्डल, तेरापंथी युवक परिषद्, गुलाब पुस्तकालय, ज्ञान शाला आदि। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री उत्तमचन्द सेठिया तथा मंत्री श्री राजकुमार वरड़िया हैं।

5. श्री श्वे. जैन श्रीमाल सभाः—यह सभा श्रीमाल जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था है। इसके द्वारा मुख्य रूप से घी वालों का रास्ता स्थित श्री पार्श्वनाथ जैन श्वे. श्रीमाल मन्दिर एवं मोती डू गरी रोड़ स्थित श्री जैन श्वे. दादावाड़ी की व्यवस्था एवं धार्मिक, सामाजिक प्रवृत्तियों का संचालन होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री लालचन्द वैराठी एवं मंत्री श्री छट्टनलाल श्रीमाल हैं।

6. श्री. अ. भा. पल्लीवाल जैन महासभाः—सन् 1962 में इसकी स्थापना की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य पल्लीवाल जैन समाज को संगठित कर उसका सर्वांगीण विकास करना है। इस संस्था द्वारा जयपुर से "जैन सगम" मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया था पर 1966 में वह बंद हो गया। अब संस्था का पत्र "पल्लीवाल जैन" नाम से प्रकाशित होता है। देश के विभिन्न भागों में इसकी कई शाखाएँ हैं।

7 महावीर इंटरनेशनल — भगवान् महावीर के 2500 वें परिनिर्वाण वर्ष में रोडरी क्लब के पैटर्न पर भगवान् महावीर के सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार के लिए इसका गठन किया गया। सस्था का मुख्य उद्देश्य है—'सबको प्यार, सबकी सेवा।' कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति के व धर्म के भेद-भाव व इसका सदस्य बन सकता है। इसके सदस्य माह में एक बार परस्पर मिलते हैं और किसी उपयोगी विषय पर वार्तालाप करते हैं। देश के विभिन्न भागों में इसकी कई शाखाएँ हैं जो जन-व्यापककारी प्रवृत्तियों में सश्रिय हैं। श्री जगन्नाथ सिंह मेहता का इसमें विकास में विशेष सहयोग रहा है। वर्तमान में श्री सत्यप्रसन्न सिंह भंडारी इसमें अध्यक्ष व श्री डी वी राय जैन मंत्री हैं।

8 अखिल भारतीय जैन विद्वत् परिषद — इसकी स्थापना सन् 1978 में की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य जैन विद्या के अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, संरक्षण, संवर्धन, लेखन, प्रकाशन प्रचार प्रसार की प्रवृत्तियों को प्रभावशाली तरीके से संचालित करने के लिये जैन विद्या में निरत विद्वानों, श्रीमत्तों, कायकर्ताओं व सस्थाओं में पारस्परिक सम्पर्क व सामंजस्य स्थापित करना है। परिषद् द्वारा बाल संस्कार, जैन धर्म दर्शन, युवा पीढ़ी और रचनात्मक कार्यक्रम, वृद्धावस्था-श्रवणारण्य और सेवा क्षेत्र, समाज-सेवा, स्वाध्याय, समाजिता, जैन पत्रकारिता, श्रावक धर्म और वर्तमान सामाजिक स्थिति जैसे विषयों पर देश के विभिन्न भागों में सत्रोत्थिष्ठियाँ आयोजित की गयी हैं। परिषद के अन्तर्गत जैन दिवाकर मुनि श्री चौधमलजी म० सा० एवं आचार्य श्री रत्नचन्द्रजी म० की स्मृति में व्याख्यानमालाओं का आयोजन भी किया जाता है। देश के विभिन्न विषयविद्यालयों में एम० ए० स्तर पर जैन विद्या विषय लेकर अध्ययन करने वाले नियमित छात्रों को पांच सौ रुपया प्रतिवर्ष की छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। परिषद् में अपने हाथों में अ० भा० स्तर पर कायर्त जैन सस्थाओं का सर्वेक्षण प्रोजेक्ट तथा स्थानावासी जैन साहित्य का सर्वेक्षण भाग ले रहा है। प्रकाशन के क्षेत्र में ज्ञान-प्रसार पुस्तकमाला के अन्तर्गत छोटे छोटे 3 ट्रूवट प्रकाशित किए हैं। वर्तमान में परिषद् के अध्यक्ष श्री भवरलाल कोठारी एवं महामंत्री डॉ० नरेन्द्र भानावत हैं। इसका कार्यालय सी 235 ए, दयानंद मार्ग, तिलक नगर में है।

9 अ० भा० जन सगम — नव तेरापथ के प्रवक्त श्री चंदनमुनिजी की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य जैन धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में एकता, सहिष्णुता और सौहार्द भाव विरासित करना है। सस्था द्वारा मासिक बुलेटिन भी प्रसारित किया जाता है। महिला सगम की ओर से 'धर्मचक्र' मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया है। श्री धनलाल जनीवान एवं श्री निमलकुमार चौरडिया का सगम की प्रवृत्तियों में विशेष योगदान रहा है।

10. सम्यक्ज्ञान प्रचारक मण्डल —आचार्य श्री हस्तीमनजी म० सा० की प्रेरणा से संवत् 2002 में इसकी स्थापना की गयी। इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं :—“जिनवाणी” मासिका पत्रिका का प्रकाशन, स्वाध्याय सघ के माध्यम से संत-संतियों के चौमासो से वंचित क्षेत्रों में पर्युषण पर्व पर शास्त्र व्याख्यान तथा धर्माराधना में प्रेरणा, एवं सहयोग देने के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में योग्य स्वाध्यायियों को भेजना, समय-समय पर धार्मिक एवं स्वाध्यायी शिक्षण-प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन करना, धार्मिक पाठशालाओं का संचालन करना, मुनियों एवं गृहस्थों के बीच साधक वर्ग तैयार करना, धार्मिक एवं आध्यात्मिक साहित्य का निर्माण एवं प्रकाशन करना। मण्डल का कार्यालय वापू बाजार में दुकान नं० 182-183 के ऊपर है। वर्तमान में श्री डी० आर० मेहता इसके अध्यक्ष एवं श्री सज्जननाथ मोदी मन्त्री हैं।

11. जैन जागृति परिषद् —इसकी स्थापना डॉ० चैनसिंह बरला के संयोजन में सन् 1976 में की गयी। यह एक प्रकार की पारिवारिक संस्था है। जिसके सदस्य माह में एक बार किसी एक सदस्य के घर पर मिलते हैं और समाज में स्नेह, सौहार्द और स्वस्थता का वातावरण बनाने के लिये विचार-विमर्श करते हैं। परिषद् का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूढ़ियों को दूर कर समाज में स्वस्थ जागृति लाना है। इसके लिये परिषद् द्वारा स्नेह-मिलन, विचार-गोष्ठियाँ, सेमिनार आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। परिषद् की ओर से छात्रवृत्ति आदि भी दी जाती है। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। वर्तमान में श्री सुरेन्द्र गादिया अध्यक्ष एवं श्री पदमचन्द्र ढड्डा मन्त्री हैं।

12. श्री जैन श्वेताम्बर संघ जवाहरनगर —जवाहरनगर जयपुर का उपनगर है। यहाँ जैन श्वेताम्बर दो सौ परिवार रहते हैं। इनमें मूर्तिपूजक मन्दिरमार्गी, स्थानकवासी एवं तेरापंथी सम्मिलित हैं। इन सभी सम्प्रदायों के लोग इस संघ के सदस्य हैं। इस संघ की स्थापना 5 अप्रैल 1981 को हुई। संघ का उद्देश्य गच्छ एवं सम्प्रदाय से ऊपर उठकर ऐसे धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है जिससे परस्पर एकता, सौहार्द और बन्धुत्व की भावना में वृद्धि हो। संघ द्वारा विभिन्न अवसरों पर जैन आचार्यों, मुनियों एवं विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। समय-समय पर स्नेह-मिलन एवं राघ यात्रा के आयोजन भी होते हैं। संघ के अन्तर्गत युवा प्रकोष्ठ कार्यरत है जिसके द्वारा रक्तदान, खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ व समाज सेवा के कार्यक्रम सम्पन्न होते हैं। संघ ने महावीर जयन्ती पर “कैवल्य” स्मारिका का प्रकाशन किया है। जिसमें पठनीय सामग्री के साथ-साथ संघ के सदस्यों की पारिवारिक परिचय

भाकी भी प्रस्तुत की गयी है। वर्तमान में श्री प्रेमचन्द छाजेड इसके अध्यक्ष एवं श्री सुधींद्र नेमाचंद महामंत्री हैं।

13 श्री बधमान स्मारक सेवा समिति — समाज में एकता, आर्थिक स्वावलम्बन, शैक्षणिक विचार एवं सेवा भावना को गति देने के लिये सन 1970 में इस समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जहरतमद छात्रों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तक सहायता दी जाती है। महिलाओं का स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई एवं बसीदाकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने वापुनगर में समिति का निजी भवन निर्माणाधीन है। इस समिति के गठन एवं विकास में श्री रणजातसिंह कुमठ की सेवाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में श्री गुमानमल चारडिया इसके अध्यक्ष एवं श्री विमलचन्द सुराणा महामंत्री हैं। इसका कार्यालय लाल कटला, हल्दिया के रास्ते में है।

14 जन महिला उद्योग केंद्र — ग्रसहाय, जहरतमद महिलाओं का आर्थिक दृष्टि में स्वावलम्बी बनाने के लिए इन उद्योग केंद्रों की स्थापना की गयी। इसका वार्यांग्य आत्मानंद जैन सभा भवन, पी प्रला के रास्ते में है। यहाँ महिलाओं को पापड, खाखरे, शरबत, मठरी आदि दैनिक उपयोग की सामग्री बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। समय-समय पर विशेष शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसके विकास में धामती गारमरानों वरणावट एवं श्री शान्ति बुमार सिंधी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्तमान में डॉ. शांता भोलावत इसकी अध्यक्ष एवं श्रीमती शान्तिदेवी टाक मंत्री हैं।

15 जैन मित्र मण्डल, बजाजनगर — बजाजनगर के जैन परिवारों द्वारा गठित इस मण्डल का उद्देश्य परस्पर मनोभाव व स्नेह-सौहार्द बढ़ाना है। समय-समय पर इसके द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री सज्जतराज बटारिया एवं मंत्री डा. उम्मेदमल महनात हैं।

16 मेवाड जन मित्र मण्डल — मेवाड क्षेत्र के जन परिवारों द्वारा गठित इस मण्डल का उद्देश्य परस्पर मंत्री, एकता एवं स्नेह सौहार्द बढ़ाना है। इसके अध्यक्ष श्री बनकमल मेहता एवं मंत्री श्री मानमल दक हैं।

17 जन युवा परिषद — इसकी स्थापना 14 सितम्बर, 1973 का की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक संगठन, कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष, ग्रहिसा प्रचार एवं जहरतमद छात्रों को सहायता प्रदान करना है।

18. श्री जैन नव चेतना परिषद्:—इस परिषद् की स्थापना 17-4-84 को महावीर जयन्ति पर की गयी। इसका उद्देश्य जैन धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने के साथ-साथ भगवान् महावीर के सिद्धान्तों को वैज्ञानिक स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। परिषद् द्वारा समय-समय पर समाज द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों में विविध सेवा कार्यों द्वारा रचनात्मक सहयोग प्रदान किया जाता है। परिषद् द्वारा सत्र 82-83 में “नव चेतना” नामक स्मारिका का भी प्रकाशन किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री अनिल मेहता तथा श्री अनूप पारख मंत्री हैं।

19. अणुव्रत नारी चेतना परिषद्:—आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से इस परिषद् की स्थापना की गयी। इस परिषद् का उद्देश्य अणुव्रत आन्दोलन को गति प्रदान करते हुए नारी समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर करना है। परिषद् द्वारा समय-समय पर विविध धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सन् 1982 में परिषद् द्वारा “चेतना” नाम से एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया है। इसका कार्यालय ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग, सी-स्कीम में है।

20. स्वर्ण फण्ड:—श्री स्वर्णश्री जी. म. की पुण्य स्मृति में स्थापित इस फण्ड द्वारा रत्नत्रय की आराधना में निरत साधक-साधिकाओं को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अध्यक्ष श्री राजरूप टाक व मंत्री श्री रतनचन्द कोठारी हैं।

21. श्री सुराणा चेरिटेबल ट्रस्ट:—इस ट्रस्ट के संस्थापक श्री मन्नालाल सुराणा हैं। ट्रस्ट द्वारा शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

22. श्री शान्तिनाथ जैन चेरिटेबल ट्रस्ट:—श्री उदयचन्द कोठारी, श्री हरिचन्द कास्टिया, डॉ. चैनसिंह वरला व श्री रजनीकान्त आर. शाह के सहयोग से स्थापित इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा, चिकित्सा व अन्य सामाजिक सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है।

23. श्री सागरमल डागा चेरिटेबल ट्रस्ट:—स्व. श्री सागरमल डागा की स्मृति में स्थापित इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, साधर्मि वात्सल्य व अन्य सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। श्री मोतीचन्द डागा, सुमति चन्द डागा आदि इसके ट्रस्टी हैं।

24. श्री जोगीचन्द ज्ञानचन्द मेहता चेरिटेबल ट्रस्ट:—श्री हस्तीचन्द मेहता द्वारा अपने पिता

एव दादाजी की स्मृति में आज से 10 वष पूर्व इस ट्रस्ट की स्थापना की गयी । इस ट्रस्ट द्वारा जागृकिक वा सचालन किया जाता है । शिक्षा आदि कार्या म भी यह ट्रस्ट सहयोग प्रदान करता है ।

25 श्री स्वरूपचन्द चौरडिया चेरिटेबल ट्रस्ट —स्व श्री स्वरूपचन्द चौरडिया की स्मृति में उनके परिवार द्वारा इन ट्रस्ट की स्थापना की गयी । इस ट्रस्ट द्वारा श्री अमर जैन मेडिकल रिलिफ सोसायटी के अतमत “श्री स्वरूपचन्द चौरडिया प्रसूति गुह” का सचालन किया जाता है । समय-समय पर नेत्र चिकित्सा गिविर आदि के आयोजन भी किए जाते हैं । श्री गुमानमन चौरडिया इसके मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ।

26 श्री भूधर कुशल कल्याण कोष —प्रसिद्ध जनाचाय श्री भूधरजी एव कुशल जी के नाम पर आचाय श्री हस्तीमनजी म सा की प्रेरणा से उनके, सन् 1983 में जयपुर चातुर्मास में इस कोष की स्थापना की गयी । इनके द्वारा असाहाय, जरूरतमद साधर्मो भाई-बहिनी की मदद की जाती है । शिक्षा एव चिकित्सा सेवाओं में भी यह कोष सहायता प्रदान करता है । इसकी व्यवस्था श्री पूनम चन्द उरेर देखते हैं । इसका कार्यालय नथमलजी वा चौक जीहरी वाजार में है ।

27 डॉ चन्द्रा मेहता पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट —श्री हिम्मतसिंह मेहता द्वारा अपनी सुपुत्री स्व डॉ चन्द्रा मेहता की पुण्य स्मृति म सन् 1977 में इस ट्रस्ट की स्थापना की गयी । डा चन्द्रा राज्य एव राष्ट्रीय स्तर की टूल टेनिम चम्पिया थी । इस ट्रस्ट द्वारा टेबल टेनिम प्रतियोगिताओं प्रतिवष आयोजित की जाती है । माथ ही शिक्षा एवं चिकित्सा कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है । इसका कार्यालय 13 विचुन वाग, सतारचन्द्र राउ पर है ।

28 जन अनुसोलन केन्द्र —भगवान् महावीर ने 2५00 व परिनिर्वाण वष में राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान विरयविद्यालय म जैनविद्या के अध्ययन अनुसंधान को प्रोत्साहन एव गति देने के उद्देश्य में इस केन्द्र की स्थापना की गयी । केन्द्र द्वारा समय समय पर विविध व्याख्यान, मेमिआर आदि आयोजित किये जाते हैं । केन्द्र न भटारन ग्रथ भण्डार रागीर के हस्तलिखित ग्रन्थों की तीन सूचिया भी प्रकाशित की है । वर्तमान में डॉ भागवत जैन इनके प्रोफसर एव निदेशक हैं ।

29 मानव सहायता निधि —राष्ट्रसत उपाध्याय श्री अमर मुनिजी की प्रेरणा से इन मस्या की स्थापना आज में पाच वष पूर्व हुई । इस सन्धा द्वारा प्रतिवर्ष एव लाभ रूपों की राशि ध्याप्रवृत्ति, चिकित्सा, अमताओं, विद्यार्थियों आदि की मदद के रूप में व्यय की जाती है । इनके अध्यक्ष श्री

खेलशंकर भाई दुर्लभजी एवं संयोजक श्री मेहतावचन्द मेहता हैं। इसका कार्यालय के-7, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम में स्थित है।

30. केसरीचन्द कोठारी मेमोरियल ट्रस्ट—इस ट्रस्ट द्वारा निर्धन व्यक्तियों की सहायता, विद्याध्ययन हेतु छात्रवृत्ति, असहाय और पीड़ितों के लिये मेडीकल रिलिफ का कार्य किया जा रहा है। समाज सेवा के इस कार्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं—प्रमुख ट्रस्टी श्री प्रेमचन्द कोठारी, उदयचन्द कोठारी, प्रकाश चन्द कोठारी।

31. के. जी. कोठारी चेरिटेबल ट्रस्ट—ट्रस्ट द्वारा गत अनेक वर्षों से नाहरगढ़ रोड पर मेडीकल डिस्पेन्सरी के माध्यम से नियमित रूप से जन सेवा के इस कार्य को श्री प्रकाशचन्द कोठारी गतिशील बनाये रखने के लिये सदैव तत्पर है। प्रमुख ट्रस्टी हैं—सर्वश्री भीमराज, नवरतन, लाभचन्द, शांतिकुमार, विनयकुमार, प्रकाशचन्द कोठारी, भवरलाल, छगनलाल गोठी।

हमें जो जानकारी प्राप्त हो सकी, उसके आधार पर उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। जानकारी के अभाव में कई संस्थाओं का परिचय देने से रह जाना स्वाभाविक है। संभव है, ऐसी संस्थाओं एवं ट्रस्टों की संख्या कुल मिलाकर 100 तक पहुँचे।

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि जैन समाज, जैन धर्म में प्रतिपादित वात्सल्य एवं सेवा भावना से प्रभावित रहा है। जैन धर्म को मात्र निवृत्तिप्रधान मानना भ्रामक है। उसकी निवृत्ति में निष्काम प्रवृत्ति की सक्रियता निहित है। यही कारण है कि जैन समाज विविध लोकोपकारी कार्यों में सदैव सक्रिय रहा है। लोक सेवा उसकी दृष्टि में आभ्यन्तर तप है।

निर्देशन और सूचनाएँ

(अत्यावश्यक)

1 फार्मों में भरकर प्राप्त हुए टेलीफोन के नम्बर ही डायरेक्ट्री में छापे गये हैं। इन दिनों कुछ वस्तियां के नम्बर बदले हैं। अतः उनको नाम लेने से पहले सही नम्बर की जानकारी अवश्य कर लें।


2 फार्मों के विवरण के बीच में ऐसा पोकेट जनामा गया है। उसमें (पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री आदि) 12 या 12 वष से कम आयु के बालक बालिकाओं की सरया अंकित की गयी है।

3 विवरणों को देखने के लिए पहले गौत्र और परिवार नम्बर ज्ञात कर लें जो प्रत्येक परिवार प्रमुख के नाम से पहले बायें हाथ को प्रारम्भ में दिया गया है। उससे पूरे परिवार की जानकारी हो जायगी।

4 सक्षिप्तकरण की सूची को भी देख ल ताकि विवरण पढते समय सक्षिप्त रूपों को स्पष्ट समझा जा सके।

5 सारे गौत्र अकारात्मक क्रम में हैं और उसी प्रकार उसमें आये परिवार प्रमुखों के नाम भी अकारानुक्रम में ही हैं, इसका भी उपयोग करें।

6 अविवाहित युवतियों एवं युवकों की सूची देखने पर यदि पूरे परिवार की जानकारी अपेक्षित हो तो उस सूची में नाम के साथ दिये परिवार नम्बर के आघार पर परिवार विवरण को देखें।



परिवार परिचय

अनुक्रम

6	शब्द सक्षेप सूची	i
7	अक्षर अनुक्रम मे भोत्रो की सररणी	iii
8	शुद्धि पत्र	viii
9	सुभाषित	x
10	अक्षर अनुक्रम म परिवार विवरण	1

वृद्ध संक्षिप्त रूपों का प्रयोग

अ—आ	ओ	भ
अं. व, अ. व —अन्तिम वर्ष	श्रीद्यो. —श्रीद्योगिक	भा रा. —भालानियों का रास्ता
अति —अतिरिक्त	क	ट
अवि. —अविवाहित	कनि —कनिष्ठ	टैक्स. —टैक्सटाइल्स
आर्थि. —आर्थिक	कार्या —कार्यालय	ड
एल्यू. क —एल्युमिनियम कम्पनी	का की गली —काशीनाथजी की गली	डिप्लो. —डिप्लोमा
अभि: —अभियन्ता	कार्पो. —कारपोरेशन	त
असि. —असिस्टेंट	के जी बी का रास्ता —कुन्दीगरी के भेरू का रास्ता	तृ. व. —तृतीय वर्ष
इ	केमि. —केमिकल	द
इंजी. —इंजीनियर	का च. रोड —कान्तिचंद्र रोड	द्वि. व. —द्वितीय वर्ष
इलै. —इलैक्ट्रीकल	ग	प
ए—ऐ	गो जी. का रास्ता —गोपालजी का रास्ता	प. प्र. —परिवार प्रमुख
एम. आई. रोड —मिर्जाइस्माइल रोड	गो. रा का रास्ता —गोविन्द राजियों का रास्ता	पु. व —पुत्र-वधू
एम. डी. रोड —मोती डूंगरी रोड	च	पं. ने. बैंक —पंजाब नेशनल बैंक
एम. एस बी. का रास्ता —मोतीसिंह भोंमियो का रास्ता ।	चौ. —चौकडी, चौराहा	पु. —पुत्र
एम. आर. ई. —मालवीया रीजनल कालेज	ज	पौ. —पौत्र
इजिनियरिंग कालेज	ज. नगर —जवाहर नगर	पत्रा. ग्रध्य. सस्थान —पत्राचार ग्रध्ययन सस्थान
एस. बी बी. जे —स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	जनि.] —जूनियर	प्र. —प्रशिक्षण, प्रक्षिणार्थी
एस. सी. रोड —ससारचन्द्र रोड	जू.]	प्रा. —प्राइवेट
एसोशि —एसोशियेशन		प्र. व. —प्रथम वर्ष
एक्स —एक्सटेंशन		
ए. जी —अकाउन्टेंट जनरल		

प्र भा	—प्रथम भाग	र		श
प्राध्या	—प्राध्यापक	राज	—राजकीय, राजस्थान	शि
प्रा से	—प्राइवेट सेवा	रा रा वि मडल	—राजस्थान राज्य विद्युत् मडल	शिक्षा)
प्रो	—प्रापर्टी, प्राफ़िस्तर	रा रा सह भू वि	—राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बक	श्वे
	फ	रा वि विद्या	—राजस्थान विश्व- विद्यालय	श्वे ते
फाइ	—फाइनल	रा ल उ नि	—राजस्थान लघु उद्योग निगम	श्वे ज
फो न	—फोन नम्बर	रिटा	—रिटायड	श्वे स्था
फो न }		घार टी ओ	—रीजनल ट्रान्सपोट आफ़िस्, घ्राफ़िस्तर	श्वे म
वी ई	—वेचेलर भाफ इजीनियरिंग	विद्या		श्वे भू
वी टक्	—वेचेलर टकनिल	घार टी ओ		
वी टक्स	—वेचेलर टक्सटाइल	ले ला	—लेवर ला	
वि म	—विजनेस मनेजमेट	वरि	—वरिष्ठ	सग पत्य
	भ	वि	—विवाहित	सहा
भ्रा	—भ्राता	विध	—विधवा	सप्ला
भ्रा व	—भ्राता वधु	विधु	—विधुर	सामा
भ्रा प	—भ्राता पत्नी	वि शा स	—विशिष्ट शासन सचिव	सि एव मक
भती	—भतीजा, भतीजी	वि क इड ऐरिया	—विश्रकर्मा इडस्ट्रि- यल ऐरिया	सो ए
	म	व्यव	—व्यवसाय	एफ सी ए }
मु	—मुख्य			सैंके }
मु नि घ	—मुख्य निर्वाचन अधिकारी			से }
मके }				से नि
मकेनि }	—मकेनिकल			—मेवानिभूति, सेवानिवृत्त
				ह
				—हायर सैंकेडरी
				हा सैंक }
				हा से }

अक्षरक्रम में गोत्र सूची

क्रम सं० 1	गोत्रों के नाम 2	पृष्ठ सं० 3	क्रम सं० 1	गोत्रों के नाम 2	पृष्ठ सं० 3
1	अ अच्चाणी	1	24	कोठारी	27
2	आवड	1	25	कोलड	41
3	आा आंचलिया	2	26	ख खजान्ची	42
4	ओ ओस्तवाल	2	27	खवाड़	42
5	क ककड़	2	28	खाटेड़	44
6	कटारिया	3	29	खाव्या	44
7	कठिहार		30	खारैड़	45
8	कठोतिया	4	31	खीचा	48
9	कदमालिया	4	32	खीवसरा	49
10	कर्णावट, करनावट	5	33	ग गधैया, गादिया, गधिये	51
11	कांकरिया	11	34	गाधी	54
12	काठेड	12	35	गुजराती	58
13	कावडिया	13	36	गुजरानी	60
14	कास्टिया	13	37	गुनेचा	61
15	कुभाड, कुहाड, कुँवाड	16	38	गुलगलिया	61
16	कुचेरिया	17	39	गोमावत	61
17	कुणावत	17	40	गेलड़ा	62
18	कुदार	17	41	गोखरू	62
19	कुदाल	17	42	गोटावत	62
20	कुकड़ा	18	43	गोलेछा	63
21	कुम्भट, कुम्मट	19	44	च चतर	71
22	कोचर	21	45	चपलावत, चपलोट	71
23	कोचेटा	26	46	चिडालिया, चंडालिया	73
			47	चिलिया	75
			48	चीपड	75

1	2	3	1	2	3	
157	भडकतिया	281	184	राठोड	334	
158	भाडावत	281	185	रामपुरिया	335	
159	भाडिया	282	186	रामपुराना	336	
160	भानावत	283	187	रुगलेवा	336	
161	भाभू	284	188	रणीवान	336	
162	भामड	284	189	रेड	337	
163	भूगडी	284	190	रेदासणी	337	
164	भूतेडिया	284	191	रेदानी	337	
165	भूरट	285	192	रोटागण	337	
166	म धर्मया	285	193	रोहिल	338	
167	महता, मेहता	285	194	सलवानी	338	
168	महमवाल	304	195	सालानी	339	
169	महरोड	314	196	सतोड	339	
170	माडोत	314	197	सिगे	339	
171	मारू	314	198	सूरुड	340	
172	मालू	315	199	सूरावत	341	
173	मुकीम	316	200	सूवात	344	
174	मुणोत, महनोत	317	201	सूगिया	344	
175	मूधा	324	202	सोडा	346	
176	मुरडिया	325	203	स	वगचार	360
177	सूरा	326	204	वमा	360	
178	सूमल	327	205	वेलावत	360	
179	सोगरा	328	206	स	शाह	361
180	सोदी	328	207	सिधोदिया	364	
181	र राका	331	208	स	ममदडिया	365
182	राययान	334	209	मरूपरिया	365	
183	रायेचा	334				

1	2	3	1	2	3
210	साखला	365		पूरक सूची	
211	साड	365	I	क कोठारी	435
212	सामर	367	II	बांठिया	436
213	श्याम सुखा	368	III	ओसवाल	436
214	सामोता	369	IV	बोथरा	436
215	सालेचा	369	V	भंडारी	337
216	सिंघवी, सिंधी	369	VI	महमवाल	337
217	सींघड	386	VII	खीवसरा	337
218	सियाल	387	VIII	मेहता	337
219	सिरोहीया	388			
220	सीपानी	388		विविध	
221	सुकलेचा	388	IX	अग्रवाल	438
222	सचेती	393	X	कुमावत	438
223	सुराणा	404	XI	गुप्ता	439
224	सूरिया	413	XII	गोयल	439
225	सेठिया, सेठ	414	XIII	डोवटीवाल	440
226	सोफाडिया	418	XIV	ढूँडिया	440
227	सोनगरा	418	XV	नागौरी	442
228	सोनी	419	XVI	वंसल	442
229	सोलकी	420	XVII	बागवाला	442
230	श्रीमाल	420	XVIII	मित्तल	443
231	श्रीश्रीमाल	423	XIX	राजपुरोहित	444
232	ह हरकावत	427	XX	सर्गाफ	444
233	हरपावत	429	XXI	सोनी	444
234	हिरण	429	XXII	पल्लीवाल	444
235	हींगड	430	XXIII	पोरवाल	454
236	हीरावत	430			

शुद्धि-पत्र

पृ स पक्ति स अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	पृ स पक्ति स अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	पृ स पक्ति स अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
1 18 श्री श्रीमाल	श्रीश्रीमाल	25 27 क्वाटस	क्वाटर्स	60 14 श्वे स्था	श्वे स्था
1 19 सबसे	सबसे	26 25 भाडावत भवन	भाडावत भवन	61 9 श्री पूनमच द	श्री पूनमचद्र गुजरानी
3 8 यहा	×	29 4 बी ई (मेक)	बी ई (मेक)	61 11 पोत्री	पत्नी
5 9 ।	×	29 15 गणेशमल	गणेशमल	61 14 पुत्रश्री चन्दजी	पुत्र श्रीचन्दजी
7 27 कर्मण्ये वाधिकारस्ते	कर्मण्येवाधिकारस्ते	31 4 चितखेडा	चितखेडा		गुजराती
7 28 श्री श्रीमाल	श्रीश्रीमाल	32 18 श्वे म	श्वे म	61 19 गुनचा	गुनेचा
8 2 हीरालाल	हीरालालजी	36 3 बी काम	बी कॉम	61 11 सामर	सायर
10 1 यथाय	यथाय	36 5 क्षत्रीय	क्षेत्रीय	66 6 पडपोत्र	पडपोत्र
10 22 सीभाग्यमल	श्री सीभाग्यमल	36 25 पितलियो का चौक	पीतलियो का चौक	69 12 पीनो,,	पीन
12 1 इमेस	मे इस	37 25 पत्र	पुत्र	70 3 अदि	अवि
21 1 पर	पर	40 4 श्वे म	श्वे म,	70 17 स्वप्ता	स्वप्ना
21 8 सहयाग	सहयोग	40 14 भ वधु	भ्रा वधू	73 4 चिडालिया	चण्डालिया (भी)
22 7 रामलाला	रामलला	42 1 मुखलैचा, खजाची	मुखलैचा, खजाची	77 29 नैटल्स	मैटल्स
		वदर्स	व्रदर्स	79 1-9 मैटल्स	मैटल्स
		42 2 पितलियो	पीतलियो	80 25 श्री रिद्धकरण	श्री रिद्धकरण
		42 23 बी एचए ससी	बी एच एससी	84 25 बहन	बहिन
		43 2 माणकचन	माणकचद	89 1 श्री भूपतसिंह	श्री भूपतसिंह
		43 3 जैनसन ज्वल्स	जैनसन ज्वैलर्स	90 16 सोयलीवालो की	सोयलीवालो की
		44 8 मांतीच द खावड	श्री मांतीचन्द खावाड	101 20 स्वे म	श्वे म
		45 17 खारैड	खारैड	108 5-9 श्वै ते	श्वे ते
		46 20 श्रीमानमल जी	श्री मानमल जी	109 2 भवेरी बाजार	भवेरी बाजार
		47 24 राजेंद्र	राजेन्द्र	117 19 डोंगलिया	डांगलिया
		57 22 गोयल, एस आई	गोयल, एस आई	122 19 श्वे स्था	श्वे स्था
		58 10 आता वधु	आत वधू	144 12 आयु वैदिक	आयुवैदिक
परिवार विवरण					
1 3 हैण्ड-क्रफट्स	हैण्डो-क्रफट्स				
8 2 स	साक्षर				
12 1 एजी, कालोनी	ए जी, कालोनी				
18 29 वि	अवि				
19 17 पत्नि	पत्नी				
20 1 पत्नि	पत्नी				
24 22 कालो का	वालो का				
25 6 (सूकवधिर)	(सूकवधिर)				
25 8 भाडावत भवन	भाडावत भवन				

पृ.सं. पंक्ति सं. अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	पृ.सं. पंक्ति सं. अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप	पृ.सं. पंक्ति सं. अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
152 5 धूपियाँ	धूपिया	227 29 श्वे. लं.	श्वे. ते.	345 3 पुत्रवध	पुत्रवधू
152 28,14 पत्ति	पत्नी	234 26 शशी	शशी	345 28 पोकरन	पोकरणा
152 26 श्वे. म.	श्वे. म.	237 20 श्वे. तै.	श्वे. ते.	364 24 वेगूँ	वेगूँ
158 2 नोग्रह	नवग्रह	239 1 सी डल्लू. ए.	सी. डब्ल्यू. ए	375 7 वी. डब्ल्यू. डी.	पी. डब्ल्यू. डी.
162 18 श्री गणचन्द जी	गणेशचंदजी	257 6 विनस वल्द	विनयचंद	377 7 विनला देवी	विमला देवी
169 27 अत्रि.	अत्रि.	257 20 पटसान	पड़सान	385 22 व्वे. स्या.	श्वे. स्था.
188 27 फोफालिया	फोफलिया	257 21		390 21 पुत्रा	पुत्री
206 14 विनोदकुमा	विनोद कुमार	291 30 वसन्ता	वसन्त	399 4 वेरोजगार	वेरोजगार
208 25 इस्पेक्टर	इस्पेक्टर	292 17,28 एल. एलवी	एल एल. वी	400 26 श्री विजयसिंह	श्री विजयसिंह
210 5 संतोपकुं ववर	सतोपकु वर	294 3 महता	मेहता	411 22 शभकरण	श्री शुभकरण
211 17,18 पुत्र, पुत्र	पुत्री पुत्री	299 33 व्रे म कुमारी	प्रेमकुमारी	413 1 श्वे. जन.	श्वे. जैन.
212 19 शि. वीकाँ.	शि. वी. काँम	307 8 वनिला	अनीला	415 1 श्वे. जन.	श्वे. जैन.
213 1 कुन्दलमल	कुन्दनमल	324 20 पूत्र	पुत्र	428 24 श्री कस्तूरमलजी	श्री कस्तूरमल
215 17,21 विनायक्या	विनायक्या	324 24 श्वेमं	श्वे. म.	429 17 हीरालालहर कावत	हीरालाल हरकावत
216 28 गुजरावाला	गुजरांवाला	335 19 मानककवर	माणककवर	449 10 श्वे. मू.	श्वे. मं.
217 19 नजू	मजू	336 17 रूणवाल	रूणीवाल		

विशेष—(अ) कुछ परिवारों के सदस्यों ने ही अपने फार्म अलग-अलग थोड़े परिवर्तन के साथ भर दिये अतः उनके नाम दो बार आ जाना स्वाभाविक था, जैसे—परिवार संख्या 119 और 402; 165 और 168; 1795 एवं 1800 आदि ।

(ब) कुछ अक्षरों में समानता है, मुद्रण में अशुद्धियाँ रहना संभव है, जैसे—अ, घ, व, व, म, भ, । इसी प्रकार ह्रस्व, दीर्घ लिखने वालों के कारण भी लाचारी में वैसा ही छपा है ।

कृपा कर सही पढ़ने का कष्ट करें ।

सुनापित

दीलतमद मे दो ऐव है—

—वह कान से हित की सुनता नहीं ।

—वह श्रांस से अपने पराये को पहचानता नहीं ।



कायकर्त्ता मे होना चाहिये—

—जवान जैसा जोश ।

—वृद्ध जैसा होश ।



दो बातो से सदा बचे रहना—

—अपनी प्रशंसा से ।

—पर निन्दा से ।



नम्र वह है जो—

—कड़वी बात का भी मीठा जवाब दे ।

—क्रोध आने के श्वसर पर भी चुप रहे ।



दो बातो पर नजर रहनी चाहिये—

—धाय से अधिक व्यय न हो ।

—भावश्यकता से अधिक संग्रह न कर लिया जाय ।

जयपुर जैन इवेताम्बर समाज डायरेक्ट्री (विवरणिका), 1984.

परिवार स	फार्म सख्या	गौत्र, नाम एव पिता का नाम	मुखिया से सवध	वि./अवि/ विधुर/विधवा	आयु	शैक्षणिक योग्यता	व्यवसाय/सेवा/ शिक्षार्थी आदि	धर्म/ संप्रदाय	मूल निवास स्थान	वर्तमान स्थानीय पता, टेली० न०	गद्दी/कार्यालय का पता, टेली० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		अब्बाणी									
1	1675	श्री नेमीचन्द अब्बाणी पुत्र श्री गरेशचन्दजी	प प्र	वि.	52	बी काम	सेवा	श्वे.स्था	जोधपुर	III-103, वजाज- नगर, ए जी कालोनी	महालेखाकार कार्यालय जैन हैण्ड-क्राफ्टस, कचहरी रोड, जंसलमेर
		2. सरूपकवर	पत्नी	वि.	48						
		3. नरपतचन्द	पुत्र	अवि.	27	हा सं.					
		4. संगीता	पुत्री	अवि.	19						
2	359	श्री शरवतचन्द अब्बाणी पुत्र श्री चचलचन्दजी	प प्र	वि.	44	मैट्रिक	व्यापार	श्वे.स्था.	जोधपुर	SB114A लाल कोठी, टोक रोड	मै.स्कूटर्स,एम आई रोड, जयपुर फो नं. 76834
		2. शान्ता	पत्नी	वि.	38	मिडिल					
		3. मधु	पुत्री	अवि.	19		शि. बी.काम (फाई.)				
		4. सुरेशचन्द	पुत्र	अवि	17		„ हायर सैकण्डरी				
		5. मीना	पुत्री	अवि.	15		„ सैकण्डरी				
		आवड़									
3	1984	श्री धर्मीचन्द आवड़ पुत्र श्री मवरलालजी	प प्र	वि	43	मैट्रिक	कम्पाउन्डर	जैन.श्वे.	गोविन्दगढ़ (अजमेर)	नागोरियो का चौक, धी वालो का रास्ता, जयपुर	
		2 अभयकंवर	पत्नी	वि.	35						
		3 विजयकुमार	पुत्र	अवि.	20		शि सैक.				
		4. कविता	पुत्री	अवि.	16		„ हा. सैक.				
		5. अजयकुमार	पुत्र	अवि	13		„ सैक.				
4	1675	श्री पारसमल आवड़ पुत्र श्री रूपचन्दजी	प. प्र	वि.	40	मिडिल	व्यापार	श्वे.मं	गोविन्दगढ़ (अजमेर)	धाभाई जी का खुर्रा, रामगज बाजार	
		2. कमला	पत्नी	वि.	35	साक्षर					
		3. राकेशकुमार	पुत्र	अवि.	18		शि बी.ए. (द्वि व.)				

कटारिया

10	457	श्री तन्पालाल कटारिया पुत्र श्री नुन्नीलालजी 2. पंकु बाई 3. तारा 4. राजश्री 5. संजय	प.प्र. माता पत्नी पुत्री पुत्र	वि विधवा वि. अवि. अवि.	40 74 36 17 14	बी.एससी. मैट्रिक	उद्योग शि. वी.ए. (द्वि.व.) शि. सैकण्डरी	श्वे मं शिवगंज सिरोही पुत्र-1	643 चक्रपाणी हाउस, बोरडी का रास्ता, किशनपोत बाजार, जयपुर फो. नं. 72588	कटारिया इम्प्लीमें- टेशन, 70 इण्डस्ट्री- यल एरिया, भोटवाड़ा, जयपुर
11	334	श्री एन. एम. कटारिया पुत्र श्री रामलालजी 2. कलावती 3. अभिजित	प. प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	39 34 13	एम. ए	राज. सेवा सहायक निदेशक शि. मैट्रिक ,, कक्षा 8	श्वे. जं. व्यावर म. न. 2177	राजा शिवदास का रास्ता, पुरानी बस्ती जयपुर	मूल्यांकन संगठन सचिवालय, राजस्थान
11B	1875	श्री नरेन्द्र कटारिया पुत्र स्व. रामलालजी 2. शान्तिबाई 3. मीना	प. प्र. माता पत्नी	वि. विधवा वि.	30 45 23	बी. ए.	रत्न व्यवसाय	जैन इन्दौर पुत्र-1	मं नं. 3715 के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
12	456	श्री पारसमल कटारिया पुत्र श्री चुन्नीलालजी 2. सेवन्तिबाई 3. विजयकुमार 4. अनिलकुमार 5. प्रदीपकुमार 6. नीलमकुमारी	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	50 48 23 20 15 18	इण्टर साक्षर बी काम., एलएल बी.	लोह उद्योग शि. एलएल.बी (द्वि.व.) शि. सैक शि. बी.काम(द्वि.व.)	श्वे मं. शिवगज सिरोही पुत्र-3 पुत्री-1	1688 गंकरलाल टकसाली का मकान, जड़ियो का रास्ता, जयपुर फो. नं. 47746	
13	1405	श्री मोतीलाल कटारिया पुत्र श्री चुन्नीलालजी 2. नरेन्द्रकुमार 3. अशोककुमार	प. प्र. पुत्र पुत्र	वि. अवि. अवि.	50 25 21	मैट्रिक बी एससी.	नि उद्योग शि. एम.काम.(प्र.व.)	पिताणी का वास शिवगज पुत्र-2	1688 टकसाली विल्डिंग, चौडा रास्ता, जयपुर	कटारिया प्रोडक्ट्स दुमगड विल्डिंग, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर फोन नं. 74919
14	343	श्री लक्ष्मीचन्द कटारिया पुत्र श्री उदयलालजी 2. विमला	प. प्र. पत्नी	वि वि	32 28	बी. कॉम मिडिल	प्राइवेट सविस	श्वे.म. व्यावर पुत्र-1 पुत्रियां-2	गोविन्द राजियो का रास्ता, खरातियों की मस्जिद के पाम, पुरानी बस्ती, जयपुर	डागा स्टील, एम आई. रोड, जयपुर फोन न. 79192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14B	1848	श्री सज्जनराज कटारिया पुत्र श्री हस्तीमलजी	प प्र	वि	48	बी ई, एम ई पी जी	राजकीय सेवा निदेशन	जन	पाली मारवाड	बी सी धार्ई/31 राजकीय भाषात 3 मनिने मान	रूपानन व प्रमुसमान सिधाई मालवीय, इजीनियरिंग कावेज ने सामने जवाहरलाल
		2 चन्द्रा	पत्नी	वि	43	मिडिल				रिजव बन नातोनी	तह्लू माग, जयपुर
		3 डा राजकुमारी	पुत्री	धवि	22	एम बी बी एस	शि एम एस			ने पास, बापी नगर	फो 61207
		4 नवरत्न	पुत्र	धवि	20		शि बी ई (च व)			जयपुर फो 73208	
		5 सुतीता	पुत्री	धवि	18		शि बी ई (द्वि व)				
15	226	श्री सज्जनसिंह कटारिया पुत्र श्री बसन्तीलालजी	प प्र	वि	61	बी ए, हिन्दी विशारण, बीएन निधि विशारण	राजकीय सवा निवृत्त	श्वे म	घावर, जिला भालावाड	सी 8, मोती माग बापू नगर, जयपुर	कावेज डेपलपमेड कीर्तित, पुराना पत्रा चार भवन, वि वि परिसर, जयपुर एस ईएन (एस एण्ड धार्ई हाण्डल) रामबाग सहित, जयपुर
		2 गीतादबी	माता	विधवा	82	साक्षर					
		3 प्रभावेवी	पत्नी	वि	56	साक्षर					
		4 सुरेन्द्रसिंह	पुत्र	वि	31	बी एससी इजीनियरिंग	राहाया अभियंता रा रा विद्युत् मण्डल				
		5 वृष्णा	पुत्रवधू	वि	29	एम ए (हिन्दी)					
16	345	श्री शानचन्द कटारिया पुत्र श्री रतनलालजी	प प्र	वि	30	मैट्रिक	रतन व्यवसाय	श्वे म	भ्यावर	518 हनुमानजी वा रास्ता, बागडी यागा पी हवेवी, जयपुर फोन न 61577	
		2 भरणाकुमारी कठिहार	पत्नी	वि	25	मैट्रिक					
17	2005	श्री राजनद्र कठिहार पुत्र श्री भान्तिलालजी	प प्र	वि	48	एम एससी	सरकारी सेवा	जन	महमदाबाद	मुमान सदा, 51 गगवाल पाक, मोती डू गरी राड, जयपुर	
		2 रदा	पत्नी	वि	40	बी ए					
		3 धवल कठोतिया	पुत्र	धवि	13		शि मिडिल कसा				
18	1695	श्री सागरमल कठोतिया पुत्र श्री जयचन्दाजी	प प्र	वि	47	एम कॉम, एसएन बी	व्यवसाय	श्वे ज	साडनू	33/ए गगवाल पाक, जयपुर	
		2 बेसर	पत्नी	वि	42	मैट्रिक					
		3 नलिनी कदमालिया	पुत्री	धवि	17		शि बी ए				
19	682	श्री लक्ष्मीलाल कदमालिया पुत्र श्री रूपलालजी	प प्र	वि	38	एम ए, एलएल बी सीनियर लॉ फॉरिसर		श्वे ज	जयपुर	5 सुधामा नगर, टाक रोड, जयपुर	जयपुर उपयोग लि ए-3 पृथ्वीराज रोड, जयपुर फो 78716/78714
		2 रत्ना	पत्नी	वि	35	मैट्रिक					

पुत्री 1

पुत्र 1 पुत्री-1

पुत्र-2

पुत्री-1

पुत्रिया-4

करनावट, कर्णावट

20	1074	श्री उत्तमसिंह करनावट पुत्र स्व. श्री धनपतसिंहजी 2. मदनकुमारी 3. तिलक 4. दिनेशकुमार 5. सुनीता 6. नरेणकुमार	प. प्र. पत्नी पुत्री पुत्र पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि. अवि.	46 42 21 19 15 13	एम ए. बी.एससी. वी. एड. उच्च प्रा. विशारद एम. ए. बी. एड. शि. बी.ए (द्वि.व.) शि. मैट्रिक शि. मिडिल	प्रधानाचार्य श्वे.स्था.	श्वे.स्था.	घाटगेट म.नं 45707 कुन्दीगरो के भैरू का रास्ता, जयपुर	एस. एस. जैन सुबोध उ. मा विद्यालय, जयपुर फो.न. 66706
21	2060	कमलादेवी कर्णावट पति स्व. श्री चौथमलजी 2. प्रकाशचन्द	प.प्र पुत्र	विधवा अवि.	60 28	मिडिल	श्वे.स्था.	श्वे.स्था.	11सी, मदनकुंज, न्यू कालोनी, जयपुर फो न. 63194	
22	1216	श्री कान्तिचन्द करनावट पुत्र स्व. श्री नोरतनमलजी 2 सरोज	प प्र. पत्नी	वि. वि	42 34	इण्टर बी ए	रत्न व्यवसाय श्वे.स्था.	श्वे.स्था.	22 गगवाल पार्क, जयपुर	
									पुत्र-1	
23	971	श्री किशनासिंह करनावट पुत्र श्री फतेहसिंहजी 2. शिमलादेवी 3. सुधा 4. जितेन्द्रसिंह 5. मधुलिका	प. प्र. पत्नी पुत्री पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	42 37 19 16 13	बी. एस. सी. बी.ए. (प्र.व) शि. एम.बी बी.एस. शि. हा.सै. शि. कक्षा 9	रत्न व्यवसाय श्वे. म.	श्वे. म.	ए-3, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर करनावट ट्रेडिंग कारपो. एम. एस. बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो न. 45695	
24	972	श्री गनपतसिंह करनावट पुत्र श्री फतेहसिंहजी 2. बीनादेवी	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	38 31	मैट्रिक मैट्रिक	रत्न व्यवसाय श्वे. म.	श्वे. म.	4812 करनावट भवन, सोतियो का मोहल्ला, कुन्दीगरो के भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर फो. नं. 44980	करनावट ट्रेडिंग कारपो. टाक हाउस, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो न. 45695
									पुत्र-1 पुत्रियां-2	
25	2146	श्री गुमानसिंह कर्णावट पुत्र स्व. श्री गोपालसिंहजी 2. धापूदेवी 3 नरेन्द्रकुमार	प.प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. वि.	71 65 30	शिक्षित वी.कॉम.	सेवा निवृत्त व्यापार	श्वे.स्था. भिलाय	2335 एम. एस. बी. का रास्ता, जयपुर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 नमि	पुनधू	वि	26	बी ए					
		5 धनिचमुमार	पुन	वि	26	बी ए					
		6 हेमाकुमारी	पुनधू	वि	23	बी ए					
		7 मुनीशमुमार	पुन	अवि	23	बी ए					
26	131	श्री जतमसल करनायक पुन स्व श्री दोलतमलजी	प प्र	वि	47	एम ए शाहिर्यरस्त	रतन व्यवसाय	श्व रथा	श्रीदर श्रीवरी	करनायक भयत, वारह गगगोर, पुलारजी पी मली, जोहरी राजार, फा न 64208	
		2 नोगल	परी	वि	44	मेट्रिक					
		3 शाभा	पुनी	अवि	22	बी ए (भासर्स)					
		4 राममुमार	पुन	अवि	19		शि बी ए (द्वि व)				
		5 देवेन्द्र	पुन	अवि	17		शि बी ए (प्र व)				
		6 सुदेश	पुन	अवि	15		शि हा री				
27	1738	श्री जतमसिंह करनायक पुन स्व श्री मदनसिंहजी	प प्र	वि	52	इष्टर (नामग)	राजगीय सेवा महाययन वन संरक्षण	श्वे रथा		पाटवेट नोनडी पुदीगर भैरुपी ना रास्ता, सोतियो रा मौराना, जयपुर 3	वन विभाग राजस्था फो नं 43135 पी पी
		2 मधुबाता	पत्नी	वि	38	मेट्रिक					
		3 राजेशकुमार	पुन	अवि	22		शि बी ए				
		4 रेखा	पुनी	अवि	20		,, बी ए				
		5 बेला	पुनी	अवि	17		,, सवण्डरी				
28	87	श्री जतमसल करनायक पुन श्री बल्लापारमजी	प प्र	वि	58	बी ए, एलएल बी	सेवा निवृत्त (प्रार ए एल)	श्वे रथा	जोधपुर	पी 114, सावित्री पथ, वापूनगर, जयपुर फो न 79910	
		2 रिपभा	पत्नी	वि	54	माधर					
		3 विधीसकुमार	पुन	वि	37	बी ई मिनिन, एनएल बी, डिप्लो इन लेबरलॉ	प्रभिसापी अभियता				पी एच डी गोटा
		4 अरुणा	पुनधू	वि	34	एम एमसी (प्राणी शास्त्र)	व्याख्याता (राजकीय सेवा)				
		5 पल्लवी	पीपी	अवि	13		शि वक्षा 8				
		6 महेशमुमार	पुन	वि	35	बी एससी बी ई टैक्नोलॉजी	स्विनिंग मास्टर				
		7 इन्द्र	पुनधू	वि	32	एम ए, पी एमपी					
29	1563	श्री जितेशकुमार कर्णावट पुन श्री जारावरमलजी	प प्र	वि	47	इष्टर	राजकीय सेवा रटोर प्रशास	श्व रथा	पेणडी	20 व I, ज्योतिनगर जयपुर	मेडिकल एण्ड हेल्थ आइन्टेरेट

पी-1

पुन 2 पुनी 1

30	1158	2 लाडकुमारी	पत्नी	वि.	40	मिडिल			
		3. अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	20				
		4. सतीता	पुत्री	अवि.	17		शि. वी.काम (द्वि.व.)		
		5. सीमा	पुत्री	अवि.	13		,, कक्षा 9	पुत्र-1 पुत्रियाँ-2	
		श्री ताराचन्द करनावट	प प्र	वि.	60	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था.	म.नं. 1402 ताराचद
		पुत्र स्व श्री कन्हैयालालजी							नायब का रास्ता,
		2. रतनकुमारी	पत्नी	वि.	53	साक्षर			एल. एम. वी. होटल
		3. प्रकाश	पुत्र	वि	31	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		के पीछे,
		4 मजु	पुत्रवधू	वि.	26	,,			जौहरी बाजार,
		5. प्रसन्न	पुत्र	वि.	29	वी. काम.	रत्न व्यवसाय		जयपुर
31	238	6 प्रेम	पुत्रवधू	वि.	24	मैट्रिक			
		7. अशोक	पुत्र	वि.	28	वी. कॉम.	रत्न व्यवसाय		
		8 राजरानी	पुत्रवधू	वि.	23	मैट्रिक			
		9 अनिल	पुत्र	वि.	24	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
		10 निशा	पुत्रवधू	वि.	20	वी ए.		पुत्र-2 पुत्रियाँ-3	
		श्री धर्मचन्द करनावट	प.प्र	वि.	50	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	6 नारायणसिंह रोड़,
		पुत्र स्व श्री कन्हैयालालजी							पुलिस मेमोरियल,
		2. प्रकाश	पत्नी	वि.	48	वी.ए.			जयपुर फो. 64611
		3 सजय	पुत्र	अवि.	20		शि. वी.ए. (द्वि व)		
		4 अजय	पुत्र	अवि.	16		शि वी.ए. (प्र.व)		
32	148	5. संदीप	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 10		
		श्री नृपेन्द्र करनावट	प प्र.	वि.	40	मैट्रिक	व्यापार	श्वे.म.	घाटगेट चौकडी,
		पुत्र श्री जोरावरमलजी							म. नं. 2361
		2 सुशीला	पत्नी	वि.	35	साक्षर			मोतीसिंह भोमियो का
33	17	श्री निर्मल कुमार करनावट	प प्र	वि	52	एम ए.एल.एल.बी.	सहायक निदेशक	श्वे.स्था. जोधपुर	
		पुत्र स्व श्री मागीलालजी					(अर्थशास्त्र)	(साख्यिकी)	
		2 पूर्णिमा	पत्नी	वि.	48	मिडिल			III/16 न्यू गवर्नमेंट सहकारी विभाग,
		3 अर्चना	पुत्री	अवि.	21	एम.एस.सी.	शि पीएच डी एवं		फ्लेट्म, गाधीनगर, राजस्थान सरकार,
34	2147	श्री नौनर्दासह करणावट	प.प्र.	विधुर	73	साक्षर	जर्मन भाषा	जयपुर फो. न 64096	
		पुत्र स्व श्री गोपालसिंहजी					सेवानिवृत्त	श्वे.स्था. भिलाय	एक्स टे 20

52	1623	श्री ज्ञानचन्द्र करनायक पुत्र श्री महेशगिहजी 2. दर्शन 3. मनोज 4. पमोद	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	43 39 21 20	बी. एम सी. बी ए. बी. कॉम. श्री (बी. ई.)	भारतीय राय निगम प्रगिरटेन्ट मैनेजर श्री. (सी.ए.) श्री (बी. ई.)	श्वे. स्या.	4763, विजय भवन, पुरानी कोतवाली के गामने, अनाज मण्डी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो नं. 43135
कांकरिया									
53	697	श्री गिरीश कांकरिया पुत्र स्व. श्री प्रतापसिंहजी 2. प्रेमलता 3. शिरीष 4. जया	प प्र. पत्नी पुत्र	वि वि अवि	39 37 14	बी.ए. बी.ए. श्री. (हा.सं.)	मैनेजर श्री. (हा.सं.)	श्वे.स्था. कपासन पुत्र-2	655, किसानपोल बाजार, जयपुर, फो नं. 76147 बी.पी. फोन नं. 68318
54	1261	श्री धीरेन्द्रराज कांकरिया पुत्र स्व. श्री अमृतगजजी 2. शान्ति 3 संजय 4. जया	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि अवि	49 44 22 17	बी.ई. (मैक) शिक्षार्थी शिक्षार्थी	नौकरी शिक्षार्थी शिक्षार्थी	श्वे.स्था. जोधपुर	4क 12, जवाहर नगर, जयपुर फो न 852615 के.ई.सी. इंटरनेशनल, आशीर्वाद 3-ए भवानीसिंह मार्ग, जयपुर, फो नं. 63526
55A	2084	श्री नटवरलाल कांकरिया पुत्र स्व. श्री नेमीचन्दजी 2. सुशीलादेवी 3. रमेशकुमार 4. मधु	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि. अवि.	45 38 19 15	मैट्रिक मैट्रिक श्री. बी.ए (द्वि.व.) श्री हा सं.	व्यापार श्री. बी.ए (द्वि.व.) श्री हा सं.	श्वे.मं. पुत्री-1	सिन्धी कॉलोनी, प्लॉट नं. 13, सत्यसाई गर्ल्स कालेज, ग्रादर्श- नगर, जयपुर
55B	1864	श्री नौरतनमल कांकरिया पुत्र स्व. श्री सुखराज जी 2. प्यारकवर 3. हुक्मीचन्द 4. इचरजकंवर 5. विजेन्द्रकुमार 6. मरोज 7. प्रणोन्द्रकुमार 8. सुशीलादेवी 9. रतनचन्द 10. मधु 11. महावीरकुमार 12. पूर्णिमा	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्री	वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. अवि. अवि.	70 60 40 35 30 25 25 22 27 23 18 17	शिक्षित वी कॉम. सैकन्डरी वी. कॉम. सैकन्डरी वी. कॉम वी. कॉम. वी ई वी. ए. शिक्षार्थी हा. सं शिक्षार्थी हा. सं.	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय गैस एजेसी शिक्षार्थी हा. सं शिक्षार्थी हा. सं.	श्वे.म. व्यावर	450-51, ठाकुर पचेवर का रास्ता, फो.न. 40908 हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर कांकरिया गैस एजेन्सी, मी-स्कीम, जयपुर
पुत्र-2 पुत्रिया-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	704	श्री पुष्पराज कांकरिया पुत्र श्री भभूतराजजी	प प्र	वि	36	बी ए	केन्द्रीय कर्मचारी	जन	जोधपुर	एजी कालोनी, बजाज नगर, जयपुर	ए जी घाफिन, जयपुर फा न 68431
		2 भभूतराज		गिता वि	57	इंटर	स नि				
		3 तिरहुकवर		माता वि	56						
		4 पुष्पा		पत्नी वि	32	बी ए			पुन-2		
57	897	श्री मोरामसिंह कांकरिया पुत्र श्री दयाशानजी	प प्र	वि	47	इंटर	नौकरी		श्वे तथा भीतराडा	2266, वृज भान, गीतानाय वा रास्ता, जयपुर	टी बंग घाफ राजस्थान, एम घाई राठ, जयपुर, (राज) फो न 78353
		2 मोहनबाई		माताजी विधवा	68						
		3 सुशीलादेवी		पत्नी वि	40	शिक्षित					
		4 धनीता		पुत्री धर्मि	20	बी ए					
		5 सुवीरकुमार		पुत्र धर्मि	17		नि (प्र व) बी एस सी				
		6 राजेशकुमार		पुत्र धर्मि	14		नि तथा 9				
58	339	श्री श्यामसुंदरलाल कांकरिया पुत्र श्री भोपालसिंहजी	प प्र	वि	57	एम ए, बी एड	मेवा निवृत्त प्र ध मि त्त विभाग श्वे	जन	नीलवाडा	मनन नं 2263 वीरानाय माय, जयपुर, फो नं 66827	
		2 नमला		पत्नी वि	51						
		3 धनोतर		पुत्र वि	28	बी वाम	नौकरी				
		4 धाया		पुत्रवधू वि	26	बी ए					
		5 विजयवधु		पुत्र धर्मि	20		नि बी ए (शू क)		पुन 1 पुनिका 3		
59	888	श्री सुरेन्द्र कांकरिया पुत्र श्री श्यामसुंदरजी	प प्र	वि	35	बी ए, एलएल बी	व्यापार		श्वे त	2263 दोरागाय माय, पांडरीत बाजार, जयपुर फो न 66827	श्री लक्ष्मी धरपताल, पांडरीत, जयपुर फो न 78322
		2 गोभा		पत्नी वि	32	हा स			पुनिका 3		
60	171	श्री भानुचंद कांकरिया पुत्र श्री नमीचंदजी	प प्र	वि	34	हा स	राज स्थवगाय	जन		1862, पुनररी जी मती, बारह मण्णोर वा रास्ता, जयपुर, फो न 45428	
		2 सुधा		पत्नी वि	26	मैट्रिक					
		काठंड									
61	19	श्री नरेन्द्रसिंह काठंड पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	40	बी ई	राजकीय मरा		श्वे तथा भीतराडा	ए 7, घाई डी न भेटक, नामबोडी, फो नं 69353	
		2 सुगोना		पत्नी वि	36	बी ए					

		3. हर्षीला	पुत्री	अवि.	16		शि. हा. सै.		पत्नी-1	
		4. सुनील	पुत्र	अवि.	14		„ सै.			
		कावडिया								
62	663	श्री गुलाबसिंह कावडिया पुत्र श्री वंशीलालजी	प.प्र.	वि.	31	मैट्रिक	नौकरी स्टोर- कीपर	श्वे.मं. सोकलिया जि अजमेर	पत्नी-1	आंकड़ों का रास्ता, राजस्थान पत्रिका, म.नं. 356, किसान- जयपुर, फो नं.74231 पोल बाजार, जयपुर
		2 सुशीला	पत्नी	वि.	25	मिडिल			पुत्री-1	
63	2416	श्री जसवंतसिंह कावडिया पुत्र श्री मनोहरलालजी	प.प्र.	वि.	55	मैट्रिक	सेवा निवृत्त	श्वे.ते. उदयपुर		48, वसुधरा कालोनी, टोक रोड़, जयपुर
		2. संतोषकुमारी	पत्नी	वि.	52	साक्षर				
		3 सुरेशचन्द्र	पुत्र	वि.	26	एम.कॉम	बैंक सेवा			
		4 सरिता	पुत्रवधू	वि.	22	बी.एससी.				
		5 मीना	पुत्रवधू	विधवा	28	मिडिल			पुत्र-1 पुत्री-1	
64	591	श्री रोशनलाल कावडिया पुत्र श्री मनोहरलालजी	प.प्र.	विधुर	56			जैन उदयपुर		3/243, जवाहर- नगर, जयपुर
		2 चन्द्रप्रकाश	पुत्र	वि.	32	एम.कॉम.	राज्य सेवा			
		3 चन्द्रकान्ता	पु.व.	वि.	21	एम.ए.				
		4. सज्जनकुमार	पुत्र	वि.	30	बी.ए.	राज्य सेवा			
		5. विमला	पु.व.	वि.	27	बी.ए			पुत्रियां-3	
65	434	डा० श्री वीरेन्द्रसिंह कावडिया पुत्र श्री बी. एल. कावडिया	प.प्र.	वि.	44	एम.एससी. (कृषि) पीएच.डी.	नौकरी सहनिदेशक (अ)	श्वे.स्था. उदयपुर		C-2, रेजीडेन्शियल कृषि अनुसंधान केन्द्र, क्वार्टर्स, कृषि अनु- दुर्गापुरा, जयपुर, संधान केन्द्र, दुर्गापुरा, फो नं. 82562, जयपुर, फो.न.82543 फो न 82391-92
		2 तारा	पत्नी	वि.	40					
		3. विपिन	पुत्र	अवि.	18		शिक्षार्थी			
66	79	श्री समुद्रसिंह कावडिया पुत्र श्री सोहनसिंहजी	प.प्र.	वि.	37	बी.ई. (मैक.)	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. भीलवाडा		ढोर बिल्डिंग, 999, गोपालजी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2. कमला	पत्नी	वि.	33	संकन्डरी				
		कास्टिया							पुत्र-2 पुत्री-1	
67	585	श्री चम्पालाल कास्टिया पुत्र स्व श्री मोट्ठालालजी	प.प्र.	वि.	48	बी.ए.	व्यवसाय, प्रोपर्टी डीलर	जैन श्वे.		2/482, जवाहर नगर, जयपुर
		2. विमला	पत्नी	वि.	42	बी.ए				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 विरिा	पुन	धरि	24	बी र्नाम	रल दलाती एर				
		4 सिमता	पुनी	धरि	16		गमाज मेरा				
67B	1805	श्री परमचन्दर कारिस्टिया पुन स्व श्री दीलतमलजी	प प्र	वि	59	मिधित	रत धरगाम	२१ म		32-नरभगारी रोड जवाहरनगर नहर	2197 हलिन्वा वा राता, रोहरी बाजार,
		2 चन्द्रवती देवी	गली	वि	55					माग जयपुर, पो न 74935	पो न 41982
		3 महेन्द्रुमार	पुन	वि	37	बी ए	रत धरगाम				
		4 पुष्पा	पुनवर्	वि	33	मैट्रिन					
		5 राजेन्द्रुमार	पुन	वि	36	बी एमजी	रत धरगाम				
		6 धाशा	पुनवर्	वि	32	एम ए					
		7 जेन्द्रुमार	पुन	वि	33	बी र्नाम	रत धरगाम				
		8 भीम	पुनवर्	वि	28	एम ए					
69	523	श्री प्रेमराज कारिस्टिया पुन श्री मोटलरानजी	प प्र	वि	50	मैट्रिन	मेरा रिहृत	२२ म			
		2 स्नेहवता	गली	वि	45	मैट्रिन				3725, राजों वा मोटलरान, न बी डी वा	
		3 कमल	पुन	वि	25	बी र्नाम	रत धरगाम			राता, जोरवी बाजार जयपुर	मादुग राजन श्रीवा राता, जयपुर, वात 67945
		4 राजकुमारी	पुनवर्	वि	23	बी ए					
		5 कुमकुम	पुनी	धरि	19	बी एमजी					
69	1755	श्री मिथीलाल कारिस्टिया पुन स्व श्री मीठुलालजी	प प्र	वि	70	इटर	रल रानाती	२१ म			
		2 सुरजचन्दर	गली	वि	65					1802 दरोगानजी रो रुपनी रानाती वा	
		3 सुभाषचन्द्र	पुन	वि	41	मैट्रिन	रत रानाती			गलत, रोहरी राजार जयपुर-4	
		4 राजनारा	पुनवर्	वि	36	ए ए					
		5 मनीष	श्रीम	धरि	15		मिभापी रभा ६ रभा ७				
		6 मीमा	श्रीमी	धरि	13						
70A	784	श्री मोतीचन्द कारिस्टिया पुन स्व श्री कमलरानी	प प्र	वि	53	मिधिन	रल धरगाम	१४ म			
		2 मानवार्द	वां	विपरा	75					2197, परेपरमिया विभाग, हलिन्वा वा	
		3 सुभाकुमारी	गली	वि	50	मिधित				राता, जयपुर पो न, 45117	
		4 धनराज	मार्द	वि	52	इटर	मेरा रिहृत			४ 40430	

पुन-4 पुनी-1

	5	प्रेमकुमारी	आ. ब.	वि.	45	शिक्षित				
	6.	अशोककुमार	पुत्र	वि.	28	शिक्षित	रत्न व्यवसाय			
	7.	निर्मलाकुमारी	पुत्रवधू	वि.	24	मैट्रिक				
	8	अभयकुमार	पुत्र	वि.	25	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
	9.	रजनाकुमारी	पुत्रवधू	वि.	20	मैट्रिक				
	10	विजयकुमार	भतीजा	अवि.	23	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय			
	11	सुनीलकुमार	पुत्र	अवि.	23	मैट्रिक				
	12.	नीता	भतीजी	अवि.	22	एम.ए.				
	13	चित्रा	भतीजी	अवि.	20		शि एम ए. (प्रि.)			
70B 1905		श्री रतनचन्द कास्टिया	प.प्र	विधुर	63	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे. म.	जमना डेयरी, अजमेर रोड, जयपुर, फो न. 76905	117, जौहरी बाजार जयपुर फो न 46686
		पुत्र श्री दौलतमलजी								
	2.	सुशीलकुमार	पुत्र	वि	38	हा सैं				
	3.	चन्द्रकान्ता	पुत्रवधू	वि.	34	हा. सैं.				
	4.	अनिल	पुत्र	वि	30	हा सैं.				
	5.	सरोज	पुत्रवधू	वि.	24	हा सैं				
	6	विधि	पुत्री	अवि.	13					
71A 1628		श्री राजेन्द्रकुमार कास्टिया	प प्र	वि.	35	बी कॉम	शि. कक्षा 8 व्यापार	पुत्र-3 श्वे. म. व्यावर	1941, कसेरो की गली, घीवालो का रास्ता, जयपुर-3	
		पुत्र श्री पन्नालालजी								
	2	मजु	पत्नी	वि.	28	एम. ए.				
71B 1806		श्री लाभचन्द कास्टिया	प. प्र.	वि	52	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे. मं.	1, तख्तेशाही रोड, कानोता वाग, जयपुर-4	गगापुर हाउस, दडा, न्यू मार्केट, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. न. 44706
		पुत्र स्व. श्री सरदारमलजी								
	2	दीपक	पुत्र	वि.	26	बी. ए	रत्न व्यवसाय			
	3	सुमन	पुत्रवधू	वि	19	मैट्रिक				
	4.	राजू	पुत्र	अवि.	20					
71C 1873		श्री विमलचन्द कास्टिया	प. प्र.	वि.	37	इन्टर	शि एम.कॉम रत्न व्यवसाय	पुत्री-1 जैन	हल्दियों का रास्ता, बुलियन के सामने, म.न 2197, जौहरी बाजार, जयपुर	
		पुत्र स्व. श्री सरदारमलजी								
	2	उषा	पत्नी	वि	30	मैट्रिक				
72A 1798		श्री बीरचन्द कास्टिया	प. प्र	वि.	58		रत्न दलाली	श्वे. मं.	2-छ-2जवाहरनगर, जयपुर-4	हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो.न.45117
		पुत्र श्री कमलचन्दजी								
	2.	रतनदेवी	पत्नी	वि.	53					
	3.	शांतीकुमार	पुत्र	वि	28		रत्न दलाली			
	4.	सुपमा	पुत्रवधू	वि.	23	बी ए.				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72B 1803	श्री हरीचन्द्र काटिया पुत्र श्री सुरगम्भरजी	प प्र	वि	49	बी ए		रत्न व्यवसाय	श्री मं		3-नारदगाही रोड, मनोता बाग, जयपुर-4	पतेहपुरिया भवन, हृत्विषा ना रास्ता, दुर्गना न नामो
	2 लक्ष्मण		पत्नी	वि	44	मट्टिज				फोन 69515	फोन 43963
	3 प्रवीर		पुत्र	धर्मि	24	बी एम	रत्न व्यवसाय				
	4 नीमा		पुत्री	धर्मि	15		शिभाभी तथा 10				15797
	<u>कुशाड, कुहाड, कुवाड</u>										
73 1577	श्री गणपतचन्द्र कुशाड पुत्र ग्य श्री वं दीपचन्द्रजी	प प्र	वि	47	बी एम		रा भव्य प्रसा नरिण परिधारी	श्री मं	जापोर	एच 432, गांधी नगर, जयपुर	मुम्बई परिवारा रागां नगर, फी एच ई हो जयपुर
	2 पुष्पा		पत्नी	वि	42	मिडिल					
	3 लाल		पुत्र	धर्मि	22	बी ए	व्यवसाय				
	4 मलय		पुत्र	धर्मि	20		वि बी एम (प्र व)				
	5 लजराज		पुत्र	धर्मि	17		म				
74 991	श्री सुधानंदिह कुवाड पुत्र एच श्री नमोचन्द्र जी	प प्र	वि	31	बी एम		गोस्वी	वस्था	पोडियारा धर्मनर	डी 51, म्यू धाराज पडो, चौगोम बाजार जयपुर, फोन 73561 फोन	
	2 सुगनकर		मां	विधवा	55						
	3 सुधानंदिह		गार्ड	वि	38	बी एम, बी ए	गोस्वी				
	4 गारुडकर		मांजी	वि	35	मिडिल					
	5 गजलालाजी		पत्नी	वि	30	मिडिल					
	6 महेन्द्रुमार		भतीजा	धर्मि	24	हा मै	गोस्वी				
	7 गिरीधर		, धर्मि	21	बी एम		गोस्वी				
	8 गोविन्द		, धर्मि	19			वि बी एम				
	9 मनभर		भतीजी	धर्मि	15		वि कथा 6				
	गण-2 दुरिगा-6										
75 628	श्री प्रतापचन्द्र कुवाड पुत्र एच श्री वं दीपचन्द्रजी	प प्र	वि	42	बी ई (सीके)		गणवीर नारा	श्री मं	जापोर	7 ए 2, ब्रह्मचरनगर जयपुर फोन 40527	परिधारी धर्मि नारा पुत्र विमल नारा पुरा राड, जयपुर, फोन 69467
	2 धर्मि		पत्नी	वि	38	मट्टिज					
	3 लाल		पुत्री	धर्मि	16		वि हा म				
	4 लजराज		पुत्र	धर्मि	14		, कथा 9				
	5 रेणु		पुत्री	धर्मि	11		, कथा 7				
76 85	श्री वारा कुहाड पुत्र श्री मोटापाटीजी	प प्र	वि	30	बी ए गणपत बी		वकास	श्री मं	जापोर	डी 56 गजेंद्र बाग, जयपुर, जयपुर, कोर्ट नगर, जयपुर	धर्मनर 33, हाई कोर्ट नगर, जयपुर

3 सुशील कुमार
 4 विनयकुमार
 5 उमितादेवी
 6 सुशीलदेवी
 7 विनीतकुमार

पुन वि 30 हा स
 पुन वि 28 एम ए
 पुन वपू वि 27 बी ए
 पुन वपू वि 24 हा ग
 पुन सवि 24 बी एस

पनिष्ठ त्रिपिा
 स्टनोसपर
 प्रार्वेट नोबरी

6 प 33 जवाहरनगर, विधी कर सभिनारी,
 जयपुर सागावरी नेट जयपुर,
 प्रधात कार्यालय
 रा रा विद्युत म,
 जयपुर

पुन-2

82 1327

श्री नरेन्द्रसिंह कृपाल
 पुन श्री नरेन्द्रपाल जी

प प्र विपुन 59 बी ए

गरा निपुत
 धार ए लय

पुन

प 202, नरुम नगर,
 जयपुर-16

2 प्रमोदकुमार
 3 प्रमोदगव्याम
 4 प्रभिनन्त
 5 प्रचना
 6 प्रजनी

पुन रि 34
 पुन वि 28
 पुन सवि 22
 पुन वपू रि 29
 पुन वपू वि 25

पुन 1 पुनो 1

83 627

श्री विजयकुमार पुन
 श्री त्रिनन्दिनी जी

प प्र वि 28 लय ए

स्टेनापार

पुन

6 प 33 जवाहरनगर,
 जयपुर

2 सुनीता
कृष्णा

पत्नी वि 23 हा ग

पुन 1

84A 2076

श्री मित्तलपचर कृष्णा
 पुन स्व श्री मालीपालजी

प प्र विपुन 60 मद्रिज

नोबरी

पुन

राठी भवा, म प 2155,
 पी बापा वा रागा,
 शोहरी बाजार, जयपुर

2 कुलनचन
 3 महेशकुमार
 4 सन्दिता

माई विपुन 50 मद्रिज
 नतोरा सवि 25 हा ग
 नौबी सवि 17

व्यापार

वि हा ग

84B 1867

श्री विमलचर कृष्णा
 पुन स्व श्री मुनाबचजी

प प्र वि 39 मद्रिज

परमाण वा काम

पुन

2433, दूराडा वा
 परसाजा, पीबापा वा
 रागा, शोहरी बाजार,
 जयपुर

2 मुरीबाई
 3 माता
 4 माणव
 5 योगा
 6 पिना
 7 विद्या

माता विपवा 60
 परी रि 38 बी ए वा एड
 बहिज सवि 27 मिडिल
 बहिज सवि 25 बी ए, एमएन डी
 पुरी सवि 14
 पुरी रि 13

बराबरमार
 मेघान्त
 निधार्थी रक्षा 10

पुन-1

सागावरी राठी, जयपुर

कुम्भट, कुम्भट

85	1778	श्री किशनलाल कुम्भट पुत्र श्री वस्तीमल जी	प प्र	विधुर	60	साक्षर	विजली के सामान का व्यापार	श्वे म कुचेरा	राजस्थान नर्सरी, संसारचन्द्र रोड, जयपुर	रमेश इलेक्ट्रिकल्स, हंस मार्ग, संसारचन्द्र रोड जयपुर, फोन : 67757
86A	1187	श्री दशरथमल कुम्भट पुत्र श्री जोहरीमल जी	प प्र.	वि	41	बी एस.सी , डी एम एस एम	नौकरी	जैन जोधपुर	डी-25, कालवाड - स्कीम, गोपाल बाड़ी, जयपुर	
		2. विद्या	पत्नी	वि	36	मैट्रिक				
		3. जयदीप	पुत्र	अवि.	16		शि. बी.ए (प्र.व.)			टे.न. 73602
		4. ज्योत्सना	पुत्री	"	12		शि. कक्षा 8			
86B	1813	श्रीमती दक्षिणा कुम्भट पत्नी स्व. श्री किशोरचंद जी	प प्र.	विधवा	38	मैट्रिक	—	श्वे. स्था.	58, कुम्भट भवन, देवी पथ, कानोता बाग, जयपुर	
		2. अलका	पुत्री	अवि.	19		शि. हा.सै.			
		3. मनीष	पुत्र	"	15		" "			
		4. नीलू	पुत्री	"	13		" कक्षा 9			
86C	1819	श्री निर्मलचन्द कुम्भट पुत्र स्व. श्री लाभचन्दजी	प प्र.	वि.	32	बी ए ,एम.बी.ए.	कपडे की एजेन्सी	स्वे स्था	58, कुम्भट भवन, देवी पथ, कानोता बाग, जयपुर	बी-70, यश पथ, तिलक नगर, जयपुर
		2 ज्योति	पत्नी	वि.	22					
87A	96/ 587	श्री प्रकाश चन्द कुम्भट पुत्र श्री तख्तराजजी	प प्र	वि.	35	एम.काम., एलएल.बी	सब. मैनेजर	जैन जोधपुर	3-ख-5(सी) जवाहर नगर, जयपुर	सिण्डीकेट बैंक, सेठी काँलोनी, जयपुर फो. 44093 ऑफिस
		2. चन्दा	पत्नी	वि.	27	बी.एससी.				
		3. महेन्द्र	भ्राता	अवि.	28	एम.काँम.				
		4. अरविन्द	"	अवि.	24	एम.काँम.				
		5. अशोक	"	अवि.	22		शि. सी.ए.			
		6. प्रदीप	"	अवि.	20		" सी.ए.			
		7. राजेन्द्र	"	अवि.	18		" बी.एससी.(अ.व)			
		8. सुशीला	वहिन	अवि.	26	एम.ए. (इतिहास)				
87B	1811	श्री प्रकाशचन्द कुम्भट पुत्र स्व श्री लाभचन्दजी	प प्र.	वि.	42	बी.ए.	वेरोजगार	श्वे स्था. जोधपुर	58, कुम्भट भवन, तख्तेशाही रोड, देवी पथ, जयपुर	
		2 पकज	पुत्र	अवि	13		शिक्षार्थी कक्षा 9			
88	851	श्री भंवरलाल कुम्भट पुत्र श्री जवरीलालजी	प प्र.	वि.	40	इण्टर	राजकीय सेवा	श्वे स्था व्यावर	म न. 1490, बारह गणगोर शिर्वासिंह कप्तान की गली, जयपुर	कृषि (ग्रुपV विभाग) विशिष्ट योजना सगठन, सचिवालय, जयपुर, 60211/ एक्सटें. 261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 प्रवास देवी 3 राकेश	पति वि पुत्र भवि	35 साधर 16			शिक्षार्थी हा स		पुन-2 पुनी-1		
,89	1773	श्री मोबीत फार कुम्भट पुत्र श्री विजयलाल जी 2 कमला 3 रमेश कुमार	प प्र वि पत्नी वि भाई भवि	30 हायर साण्डरी 28 मैट्रिक 23 मैट्रिक			विजली व्यवसाय	श्वे म पुचेरा नागीर	बाजी का मयान न 2566 लेलीपाडे का रास्ता, चौडा रास्ता, फोन नं 61939 पी पी	कुम्भट इलेक्ट्रिकल्स, बिलानार गाडा के सामने, गुभाप चौक, धामेर रोड, जयपुर फोन नं 42913 पी पी	
90	1114	श्री रणजीतसिंह कुम्भट पुत्र श्री रामलालजी 2 गुमनलता 3 विजयराजे 4 विनोद 5 वादना 6 विनीता 7 विपिन	प प्र वि पत्नी वि पुत्री भवि पुत्र भवि पुत्र भवि पुत्री भवि पुत्र भवि	45 एम ए, आई ए एस 44 इण्टर 24 एम ए 20 बी ए 19 17 15			प्रबंध गचालक राज डेयरी फेडरेशन, स्या जयपुर प्राध्या (अध्यापक) शि एम बी ए " एम एम सी शिक्षार्थी हा स " स	श्व गुलाबपुरा	20 सी, हीराबाग पलेटय, रामसिंह रोड, जयपुर फोन नं 66380 " 62457	मरग मनुज, जवाहर- लाल नेहरू माग, जयपुर फोन नं 62535 राजकीय रातोज ब्यावर	
91	906	श्री रिलखराज कुम्भट पुत्र श्री बसवतराज जी 2 सीतादेवी	प प्र वि पत्नी वि	54 बी ए 50 मिडिल			अधीक्षक राज हाई कोट,	श्वे म जोधपुर	2 ग-7 जवाहरनगर, जयपुर		
92	1776	श्री बसंतकुमार कुम्भट पुत्र श्री किरानलाल जी 2 सातोप	प प्र वि पत्नी वि	27 बी कॉम 25 बी ए (प्र व)			वनक (बशियर) पाठनर इतनिडकरस	श्वे म कुेरा	टेमागी भयन, मीरर होटल के सामने, ह्य मार्ग, सतारचन्द्र रोड जयपुर	बन शॉक वडोवा, रीजान प्राक्सि, अहिसा सपिन जयपुर श्री भोसवाल इलेक्ट्रि कल्स, ह्य माग, सतारचन्द्र रोड जयपुर	
93	1562	श्री विजयप्रकाश कुम्भट पुत्र श्री पारसलाल जी 2 गुलाब 3 शशी 4 राजेण	प प्र वि पत्नी वि पुत्र भवि पुत्र भवि	42 डटल मैनिंग 35 17 16			राज्य सेवा शिक्षार्थी हा स	अन जोधपुर	20 व-4 ज्याति नगर, जयपुर फोन नं 63379	एस एम एस हास्पिटल, जयपुर फोन 60291	

94	1119	श्री वीरसिंह कुम्भट पुत्र श्री मिश्रीलालजी 2. कमल 3. सोहनदेवी	प. प्र. पत्नी माता	वि. त्रि. विधवा	30 25 72	एम.ए. एम.ए. साक्षर	बैंक सर्विस सामा. कार्यकर्त्री	श्वे. उदयपुर स्था पुत्र-1	23, विवेक नगर, मेवाड़ होटल के सामने, सिन्धी कैम्प, जयपुर	यू. को. बैंक, 28-ए, बनीपार्क, जयपुर-65192
95	1775	श्री शरद कुम्भट पुत्र श्री किशनलाल जी 2. वीना	प प्र पत्नी	वि वि.	25 23	मैट्रिक मैट्रिक	इलेक्ट्रिकल्स	श्वे. म. कुचेरा पुत्रियाँ-2	राजस्थान नर्सरी ससार चन्द्र रोड़ जयपुर	श्री ओसवाल इलेक्ट्रि- कल्स, सीकर होटल के सामने, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर
96	1311	श्री सज्जनराज कुम्भट पुत्र श्री मोहनराजजी 2. ज्ञानवती 3. डा. सुशीलकुमार 4. नीना 5. महिमा	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्री	वि वि. वि. वि अवि.	60 55 28 24 18	मैट्रिक साक्षर एम.डी. बी एससी., डी.सी.ए. बी.ए.	व्यवसाय डाक्टर माइक्रो बायोलोजिस्ट	जोधपुर पुत्री-1	घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फ़ोन. 40633	ओसवाल एजेन्सीज, कटला पुरोहितजी, जयपुर, फ़ोन. 47198
97	905	श्री सुरेश कुम्भट पुत्र श्री रिखबराजजी 2. शशी 3. सुमनेश 3. पवन 4. अनिल 5. इन्दू	प.प्र. पत्नी भाई भ्रा वधू भ्राता भ्रा.वधू	वि. वि. वि. वि. वि. वि.	34 30 29 28 27	बी.काम, एलएल.बी. एम.ए.(इकोनो) ,, (फिजिक्स) एम.ए. बी.ए. बी.एससी.,एलएल.बी. बी.ए.	एडवोकेट डवलपमेण्ट आफिसर	श्वे. म. जोधपुर पुत्र-2 पु-1	ट2 ग-7 जवाहर नगर, जयपुर	
98	1777	श्री ज्ञानचन्द्र कुम्भट पुत्र श्री किशनलाल जी 2. मजू 3. ब्रजेश	प. प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	35 32 14	बी. कॉम मैट्रिक	प्रधान कैशियर शिक्षार्थी कक्षा 9	श्वे. म. कुचेरा	सीकर होटल के पास, हस मार्ग, ससार चन्द्र रोड, जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, कलेक्टरी ब्रांच, जयपुर
कोचर										
99	1525	श्री कन्हैयालाल कोचर पुत्र श्री छगनमलजी कोचर	प प्र.	वि.	52	एम. ए. (राजनीति शास्त्र)	आई.ए.एस.	श्वे. जैन बीकानेर	डी/20 हीराबाग, जयपुर, फोन 74006	निदेशक जन सम्पर्क, राज. सचि., जयपुर, फोन 67657

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 शारदा	पत्नी	वि	45	बी ए	उद्योग				उपा इण्टरीगत
		3 श्याम	पुत्र	वि	25	बी काम एम बी ए	एनएनबी (प्र व) डिप्लोमा मार्केटिंग				तयपुर
		4 मधुनिका	पुत्रवधू	वि	22	एम ए	धर्मशास्त्र				मसूमा स्नून
100	132	श्री कानुरचंद कोचर	पुत्री	श्रवि	21		शि एम फिल				
		पुत्र स्व श्री रामचन्द्रजी	प प्र	वि	75	मैट्रि	नौकरी	श्वे म		1952, नोकर भवत, पुरदरजी की गली, गौहरी बाजार, तयपुर	
		2 चांद बाई	पत्नी	वि	70	साक्षर					
		3 भगवत	पुत्र	वि	36	इण्टर	रत्न व्यवसाय		पुत्र 1 पुत्री 1		जी एम एण्टरप्राइजेज, कोचर भवन, तयपुर
		4 मोरार	पुत्रवधू	वि	32	बी ए					
		5 रावैच	पुत्री	श्रवि	14		शि कक्षा 9				
101	134	श्री गुमानचंद कोचर	प प्र	विपुत्र	75	साक्षर	नौकरी	श्वे म		1946 कोचर भवन, सतीप वा दुलभजी पुलदरजी की गली धर्मशास्त्र, बापूगण, बारह गणगौर, गौहरी जयपुर बाजार, जयपुर	
		पुत्र स्व श्री रामचन्द्रजी							पुत्र-1		
		2 मोहनलाल	पुत्र	वि	40	साक्षर	नौकरी				
		3 रत्नदेवी	पुत्रवधू	वि	38	साक्षर					
		4 मल्पना	पुत्री	श्रवि	14		शि कक्षा 6				
102	1189	श्री जयाहरलाल कोचर	प प्र	विपुत्र	48	बी गॉंग	नौकरी	ज श्वे		5460, ने गी बी ग रास्ता, गौहरी बाजार जयपुर	
		पुत्र स्व श्री हजारीलालजी									
		2 कमलादेवी	माता	विधवा	72	मिडिल					
		3 सुरारेचंद	भाई	वि	42	मैट्रि	व्यापार				
		4 कनकदेवी	भा व	वि	38	मैट्रि					
		5, विजयचं	भाई	वि	40	मैट्रि	व्यापार				
		6 बीरबाला	भा वधू	वि	38	मैट्रि					
		7 निमनचं	भाता	वि	36	बी गॉंग	व्यापार				
		8 विमलादेवी	भा वधू	वि	36	मैट्रि					
		9 शांतिकुमार	भाता	वि	32	बी एस गी	व्यापार				
		10 मजूदेवी	भा वधू	वि	28	मैट्रि					
		11 सुभाषचं	भाता	श्रवि	30	मिडिल	व्यापार				
		12 ललितचं	भाता	श्रवि	42	मिडिल			पुत्र-4 पुत्रियाँ-2		
		13 विनीत	पुत्र	श्रवि	14		शि स				
		14 भिन्स	पुत्र	श्रवि	13		शि कक्षा 9				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	उषा	पुत्रवत्	वि	25	ए ए स					
	6	पद्म	पुत्र	प्रवि	21	बी वर्ग	गण्डे गा ब्यागार				
	7	धीरज	पुत्र	प्रवि	13		सि व.जा 8				
108	133	श्री कतेहचक्र कोचर पुत्र श्री वपूरादजी	प प्र	वि	48	बी एम सी	बमीशन गजेट	ज्वे म		1852, कोचर भवन, पुरारर जी बी गली, जोहरी राजार, जयपुर	
	2	विमलादेवी	पत्नी	वि	43	मिडिल					
	3	विजय	पुत्र	प्रवि	26	सी ए	नोबरी			मै बी हे	
	4	विजय	पुत्र	प्रवि	24	बी वर्ग	रत्न व्यवसाय			एटरप्राइो	
	5	प्रजय	पुत्र	प्रवि	22	ह्या ग	नोबरी			कोचर हाउस, जयपुर	
	6	नीलम	पुत्री	प्रवि	20		मि बी ए				
	7	राजकुमार	पुत्र	प्रवि	18	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
109A	1334	श्री माणकचक्र कोचर श्री मूलचन्द्री	प प्र	वि	47	एम वर्ग, विशारद	प्रबन्धक भग्ना प्रभाकर		वीरानेर	डी 115, जामकोठी	स्टेट बैंक ऑफ माग, सिवाड गरिया, बीरानेर एण्ड जयपुर
	2	जैमचकर	पत्नी	वि	45	मैट्रिक				बापूनगर, जयपुर	चौडा रास्ता
	3	सुमन	पुत्री	प्रवि	13		मिशार्थी वक्षा 8			कोच 62341	कोच 60415
										"	60417
109B	1908	श्री महेशकुमार कोचर पुत्र श्री पारमलजी	प प्र	वि	44	मैट्रिक	फूड इन्स्पेक्टर राज्य सेवा	श्वे स्या		41 रामनगर वॉलोनी, मोडला मुक्ति चौरी	
	2	मैनाबाई	पत्नी	वि	40	मिशिक्षित				वे पीछे, जयपुर	
	3	सुनीलकुमार	पुत्र	प्रवि	19		मि बी वर्ग				
	4	अरुणा	पुत्री	प्रवि	16		मि ह्या ग				
	5	प्रविज	पुत्र	प्रवि	14		मि म				
110	115	श्री माणकचक्र कोचर पुत्र श्री रतनचन्दजी	प प्र	वि	39	मैट्रिक	परसगा व पुराणी पेरिण्ड विजेत्रा	श्वे म		म न 3725 पापो गा मोहल्ला, मीतागाम	
	2	विमलाकुमारी	पत्नी	वि	33	मैट्रिक				राधय्याम प्रयातन गा	
	3	राजेशकुमार	पुत्र	प्रवि	15		मिशार्थी म			मगा, वे जी बी गा	
	4	महेशकुमार	पुत्र	प्रवि	13		मिशार्थी वक्षा 8			रास्ता, जयपुर	
111	1289	श्री शक्ति कुमार कोचर पुत्र श्री हजारीनालजी	प प्र	वि	31	बी एम सी	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या	मि वी	5460 वे जी बी गा	
	2	मय	पत्नी	वि	25					रास्ता, जयपुर	

पुत्रिया 2

112	992	श्री राजकुमार कोचर पुत्र श्री त्रिलोकचन्दजी 2 चन्द्रलेखादेवी 3 इन्दरकुमार	प.प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	35 34 14	मैट्रिक मैट्रिक	रत्न व्यवसाय शि कक्षा 8	श्वे म. पुत्र-1 पुत्री-1	4317, कुन्दीगर भैरू का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर
113	1270	श्री ललितचन्द कोचर पुत्र श्री हजारीलालजी	प.प्र. (मूकबधिर)	अवि.	42		जवाहरात का काम	दिल्ली	5460, के.जी वी का नौहारियो का चौक, रास्ता, जौहरी वाजार, भोतीसिंह भोमियो जयपुर का रास्ता, जयपुर
114	136	श्री विजयकुमार कोचर पुत्र श्री हजारीलालजी 2. वीरवाता 3 विनीत 4 विक्रान्त	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	40 36 17 14	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय शि हा. सै. शि कक्षा 9	श्वे स्था. दिल्ली	भाडावत भवन, ऊचा कृष्णा, हल्दियो का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर
115	471	श्री शिखरचन्द कोचर पुत्र स्व श्री चन्द्रणमलजी 2. इन्द्रादेवी 3 अनिलकुमार 4 सुनीलकुमार 5 प्रदीपकुमार 6. मनोजकुमार	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	47 43 24 21 17 15	मैट्रिक	रत्न दलाली रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय शि हा सै. शि सै	श्वे मं	3946, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर फो.न 41318, 42822 पीपी
116A	78	श्री सन्तोषचन्द कोचर पुत्र स्व. श्री नन्दलालजी 2 विमलादेवी 3. प्रदीपकुमार 4 प्रतिमाकुमारी 5 सुरेन्द्रकुमार	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्री भतीजा	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	47 40 22 16 18	मैट्रिक	व्यवसाय व्यवसाय शि बी ए. (प्र.व.) व्यवसाय	श्वे ते. रतनगढ (चूरू)	प्रो सुल्तानसिंह जैन श्री माँडर्न एजेन्सीज, का मकान, कुन्दीगरो पुरानी कोतवाली का के भैरू का रास्ता, रास्ता, अनाज मण्डी, जौहरी वाजार, जौहरी वाजार, जयपुर जयपुर-3
116B	1909	श्री स्वतन्त्रकुमार कोचर पुत्र श्री पारसचन्दजी 2 स्नेहलता	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	37 37	हा सै	राज्य सेवा	श्वे.स्था पुत्र-2	कैशियर, राज भवन क्वाटर्स, जयपुर
117	1328/ 1400	श्रीसुन्दरलाल कोचर पुत्र श्री मेघराजजी 2 किरण 3 सजय	प.प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	48 42 21	वी कॉम साक्षर वी.ए. (द्वि.व)	विजली ठेकेदार व्यवसाय	जैन वीकानेर	एफ-131, चैतन्य संजय इलेक्ट्रिकल्स, मार्ग, सी-स्कीम, दु. न 373, इन्दिरा जयपुर बाजार, जयपुर, फो.नं 74328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 मीर	पुत्री	शवि	14		शि स				
		5 पीरा	पुत्री	शवि	13		शि यशा 9				
118	1288	श्री सुभाषचन्द्र कोचर पुत्र श्री हजारीगल	प प्र	शवि (मूय बधिर)	26		ररा ब्यवसाय	जा	दिल्ली	5460, के जी भी या रास्ता जगपुर	नीहारिया या पीर, एम एम बी या रास्ता, जयपुर
119	500	श्री होराचन्द्र कोचर पुत्र श्री रतार दजी 2 मीहूरखता 3 जिते प्रकुमार 4 हेमराता	प प	वि	48	मट्टिन	हिगाय बेरा	शे म		4312, सोरी हाउस, मुदीगर के मरुजी या रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 41491	
120	990	श्री हरमचन्द्र कोचर पुत्र श्री तिलोचचदजी 2 निमता <u>कोटेचा, कोचेटा</u>	प प्र	वि	33	मट्टिन	ररा ब्यवसाय	जन		4317, मुदीगरा के मरु या रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर, फोन 43512	पत्र भवन, मुदीगर मरु या रास्ता, फोन 45133
121	243	श्री शमोचकुमार कोटेचा पुत्र श्री पूनमचदजी 2 रेसादेवी	प प	वि	32	बी रांग	प्लारिटा ब्यवसाय	शे म	समरावती	धारा 0-बीसीज ताता पॉलोरी, प्लाट नं बी 245, जयपुर	
122	817	श्री जसयत्सिंह कोचेटा पुत्र श्री प्रेमचदजी 2 पुसुमनता	प प्र	वि	38	बी काप	बैंक संप्रकारी	शे रवा	रोटा	1459, मथीजी या रास्ता, निशागान बाजार, जयपुर फोन 72217	बी वन मॉक राता वि, गुलाब गालेज प्रामग रामबाप मन्ति, जयपुर
123	1121	श्री विनेशच ब कोचेटा पुत्र श्री शिवरचदजी 2 नमिता 3 सत्येनुमार	प प्र	वि	28	एम जमि	व्यवसाय	शे रवा	मिक्पुरी (म प्र)	1063, भट्टा की गरी चौडा रास्ता, जयपुर	
124	140	श्री धमराज कोटेचा पुत्र श्री दुलराजजी 2 पुनराग 3 गोरारबेन 4 गेपगा	प प्र	वि	30	बी ग (द्वि म)	ररा ब्यवसाय	शे रवा	तागोर	भांडीगत भवन, ऊंचा दुभा, हलियो या रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर	
			पत्नी	वि	24		व्यवसाय				
			माता	विषया	40						
			भाई	शवि	19		शि बी ग (प व)				

	5. संजय	बहिन	अवि.	17		शि	सैक.		
	6 मन्जू	बहिन	अवि.	16		„	कक्षा 7		
	7. लाड	बहिन	अवि.	15		„	कक्षा 9		
125	588	श्री रिखबराज कोटेचा	प. प्र.	वि	45	वी काँम	(हेण्डीक्राफ्ट्स)		
		पुत्र स्व श्री तेजराजजी					आयरन व्यापार	बडू	3-घ-2, जवाहरनगर,
		2. बसन्तदेवी	पत्नी	वि	43			जि. नागौर	जयपुर
		3. महेश	पुत्र	वि.	23	वी.काँम	व्यवसाय		फो. न. 40449
		4. नीलम	पुत्रवधू	वि.	21	बीए			
		5. बिजेन्द्र	पुत्र	अवि.	19		शि वी ए (द्वि व)		
		6 सम्पत	पुत्र	अवि.	17		„ कक्षा 10		
		7. जितेन्द्र	पुत्र	अवि.	15		„ „ 9		
		कोठारी							
126	1694	श्री अमरचंदजी कोठारी	प. प्र.	वि.	40	वी. ए.	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था. व्यावर	1424, पीतलियों का
		पुत्र स्व. श्री नोरतनमल जी							रास्ता, जयपुर
		2. प्रवीण	पत्नी	वि.	38	मैट्रिक			फो नं. 77995
127	660	श्री अमरचंद कोठारी	प. प्र.	वि.	53	इन्टर	निदेशक,	श्वे.स्था टोक	509, बरकत कालोनी, राज पत्रिका, जयपुर
		पुत्र स्व.श्री विरदीचन्दजी					राज. पत्रिका		टोक फाटक, जयपुर फो. नं 74231/8
		2. समरथकवर	पत्नी	वि.	48				
		3. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	30	इन्टर	नौकरी		
		4. मन्जू	पुत्रवधू	वि.	29	हा. सै.			
		5. शिमला	पुत्री	अवि.	21		शि. वी.ए.		
		6. सुधा	पुत्री	अवि.	17		„ कक्षा 8		
		7. अरुणकुमार	पुत्र	अवि.	19		„ वी काँम		
		8. मनीषकुमार	पुत्र	अवि.	16		„ कक्षा 9		
		9. पंकज	पुत्र	अवि.	13		„ कक्षा 8		
128	1538	श्री अरुणकुमार कोठारी	प. प्र.	अवि.	22	वी. काँम	व्यवसाय	जैन चुरू	2088, चाकसू का
		पुत्र श्री ताराचन्दजी							186, बापू बाजार ,
129	208	श्री अशोक कोठारी	प. प्र.	वि.	30	एम. एस सी.	राज्य कर्मचारी	श्वे.स्था. जयपुर	चौक, जयपुर
		पुत्र श्री केवलचन्द्रजी				(एम, टेक)			वारह गणगौर का
		2 निर्मला	पत्नी	वि	25	वी.ए.एलएल वी			रास्ता, चौधरी भवन,
130	1421	श्री अशोककुमार कोठारी	प प्र	वि.	26	एम काँम	सेवारत	पुत्र-1 पुत्री-1	जयपुर, फो नं 69211
		पुत्र श्री सागरमनजी						जैन व्यावर	42, धूलेश्वर बाग ओसवात केवल्स प्रा.
									जयपुर लि ,3, कृष्णाग्रतन,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	वमवेश जग	पत्नी	वि	22	स		पुन-1			एम धाई रोड, जयपुर, फो न 69420
131	707	श्री उषसिंह कोठारी पुत्र श्री रामराजजी 2 प्रेमलता 3 डा अजीत	पत्नी	वि	53	वी राम	लता परीक्षा प्रभिनारी	जन	जोधपुर	4/28 बजाज नगर, जयपुर	महाविद्यालय कार्यालय, जयपुर फो न 68431
		4 डा अनीता	पुत्रवधू	वि	24	एम वी वीगम	मंडिलत प्राणितर, स्वा परि कल्याण नेट्र, जयपुर गि तम एस				
132	2352	श्री उमरावमल कोठारी पुत्र श्री जीवामराजी	पत्नी	प्र	28		सविष	श्वे ती	सादुनपुर	साहायग स्तनराग रत्ना पुरोहित जी, फो न 79368	
133	2100/ 1669	श्री ऋषभचंद कोठारी पुत्र स्व श्री सोभागमलजी	पत्नी	प्र	70			श्वे स्या		2445, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर	
	2	नजरकवर	माता	विधवा	97	साधर					13, मातीनाल घटला रोड, जयपुर
	3	भवरदेवी	पत्नी	वि	60	साधर					
	4	हीराचंद	चाचा	अवि	75	साधर					
	5	ताराचंद	पुत्र	वि	43	मैट्टिन	मजीनरी मार्केटिंग				
	6	स तोषकमारी	पुत्रवधू	वि	37	हा स					
	7	वविता	पौत्री	अवि	18	नी एस सी					
	8	सजीवकुमार	पौत्र	अवि	16	हा स					
	9	अजू	पौत्री	अवि	14	स					
	10	चेताकुमार	पुत्र	वि	34	मैट्टिन	गोररी				
	11	अजता	पुत्रवधू	वि	30	वी त					पोदार रिपनिम मिल
	12	अमयकुमार	पुत्र	वि	26	वी राम					
	13	अनया	पुत्रवधू	वि	24	मैट्टिन					
134	654	श्री कपूरचंद कोठारी पुत्र स्व श्री बिरदीचंजी	पत्नी	प्र	58	मैट्टिन	पत्रकारिता			पुत्र 5 पुत्री 1	13, मानीलान घटल रोड, जयपुर
								दोर		ई 29 लाजपत माग, श्री श्रीम, जयपुर	राजस्थान पत्रिका, नेसरगढ़ जयपुरनगर

						फो नं. 73844	नेहरू मार्ग, फोन नं. 74231	
135	1044	2. पानवाई	माता	विधवा-	80			
		3 कंचन	पत्नी	वि.	55			
		4. गुलाब	पुत्र	वि	36	हा. सै.	पत्रकारिता	
		5 मिलाप	पुत्र	वि.	34	बी. ई. (मेक.)	पत्रकारिता	
		6 कल्पना	पुत्रवधू	वि.	30	बी. कॉम.		
		7. मजुला	पुत्रवधू	वि	29	बी. ए.		
		श्री कल्याणसिंह कोठारी	प प्र.	वि.	66	मिडिल	रत्न दलाली	श्वे स्था अजमेर मनीरामजी की कोठी, हृदियों का रास्ता, जयपुर
136	2349	पुत्र श्री चौथमलजी						
		2 सोहनीवाई	पत्नी	वि	62	साक्षर		
		3. पूनमचन्द्र	पुत्र	वि	32	सी. ए. प्रेक्टिस		
		4 ऊपा	पुत्रवधू	वि.	28	हा.सै.		
		5 कुशलचन्द्र	पुत्र	वि	28	एलएल. बी	मुनीम	
		6 विमलादेवी	पुत्रवधू	वि.	25	हा. सै.		
		7 कैलाशकुमार	पुत्र	अवि	23	बी. कॉम.	रत्न व्यवसाय	
श्री गगेशमल कोठारी	प प्र	वि	30	हा सै	नौकरी	श्वे स्था लाडनू 37, सूरजनगर, अजमेर रोड, दुग्गड ब्रादर्स, अजमेर रोड, जयपुर		
137	2062	पुत्र श्री हनुमानमलजी						
		गरिमा	पत्नी	वि	26			
		श्री गुलाबचन्द्र कोठारी	प प्र	वि	45	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे म 3969, एम एस बी का रास्ता, जयपुर, फो. न 43258
		पुत्र श्री पूनमचन्द्र जी						
		2. इन्द्रा	पत्नी	वि.	42	मैट्रिक		
		3. स्मिता	पुत्री	अवि	21		शि एम ए	
		4 जितेन्द्र	पुत्र	अवि	19		शि बी कॉम (द्वि व)	
5. विक्रम	पुत्र	अवि	14		शि कक्षा 9			
138	1281	श्री गुलाबचंद कोठारी	प. प्र.	वि	33	बी.कॉम.	श्वे.स्था किशनगढ़ 4812, करनावट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भवन, जौहरी बाजार, जयपुर	
		पुत्र श्री मानमलजी				एल एल बी., एम ए		
139	1439	2. मुन्नीदेवी	पत्नी	वि.	30	मिडिल		
		श्री गोवर्धनचंद कोठारी	प प्र	वि	60	बी ए	सेवा निवृत्त केन्द्रीय सरकार	श्वे म. उदयपुर सोतियों का मोहल्ला, जौहरी बाजार, जयपुर फो न 42141, 44890 पी. पी. III/49 वजाज नगर जयपुर 302017
		पुत्र श्री चुन्नीलालजी						
		2 उमरावकुमारी	पत्नी	वि	59	साक्षर		
		3 सुनील	पुत्र	अवि.	19		शि बी एस सी	
4 सुनीला	पुत्री	अवि	16		शि बी ए (प्र व)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1522	श्री गोविन्दसिंह कोठारी पुत्र श्री एन एन कोठारी	प प्र	वि	49	इंटर	गरगांगी	श्वेत्या ग्राहपुरा (भीलवाडा)	म न 2167 राजा निवन्तस ती रा रास्ता मगुगोरी माजार जयपुर	शासन मन्चिवालय, निर्देश विभाग, जयपुर	
		2 सुशोभा	पत्नी	वि	44						
		3 जितेंद्रसिंह	पुत्र	अवि	20		शि प्रायुर्वेदाचार्य द्वि व				
		4 रेखा	पुत्री	अवि	17		शि हा म				
141	1907	श्री सी क कोठारी पुत्र श्री सुंदरलालजी	प प्र	वि	49	बी ई, एम एम	एम ई गी ल्क्यू पी	श्वे म जोधपुर	सी 92, ग्रामागार फोन 76275 फोन 67275	डाइरेक्टर, लानन बोर्डिंग रात्रस्था	
		2 तरलता	पत्नी	वि	49	एम ए		पुत्रिया-2			
		3 मोनल	पुत्री	अवि	16						
142	1726/ 1791	श्री चंद्रसिंह कोठारी पुत्र श्री दत्तेलसिंहजी	प प्र	वि	59	बी एम सी	अरगाभ प्राया	श्वे म जोधपुर	4/54 तयाहरनगर जयपुर फोन 852254		
		2 निमराजुमारी	पत्नी	वि	55	बी ए					
		3 वर्षा	पुत्री	अवि	17		शि एम बी बी एम (प्र व)				
		4 श्रुतु	पुत्री	अवि	15		शि बी ए (प्र व)				
143	1244	श्री चंद्रसिंह कोठारी पुत्र श्री मदनसिंहजी	प प्र	वि	56	एम ए	उद्योग पया	श्वे त्प्या	म न 923, जिनियो का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर 60033	प्राप्त प्वास्टिपम, निधी जी बी गनी चौडा रास्ता, जयपुर	
		2 लाडमाई	पत्नी	वि	52	माधर					
		3 विनयकुमार	भाई	वि	46	मिडिम	व्यापार				
		4 पुष्पामाई	पत्नी	वि	38	माधर					
		5 प्रवीण	भतीजा	अवि	20	म	व्यापार				
		6 अनिल	भतीजा	अवि	15		शि कक्षा 9				
144	1141	श्री जतनचंद कोठारी पुत्र श्री राजमलजी	प प्र	वि	43	इंटर	रता ध्ययगा	श्वे त्प्या	म न 2061, राम नवा जी का रास्ता, फोन 47710		
		2 कमला	पत्नी	वि	38	मैट्रिन					
		3 प्राम	पुत्र	अवि	19		शि बी ए (प्र व)				
		4 सजय	पुत्र	अवि	18		शि हा म				
		5 धजली	पुत्री	अवि	16		शि म				
145	2267	श्री सुपरज कोठारी पुत्र श्री हुनासचण्डी	प प्र	वि	47	बी ए		श्वे ती चुरू	ई-10, गोयले माग सी स्कीम, जयपुर फोन 76770		
		2 सामरदेवी	पत्नी	वि	42	मैट्रिन		पुत्र-1			
		3 सुनीलकुमार	पुत्र	अवि	20		शि बी बी एम				

146	1670	श्री भब्ररचन्द कोठारी पुत्र श्री ऋषभचन्दजी 2. प्रेमलता	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	36 32	मैट्रिक	रत्न-व्यवसाय	श्वे. स्था. पुत्र-1	2445, तेलीपाड़ा का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर	28, ननियान स्ट्रीट, मद्रास-3
147	2406	श्री भूमकलाल कोठारी पुत्र श्री भवरलालजी 2. किरणवाला	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	30 24	एम.कॉम. मैट्रिक	व्यावसायिक सेवा	श्वे. मं चितखेडा (म. प्र.) पुत्र-1	4806, कुन्दीगर के भैरू का रास्ता, जयपुर	श्रीसवाल सोप फैक्ट्री, शिवजीराम भवन, जयपुर फो. नं 42241
148	2097	श्री त्रिलोकचन्द कोठारी पुत्र श्री ऋषभचन्दजी 2. रानी	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	41 36	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था. पुत्र-2	4393, पुरानी कोत- वाली, अनाज मंडी, जौहरी बाजार, जयपुर-3	हल्दियों का रास्ता, विजयलाल जौहरी की गली, हल्दियों का रास्ता, जयपुर
149	2353	श्री त्रिलोकचन्द कोठारी पुत्र स्व० श्री मानमलजी 2. जतनदेवी 3. मोहनीदेवी 4. कमलचन्द 5. प्रेमदेवी 6. राजेन्द्रकुमार 7. सन्तोषदेवी	प. प्र. माता पत्नी भाई भ्रा वधू भाई भ्रा वधू	वि. वि. वि. वि. वि. वि.	42 55 30 34 28 30 25		नौकरी व्यापार व्यापार	श्वे.ते पुत्र-2 पुत्रिया-2	4767, सोतियों का मौहल्ला, के.जी.वी. का रास्ता, फो न. 45363	
150	1899	श्री दिलीप कोठारी पुत्र श्री एस. एस कोठारी 2. हसुमती	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	30 28	एम कॉम., बी एससी बी ए	बैंक सेवा	जैन उदयपुर पुत्र-2	श्रीरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, एम.आई रोड, जयपुर, फो न 76625	
151	1621	श्री धर्मचन्द कोठारी पुत्र श्री भूरालालजी 2. भूरालाल 3. दाखावाई 4. ज्ञानचन्द 5. बीना	प. प्र. पिता माता भाई वहिन	अवि वि वि अवि अवि	23 50 47 21 17	वी कॉम मैट्रिक	व्यापार व्यापार व्यापार	श्वे. स्था भालावाड पुत्री-1	प्लॉट न 2, सिविल लाइन के सामने, रामनगर, जयपुर	दुकान नं 6, होटल क्लार्क ग्रामेर, जे एन नेहरू मार्ग, जयपुर-17, फो न 82216 एक्स. 196
152	1076	श्री नथमल कोठारी पुत्र श्री स्व कानमलजी 2. अनोपदेवी 3. ज्ञानचन्द 4. तेजकुमारी	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्र वधू	वि. वि वि वि	75 73 52 47	मिडिल साक्षर बी कॉम. शिक्षित	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था	पुलिस मेमोरियल के पास, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-4 फो. न 75168	मै जेम्स ट्रेडिंग का., टेडकिया भवन, 141 जौ. बाजार, जयपुर, फो न 48028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	विनयपत्र	गीत	वि	27	बी बंदि	राज रावराज				बी सुभा इम पंथिया
	6	मुमन	गीत	वि	-4	गीत					राज राव जी का रावरा
											रावरा 3 7 441071
153	2407	श्री परममामत्री कोठारी दुख मर श्री गौरीगामत्री	राज	वि	42	बी बंदि	राज रावरा				
	2	पविता	राजी	वि	37	बी बंदि	राज				राज रावरा
	3	मुमुन	दुख	दरि	22		राज				राज रावरा
	4	ममन	दुख	दरि	20	राजी	राज				राज रावरा
	5	ममन	राजी	वि	38	राजी	राज				राज रावरा
	6	विनयपत्र	राजी	वि	32	राजी	राज				राज रावरा
	7	पविता	दुख	दरि	13		राज				राज रावरा
	8	ममन	राजी	वि	36	बी बंदि	राज				राज रावरा
	9	गीता	राजी	वि	30	राजी	राज				राज रावरा
	10	विनयपत्र	राजी	वि	34	राजी	राज				राज रावरा
	11	पविता	राजी	वि	28	राजी	राज				राज रावरा
	12	ममन	राजी	वि	32	बी बंदि	राज				राज रावरा
	13	पविता	राजी	वि	30	राजी	राज				राज रावरा
154	1427	श्री विनायकजी कोठारी दुख श्री गौरीगामत्री	राज	वि	37	राजी	राज				राज रावरा
	2	मुमन	राजी	वि	33	राजी	राज				राज रावरा
154	2063	श्री परममामत्री कोठारी दुख श्री ममन	राज	वि	32	राजी	राज				राज रावरा
	2	ममु	राजी	वि	34	राजी	राज				राज रावरा
156	1760	श्री परममामत्री कोठारी दुख श्री गौरीगामत्री	राज	वि	40	राजी	राज				राज रावरा
	2	पविता	राजी	वि	35	राजी	राज				राज रावरा
	3	ममन	राज	दरि	18		राज				राज रावरा
	4	पविता	राज	दरि	16		राज				राज रावरा

परी 1 - परी 1

परी 1 - परी 1

परी 1 - परी 1

157	593	श्री प्रकाशचन्द कोठारी पुत्र श्री सवाईलालजी 2. नीरा जैन	प प्र पत्नी	वि. वि.	31 एम डॉम. 25 बी ए.	पी ए सार रुमं	श्वे म पुत्र-1 पुत्री-1	चित्तौडगढ 4-ट-8 जवाहर नगर, जयपुर	एडीशनल चीफ इंजीनि- यर, इरीगेशन, जयपुर-5 फो.न. 76278, 62031/65
158	1816	श्री प्रदीप कोठारी पुत्र श्री अनिलकुमारजी 2. सविता	प प्र पत्नी	वि वि.	29 बी.कॉम 26 डक्टर (विज्ञान)	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं. पुत्र-2	बी-55 कानोतावाग, जयपुर-302004 फोन नं. 78197-	विनीत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कालों का मोहल्ला, जौहरी बाजार, जयपुर फो नं 45203/41211
159	1979	श्री पारसचन्द कोठारी पुत्र श्री पूनमचन्दजी 2. जतनवाई 3. तरुण 4. रीना	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि. अवि.	40 बी एससी. 35 17 13	रत्न व्यवसाय	श्वे मं शि. बी.ए. (प्र.व.) शि. सैक पुत्र-2	42086 पी.पी. श्री पूनमचन्दजी, पारस चन्दजी कोठारी, म.न. 3867; जौहरी बाजार, जयपुर	
160	1759	श्री पारससिंह कोठारी पुत्र स्व. श्री कंचनसिंहजी 2. कल्पना	प प्र पत्नी	वि वि	34 मैट्रिक 28 मिडिल	रत्न दलाली	श्वे म. पुत्र-1, पुत्री-1	4448, कुन्दीगर के भैरू का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
161	770	श्री पूनमचन्द कोठारी पुत्र श्री आसकरराजी 2 जतनरानी	प प्र पत्नी	वि. वि	30 बी कॉम. 28 मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे ते चूरू पुत्र-2, पुत्री-1	3744, कालो का मोहल्ला, के.जी.वी. का रास्ता, जयपुर-3 फो नं 43932	
162	2241	श्री फकीरचन्द कोठारी पुत्र श्री जवाहरलालजी 2. कमलादेवी 3 विजयकुमार 4. अजय 5. संजय	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि अवि अवि अवि.	44 मैट्रिक 40 20 सैक. 18 17	पत्रकारिता एव व्यापार	श्वे ते. नौहर शि बी ए. (प्र.व.) शि बी ए (प्र.व)	सी-13, न्यू कालोनी, जयपुर	वीडियो इलेक्ट्रिकल्स एण्ड टेलीविजन, 54, जयन्ती मार्केट, जयपुर, फो नं 66826
163	286	श्री फतहलाल कोठारी पुत्र श्री साहवलालजी 2. डा. लोकेन्द्रसिंह 3. स्नेहप्रभा	प प्र पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि	76 बी ए.,एलएल.बी 48 एम. एससी. पीएच डी 42 एम ए.	अवकाश प्राप्त प्रोफेसर	जैन उदयपुर	पारिजात भवन, ढड्डो का बाग, मोती डूंगरी, रोड, जयपुर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 उमराव	पुत्री	अवि	52	एम ए बी एड	प्रधानाध्यापिका				रा स स्नू र
		5 राजश्री	पुत्री	अवि	15		शि हा स				
164	1539	श्री भवरासह कोठारी	प प्र	वि	54	बी राम	व्यापार				
		पुत्र स्व श्री परासालजी						पुत्र 1 पुत्री 1			
		2 चम्पादेवी	पत्नी	वि	50			श्व म	दोष	101/5 जवाहरनाल	जम्स ट्रेडिंग कार्पो,
		3 कमलकुमार	पुत्र	अवि	24	बी कॉम एलएल बी	व्यापार			नेहरू मार्ग, जयपुर,	जीहरी बाजार,
		4 रेणु	पुत्री	अवि	21	एम बीएम				फो न 65261	जयपुर-3
		5 कल्पना	पुत्री	अवि	19	बी काम					फो न 74028,
164B	2498	श्री भीमराज थोठारी	प प्र	वि	45	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय				66189
		पुत्र स्व श्री धीसीलालजी						श्वे स्था		वाठारी भवन, लाल	यूनिसल जम्स,
		2 कमलावती	पत्नी	वि	42	मिडिल				हाथियो का मन्दिर,	हागवान
		3 नरेन्द्र	पुत्र	अवि	23	ग्रेज्यू जेमोलोजिस्ट	रत्न व्यवसाय			नाहरगढ़ का रास्ता,	
		4 कीरेन्द्र	पुत्र	अवि	20	" "	"			जयपुर	
		5 वीणा	पुत्री	अवि	17						एमरूसा लिमिटेड,
165	2347	श्री एम एस कोठारी	प प्र	वि	37	एम एससी	शि बी ए (प्र व)				वकाफ
		पत्र श्री जीतमलजी				श्री एच डी	सहा प्रोफेसर	श्व ते		3/225 मालवीया-	कृषि अनुसंधान केंद्र,
		2 वाता	पत्नी	वि	35	एम ए	नौकरी			नगर, जयपुर	दुर्गापुरा
166	1597	श्री मारुक्चंद कोठारी	प प्र	वि	50	बी कॉम	बेगियर				
		पुत्र स्व श्री इन्द्रमलजी						पुत्र 2			
		2 भनकार देवी	माता	विधवा	70			श्वे म	जयपुर	3396 इन्द्र भवन,	यू नो बक, जीहरी
		3 प्रेमदेवी	पत्नी	वि	45	मिडिल				गोविंद राज्याम का	बाजार, जयपुर
		4 भरूपकुमार	पुत्र	वि	26	बी एससी	बेगियर			रास्ता, जयपुर	फो न 48701
		5 मयुदेवी	पुत्रवधू	वि	24	एम ए				फा न 65348	
		6 अनिलकुमार	पुत्र	अवि	24	बी कॉम	सेल्लमैन				स ट्रल बैंक ब्राफ
		7 सुधीरकुमार	पुत्र	अवि	22	बी कॉम	"				इंडिया, एस सी रोड,
		8 पूनमचंद	पुत्र	अवि	16						जयपुर
167	423	श्री मालीरामजी कोठारी	प प्र	वि	83	मिडिल	शि सक				फो न 64144
		पुत्र श्री महादेवलालजी						श्वे म		1390, कोठारी हाउस, जयपुर विकास	
		2 रतनचंद	पुत्र	वि	53	आई कॉम	भनुभाग अधिकारी			एल एम बी के पीछे,	प्राधिकरण
		3 प्रेमगई	पुत्रवधू	वि	50	नाक्षर				जीहरी बाजार,	जयपुर, फो न 78074

179	2346	श्री राजमन्व कोठारी पुत्र श्री सिरहमन्वजी	प.प्र.	वि.	44	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	खो वातो का चौक, गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2. शान्ता	पत्नी	वि.	40	मैट्रिक			
		3. आशा	पुत्री	अवि.	22	एम.ए.			
		4. गुणमा	पुत्री	अवि.	20	बी.कॉम.			
		5 संजय	पुत्र	अवि.	19	सै	रत्न व्यवसाय		
180	953	श्री राजेन्द्रकुमार कोठारी पुत्र श्री मूलचन्दजी	प.प्र.	वि.	33	हा सै	रेडीमेड गार्मेंट व्यापार	श्वे.म वीकानेर	म नं 1360, फो. नं 69749 बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार, जयपुर-3 307, आदर्शनगर, जयपुर
		2 सरलादेवी	पत्नी	वि.	26	मैट्रिक			
		3. श्रेयासकुमार	भाई	अवि.	17		शि हा सै	पुत्र-2 पुत्री-1	
181	1066	श्री रिलखचन्द कोठारी पुत्र श्री देवराजजी	प.प्र.	वि.	33	हा सै	कपड़ों का व्यापार	श्वे.स्था. जोधपुर	
		2. किरणकुमारी	पत्नी	वि.	31	मिडिल			
		3 सुनीता	पुत्री	अवि.	14		शि सैक	पुत्र-1 पुत्रियाँ-2	
182	1064	श्री रिलखराज कोठारी पुत्र श्री रूपराजजी	प.प्र.	वि.	27	बी कॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. अजमेर	2019, पीतलियों का चौक, जयपुर
		2 सगीता	पत्नी	वि.	23	बी.ए.		पुत्र-1	
183	1283/ 812	श्री-लक्ष्मीचन्द कोठारी पुत्र श्री मानमलजी	प.प्र.	वि.	37	बी कॉम.	लेखाकार	श्वे.स्था. किशनगढ़	4812, करनावट राज. हाउ. बोर्ड भवन, के जी बी. का भगवान दास रोड, रास्ता, सौतियों का जयपुर मोहल्ला, जौहरी बाजार, फो.न. 72112 जयपुर फो न. 42141, 72114 44980 p.p.
		2 विमलप्रभा	पत्नी	वि.	34	सै.			
		3. सुनीता	पुत्री	अवि.	16		शि हा सैक.		
		4 राजेशकुमार	पुत्र	अवि.	15		,, सैक		
184	2111	श्री विमल कोठारी पुत्र स्व. श्री टीकमचन्दजी	प.प्र.	वि.	32	एम.ए.	व्यवसाय	श्वे.म	14-बी, न्यू कालोनी, जयपुर कोठारी ब्रदर्स, 415, इन्दिरा बाजार, जयपुर
		2 रतनकवर	दादी	विधवा	74	मिडिल			
		3 शकुन्तला	माता	विधवा	58	मिडिल			
		4. सुशीला	पत्नी	वि.	27	एम.ए.			
		5 नरेन्द्र	भाई	वि.	29	बी कॉम.	व्यवसाय		
		6 प्रेमसुधा	भा.व.	वि.	25	एम.ए.	लिपिक		
		7 सुनीता	भाई	प्रवि.	22		शि एम कॉम	पुत्र-2	
185	2099	विमलचन्द कोठारी पुत्र श्री नेमीचन्दजी	प.प्र.	वि.	50	मिडिल	रत्न दलाली	श्वे.ते. वीकानेर	1514, लक्ष्मीभवन, सौथली वालों का

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 अतनदेवी	पत्नी	वि	46	मिडिल					रास्ता, जयपुर
		3 राजेन्द्र	पुत्र	वि	30	मिडिल	जवाहरराज पटिंग				पो नं 71779बीपी
		4 सुरेन्द्र	पुत्र	धरि	21	मिडिल	रत्न देवानी				
		5 ऊषा	पुत्रवधू	वि	26	मास्तर			पुन 1 पुत्रिया 2		
186	689	डॉ एल एल बोटारी पुन श्री सुप्रभासजी	प प्र	वि	29	एम एमसी, पी एच डी,	महाधर प्रोफेसर	नर धने भीलवाड़ा		2-बर्माज बालाजी जयपुर	बोटारी डिपार्टमेंट, युनि वर्सिटी, को 75765
		2 प्रमीला	पत्नी	वि	27	एम एससी	नरनं पमिपर		पुत्रिया 2	पो नं 40907	बैंक घाट राज वि, एम आई राट, जयपुर
187	1325	डा सप्रभासिंह बोटारी पुन श्री जाविपसिंहजी	प प्र	वि	64	बी एमसी	रेसिडेण्ट डिप्युटी एल्यूमीनियम वर्को रेल्यूट	रं रत्ना धरनेर		43, भयन गटिया मिडिल लाटर, जयपुर, प्रा वि जयपुर	धरिहृत एजेन्सीज, पो नं 77271
		2 सज्जनभेवो	माता	विधवा	92						
		3 रिचादेवी	पत्नी	वि	56						
		4 डॉ सुरेन्द्रसिंह	पुत्र	वि	19	एम एम एम सी एच	मार्केट जमाना धरणावर बम्बई				
		5 डॉ सुकुमा	पुत्रवधू	वि	36	एम बी बी एम	डा थरणावा घाघम				
		6 डॉ प्रोफेन्द्र	पुत्र	वि	35	पी एच डी	दलेन्द्राजिबम पंरुडी				
		7 मधु	पुत्रवधू	वि	30	एम ए					
		8 देवेन्द्र	पुत्र	वि	33	सी ए	रेमिजल पंरुडी				
		9 प्रयथी	पुत्रवधू	वि	27	बी ए					
188	1009	डॉ सतलोककुमार बोटारी पुन श्री यापतरायजी	प प्र	धरि	30	मैट्रिग	भारमाप	नर		591, टोडिया भवन् बामोराप भी बी पीपी	घोसावती बर रास्ता, त्रोहरी बाजार, जयपुर
		2 विदयकुमार	भाई	धरि	25	न					
		3 सनमणीदेवी	माता	विध	60	मास्तर					
189	2355	डॉ सतवारमल बोटारी पुन श्री साभरानजी	प प्र	वि	79	मिडिग	रत्न धरणावर	दे न		घ नं 200, हिनॉ बा रास्ता, जयपुर, घा नं 41945	
		2 रूपचन्द	पुत्र	वि	50	मैट्रिग					
		3 मोतीचन्द	पुत्र	वि	47	"					
		4 तुषारचन्द	पुत्र	वि	35	"					
		5 रत्नादेवी	पुत्रवधू	वि	48	"					
		6 गुलाबदेवी	पुत्रवधू	वि	35	"			पुत्रिया-4		

		7. विमलादेवी	पुत्रवधू	वि.	30	बी.ए.			
		8. सुधीरकुमार	पौत्र	अवि.	24	बी.कॉम			
		9. सुनीलकुमार	पौत्र	अवि.	21	बी.कॉम.			
		10. सुनीता	पुत्री	अवि.	19		शि. बी.ए.		
190	1906	श्री सिरहमल कोठारी	प प्र.	वि.	72	बी. ए.		श्वे. स्था.	8, रत्नापुरी, जमना
		पुत्र स्व श्री मगनमलजी							डेयरी, अजमेर रोड़,
		2. चमेलीदेवी	पत्नी	वि.	67	शिक्षित			जयपुर-6
		3. धनकुमार	पुत्र	वि.	39	बी.ए.			फो नं. 77927
		4. शान्तिकुमार	पुत्र	वि.	37	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय		दुकान, नेपाल मे,
		5. सुमन	पुत्रवधू	वि.	35	शिक्षित	"		दुकान, गोपालजी का
		6. प्रेमकाता	"	वि.	33	शिक्षित			रास्ता, जयपुर
		7. अंजिता	पुत्री	अवि.	25	बी.एससी	बेरोजगार		
		8 सुधीर समदाडिया	दोहिता	अवि.	20	शिक्षित	व्यवसाय		
		9. संजय समदाडिया	"	अवि.]	18	हा सै	व्यवसाय		
		10 नीलू	पौ.	अवि.	14		शि कक्षा-9		
191	1039	श्री सुगनचन्द कोठारी	प. प्र	वि.	73	साक्षर	श्रीटोमोवाइल	श्वे स्था. महाराष्ट्र	सी-55, वजाज नगर, ए-22, वजाज नगर,
		पुत्र श्री अमोलकचन्दजी							जयपुर जयपुर, फो न.72511
		2. चम्पावाई	पत्नी	वि	65	साक्षर			फो. न. 61266
192	340	श्री सुजानमल कोठारी	प प्र.	वि	50	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था	गो रा जी का रास्ता,
		पुत्र स्व. श्री सीभाग्यमलजी							पुरानी बस्ती, जयपुर,
		2. नत्थीवाई	पत्नी	वि	45				फो. नं. 72106
		3. सुभाषी	पुत्र	वि.	30	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		म नं. 395, कोठारी हाऊस,
		4. पुष्पा	पुत्रवधू	वि.	25				मिलाप भवन के सामने, के.
		5. प्रवीण	पुत्र	अवि.	20	मिडिल	रत्न व्यवसाय		जी.बी. का रास्ता, जयपुर.
									फो. न 44793 पी पी.
193	1750	श्री सुनीलचन्द कोठारी	प. प्र	वि.	38	बी. कॉम.	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था.	1996, कोठारियो का
		पुत्र स्व. श्री सुमेरचन्दजी							चौक, जीहरी बाजार,
		2 शशि	पत्नी	वि.	36	मैट्रिक			जयपुर
194	1749	श्री सुमतिचन्द कोठारी	प्र. प	वि	41	इन्टर	बर्फ का कारखाना	श्वे स्था.	चाँद आईस फॅक्ट्री,
		पुत्र स्व श्री सुमेरचन्द्रजी							मोती डूंगरी रोड़,
		2. जतनदेवी	माता	विधवा	65	साक्षर			जयपुर, फो नं. 48042
		3. इन्द्रा	पत्नी	वि.	39	मैट्रिक			
		4 मनीषा	पुत्री	अवि.	13		शि कक्षा-8		
									पुत्र-1

	3	विनोद	पुत्र	अवि.	22	बी कॉम., एल.एल बी	रत्न व्यवसाय		फो. नं 49775, 48417
202	1343	4. सुनीता श्री हीराचन्द कोठारी	पुत्री प. प्र	अवि वि	13 45		शि स कार्यालय अधीक्षक	श्वे. म	इन्द्र भवन, म न 396, राज रा वि. मण्डल, गो. रा का रास्ता, फो नं 73350
		पुत्र श्री इन्द्रमलजी							चांदपोल बाजार, जयपुर
		2. कमला	पत्नी	वि	40				
		3. सुनीता	पुत्री	अवि.	20	बी कॉम			
203	168/ 2357	4 विजय श्री ज्ञानचन्द कोठारी	पुत्र प प्र	अवि. वि	18 42		शि. वी.ए. (प्र व) रत्न व्यवसाय	श्वे ते	3969, मो. भो का रास्ता, जयपुर
		पुत्र स्व. श्री इन्द्रचन्द्रजी							
		2. चन्द्रप्रभा	पत्नी	वि	38	मैट्रिक			
		3 अनूपकंवर	दादी	विध	92				
		4. निहालकंवर	माता	विध	60				
		5. अंजू	पुत्री	अवि	17		शि. हा. सै		
		6. मंजू	पुत्री	अवि.	15		„ सैक		
		7 नीता	पुत्री	अवि.	14		„ „		
		8 विनय	पुत्र	अवि	13		„ मिडिल		
204	1006	श्री ज्ञानचंद कोठारी	प प्र	वि.	39	हा सै.	व्यवसाय	जैन	581, टोडिया भवन, गो. जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-3
		पुत्र श्री धनपतरायजी							
		2. जैनोदेवी	पत्नी	वि.	37	सैक			
		3. सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	18		शि. वी ए (द्वि.व)		
		4 नरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	16		„ हा सै		
		5. महेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	14		„ कक्षा 9		
205	893	श्री ज्ञानसिंह कोठारी	प प्र	वि	45	मैट्रिक	कनि लेखाकार	श्वे स्था भीलवाडा	1063, भा.का रास्ता, कार्या वन सरक्षक किशनपोल बाजार, विभागीय, कार्य वृत्त जयपुर फो नं 6498
		पुत्र श्री नाथूलालजी							
		2. लीला	पत्नी	वि	35				
		<u>कोलड़</u>							
206	431	श्री बाबूलाल कोलड़	प. प्र	वि	40	बी. कॉम	प्रबन्धक	म प्र.	3-ब-30, ज नगर, जयपुर
		पुत्र श्री नाथूलालजी							पं. ने वैक, जवाहर नगर, जयपुर
		2 विमला	पत्नी	वि.	38	बी. ए.			
		3 रवीन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	19		शि. वी ए (द्वि व)		
		4. शशिकुमार	पुत्र	अवि	18		„ „ (प्र व)		
		5. विमलकुमार	पुत्र	अवि.	11		„ कक्षा-7		

पुत्र-2

पुत्र-1

पुत्र-1, पुत्री-1

पुत्र-1

		3. रतनचंद	भाई	अवि.	55	मैट्रिक	नौकरी		जयपुर-3	
		4 भाणकचन	पुत्र	वि	45	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय		फोन नं 41929	
		5. सुशीला	पुत्रवधू	"	38	मैट्रिक				जैनसन ज्वैल्स,
		6. धरमचंद	पुत्र	"	38	बी काम.	रत्न व्यवसाय			धीवालो का रास्ता,
		7 आशा	पुत्रवधू	"	33	एम. ए.				चाकसु का चौक,
		8 राजेन्द्रकुमार	पुत्र	"	26	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय			जयपुर
		9. विमला	पुत्री	अवि.	25	बी ए.				फोन : 43540
		10. सुशीला	पुत्री	अवि	19	बी. ए	शि. एम. ए.			
		11. रविकुमार	पौत्र	"	15		शि सै.			
212	2339	श्री जीनमल खवाड़	प प्र	वि.	28	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे ते.		4791, गोयल भवन,
		पुत्र स्व श्री मोतीलालजी								के.जी बी का रास्ता,
		2. अनिता	पत्नी	वि.	24	बी ए.				जयपुर
213	1735	श्री पन्नालाल खवाड़	प प्र	वि.	47	एम.कॉम.	सर्विस	श्वे ते	किशनगढ़	रामललाजी का 'कल्पना'
		पुत्र स्व श्री अमरलालजी								रास्ता, तेलीपाड़ा,
		2. पारसदेवी	पत्नी	वि.	43	बी. ए.				जयपुर
		3. नवनीतकुमार		अवि.	23		शि प्रथम वर्ष			
		4 नवीना		"	21	बी ए.				
		5. सुरेन्द्रकुमार		"	19		शि एम.बी बी.एस.(तृ व)			
		6. प्रवीण		"	18		शि द्वि व			
		7. रोहित		"	16		शि कक्षा 10			
214	1713	श्री मिलापचंदजी खवाड़	प प्र	विधु	65			श्वे. जै.		मिलाप भवन
		पुत्र श्री फूलचन्दजी								हलवाई समिति के
		2 प्रेमचन्द	पुत्र	वि	39	मैट्रिक	सर्विस			पास, पटवों का रास्ता,
		3 पदमचन्द	"	वि	35	"	रत्न व्यवसाय			चौड़ा रास्ता, जयपुर
		4. प्रकाशचन्द	"	"	32	"	रत्न व्यवसाय			
		5. बीनादेवी	पुत्रवधू	"	37	"				
		6 आशा	"	"	30	एम. ए.				
		7. प्रमीला	"	"	28	हा सै.				
		8 सुनीता	पुत्री	अवि	16		शि कक्षा 11			
		9 सुनील	पुत्र	अवि	14		शि कक्षा 9			
215	2065	श्री रतनचन्द खवाड़	प प्र	अवि	48		नौकरी	श्वे मं		सौतियो का मोहल्ला, जोरास्टर कम्पनी,
		पुत्र श्री सूरजमलजी								के जी बी का रास्ता, प्रेम प्रकाश सिनेमा
		2 सन्तोपदेवी	माता	विधवा	75					जयपुर

पुत्रियां-2

पुत्रियां-2

2. जायदारी		पत्नी	वि.	26	मैट्रिक	पुत्र-2	कुप्रा, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर-3	फोन : 63257
220	2332	श्री कमलचन्द खारंड	प. प्र	वि	40	रत्न मजदूरी	जैन	चीथा चौराहा, निगम हाउस, घी वालों का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर
		पुत्र स्व. श्री मेहताचन्दजी						फोनं 40085 पी.पी.
		2 राजदेवी	माता	विधवा	61	साक्षर		
		3. सुमिनादेवी	पत्नी	वि	37	साक्षर	रत्न मजदूरी	
		4. मुभापचन्द	भाई	अवि.	28	हा.सं	रत्न मजदूरी	
		5. हीराचन्द	पुत्र	अवि	16		शि. संक.	
		6 रेणुकुमारी	पुत्री	अवि.	13		शि. मिडिल	
221	301	श्री कैलाशचन्द खारंड	प. प्र	वि.	51	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन
		पुत्र श्री अम्बालालजी						1923, सोथली वालो का रास्ता, जयपुर, फो न. 62450
		2 चन्द्रादेवी	पत्नी	वि	48	मिडिल		
		3 नवीनकुमार	पुत्र	अवि.	26	एम कॉम	रत्न व्यवसाय	
		4. धनेन्द्रकुमार	"	"	24	एम एससी.	कनि अभि	डाकतार विभाग
		5 पकजकुमार	"	"	20		शि बी.ए. (द्वि व.)	
222	2333	श्री जतनकुमार खारंड	प प्र	वि.	38	मिडिल	रत्न दलाली	श्वे.ते.
		पुत्र श्री मानमल जी						1923, सोथली वालो का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर-1
		2 सोहनीदेवी	पत्नी	वि	28	मैट्रिक		
		3. विनयकुमार	भाई	वि	27	हा सं	व्यापार	
		4 मगलादेवी	भ्रा बधू	वि	23	हा सं		पुत्र-1, पुत्रिया-2
223	302	श्री टीकमचन्द खारंड	प प	वि.	43	मिडिल	रत्न व्यवसाय	जैन
		पुत्र श्री लगामीचन्द जी						1922, सोथली वालो का रास्ता, जयपुर
		2. माणक	पत्नी	वि	40			
		3. अशोककुमार	पुत्र	अवि	22			
		4 सरोजकुमारी	पुत्री	अवि.	21	हा सं		
		5. सुनीताकुमारी	पुत्री	अवि	19	हा सं.		
		6. अनीताकुमारी	पुत्री	अवि	18		शि. बी.ए. (द्वि व.)	
		7. वनीताकुमारी	पुत्री	अवि.	15		शि. कक्षा 9	
224	300	श्री पदमचन्द खारंड	प प्र.	वि.	66	मिडिल	रत्न व्यवसाय	जैन
		पुत्र श्री मोमीलालजी						1923, सोथली वालो का रास्ता. जयपुर
		2 भरदारवाई	पत्नी	वि.	62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2066	श्री हीराचंद खवाड पुत्र स्व श्री मूरामलजी	प प्र	वि	44	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय	श्वे म		1696, खवाड भवन, जशियो का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर फो न 46000	
		2 माणवदेवी	पत्नी	वि	42	मिडिल				" 47000	
		3 मुनीता	पुत्री	अवि	20	बी ए					
		4 मुनीत	पुत्र	अवि	18		शि हा स				
		5 सगीता	पुत्री	अवि	16		शि कक्षा 8				
		6 राजय	पुत्र	अवि	14		शि स				
217A	648	श्री मोतीचंद खवाड पुत्र स्व श्री मगनमलजी	प प्र	वि	47	बी काम	नौचरी	जन		म न 17/3702, ललाकार गेड व ऊन वालो का मोह्ला, विभाग, गांधी नगर के जी वी वा रास्ता, माड जयपुर जोहरी बाजार, जयपुर फो न 42912 p p	
		2 राजकुमारीवाई	माता	विधवा	65						
		3 मवरकु वर	पत्नी	वि	44	मिडिल			पुत्र 1 पुत्री 1		
		4 राजेश	पुत्र	वि	25	हा स	माबल उद्योग	बगोर			
		5 मधु	पुत्रवधू	वि	22	मैट्रिन		फो न			
		6 सुरेश	पुत्र	अवि	22	बी कॉम	माबल उद्योग	560021			
217B	2476	श्री विनयचंद खवाड पुत्र श्री उमरावमलजी	प प्र	वि	44	मैट्रिन	व्यवसाय	श्वे म		2654, शाह भवन, पी वाला का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फो न 44778	
		2 मीतावाई	माता	विधवा	62						
		3 रमनादेवी	पत्नी	वि	42						
		4 प्रकाशचंद	भ्राता	वि	39	मैट्रिक	व्यवसाय				
		5 उपादेवी	भ्रा व	वि	35						
		6 अमितकुमार	पुत्र	अवि	18		शि बी ए (प्र व)				
		7 कविता	पुत्री	अवि	16		शि स				
		8 धजना	पुत्री	अवि	14		शि कक्षा 9				
		9 चन्दना	पुत्री	अवि	13		शि कक्षा 8			पुत्र 2 पुत्रियाँ 2	
		<u>खाटेड</u>									
218	1708	श्री हरीराजुमार खाटेड पुत्र श्री मानवचंदजी	प प्र	वि	25	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय	श्वे त लाडरू		छीतरमल ना मकान, विद्यापर वा रास्ता, जयपुर (राज)	
		2 तारा देवी	पत्नी	वि	20	मैट्रिन					
		<u>खाभ्या</u>									
219	1600	श्री निमलकुमार खाभ्या पुत्र श्री हीरानाजी	प प्र	वि	30	एम ए	नौचरी	श्वे त चित्तौडगढ		म न 4913, पोदार सिपनिंग मिल पीपडा माना मठ वा पचौन डिपो, जयपुर,	

		2. तारादेवी	पत्नी	वि.	26	मैट्रिक	पुत्र-2	कुआ, के जी.वी. का रास्ता, जयपुर-3	फोन : 63257
220	2332	श्री कमलचन्द तारैड पुत्र स्व श्री मेहतावचन्दजी	प. प्र.	वि	40		रत्न मजदूरी	जैन	चौथा चौराहा, निगम हाउस, धी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं 40085 पी.पी.
		2. राजदेवी	माता	विधवा	61	साक्षर			
		3. मुमितादेवी	पत्नी	वि	37	साक्षर	रत्न मजदूरी		
		4. सुभाषचन्द	भाई	अवि.	28	हा सै.	रत्न मजदूरी		
		5. हीराचन्द	पुत्र	अवि.	16		शि. सैक.		
		6 रेणुकुमारी	पुत्री	अवि	13		शि. मिडिल		
221	301	श्री कैलाशचन्द तारैड पुत्र श्री अम्बारातातजी	प. प्र.	वि.	51	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	1923, सोथली वालो का रास्ता, जयपुर, फो.न. 62450
		2. चन्द्रादेवी	पत्नी	वि.	48	मिडिल			
		3. नवीनकुमार	पुत्र	अवि.	26	एम. कांम	रत्न व्यवसाय		
		4 पनेन्द्रकुमार	"	"	24	एम एससी.	कनि अभि		डाकतार विभाग
		5 पकजकुमार	"	"	20		शि. बी.ए. (द्वि. व.)		
222	2333	श्री जतनकुमार तारैड पुत्र श्री मानमल जी	प प्र.	वि.	38	मिडिल	रत्न दलाली	श्वे.ते	1923, सोथली वालो का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-1
		2 रोहनीदेवी	पत्नी	वि	28	मैट्रिक			
		3 विनयकुमार	भाई	वि	27	हा सै	व्यापार		
		4 मंगलादेवी	आ बधू	वि	23	हा सै.			पुत्र-1, पुत्रिया-2
223	302	श्री टीकमचन्द तारैड पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जी	प प्र	वि.	43	मिडिल	रत्न व्यवसाय	जैन	1922, सोथली वालों का रास्ता, जयपुर
		2. माणक	पत्नी	वि	40				
		3 अशोककुमार	पुत्र	अवि.	22				
		4 सरोजकुमारी	पुत्री	अवि.	21	हा सै.			
		5. सुनीताकुमारी	पुत्री	अवि	19	हा.सै.			
		6. अनीताकुमारी	पुत्री	अवि	18		शि. बी.ए. (द्वि व.)		
		7. त्रितीताकुमारी	पुत्री	अवि.	15		शि. कक्षा 9		
224	300	श्री पदमचन्द तारैड पुत्र श्री गोपीलालजी	प प्र	वि.	66	मिडिल	रत्न व्यवसाय	जैन	1923, सोथली वालो का रास्ता जयपुर
		2 नरदारवाई	पत्नी	वि	62				

	3	रूपच	पुन	वि	42	मिशित	
	4	सन्तोषच	पुन	वि	39	मिशित	
	5	निमता	पुनवप्	वि	39	मैट्टिक	
	6	बुध्णापुमारी	पुनवप्	वि	38	मैट्टिक	
	7	बबोला	पौत्री	धवि	16		वि हा स
	8	राजेश	पौत्र	धवि	15		वि सव
	9	गुनीन	पौत्र	धवि	15		वि कथा 7
	10	नमीता	पौत्री	धवि	13		" "

पुत्र-1 पुत्री-1

225	643/	श्री प्रकाशचंद खारड	प प्र	वि	34	हा ग	रत्न व्यंगगाय
	2466	पुत्र श्री मेहतावचद नी 2 मधु	पत्नी	वि	30	हा म	

श्वे ते शांतिनारायण जी का मकान, न 419, रामगज, धनाज मंडी, बालाजी का रास्ता, जयपुर

पुत्र-2

226	303	श्री पुनमचंद खारड पुत्र श्री लक्ष्मीचंदी 2 प्रतीगुमारे 3 नमदेश 4 गीतापुमारी	प प्र	विपुत्र	70	मिश्रिण	रत्न व्यंगगाय
			पुत्र	वि	35	मिश्रिण	रत्न व्यंगगाय
			पुनवप्	वि	30	मिश्रिण	
			पौत्री	धवि	13		वि कथा 4

1922, चौधरी गानो का रास्ता जयपुर 3

पुत्र-1 पुत्री 1

227	2334	श्री भवरलाल खारड पुत्र श्रीमानमलवी 2 शक्तिरादेवी	प प्र	वि	48	मैट्टिक	रत्न कान्ती
			पत्नी	वि	38	मैट्टिक	

श्वे ते 1923, चौधरी बालो का रास्ता, पोडा रास्ता, जयपुर,

पुत्र 1 पुत्रिया 3

228	540	श्री महेद्रकुमार खारड पुत्र श्री गितावचद जी 2 नमलादेवी 3 अनिताकुमारी 4 सुनीलकुमार 5 सतीशकुमार 6 संगीता 7 सीमा	प प्र	वि	48	मैट्टिक	रपडे का व्यापार
	1719/		पत्नी	वि	42	मिश्रिण	
			पुत्री	धवि	24	बी ए	
			पुत्र	धवि	22	मैट्टिक	रपडे का व्यापार
			पुत्र	धवि	20		वि बी ए (प्र य)
			पुत्री	धवि	18		वि से
			पुत्री	धवि	16		वि स

जयपुर, धारादराडी, हाईवेलास मटपीग मलता रोड, जयपुर स्टोर, दड़ा, जयपुर

229	829	श्री मानकचन्द खारेंड पुत्र स्व श्री मुन्नीलाल जी	प प्र.	वि	45	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था.	2330, घी वाली का रास्ता, जोरास्टर कं. के पास, जोहरी बाजार, जयपुर-3 फो नं 40237
	2	मांगकवर बाई	माता	विधवा	65	साक्षर			
	3	निर्मलादेवी	पत्नी	वि.	33	साक्षर			
	4	नगीनचन्द	भाई	वि	42	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
	5	लाडकवर	भ्रा वधू	वि	39	मिडिल			
	6	पदमचन्द	भाई	वि.	36	हा.सं	रत्न व्यवसाय		
	7	चन्द्रकान्ता	भ्रा वधू	वि.	33	हा.सं.			
	8	राजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	23	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
	9	कुसुम	पुत्रवधू	वि.	20	बी.ए.			
	10	राकेणकुमार	पुत्र	अवि.	21	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
	11	अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	19		शि. वी कॉम. (द्वि व)		
	12	भंजयकुमार	पुत्र	अवि.	15		शि कक्षा 8		
	13	भुनीनकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि कक्षा 8		
	14	गुरेन्द्रकुमार	भतीजा	अवि.	20		शि वी कॉम (द्वि व)		
	15	गुरेशकुमार	भतीजा	अवि.	17		शि वी.एस.सी. (द्वि व)		
									पुत्र-1, पुत्री-1
230	1527	श्री राजेन्द्रकुमार खारेंड पुत्र श्री ताराचन्दजी	प प्र	वि.	28	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय	श्वे म. भुन्भुनू	154, धोबियों का मोड, आदर्श नगर, जयपुर-4 फो. न. 41182
	2	कमलेश	माता	विधवा	48				
	3	गुरेन्द्रकुमार	भाई	वि	25	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय		
	4	ममता	भा वधू	वि	20	मैट्रिक			
	5	प्रजना	पत्नी	,,	24	बी ए			
	6	गरिमा	वहिन	अवि	14	मिडिल			
									पुत्र-1, पुत्री-1
231	371	श्री राजेन्द्रकुमार खारेंड पुत्र स्व श्री सितावचन्दजी	प. प्र	वि	48	मैट्रिक	स्टेशनरी व्यवसाय	श्वे म अनूपशहर (उ प्र)	1746, तेली पाडा, जयपुर
	2	गुलावदेवी	पत्नी	,,	42	शिक्षित			राजेन्द्र बुक डिपो लाल भवन, चौड़ा रास्ता, फो न 61577
	3	अनिलकुमार	पुत्र	,,	26	शिक्षित	पुस्तक व्यवसाय		
	4	अन्जु	पु. वधू	,,	20	शिक्षित			
	5	मधु	पुत्री	अवि.	21	बी. ए.			
	6	मुमन	,,	अवि	19	बी. ए			
	7	राजकुमार	पुत्र	,,	20	इन्टर	पुस्तक व्यवसाय		
	8	जयश्री	पुत्री	,,	15		शि सं.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	744	श्री सतीशकुमार खारड पुत्र श्री सितानन्दजी 2 मधु	प प्र पत्नी	वि वि	32 30	मट्टि 30	रत खवराय	श्व म	पुत्र 1, पुत्रियां 2	श्रीमान गजानी अवन, मोरीमिह नामिका का राम्ना, जयपुर	
233	1984	श्री सुन्दरलाल खारड पुत्र श्री सितानन्दजी 2 चन्द्रबाता 3 रेखा	प प्र पत्नी	वि , पति	40 33 13	मट्टि मट्टि 13	ध्यानराय नि रामा 7	श्वे म	पुत्र 1, पुत्री 1	मठी अवन, मधीजी का राम्ना, चौडा राम्ना जयपुर-3 पान 61577 पी पी	
234	1966	श्री सीआमचन्द्र खारड पुत्र स्व श्री माथीरामजी 2 पुष्पादेवी 3 धनू 4 सुनीलकुमार 5 मोना 6 महेंद्रकुमार	प प्र पत्नी	वि वि पति , पति पुत्र	55 45 23 20 18 16	मट्टि एवं विहारद मट्टि श्री "	रतीमर रणदा ध्या नि श्री ग (प्र व) नि म	श्व म		1919, मापनी शालीं का राम्ना जयपुर राज्नीप, घादन नगर, 4-रिममार्गेट जयपुर	
235	1704/ 828	श्री आनन्द खारड श्री माठीरामजी 2 उषा 3 पत्नी 4 रविता <u>सोचा</u>	प प्र पत्नी	वि , पति "	37 34 15 13	मट्टि मट्टि मिदिन	रत दन्वाणी नि मिदिन	श्वे म	पत्नी-1	म न 2330, भी राता का राम्ना, खोहरी बाजार जयपुर पान 44913	
236	1048/ 868	श्री सुमानमल सोचा पुत्र श्री नरसीचण्डी 2 रिमराणी 3 जयमारा 4 सुतारा	प प्र पत्नी	वि वि पति पति	37 30 16 14	श्री बांग 30 16 14	मार्बिट मरा नि ही शी पी (प्र व) " कथा 8	श्वे म श्री शी (घरमर) पुत्र 1 पुत्रियां 2	36, श्रीरू हाटा गवंता, दुाराक एवं जयपुर पान 42483	2454, मोरीमिह मोमिया का राम्ना जयपुर	
237	867	श्री नरसीचण्ड सोचा पुत्र श्री भागवन्दी 2 चन्द्रादेवी 3 नाचण	प प्र पत्नी	वि वि वि	55 50 30	मिदिन श्री बांग श्री बांग	गरिम भ्यापार	श्वे म श्री शी (घरमर)		नेरुव मरर हवा मरर, मिदिन राम्ना, जयपुर	

238	866	4. वीना	पुत्रवधू	वि.	25	बी कॉम.	सर्विस	स्था	लीड़ी	चौमू हाउस, तवेला के अन्दर, जयपुर-302001
		5 समरथमल	पुत्र	वि	28	सी ए				
		6 आशा	पुत्रवधू	वि	24	बी.कॉम.				
		श्री पुनमचन्द्र खीचा	प प्र	वि.	33	मैट्रिक				
		पुत्र श्री नरमीचन्द्र								
239	1912	2 छोटू देवी	पत्नी	वि	30	मिडिल	प्राइवेट सेवा	जैन	कुशालपुर (पाली)	जमना डेयरी, सोडाला, जयपुर
		3 सजय	पुत्र	अवि	15					
		श्री कन्हैयालाल खीवसरा	प प्र	विधुर	34	मैट्रिक				
240	949/ 1063	पुत्र श्री मोतीलालजी					उद्योग	श्वे. स्था.	2007, पीतलियो का चौक, जौहरीबाजार, रोड, जयपुर-302003,	के ई सी इन्टर नेशनल, भोटवाडा, जयपुर
		2 निर्मलादेवी	पत्नी	वि.	28	मिडिल				
241	948	श्री कानमल खीवसरा	प प्र.	विधुर	55	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे स्था	2007, पीतलियो का चौक, जौहरीबाजार, रोड, जयपुर-302003,	राज. फेल्ड, आगरा फो. नं० 43093.
		पुत्र स्व श्री मिश्रीमलजी								
		2. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	28	मैट्रिक				
		3. सतोपकुमारी	पुत्रवधू	वि.	25	मिडिल				
		श्री कुशलचन्द्र खीवसरा	प.प्र.	वि.	51	एम ए.				
242	581	पुत्र श्री स्व मिश्रीमलजी					अध्यापक	श्वे स्था	2007, पीतलियो का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर	माणक चौक हा. सै. स्कूल, जयपुर
		2 शान्तीदेवी	पत्नी	वि.	45	मिडिल				
		3 महेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	23	बी. कॉम				
		4 सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	22	बी ए (द्वि.व)				
		5 सुनीता	पुत्री	अवि.	18	बी ए				
243	1411	श्री नवरत्नमल खीवसरा	प.प्र.	वि .	42	मैट्रिक	सर्विस	श्वे. जैन	2-ज-24, ज नगर, जयपुर	वीकानेर स्टोर, धी वालो का रास्ता, जयपुर-3
		पुत्र श्री कनकराजजी								
		2. शान्तीदेवी	पत्नी	वि	40	मिडिल				
		3. आशा	पुत्री	अवि	15					
244	406	3. पूरिमा	पुत्री	अवि	13		शि. हा. सै शि कक्षा 9	जैन	जोधपुर	III/98, ए जी कॉलोनी, का महालेखाकार, वजाज नगर, जयपुर-15
		श्री पारसचन्द्र मेहता	प प्र.	वि.	57	बी ए				
		पुत्र स्व. श्री उमरावचन्द्रजी								
244	406	2. सज्जनकंवर	पत्नी	वि	54	साक्षर	सर्विस	जैन	उदयपुर	41-E, वजरग मार्ग, जे पी कॉलोनी, टोक रोड, जयपुर
		श्री बलवन्तसिंह खीवसरा	प प्र.	विधु.						
		पुत्र श्री मोहनसिंहजी								
		2. राजेन्द्र	पुत्र	वि	35	इन्जिनियर				पाली

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 चंदरसिंह	पुत्र	वि	32	इंटरमीडिएट					
		4 विजेन्द्र	पुत्र	वि	28	एम काम, एम फिन प्रवक्ता डी एल एल					
245	1849/ 1679	श्री गोपालचंद खोंबसरा पुत्र श्री बलवन्तचंद जी	प प्र	वि	47	बी ई गिविल	मदिस	जन्म	जाधपुर	A/46, स्टेशन राउ बनारज नगर	
		2 ममला	पत्नी	वि	40	मैट्रि					
		3 सजय	पुत्र	प्रवि	21		शि बी कॉम (तु प)				
		4 बदना	पुत्री	प्रवि	19		शि एम ए				
		5 प्रचना	पुत्री	प्रवि	16		शि प्र				
246	20	श्री रणजीतमल खोंबसरा पुत्र श्री माणकमलजी	प प्र	वि	56	एम ए, बी एनमी एमएनबी	समा विद्वत्	श्व म	जोधपुर	डी 73 (बी), गिवाड एरिया, बागूमगर जयपुर, फोन 62293	
		2 ललिता	पत्नी	वि	51	मिडि					
		3 रघुवीर	पुत्र	प्रवि	22	बी कॉम	शि सी ए				
		4 रागन	पुत्र	प्रवि	19	बी कॉम	शि सी ए				
247	1911	श्री रामलाल खोंबसरा पुत्र श्री मोनीलालजी	प प्र	वि	38	बी काम	गोतरी	जन्म	तुंगानपुर	डी 23, जमाननगर प्रभकर रोड, जयपुर	मादी स्टोन 1 प्रभकर रोड, जयपुर, फोन 63019
		2 मोहनीदेवी	माता	विधवा	65						
		3 मधुलतादेवी	पत्नी	वि	34	मैट्रि					
		4 श्री राजेश	पुत्र	प्रवि	16		शि हा से				
		5 सध्या	पुत्री	प्रवि	13		शि एम 6				
248	1149	श्री सुरेश खोंबसरा पुत्र स्व श्री उगमराजजी	प प्र	वि	27	सी ए	लेखाधिनारी	जन्म		बी 109, मरहजी माम, बनारजानगर जयपुर, फोन 63874	दक्षिण घायल हाथों राम, 1इ दिल्ली जन्म मार्ग एण्ड क पाट एवाउटेन्ट वटेवा नगर, एम आई रोड, जयपुर, फोन 64892
		2 सुनील	भाई	प्रवि	24	सी ए	प्रेविटम				
		3 शाना	माता	विधवा	50	मिडि					
		4 प्रनिता	पत्नी	वि	24	एम ए					
249	474	श्री सुरेशचंद मेहता पुत्र श्री गिजबन्धजी	प प्र	वि	31	हा म	मॉगि	जन्म	जाधपुर	गोवाला का रान्गा, श्रीवा भोराहा, पूकी बाबा का मोहला, गोतीबाग भवन जयपुर	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल जयपुर
		2 मा-नीदेवी	पत्नी	वि	28						

गृहिता-1

पुत्र-1 पुत्री-1

पुत्र-1

पुत्र-2 पुत्रिणी-2

250	1358	हरीशचन्द्र खीवरारा पुत्र श्री संपतमनजी	प.प्र	वि	73	मैट्रिक	सेवा निवृत्त	जैन श्वे. जोधपुर	मेहता हाउस, ई/57/61, चितरन्जन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फो नं. 63080	चिकित्सा सेवा यू.ए.ई रा फाइनेन्शियल को. उद्योग भवन, जयपुर. फो नं. 62084
		2. उमम कंबर	पत्नी	वि.	70	साक्षर				
		3. डा. महावीर	पुत्र	वि.	53	एम बी बी एस.एम डी. सर्विस			77732	
		4. कला	पुत्रवधू	वि	47	एम बी.बी.एस. सर्विस				
		5 महिपान	पुत्र	वि.	44	बी.ए.,एल एलबी., बी एम.	मैनेजर			
		6. शकुन्तला	पुत्रवधू	वि	40	मैट्रिक				
		7 महेन्द्र	पुत्र	वि	42	बी.एससी., बी ई (मैक.)	मैनेजर	जी-43/ए, ईस्ट ब्रॉफ कैलाश, नई दिल्ली- 110065	सिमको इंटरनेशनल, दिल्ली फो नं 44381	
		8. शकुन	पुत्रवधू	वि.	38	बी ए		फो. न. 632798		
		9. मन्जुल	पुत्र	वि.	37	एम बी बी एस. डी.टी.सी.डी., एम.सी सी पी.	चिकित्सक	26/22 शक्तिनगर दिल्ली-110007 फोन 7114819	क्लीनिक फोन 534055	
		10. कमला	पुत्रवधू	वि.	33	बी एससी.	सहायक	ई-57/61, चितरन्जन		
		11. महेश	पुत्र	वि.	34	बी.कॉम,एलएल बी	बैंक सेवा	मार्ग, मेहता हाउस, सी-स्कीम, जयपुर फो.न 77732/ 63080	बैंक फो नं. 16612 सिंडीकेट बैंक, एम आई. रोड, जयपुर फोन 66447	
		12. वसन्ती	पुत्रवधू	वि.	32	एम.ए., बी एड	बैंक सेवा	”	स. रा. ग्रमेरिका	
		13. दीपक	पुत्र	वि.	34	बी ई. (मैक.)	सर्विस	”		
		14. मंजु	पु. वधू	वि	30	बी.ई (इले.)		”		
		15. अनुराग	पुत्र	अवि	29		शि. एम.बी.बी.एस.			
		16. प्रमित	पुत्र	अवि.	16		शि हा. सै.			
		17. प्रंजु	पुत्री	अवि.	15		”			
		<u>गधिया, गाधिया, गधिया, गधिये</u>								
251	1265	श्री अभयकुमार गधिया पुत्र श्री सरदारीलाल जी	प. प्र	वि	40	मैट्रिक	फैक्ट्री एवं दुकान	जैन	481, राजा पार्क, जयपुर	श्रीमवाल सेल्स कारपो., 481, राजा पार्क, जयपुर फो नं 44340
		2 श्रीलवती	माता	विधवा	65	मैट्रिक				
		3 श्रीमल	पत्नी	वि.	39	मिडिल				
		4. राजेश	पुत्र	अवि.	17		शि. हा. सै.			
		5. नरेग	पुत्र	अवि.	15		शि कक्षा 8			
252	1299	श्री इन्द्रसेन गधिया पुत्र श्री सुन्दरदासजी	प. प्र.	वि.	52	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे. स्था स्यालकोट (पाकिस्तान)	248, आदर्श नगर, जयपुर, फो.नं 44089	
		2. सन्तोष	पत्नी	वि.	48					

पुत्र-5 पुत्रियां-3

पुत्र-2 पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 दोपन	पुन	घवि	18						
		4 घनवा	पुनी	घवि	21	एम ए					
253	1434	श्री कपुरचंद गाबिया	प प्र	वि	63	मट्टि	उद्योग				
		पुन श्री सुन्दरामजी						शकम्बा		249, ब्राम्भ नगर, जयपुर, पो नं 40796	मरिवा इन्स्टीट्यूट, बी 27, इन्स्टिट्यूट एस्टेट, जयपुर, पो नं 61893
		2 चन्दर	पत्नी	वि	62	"					
		3 श्रीमतीनाम	पुन	वि	38	"					
		4 यशपाल	पुन	वि	36	"					
		5 रविरामा	पुनवपू	वि	36	"					
		6 सुदेशगनी	पुनवपू	वि	34						
		7 मणीना	पौनी	घवि	18		वि बी ए				
		8 पवज	पौनी	घवि	16		वि हा म				
		9 घनल	पौन	घवि	14		वि बी ए				
		10 रितु	पौनी	घवि	14		वि बी ए				
		11 लजन	पौन	घवि	13		वि बी ए				
254	1286	श्री पवनकुमार गाबिया	प प्र	वि	47	माहिप निगर	उद्योग				
		स्व श्री पुन राजकुमारजी						शकम्बा	स्वामराट	नं 66 ए, माहिप, नितन नगर, जयपुर पो नं 64165	
		2 मरोत्र	पत्नी	वि	46	मिट्टिन					
		3 मनीलकुमार	पुन	वि	24	मिट्टिन	उद्योग				
		4 मीनू	पुनवपू	वि	23	हा म					
255	557	श्री देवराज गाबिया	प प्र	वि	75	मिट्टिन	धनगान				
		पुन श्री उममचन्द जी						न		नगर 1-ग 11, जवाहर नगर, जयपुर	घानवार गाव पत्नी, इन्स्टीट्यूट मरिवा, 200, मीनवाडा, जयपुर फोन नं 942254
		2 लीपादेवी	पत्नी	वि	55	मिट्टिन					
		3 देवकुमार	पुन	वि	36	हा म	धनगान				
		4 माता	पुनवपू	वि	34	मिट्टिन					
		5 सुदेशकुमार	पुन	वि	31	हा म	धनगान				
		6 मधु	पुनवपू	वि	29	बी ए					
											जयपुर उममचंद देवराज रा एमएम बी का रागा, होदरी बाजार जयपुर पो नं 42241

		7	यतेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	26	मैट्रिक	व्यवसाय				ओसवाल इण्डस्ट्रीज
		8	स्वीटी	पुत्रवधू	वि.	24	हा सै					एफ. 395 विश्वकर्मा
		9	वीरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	22	मैट्रिक	व्यवसाय				इण्ड. एरिया, रोड़ न. 9 जयपुर फो. नं. 832248
256	1136		श्री मनोहरलाल गादिया	प प्र.	वि.	32	एम.कॉम	नौकरी	श्वे. स्था			1158, किसान मार्ग, वरकत नगर, टोक
			पुत्र स्व श्री फूलचन्द जी									
		2	रुकमणीदेवी	माता	विधवा	59						रोड़, जयपुर, फोन नं. 72341
		3.	सुशीला	पत्नी	वि	30	बी. ए.					
257	38		श्री महेन्द्रपाल गधिये	प प्र	वि.	40	मैट्रिक,आई.टी आई. विजली उपकरण		जैन			2/407 मालवीया
			पुत्र श्री कस्तूरीलाल जी				(इलेक्ट्रिकल)	सेल्स-सर्विस				नगर, जयपुर-17 फो.न. 72823 पी पी
		2	पदमावती	माता	विधवा	60						महेन्द्रा इन्जीनियरिंग वर्क्स, सम्राट सिनेमा के सामने, जयपुर फो. नं 40741
		3	सयोगिता	पत्नी	वि.	35	हा सै					
		4	ओमप्रकाश	आता	वि.	26	मैट्रिक	विजली उपकरण				
		5	सुमन	आतृवधू	वि.	25	बी.ए.	व्यापार				
258	2234		श्री मानकचन्द गधैया	प प्र.	वि	45	बी.काम., एलएल बी.	हार्ड वेयर व्यापार	श्वे.ते नोहर			ढेर के बालाजी, फो न 842723
			पुत्र श्री फूसराजजी									अजय हार्ड वेयर स्टोर, विश्वकर्मा, रोड़ नं. 5
		2	पुष्पा देवी	पत्नी	वि.	42						
259	37		श्री यशपाल गधैया	प प्र.	वि.	35	मिडिल	होजरी की दुकान	जैन			212 ए, राजापार्क, गली नं. 1, जयपुर फो न 40741 पी पी.
			पुत्र स्व. श्री कस्तूरीलाल जी									मै. एन आर ओसवाल होजरी, 3 सचेतीमार्केट, धूला हाउस के सामने वापू बाजार, जयपुर-3
		2	सुनीता	पत्नी	वि	29	मिडिल					
260	8		श्री सम्पतकुमार गधैया	प प्र.	वि	52	एलएल. बी	कपडे का व्यवसाय	श्वे. ते	सरदारशहर		डी-38, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फो. न 62615
			पुत्र श्री नेमीचन्दजी									
		2	सुन्दरकुमारी	पत्नी	वि	50						
		3	स्नेहकुमार	पुत्र	”	30						
		4	सुविधीकुमार	पुत्र	”	26						
		5	स्वयप्रभा	पुत्रवधू	”	28						
		6	स्वयसिद्धा	”	”	24						
261	384/ 1229		श्री सुरेन्द्रकुमार गादिया	प प्र.	वि	45	एम ए	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था.	आगरा		पालेचा भवन, 3884, मै पद्मेन्द्र जैम्स, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, (तीसरा चौराहा) जौहरी बाजार, जयपुर-3 फो न. 45331
			पुत्र स्व श्री सिताबचन्दजी									भारभूर हाउस, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो न 42365
		2	आशाकुमारी	पत्नी	वि	39	मैट्रिक					
		3	सुमत	पुत्र	अवि	23	बी कॉम, एलएत.बी. (प्र व)	एव रत्न व्यवसाय				
		4	सध्या	पुत्री	अवि	20		बी.एस सी (तृ. व)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 मयना			17		मि ग				
		6 मयीता			14		मि यशा 8				
		7 मुनीता			13		मि यशा 7				
		गांधी									
262	1952	श्री धनोदकुमार गांधी	प	प्र	मि	27	काठर	नीरवी	पे सं	राजगी	के जी एमएलएम, (काठर) 4450, कोडागी राजग
		पुत्र श्री हीराचण्डी									के जी श्री का राणा चौरवी बाजार अमपुर पो नं 45945 जी की
		2 रजनी	पत्नी	मि		21	काठर				को 113 गणपती मार्गे बजाज एम, अमपुर
											अकोरी एमएलएम हाता, मि एमएलएम मुकना पो 300 बापाई 620 विराम
263	709	श्री इन्द्रचण्डी गांधी	प	प्र	मि	59	श्री राम एमएलएम	विजयवट काठर काठर	पे सं	काठर	को 113 गणपती मार्गे बजाज एम, अमपुर
		पुत्र श्री मदनराजजी									
		2 राणा	पत्नी	मि		54	मा ए				
		3 सुवराज	पुत्र	मि		15	श्री - (पे सं)	माठर एमपीएलएम			
		4 राजकुमार	पुत्र	पति		21	श्री राम	मि जी ए			
264	1515	श्री बजरामजी गांधी	प	प्र	मि	85		विजय	पे सं		दुर्गापुर, पे सं एमएलएम, माधव एमए एमएलएम 104 अमपुर
		पुत्र श्री राजचण्डी									
		2 मुनीताजी	पत्नी	मि		65					
		3 अमरा	पुत्र	पति		22		मि एम चौरवी			
265	2109	श्री बजरामजी गांधी	प	प्र	मि	54	काठर	पे सं	पे सं		को 215 मनु मार्गे कोरावडी का पे सं एमएलएम अमपुर एमपीएलएम का पो नं 46964 राणा अमपुर
		पुत्र श्री राजचण्डी									
		2 विमला	पत्नी	मि		50	श्री राज				
		3 विनीत	पुत्र	मि		31	श्री राज				
		4 घाभा	पुत्र	मि		24	काठर				
		5 मनाद	पुत्र	पति		20					
266	382	श्री बहालमल गांधी	प	प्र	मि	65	मि विजय	मि श्री राम (पे सं)			
		पुत्र श्री धीरमराजजी									
		2 महताचण्डी	पत्नी	मि		59	मि विजय				
267	1309	श्री बहालमल गांधी	प	प्र	मि	43	काठर	पे सं चौरवी	पे सं		पो नं 4343, एम- मानीका चौक, अमपुर, पो नं 6960 पो नं 40312 जी की 1918 चौरवी मदन को देव मार्ग एमएलएम का एमएलएम एमएलएम अमपुर, 302003 एमएलएम का एमएलएम अमपुर
		पुत्र श्री माणनराजजी									
		2 विमला	पत्नी	मि		38	काठर				

						फो.नं. 74709					
268	453	3. राकेशकुमार	पुत्र	अवि.	20	वी.एससी.	शि. इन्जी.	श्वे.स्था.	म.नं. 205, भीन हाउस, हल्दियो का रास्ता, बुलियन के पीछे,		
		4. निशा	पुत्री	अवि.	18		शि. बी.एससी.				
		श्री गणेशीलाल गांधी	प. प्र.	वि.	59		मुनीम				
		पुत्र श्री सोहनलालजी									
		2 कमलादेवी	पत्नी	वि.	57						
		3. प्रेमचन्द	पुत्र	वि.	32		व्यापार				
		4. रमीला	पुत्रवधू	वि.	30						
		5. निहालचन्द	पुत्र	वि.	23		व्यापार				
269	944	6. मजु	पुत्रवधू	वि.	20			पुत्र-2, पुत्रिया-3	जैन	बेरी का बास, कुन्दीगर के मैरूँ का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर	रामललाजी का रास्ता, बोहरो की गली, जयपुर
		7. सुभाषचन्द	पुत्र	अवि.	21		नौकरी				
		8. आशा	पुत्री	अवि.	19						
		श्री तिलोकचन्द गांधी	प प्र	वि.	39	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		पुत्र श्री हरदयालचन्द									
		2. विमला	पत्नी	वि.	37	मैट्रिक					
		3 सजय	पुत्र	अवि.	19		शि. हा. सै				
		4. संगीता	पुत्री	अवि.	16		शि. सै.				
5. विनीता	पुत्री	अवि.	14		शि. कक्षा 9						
270	41	श्री परसनचन्द गांधी	प प्र	वि.	52	मैट्रिक	राज्य कर्मचारी	श्वे.स्था.	म.न 3691, गांधी कार्या. कामशियल इन्स्टीट्यूट, अभियन्ता, जिला मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जौहरीवाजार, जयपुर	कार्या. अधिशापी खण्ड प्रथम, डी-143ए बनीपार्क, जयपुर फो.नं. 62189 बैंक ऑफ बड़ोदा, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, 302002	
		पुत्र श्रीभक्तारचन्दजी									
		2 कमला	पत्नी	वि.	50	मिडिल					
		3. दीलतचन्द	पुत्र	वि.	28	एम कॉम, पी जी. बैंकिंग एव वित्त	प्रधान रोकडिया				
		4 हेमसता	पुत्रवधू	वि.	26	सी ए ग्राई ग्राई बी प्रथम					
		5 मिलापचन्द	पुत्र	अवि.	24	बी ए पी जी बैंकिंग एव वित्त	शि एलएल बी (द्वि वर्ष) राज्यकर्मचारी				
		6 खुशालचन्द	पुत्र	"	22		शि बी कॉम. (द्वि व) सचालक				
		7. शशी	पुत्री	"			शि. बी ए. (द्वि. व)				
						पुत्र-3, पुत्रियाँ-3		गांधी कॉम. इन्स्टीट्यूट मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जयपुर			

277	1624	मदनसिंह गांधी पुत्र श्री रतनलालजी 2 मोहनकुमारी	प प्र वि पत्नी वि.	50 44	वी.कॉम. 44	रत्न व्यवसाय	जैन रतलाम पुत्री-1	उदय भवन, कसेरो की गली, घीवानो का रास्ता, (दड़ा), जौहरी बाजार, जयपुर 45, धूलेश्वर बाग, सी-स्कीम, फो. 78951	चांपावत मार्केट, जौहरी बाजार, जयपुर फो. 40472 ज. इन्जि कार्पो, 20, मोतीलाल अटल रोड़, जयपुर 79226,
278	2231	श्री सीठालाल गांधी पुत्र श्री धीगड़मलजी 2. कमलादेवी 3. सुशीलकुमार 4. उपादेवी 5. गणपतलाल 6. चन्द्रादेवी 7. सन्तोष	प प्र. वि पत्नी वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि. पुत्र अवि. पुत्री अवि. पुत्री अवि.	42 38 22 19 19 16 14	इन्टर कॉम साक्षर वी एससी, डी. वी एम हा. सै वी.कॉम.	मशीनरी के व्यापारी मशीनरी व्यवसाय	श्वे ते वालोटरा शि. एलएल वी. शि. हा. सै शि सै.	3831, एम एस. वी. का रास्ता, जयपुर	
279	451	श्री राजेन्द्रकुमार गांधी पुत्र श्री भागचन्दजी 2 गुलाबवाई 3 धन्नावाई 4. सम्पतदेवी 5. नरेन्द्रकुमार 6. मालादेवी	प. प्र. वि दादी विधवा माता विधवा पत्नी वि. भ्राता वि. भ्रा वधू वि	29 64 50 23 26 22	मैट्रिक साक्षर मैट्रिक मिडिल वी.कॉम (द्वि.व.) मिडिल	व्यवसाय	श्वे. म. पुत्र-1, पुत्री-1		
280	1308	श्री सतीशचन्द्र गांधी पुत्र श्री मारणकचन्दजी 2 इन्दुदेवी 3. कमलेश 4. नीलेश	प प्र. वि माता विधवा पत्नी वि. पुत्र अवि	41 60 36 15	वी ए हा सै	वैक ऑफिसर	जैन पुत्री-1	C/o आर डी. गोयल, एस आई आनन्दपुरी, जयपुर	यू. को. बैंक, पाँच बत्ती, एम. आई. रोड, जयपुर
281	1583	श्री सुन्दरलाल गांधी पुत्र श्री रूपचन्दजी 2. महेन्द्रकुमार 3. किरण 4. कमला	प. प्र. वि पुत्र वि. पुत्रवधू वि. पुत्र अवि.	48 27 21 20	मिडिल हा. सै. हा. सै हा. सै	नगर परिषद् जयपुर	श्वे बहरोड़ स्था (अलवर) पुत्री-1	वान्दीकुई वालो का मकान, वा. गणगौर का चौराहा, जयपुर	
282	1583	श्री ज्ञानचन्द गांधी पुत्र श्री उमरावसिंहजी 2. प्रेमकान्ता	प. प्र. वि पत्नी वि	55 50	इन्टर मिडिल	व्यापार	श्वे. बहरोड़ स्था. (राज)	4343, छावडा भवन, नथमलजी का चौक, जौहरी	ढड्डा मार्केट, जौहरी बाजार, जयपुर

287	1764	श्री दशवीलवास बाथजयानी पुत्र श्री मगनलाल जी	प प्र	वि	हा सं.		श्वे श्या मोरवी	म न 5457, मठ का कुमा, गैरुंजी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2 स्वमणी देवी	पत्नी	वि.	65	शिक्षित		
		3. नरेन्द्रकुमार	पुत्र		36	मिडिल	व्यापार	
		4 जवाहरलाल	पुत्र		38	मिडिल	एजेन्ट	
		5. जितेन्द्रकुमार	पुत्र		28	मिडिल	सर्विस	
		6 दिनेश कुमार	पुत्र		24	मिडिल		
288	1615	श्री नटवरलाल देसाई पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	56	मिडिल	रत्न व्यवसाय	जैन मोरवी
		2 सुनीला	पत्नी	वि.	50	मिडिल		जौहरी बाजार, पीतलियो का चौक, जयपुर-3
		3 विनोदकुमार	पुत्र	वि.	34	बी. कॉम.	रत्न व्यवसाय	
		4. कुमुदनी	पु वधू	वि	26			पुत्र-1
289	1354	श्री प्रकाश डी. जैन पुत्र श्री धीरजलालजी	प. प्र	वि.	34		रत्न व्यवसाय	श्वे मं खभात
		2. ज्योतिषेन	पत्नी	वि	31			पुत्र-1
290	2453	श्री पी. वी. जवेरी पुत्र श्री वी. जवेरी	प प्र	वि	56	इन्टर	रत्न व्यवसाय	जैन
		2. सुनन्दा	पत्नी	वि	50	इन्टर		सुभाप विला, डी-30 सुभाप नगर, सी-स्कीम, जयपुर
		3. मोहित	पुत्र	अवि	14		शि कक्षा 9	वी सी दुर्लभजी, 135, जौहरी बाजार, जयपुर
291	484	श्री वसंताभाई भवसार पुत्र श्री चिमनलालजी	प प्र	वि	40	मैट्रिक	रत्न मजूरी	श्वे म खभात
		2 चिमनलाल	पिता	वि	69	साक्षर		चिरंजीलाल विल्डिंग, वापूवाजार, तेलीपाडा, पटवो का रास्ता, जयपुर
		3. ललिता	माता	वि	64	साक्षर		सूरतवाला विल्डिंग धी वालो का रास्ता, तीसरा चौराहा, जयपुर
		4. मुकु द	भाई	वि	33	मैट्रिक	रत्न मजूरी	
		5. भारती	पत्नी	वि	28	मैट्रिक		
		6. पुष्पा	भ्रा प	वि	28	शिक्षित		पुत्र-1 पुत्रियाँ-2
292	1383	श्री भद्रिक भाई जैन पुत्र श्री धीरजलालजी	प प्र	वि	44		रत्न व्यवसाय	श्वे मं खंभात
		2. हसा	पत्नी	वि	43			1433, बारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		3. नीरज	पुत्र	अवि	13			फो.नं 75711पीपी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	733	श्री विमलकांत बेसाई पुत्र श्री हृदयचन्दजी 2 पद्मा 3 सपन 4 कुमारपाल	प प्र पत्नी पुत्र भाई	वि वि श्रवि वि	35 30 14 28	बी ए बी ए श्री मिडिल बी वाम	रत्न व्यवसाय श्री मिडिल व्यवसाय	जन	वित्तनगर	बेसाई मैशन, ऊंचा कुम्रा, हल्दिमा वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन नं 41080	1697ए ऊंचा कुम्रा, सपन एषमपोट, हल्दिमा वा रास्ता, जयपुर फो 41080 एस के ट्रेडर्स चन्दपोख बाजार, जयपुर
294	1418	श्री सोरेन्द्र शाह पुत्र श्री भगवानजी 3 अरुणा 3 शिबेन 4 छाया	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री	वि वि श्रवि श्रवि	46 43 22 16	इंटर बी वॉम एल एलबी ए सी ए	मरिस टवम प्रेविट श्री हा म	श्वे म	सुरेन्द्रनगर	C/o पुनलिया हाउस T 2369, एम एस बी का रास्ता जोहरी बाजार जयपुर	C/o पादम ट्रेडर्स, B 22, एम जी डी मार्फेट, त्रिपोलिया, जयपुर
295	2455	श्री शांतिसाल सुलभजी पुत्र श्री सुलभजी 2 बृदालेवी 3 हृदयचन्द 4 उमिलालेवी 5 सुनील 6 मरोजदवी 7 हरीश 8 वजयंती	प प्र पत्नी पुत्र पु पुत्र पु पु पु	वि वि वि वि वि वि वि	74 67 43 39 41 37 38 33	बी ए एल एल गी मिडिल एम ए मट्रिक एम ए बी ए बी ए	रत्न व्यवसाय मोटर व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		दुलभ पुंज, ए कालोनी, जयपुर फो न 73814	129, जोहरी बाजार जयपुर फो न 48612
296	1676	श्री होरासाल बेसाई पुत्र श्री भगनलालजी 2 सुपोला 3 राजन गुजरानी	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि श्रवि	62 56 22	मट्रिक शिक्षित बी वॉम	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	जैन	मोरवी	जोहरी बाजार, पीतलियो वा चौक, जयपुर-1	129, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 48612 जोहरी बाजार गोपानजी वा रास्ता, रोबाला T चौक, जयपुर
297	2034	श्री केशरीचन्द गुजरानी पुत्र श्री श्रीचन्दजी 2 माणकदेवी	प प्र पत्नी	वि वि	35 30	मट्रिक इंटर	रत्न व्यवसाय	श्वे त		2447, गुजरानी हाउस धीवालो वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 45111/वी पी	

पुत्र 1

पुत्र-1 पुत्री-1

पुत्र-2 पुत्रिया 2

पुत्र 1 पुत्रिया 2

298	2155	श्री चन्दनमल गुजरानी पुत्र श्री श्रीचन्दजी 2. गुलाब 3. नवरतन 4. हीरा	प.प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	45 40 20 18	मिडिल शिक्षित	रत्न व्यवसाय शि बी कॉम. शि बी एससी.(प्र व.)	श्वे ते.	गुजरानी हाउस, न्यू मार्केट, घीवालो का रास्ता, दडे पर जयपुर फो नं 45111
299	2233	श्री धनपत गुजरानी पुत्र श्री फूलराजजी 2 प्रेमलता	प प्र पत्नी	वि. वि.	30 27	एम.ई हा.सै.	सर्विस	श्वे ते. वीकानेर	ई-33, अम्बाबाडी, जयपुर राजस्थान ट्रान्सफार्मर्स फो.नं. 842789
300	2069	श्री पूनमचन्द पुत्र श्री श्रीचदजी गुजरानी 2. सरितादेवी	प प्र. पौत्री	वि. वि.	32 27	बी कॉम मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे ते.	गुजरानी हाउस, न्यू मार्केट, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार फो नं. 45111 पी पी. गुजरानी भवन, घीवालो का रास्ता, न्यू मार्केट, जयपुर फो न. 45111
301	2033	श्री विजयचन्द गुजरानी पुत्र श्री चन्दजी 2 पुष्पादेवी 3. मारणकचन्द 4. शशिकला <u>गुनेचा</u>	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्री	वि. ,, अवि. अवि	42 36 18 17	मिडिल मिडिल	रत्न व्यवसाय शि. एम.वी.वी एस. शि. बी.ए (प्र.व.)	श्वे. ते.	गुजरानी हाउस, न्यू मार्केट, घीवालो का रास्ता, न्यू मार्केट, जयपुर फो न. 45111
302	2266	श्री कन्हैयालाल गुनचा श्री घासोरामजी 2. सामर <u>गुलगलिया</u>	प प्र पत्नी	वि. वि.	36 34	बी ई मिडिल	सर्विस	श्वे ते लाडनू पुत्र-1 पुत्री-1	ए-101, जनता कॉलोनी, जयपुर राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, जयपुर
303	2232	डालचन्द गुलगलिया पुत्र श्री खीवराजजी 2. गिन्नीदेवी 3 विमल <u>गेमावत</u>	प. प्र पत्नी पुत्र	वि वि अवि.	41 38 18	मैट्रिक ,,	सर्विस शि. बी.ए. (प्र. व)	श्वे ते भीनासर पुत्र-1	9-ए, आनन्द लैम्प, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भोटवाडा फो न. 842444
304	602	श्री पुठरमल गेमावत पुत्र श्री उम्मेदमलजी 2 सुधीन्द्र 3. विमता 4. गरिमा	प. प्र. पुत्र पु वधू पौत्री	विधुर वि. वि. अवि.	76 50 48 17	शिक्षित एम.ए एलएल.बी. मिडिल	सेवा निवृत्त सर्विस शि बी.ए (प्र.व.)	जंन सिरौही	3-न-3, जवाहर नगर, जयपुर फो. नं 43679 उपसचिव, वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>गेलडा</u>									
305A	641	श्रीरत्नाचर गेलडा पुत्र श्री माणवचरजी 2 सरोज	प प्र परती	वि वि	34 25	इष्टर मिडिल	मुनीम	श्व त चोरावड पुत्र-2, पुत्री-1	म न 4794, ने जी बी रा रागा, जयपुर 3 फोन 41483	गुप्ता नमोचन, मुनमारिया भरा, मिपोरिया बाजार, जयपुर	
305B	2476	श्री श्यामगुडर गेलडा रन गोभालाचरी 2 गमुतलादेवी 3 नरसुमारी 4 देवेद्रुमार 5 वीतादेवी	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र पुत्रवधू	वि नि प्रवि वि वि	62 59 39 36 27	एन एन सी (टर) स्टुडनरन टिकीनचरिय मूयम श्री लमो बोम्मो बो ए	शिक्षण मडिटाल रिप्रेजे टेटिव		46 सधाम वॉनोरी, 'सी' स्कीम जयपुर फोन 76837		
		<u>गोरारू</u>									
306	1165	श्री प्रमोदगुमार गोवरू पुत्र श्री प्रेमचरजी 2 प्रलिन 3 प्रद्युम्न 4 प्ररिण	प प्र भ्राता ,, भतीजा	नि प्रवि प्रवि प्रवि	28 21 20 19	वी वॉम सी ए (इटर)	गोररी	जग		509 बरकत नगर, टाक पाटन, जयपुर	
307	693/ 1014	महेन्द्रसिंह गोवरू पुत्र श्री रात्रसिंहजी 2 शशिकाता	प प्र पत्नी	वि वि	32 30	एम नाम मिडिल	वरिष्ठ सहायन वेगा	जन भोनवाडा पुत्र 2 पुत्री 1		श्री मिडिराज जी इन्डा रा मवान, लाल भवन ने पीछे, खोडा रास्ता	
308	761	श्री मूलचर गोवरू पुत्र श्री हरनरत्न जी 2 विमला देवी 3 प्रवीण 4 वमल	प प्र पत्नी भ्राता भतीजा	वि वि प्रवि प्रवि	35 31 22 18		हा स शि सी ए शि बी ए (ट्रिव)	जन टाक पुत्र 1, पुत्रियां 2		प्लाट न ए/16 जाता मरुविट एण्ड वॉनोनी, जयपुर, फोन 42857 वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 44715	
		<u>गोटावत</u>									
309	843	श्री माणवलाल गोटावत पुत्र श्री मागीनाथ 2 मोहनलाल 3 भेराबाई 4 मुरश	प प्र पुत्र पुत्रवधू पुत्र	विपुर वि वि वि	55 36 34 28	उद्योग मैट्रिक मिडिल मैट्रिक	उद्योग	जन गोवत	श्री/157ए दुर्गा मग, बनीपाक, जयपुर फोन 66413	श्री 123 रोड न 9, श्री रे धाई एरिया, जयपुर, फोन 832595	

310	1335	श्री रामराम गोटावज पुत्र श्री तेजराज जी 2 चाद	5. वसती 6 विमल 7 संतोप	पुत्रवधू वि. पौत्र अवि. पौत्री अवि. प. प्र वि पत्नी वि	26 मिडिल 14 15 एम.ई. 32 बी एससी.	शि कक्षा 9 शि. कक्षा 10 सर्विस	पुत्र-3, पुत्रिया-3 जैन जोधपुर	विजय विला लालजी जे.एम सी बिल्डिंग, का बाग, संसारचन्द्र पावर हाउस रोड़, रोड़, जयपुर जयपुर	
गोलेछा, गोलछा									
311	2030	श्री उमरावमल गोलेछा पुत्र श्री तेजकरराजी 2. रूपकुमारी 3 प्रेमचन्द 4. विमलचन्द 5. हरिशचन्द 6. रिखवचन्द 7. सजय 8. अजय 9. निर्मल 10. चन्द्रकान्ता 11 सुशीला 12 शैला	प. प्र. वि पत्नी वि. पुत्र वि. पुत्र वि. पुत्र वि. पुत्र वि. पौत्र अवि. पौत्र अवि. पौत्र अवि. पुत्रवधू वि. पुत्रवधू वि. पुत्रवधू वि.	68 मिडिता 59 40 इन्टर 36 इन्टर 30 सै. 21 बी.कॉम. 17 15 13 33 सैके 35 सैके 27 बी ए	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय शि हा सैके. शि सै. शि कक्षा 9	पुत्र-1 पुत्रियाँ-2	2310, घी वालों का मै. प्रेमचन्द विमल रास्ता, जौहरी बाजार, चन्द गोलेछा, घी जयपुर-3 वालो का रास्ता, जयपुर, फो. नं. 45824 फो न. 40416		
312	1	श्री केशरीचन्द गोलेछा पुत्र स्व श्री कालूरामजी 2 शान्तिदेवी 3 कुशलचन्द 4 विमलचन्द 5 कमलचन्द	प.प्र. वि. पत्नी वि. पुत्र अवि. पुत्र अवि. पुत्र अवि.	45 बी कॉम. 40 मिडिल 20 बी.कॉम 18 14	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं.	3978, एम एस बी का रास्ता, जयपुर, फो, 40747		
313	1640	श्री गुलाबचन्द गोलेछा पुत्र स्व श्री मागीलाल जी 2 प्रेमकुमारी 3 रतनकुमार 4 शशी 5 प्रदीप कुमार	प प्र वि. पत्नी वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि. पुत्र अवि.	56 बी.ए (सा रत्न) 52 मिडिल 28 एम.कॉम. 26 मैट्रिक 24 बी.एससी.	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे म. पुत्र-1 पुत्री-1	2310, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-302003 फो न. 4313		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	2438	श्री महतामचन्द्र गोलेछा पुत्र स्व श्री राजमलजी	प प्र	वि	63	मैट्रिक	उद्योग	स्वे म		गोलेछा गाडन आगरा रोड, जयपुर, फो न 43138	फा न 40160 49801
	2	जतनकवर	पत्नी	वि	56	मिडिल					
	3	राजेन्द्र	पौत्र	वि	42	बी ए	उद्योग				
	4	आशा	पौत्रवधू	वि	38	बी ए					
	5	विजय	पडपोत्र	अवि	18		शि बी ए (प्र व)				
	6	दीपाली	पडपोत्री	अवि	15		शि स				
	7	शेखयानी	" "	अवि	13		शि यथा 8				
325A	2477	श्रीमहेन्द्रकुमारगोलेछा पुत्र श्री रत्नमलजी	प प्र	वि	51	इंटर	व्यापार	जन		म न 3760, के जी बी वा रास्ता, जयपुर, पोस्ट बाक्स न 269, फो न 45712	
	2	मैनापुमारी	पत्नी	वि	45	मैट्रिक					
	3	राजीव	पुत्र	वि	25	"	व्यापार				
	4	शशि	पुत्रवधू	वि	20	मिडिल					
	5	हरीश	पुत्र	अवि	23	मैट्रिक	व्यापार				
	6	चित्रा	पुत्री	अवि	21	मैट्रिक					
	7	राजेन्द्रकुमार	भाई	वि	45	बी कॉम,	व्यापार मार्केटिंग				
	8	बसुन्दा	आ वधू	वि	39	बी ए					
	9	निरिता	पुत्री	अवि	16		शि स				
	10	वदिता	पुत्री	अवि	14		" यथा 8				
	11	गुरेन्द्रकुमार	भाई	वि	44	इंटर	रत्न व्यवसाय				
	12	मञ्जु	आ वधू	वि	31	मैट्रिक					
325B	1379	श्री महेन्द्रकुमार गोलेछा पुत्र श्री रतनचन्द्रजी	प प्र	वि	28	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	स्वे म		नधमलजी वा चौक, म न 4372 के जी बी वा रास्ता, जयपुर 3	
	2	रतनदेवी	माता	विधवा	45	मिडिल					
	3	निमला	पत्नी	वि	25	मैट्रिक					
	4	राजेन्द्र	भाई	अवि	21	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
	5	नीता	बहिन	"	18		शि हा स				
326	2	श्री माणिकचन्द्र गोलेछा पुत्र स्व श्री कालूरामजी	प प्र	वि	58		रत्न व्यवसाय	स्वे म		4840, सोंतिया वा मोह्ला, के जी बी वा रास्ता, जोहरी गजार, जयपुर,	
	2	विदामबाई	माता	विधवा	75						
	3	नवरबाई	पत्नी	वि	54						

पुत्र-1 पुत्रियाँ-3

पुत्र-1

		4. महेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	35	सी ए	सर्विस		11/11 ए, मैफेयर	शांति निकेतन,
		5 नरपत	पुत्रवधू	"	30	मैट्रिक			रोड, कलकत्ता	कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता
		6 राजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	32	"	रत्न व्यवसाय	पुत्र-3 पुत्रिया-3	3वी कैमक स्ट्रीट,	44, बड़तल्ला स्ट्रीट,
		7 सुनीता	पुत्रवधू	"	30	मैट्रिक			7 तल्ला, प्लेट न. 4,	कलकत्ता
		8. ज्ञानचन्द	पुत्र	वि.	30	मैट्रिक	व्यवसाय		कलकत्ता-16	
		9 अनीता	पुत्रवधू	वि.	25	एम. ए.				
327	2439	श्री मणकचन्द गोलेछा	प प्र.	वि.	36	मिडिल	व्यवसाय	श्वे.म फलौदी	5458, के जी वी. का	रास्ता, चौथा चौराहा,
		पुत्र स्व. श्री राजमलजी							फो नं 44670	
		2 उगमबाई	माता	विधवा	68					
		3. शोभा	पत्नी	वि.	35	मैट्रिक				
328	996	श्री मानमल गोलेछा	प प्र.	वि.	30	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन कलकत्ता	4317, के जी.वी का	रास्ता, जौहरी बाजार,
		पुत्र श्री राजमलजी							जयपुर	
		2 सुनीतादेवी	पत्नी	वि.	26	मैट्रिक				
329	4	श्री मिलापचन्द गोलेछा	प प्र.	वि.	51		रत्न व्यवसाय	श्वे म	3763, मोतीसिंह	26/12, धीरेन्द्र विला,
		पुत्र श्री चौथमलजी							भोमियो का रास्ता,	एस.बी.रोड़, बोरीविली
		2. शीतलकुमारी	पत्नी	वि.	45				जयपुर-3	(ईस्ट) बम्बई
		3. दीपककुमार	पुत्र	अवि.	21	बी.एससी.	रत्न व्यवसाय			400066
		4. शैलेश	पुत्र	अवि.	19	बी कॉम.	शि. सी.ए.			
		5. संजय	पुत्र	अवि.	17		शि. वी.कॉम. (प्र व.)			
330	1910	श्री मोतीचन्द गोलेछा	प प्र	वि	40	बी ई (सिविल)	नौकरी, सहायक	श्वे मं	63, हरी मार्ग,	
		पुत्र स्व श्री बहादुरमलजी					अभियन्ता		मदरामपुरा कालोनी,	इद्रलोक एन्टरप्राईजेज,
		2. कमला	माता	विधवा	58	साक्षर			सिविल लाडन,	ई-248, रोड न 13,
		3. विमला	पत्नी	वि	34	एम ए.	व्यवसाय	पुत्रिया-3	जयपुर	विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल
									फो न. 832349	एरिया, जयपुर
331	1854	श्री राजेन्द्रकुमार गोलेछा	प प्र	वि.	35	बी कॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे म	भगारिया हाउस,	फो न 62292
		पुत्र श्री जतनमलजी							धीवालो का रास्ता,	73104
		2 प्रमिला	पत्नी	वि.	32	मिडिल			जयपुर	
		3. राकेशचन्द	भाई	वि	30	बी एससी	रत्न व्यवसाय			
		4. मधु	भ्रा वधू	वि	28	बी ए.				
		5. इन्द्रा	पुत्री	अवि.	14		शि कक्षा 9			
332	2029/ 1662	श्री विनयचन्द गोलेछा	प प्र	वि	48	बी ए.	गारमेट एक्सपोर्ट	श्वे म	3743 के जी वी का	हीदा की मोरी, गुरु-
		पुत्र श्री धनरूपमलजी							रास्ता, जयपुर	द्वारा के सामने, जयपुर
		2. निर्मलचन्द	पुत्र	वि	34	बी ए, एलएल वी	एकाउन्टेन्ट			बैंक ऑफ बडौदा, अजमेर

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333 365	3	गोतमचन्द	पुत्र	वि	30						भारमेट सिन्धुफनारर,
	4	यसावतकुमार	पुत्र	त्रि	29	बी कौम	भारमेट एषमपोटै				हीरा नी मोरी, जयपुर
	5	प्रदीपकुमार	पुत्र	भवि	24	एम कौम	भोसरी, राजस्थान बर				
		श्री शरद गोलेछा	प प्र	वि	33	मैट्रिग	रतन व्यवसाय	जग			
		पुत्र श्री हेमचन्दनी									बारह गणगौर का
334 290	2	प्रभादेवी	माता	वि	55						रास्ता, जयपुर 3
	3	कुमुम	पत्नी	वि	31						पो न 67136
	4	सुधीर	भाई	वि	32		रतन व्यवसाय				61473
	5	मोनाथी	पत्नी	वि	28						
		श्री सरदारमल गोलेछा	प प्र	विपुत्र	70	इंटर (विभा)	रतन व्यवसाय	श्वे मं			2310,ती वाला का
335 1862		पुत्र स्व श्री धीसीतालजी									रास्ता, जयपुर
	2	कुला	पुत्रवधू	विपवा	44	मैट्रिग					पो नं 40817
	3	विशोदकुमार	पुत्र	त्रि	37	बी ए	रतन व्यवसाय				" 42103
	4	सुशीला	पुत्रवधू	वि	32	मिडिल					" 43045
	5	पिता	गोन	भवि	13		वि कक्षा 7				
	6	सुबोध	पुत्र	वि	35	डि इलेक्ट्रोनिग	रतन व्यवसाय				
	7	बन्तुलाला	पुत्रवधू	वि	30	मैट्रिग					
	8	मनीषा	गौत्री	भवि	14		वि कक्षा 8				
	9	महेशकुमार	पुत्र	वि	33	बी ई	फक्टरी				
	10	मजुला	पुत्रवधू	वि	28	एम एससी	स्टेट बर सेवा				
	11	सुनीलकुमार	गोन	वि	27	बी ए	रतन व्यवसाय				धामवाल पविग
	12	रविता	पुत्रवधू	त्रि	19	मैट्रिग					एस्ट्रेडी, जयपुर
	श्री तिरहुमल गोल्मडा	प प्र	वि	73	साक्षर	रतन व्यवसाय	श्वे म			पो वाला का रास्ता,	
	पुत्र श्री राजारणजी									म नं 2310	
	2	मोतीचन्द	पुत्र	"	53	साक्षर	रतन व्यवसाय				जयपुर
	3	बिहारीबाई	पुत्रवधू	"	45	साक्षर					
	4	नेमीचन्द	पुत्र	भवि	42		जदोनी का काय				
	5	हीराचन्द	पुत्र	भवि	37	मिडिल	सविग				
	6	इन्द्र	गौत्री	"	17		वि कक्षा 9				
	7	साजवती	"	"	15		वि कक्षा 9				
	8	निर्मल	गोन	"	13		" " "				

पुत्र 2 पुत्रियां 4

पुत्र 1 पुत्रियां 3

पुत्र 2 पुत्रियां 3

पुत्र 1

336	2158	श्री सुरेन्द्रकुमार गोलेछा पुत्र स्व श्री हीराचंदजी 2. चन्द्रकान्ता 3. उषा	प. प्र माता पत्नी	वि. विधवा वि.	36 50 32	सीनियर केम्ब्रिज उद्योग एम ए.	उद्योग व्यापार रत्न व्यवसाय	श्वे म. पुत्र-1, पुत्रियाँ-3 श्वे. स्था	सी-83, पृथ्वीराज रोड, प्रेमप्रकाश बिल्डिंग, सी-स्कीम, जयपुर फो.न. 48782, फो.न. 72333 48804, 48422, 49801 सी-23, भगवानदास 1903, पटवो का रोड, जयपुर-11 रास्ता, जयपुर फो नं 72538, फो न 48493 78034
337	2031	श्री श्रीचन्द गोलेछा पुत्र स्व. श्री फतेहलालजी 2 कचनदेवी 3. विमलचन्द 4 उर्मिला, 5. स्मिता 6. मीनू 7. पंकजकुमार 8. पियुसकुमार	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पौत्री पुत्र	वि. वि. वि. वि. अवि. अवि.	82 65 45 42 23 22 21 20	रत्न व्यवसाय बी. एससी. एलएल बी. मैट्रिक वी. ए. एम कॉम	रत्न व्यवसाय व्यापार शि वी ए. (प्र.व)	श्वे म	म नं. 4840, सौतियो 2040, घी वालो का, का मोहल्ला, भैरूजी रास्ता, जौहरी बाजार, का रास्ता, जौहरी जयपुर फो. नं. 43309 3962, के.जी.वी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. न. 45407 " 40911 " 44859
338	1736	श्री हरीचन्द गोलेछा पुत्र स्व कालूरामजी 2 मुन्नादेवी 3 दीपक	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि अवि	40 35 14	मैट्रिक शि. कक्षा 7	रत्न व्यवसाय	श्वे म पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	
339	1642	श्री हीराचन्द गोलेछा पुत्र स्व श्री मनोहरमल जी 2. रामकुमारी 3 उगमकुंवर 4 मोतीचन्द 5. किशनचन्द 6 नेमीचन्द 7. चेतनमल 8. विमला 9. पुष्पादेवी 10 कुसुम देवी 11. चन्द्रकला 12. सुनीलकुमार 13 सरोज देवी	प.प्र पत्नी माता भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. विधवा वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि.	53 48 68 48 46 44 36 40 40 34 28 29 26	साक्षर व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार	व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार	श्वे. म	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14	सोभायमान	पुत्र	वि	27		व्यापार				
	15	बबीता	पुत्रवधू	वि	20						
	16	अभयपुमार	पुत्र	अवि	22		शिक्षार्थी				
	17	सुमित्रा	पुत्री		20						
	18	भजता	पुत्री	,	18						
	19	विनयपुमार	पुत्र	,	21						
	20	राजेशपुमार	पुत्र	,	19						
	21	भजयपुमार	पुत्र	,	17						
	22	मनोजपुमार	पुत्र	"	13						
	23	भाना	पुत्री		15						
	24	श्रीति	पुत्री	"	14						
											पुत्र-2 पुत्रिया-3
340	1589	श्री नानकच गोलेदा पुत्र स्व श्री धीमीतालजी	पुत्र	वि	66	निशित	व्यापार	श्व म	50, लम्बेगाही रोड, देवी पथ, जयपुर	पी बाबा वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	
	2	बनला देवी	पत्नी	वि	62	शिक्षित					
	3	डा प्रभाकाद	पुत्र	नि	40	द एन टी, एम एन	निजी प्रेसिड्य				
	4	कानन देवी	पुत्रवधू	वि	36	शिक्षित	कंड बैंक इंचार्ज एव महाह्वार इग्नी बनी			कंड बैंक इंचार्ज महाह्वार इटरोकनत	
	5	स्वप्ला	पौत्री	अवि	19	शिक्षित					
	6	राना	पौत्री	अवि	14		शि से				
	7	प्रमप्रपुमार	पुत्र	वि	38		व्यापार				
	8	चन्द्रना	पुत्रवधू	नि	36						
	9	प्रपुत्रपुमार	पुत्र	अवि	15		नि म				
341	524	श्री प्रिलोकच गोलेदा पुत्र श्री गौरवमन जी	पुत्र	नि	44		ररा एसाजी	श्वे म	म न 4490 के पी वी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर		
	2	नगीना देवी	पत्नी	नि	37	मास्तर					
	3	पारम	पुत्र	अवि	14		वि मशा 9				
											पुत्र-1
342	772	श्री प्रिलोकच गोलेदा पुत्र श्री पनहुलाव जी	पुत्र	वि	37	इंजीनियरिंग	सरकारी सेवा	श्वे म	मोनीनिह भागिया रा रास्ता, निजजीराम		
	2	पिम्ताकुमारी	पत्नी	वि	32	भैटिक					
											पुत्र 1 पुत्रिया 2
											मन के सामन, नाइया की गली, जयपुर

		<u>चतर</u>								
343	731	श्री निर्मलकुमार चतर पुत्र श्री मूरजमलजी 2 मजुला	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	32 29	वी.काँम., एलएल बी. एम.ए.	नीकरी	जैन पुत्र-2	भालावाड 1200, पाटनी सदन, चुरूको का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर,	
344	1166	श्री प्रेमचन्द चतर पुत्र श्री विजयलालजी 2. मोठवाई 3 अमराकंवर 4 अशोककुमार 5 मधु 6 मेनाकुमारी 7. मधु 8 अनिलकुमार 9 संजयकुमार	प प्र माता पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्री पुत्री पुत्र पुत्र	वि. वि. वि. वि. अवि. अवि. अवि. अवि.	48 72 43 25 22 18 17 14 15	मिडिल साक्षर बी.ए. (प्र.व) बी. काँम. बी. काँम. साक्षर	व्यापार व्यापार	श्वे स्था. व्यावर शि हा. सै.	चादपोल, नई अनाज चतर कोठारी एण्ड. मण्डी, फो.न.76423, कम्पनी, चांदपोल, 75513, 73442 अनाज मण्डी, जयपुर	
345	1350	श्री राजेन्द्रकुमार चतर पुत्र श्री बालचन्द्रजी 2. प्रभाकर 3. कृष्णा 4 रजनी 5. राकेश 6 रीता	प. प्र भाई पत्नी भ्रा प. पुत्र पुत्री	वि. वि. वि. अवि. अवि.	45 32 40 28 19 14	सी ए एडवोकेट बी ए. एम.ए. शि (द्वि.व.) शि कक्षा 9	व्यवसाय व्यवसाय	श्वे मं भालावाड पुत्र-2	एस-18, मगल मार्ग वापूनगर, जयपुर, फो. नं 77597	
346	539	ललितकुमार चतर पुत्र श्री प्रकाशमलजी 2. किरण <u>चपलावत, चपलोत</u>	प. प्र पत्नी	वि. वि.	42 39	वी काँम एम.ए.	कपड़े का व्यापार	श्वे मं फतेहनगर पुत्री-1	विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर, फो न 75389	महालक्ष्मी ट्रेडर्स, पुरोहितजी का बाग जयपुर
347	2166	श्री उत्तमचन्द्र चपलावत पुत्र श्री रोशनलालजी 2. सुशीला 3. रोशनलाल 4 मुन्नीदेवी 5 सुगनचन्द्र	प. प्र पत्नी पिता माता भाई	वि. वि. वि. वि. अवि.	51 45 84 65 53	वी काँम., एलएल बी. मिडिल मिडिल मिडिल	अति. निदेशक सेवा निवृत्त प्रा सर्विस	जैन	1/क-16, जवाहर नगर, जयपुर-4 फो. नं 42368	राज्य बीमा विभाग, वनीपार्क, जयपुर, फो न. 77344/25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 उन्नित	पुत्र	वि	28	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		7 रूपगा	पुत्रवपू	वि	22	मैट्रिक					
		8 प्रदीप	पुत्र	प्रवि	26	बी कॉम	प्रा सविस				
		8 निष्ठा	पुत्री	प्रवि	22		मि एम ए				
		9 देवा	पुत्री	प्रवि	20		शि एलएस बी				
148	1799	श्री शैलतपत्र चपलायत	प प्र	वि	45	हा स	पुस्तक विक्रेता	श्वे स्या भरतपुर	4/203, जवाहर नगर, जयपुर		जन पुस्तक मंदिर, चौडा रास्ता जयपुर
		पुत्र श्री रागनानजी									
		2 पद्मा	पत्नी	वि	40	मिडिल					
		3 धीनू	पुत्री	प्रवि	20	बी ए					
		4 रामन	पुत्र	प्रवि	18		मि प्र ए				
		5 रात्रेण	पुत्र	प्रवि	16	हा स	शि हा स				
		6 हरीश	भाई	वि	24	बी कॉम	व्यवसाय				
		7 सुनीता	प्रा पत्नी	वि	22	बी ए					
349	13576/894	श्री प्रेमचन्द चपलायत	प प्र	वि	43	एम ई	इंजीनियर	जन श्वे म प्र	2 च 16, गयाहर नगर, जयपुर		जलदाय विभाग, राा जयपुर
		पुत्र श्री मोतीलानजी जन									
		2 रास्ता	पत्नी	वि	38	मैट्रिक					
		3 पर्येन्द्र	पुत्र	प्रवि	17		शि बी ए (प्र व)				
		4 अभिलाषा	पुत्री	प्रवि	16		" "				
		5 सृष्टि	पुत्री	प्रवि	15		मि कदा 11				
		6 इति श्री	पुत्री	प्रवि	13		मि कदा 9				
350	1634	श्री भागचन्द चपलायत	प प्र	वि	31	एम ए	रति रि	श्वे म अजमेर	म न 2648,		वित्त विभाग क न 12
		पुत्र श्री हरेचन्दजी							खजाने वाला वा		मैन बिल्डिंग, शासन
		2 पत्र रास्ता	पत्नी	वि	28	एम ए			रास्ता, चादगोल		सचिवालय, जयपुर 5
									बाजार, जयपुर		फोन 60211/375
									मे न 2/135,		शै गुप्ता केमिक्स
									गवाहर नगर,		प्रा लि, त्रिपोलिया
									जयपुर		सागर लोहा उद्योग
351	104	श्री मिलापचन्द्र चपलायत	प प्र	वि	29	हा स	उद्योग धंधा	जन			
		पुत्र श्री रोमनलालजी									
		2 भारती	पत्नी	वि	27	सब					
		3 मित्ररत्न	भाई	प्रवि	20	बी कॉम	व्यवसाय				
352	1193	श्री विनयचन्द्र चपलायत	प प्र	वि	48	बी ए	पुस्तक विक्रेता	श्वे स्या			517/6, राजापाक, जयपुर
		पुत्र श्री भोनामिहजी									जन पुस्तक मंदिर,
		2 विमला	पत्नी	वि	43	साक्षर					चौडा रास्ता, जयपुर

पौत्री-1

पुत्र-2

पुत्रियां-2

		3. अशोक	पुत्र	वि	23	बी काँम					
		4 अश्विनी	पुत्र	वि	20	हा सै					
		5 आशुतोष	पुत्र	वि	18		शि हा सै.				
		चिडालिया									
353	2215	श्री कन्हैयालाल चण्डालिया	प	प्र		52	सेवा	श्वे	राजलदेसर	145, सरोज कोल्ड स्टोरेज, भोटवाडा	
		पुत्र श्री फूसराजजी									
354	2370	श्री गणेशमलजी	प	प्र.	वि.	55	व्यवसाय	श्वे	ते	गणेश कॉलोनी, मोती फो.न. 66166	
		पुत्र श्री गणपतलालजी								डूंगरी रोड, जयपुर	
		2. मानकीदेवी	पत्नी	वि.	55						
		3. अग्रसिंह	पुत्र	„	35	बी. काँम.					
		4. सन्द्रादेवी	पुत्रवधू	„	32	हा सै					
		5. रजनीश	पौत्र	अवि.	15	„ „					
		6. अनु	पौत्री	अवि	14		शि कक्षा 8				
355	1313	श्री ताराचन्द्र चण्डालिया	प	प्र	वि	38	व्यापार	श्वे	स्था	दौसा	ओसवाल सदन, तीसरा दौसा टी पी 15
		पुत्र श्री भौरीलालजी									चौराहा, एम एस बी. फो नं 207
		2 शुभकुँवर	पत्नी	वि	36	मैट्रिक					का रास्ता, जयपुर
		3. दिलीपकुमार	पुत्र	अवि	22	एम. काँम					
		4. प्रदीपकुमार	पुत्र	अवि.	17		शिक्षार्थी				
356	1314	श्री नेमीचन्द्र चण्डालिया	प.	प्र	वि	40	मैट्रिक	श्वे	स्था.	दौसा	ओसवाल सदन तीसरा, मानगज, दौसा,
		पुत्र श्री भौरीलालजी									चौराहा, एम.एस.बी. टी पी. 15
		2. विमलादेवी	पत्नी	वि.	38						का रास्ता, जयपुर फो नं. 207
		3. नरेशकुमार	पुत्र	अवि	17	हा सै.	व्यापार				
		4. दिनेश	पुत्र	अवि	15	सै					
357	278	श्री प्रकाशचन्द्र चण्डालिया	प.	प्र	वि.	33	वी एस सी	श्वे	स्था	अलवर	ए-6, विजय पथ, सीधड भवन, के जी
		पुत्र श्री भगवतीप्रसादजी									बी. का रास्ता,
		2. सुशीला	पत्नी	वि	29	मैट्रिक					जौहरी बाजार, जयपुर
358	1333	डॉ. बलवन्तसिंहजी चण्डालिया	प	प्र	वि.	52	एम बी.बी एस.	जैन	भीलवाडा	म नं -2, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	एस एम एस
		पुत्र श्री मदनसिंहजी					प्रोफेसर			फो.न 65198	अस्पताल, जयपुर, फो. न 60291/
		2 फतहकुमारी	पत्नी	वि.	47	बी ए					329
		3. सुनिय	पुत्र	„	27	एम बी ए					
		4. डॉ सुशील	पुत्र	अवि	23	एम बी बी एस					
		5. सुधीर	पुत्र	„	22		शि. एम ए. (फाई)				
		6 निशा	पुत्रवधू	वि.	23	बी ए					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1315	श्री बामूलाल चण्डालिया पुत्र श्री भौरीलालजी	प प्र	वि	49	मैट्रिक	व्यापार	श्वे स्या	दीपा	घोसवाल सदन तीसरा चौराहा मोतीसिंह भोमियो वा रास्ता, जयपुर	व्यवसाय दीपा टी पी 15, पो न 207
		2 बमलादेवी		पत्नी	वि	45	मिडिल				
		3 प्रमोद		पुत्र	वि	25	एम वाम		यापार		
		4 मजूदेवी		पुत्रवधू	वि	23	एम ए				
		5 प्रनिल		पुत्र	प्रवि	21	एम वाम				
360	635	श्री भरोसिंह चण्डालिया पुत्र श्री मदासिंहजी	प प्र	वि	51	इंटर	राज सेवा	श्वे स्या	प्रजमेर	7-ज 13 जवाहर नगर, जयपुर पो न 60211/478	शासन सचिवालय, जयपुर
		2 शांति		पत्नी	वि	46	मैट्रिक				
		3 प्रनिल		पुत्र	वि	28	एम ए		कणियर		
		4 गता		पुत्रवधू	वि	26	एम ए				राज हाउस फाइवाप मो लि, जयपुर
		5 प्ररणकुमार		पुत्र	प्रवि	21	बी वाम		रत्न व्यवसाय	पुत्री-1	
361	1316	श्री महावीरप्रसाद चण्डालिया पुत्र श्री लक्ष्मणसादजी	प प्र	वि	38	मैट्रिक	व्यापार	श्वे स्या	दीपा	घासवाल सदन, तीसरा चौराहा, एम एस बी का रास्ता, जयपुर	व्यवसाय दीपा, टी पी 15, पो न 207
		2 भंवरबाई		माता	विषवा	52					
		3 लाडबाई		पत्नी	वि	35	साक्षर				
		4 राजेन्द्रकुमार		भाई	वि	31	बी प्रॉप		व्यापार		
		5 गरिता		भा वधू	वि	28	हा स				
		6 शांतिला		भाई	वि	25	बी वाम		व्यापार		
		7 प्रनिला		भा वधू	वि	23	बी ए			पुत्र 3 पुत्रिया 2	
362	2367	श्री माणकचंद चण्डालिया पुत्र श्री परीरचंदजी	प प्र	वि	40	रा	गरिम	श्वे त		4656, नरी रा वास न जी थी वा रास्ता जयपुर, पो 40778	प्रार के एजेसीज, के जी थी वा रास्ता, जयपुर
		2 बमला		पत्नी	वि	32	साक्षर				
		3 राजकुमार		पुत्र	प्रवि	21	म			पुत्रिया 2	
		4 सुरेन्द्र		पुत्र	प्रवि	14	मिडिल				
363	2216	श्री रतनलाल चण्डालिया पुत्र श्री मिलापचंदजी	प प्र	वि	50	इंटर	दवाइया वा व्यापार	श्वे त	सरदारमहूर	95, विनाबाभावे माग मो-स्कीम, जयपुर	राज केमिस्ट्स, जोहरी बाजार, जयपुर, पो न 63864
		2 मोछीदेवी		पत्नी	वि	47	साक्षर				
		3 सुशील		पुत्र	प्रवि	19			शि हा स	पुत्री 1	
364	6368	श्री राजकुमार चण्डालिया पुत्र श्री सुभररणी	प प्र	वि	27		व्यवसाय	जन			
		2 पुत्रावचन्द्र		भाई	वि	24	मैट्रिक		व्यवसाय		

365	777	3 हिम्मतसिंह 4. मन्नू 5 मीना श्री विमलचन्द्र चिण्डालिया पुत्र स्व. श्री सुन्दरलालजी	भाई अवि पत्नी वि. भ्रा.वधू वि. प प्र. वि.	16 मैट्रिक 24 मैट्रिक 20 मिडिल 60 मैट्रिक	प्रो. डीलर्स	पुत्र-4 श्वे.म	2547, घी वालों का गस्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
366	2369	2. ज्ञानवती 3. अरुण 4 मुजाता 5. राजेश श्री सुरेशचन्द्र चिण्डालिया पुत्र श्री मगनचन्द्रजी	पत्नी वि पुत्र वि पुत्रवधू वि पुत्र अवि प प्र वि	55 साक्षर 27 बी कॉम 23 इन्टर 25 बी कॉम 31	एकाउण्टेण्ट, प्रा फर्म ज्वैलरी सरकारी नौकरी	जैन	फो.नं 42261 रा रा वि म , राम मन्दिर के पास, जयपुर, फो नं 61231/50
367	594	2. कंचनवाई 3. मुन्नीदेवी चिलिया श्री जितेन्द्रकुमार चिलिया पुत्र श्री जगनलालजी	माता विधवा पत्नी वि प प्र वि	50 28 36 हा.सं	रत्न व्यवसाय	पुत्र-2, पुत्री-1 जैन करौली	3-त-51, जवाहरनगर, 3672, एम एस बी. जयपुर, फो.न. 44537 का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
368	912	1. सरवत जैन 2. लक्ष्मी चीपड़ श्री गजराजसिंह चीपड़ पुत्र श्री मिश्रीलालजी	माता विध. पत्नी वि. प प्र वि.	72 28 25	प्लास्टिक कंपनी	पुत्र-2 श्वे स्था केकडी	जयलाल मुंशी का रास्ता, तीसरा चौराहा, चादपोल बाजार, जयपुर
369	1060	3. प्रकाशचंद 4. सुशीलादेवी श्री प्रकाशचंद चीपड़ पुत्र श्री मिश्रीलालजी	भाई वि भ्रा वधू वि प प्र वि	25 बी कॉम 22 बी ए 24 बी काम	प्लास्टिक कम्पनी	पुत्र-2, पुत्रियां-2 श्वे स्था अजमेर	भट्टो की गली, टेमाणी भवन, फो नं 42646 कल्याणजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर
370	1895	2. सुशीला देवी चौधरी श्री ऋषभकुमार चौधरी पुत्र श्री सोभागमलजी	पत्नी वि प प्र अवि भाई अवि	22 बी ए (द्वि.व) 23 बी कॉम 18 एलएल बी	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था कैरोट (अजमेर)	पंडित शिवदीनजी का रास्ता, विजयलाल चोबदार की गली म नं 1956 द्वारा श्री अजीतकुमार जी बिराणी, फो. न 62827/ 69582
		2 पदमसिंह			शि हा.सं		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	664	श्री कृष्णसिंह चौधरी पुत्र श्री साहनलालजी 2 निशा	प प्र पत्नी	वि वि	41 38	बी ए गि हा स	प्रचार सधिरारी गि हा स	जन पुत्र-1, पुत्री-1	भीलवाड़ा 518/6 राजापाक, जयपुर 4	राज गृह सप, पाली विकट्टी, जयपुर, फा न 62681	
372	333	श्री बोलतसिंह चौधरी पुत्र श्री स्व नक्षमीलालजी 2 विद्यादेवी	प प्र पत्नी	वि वि	30 29	बी ए मेट्रिक	मोटर टाट स	श्व पुत्र-2, पुत्री-1	भीलवाड़ा 2031, तोलाराम पालीवाल वी गल्ली, मिस्त्री साता, पुरानी बस्ती, जयपुर	गणेशलाल एड सस ट्रास्टपाट नगर जयपुर फा न 41980	
373	869	श्री नेमोचंद्र चौधरी पुत्र श्री मदनलालजी 2 लखकेवर 3 मुकोष 4 मीना	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री	वि वि श्वि श्वि	38 34 17 15	बी ए हा स स	नौकरी गि हा स गि स	श्व स्या भीलवाड़ा	बी 180, जगत नालोनी, जयपुर	फा न 63251/23	
374	269	श्री प्रतापसिंह चौधरी पुत्र श्री मबरलालजी 2 जतनदेवी 3 धरमकुमार 4 धारण 5 सुनील	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि श्वि श्वि	54 50 31 27 25	बी ए मिडिल एम ए माधर बी ए	सर नौकरी मिडिल एम ए माधर व्यवसाय	जन पुत्र 1, पुत्री 2	जयपुर ग 14, कृष्णनगर, टोक रोड, जयपुर, फो न 69301	सचिव राज भूमि विभाग निगम, पीलवा बाग, एम डी रोड, जयपुर, फा न 44227 सामान्य प्र विभाग, रा विश्वविद्या- लय फा न 60271	
375	2431	श्री प्रेमसिंह चौधरी पुत्र श्री भीमराजजी 2 सीतादेवी 3 श्यामेश 4 विनय 5 रजत	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि श्वि श्वि श्वि	45 41 22 18 16	बी ए बी ए गि बी ई गि हा स गि बी ए (प्र य)	नौकरी	श्वेते		फाई एक एक फो, फो न 78694	
376	7577	श्री धनराज चौधरी पुत्र श्री माधरलालजी 2 नवरीबाई	प प्र पत्नी	वि वि	40 37	एम ए, पी एनडी बी ए	प्रोफेसर	जन जातोर	2 स 5, जवाहरनगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्या- लय, जयपुर	

	3.	भावना	पुत्री	अवि.	15		शि. सै.					
	4.	नीरू	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 7					
347		श्री बसन्तकुमार चौधरी	प.प्र.	वि.	42	हा.सै	राज-सेवा	श्वे.	भीलवाड़ा	म.न.2483, गोविंद- राजियो का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर	नियोजन सेवा निदे- शालय, जयपुर, फो. न. 73675	
		पुत्र श्री लक्ष्मीलालजी										
	2.	सुशीला	पत्नी	वि	36	सै.						
	3.	राजेश	पुत्र	अवि	16		शि. हा.सै.					
78	328	श्रीमती मंजुलादेवी चौधरी	प.प्र.	विध	42	सै.	नौकरी	श्वे.		2039, तोलाराम पालीवाल की गली, पुरानी बस्ती, जयपुर		
		पति स्व. श्री रूपलालजी										
379	101	हेन्द्रसिंह चौधरी	प.प्र.	वि.	48	बी एस.सी., एम आई. ई	नौकरी	श्वे.स्था.	भीलवाड़ा	ढढ्ढा हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर	एन. ई. आई. लि., जयपुर फो.न.73227	
		पुत्र श्री मनोहरसिंहजी										
	2	विभा	पत्नी	वि	43	इन्टर						
	3.	भारत	पुत्र	अवि.	24	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय					
	4.	जयकुमार	पुत्र	अवि.	22	बी.एससी	शि. एम.ए.					
	5	इलाकुमारी	पुत्री	अवि.	21	बी.ए.	शि. एम.ए					
	1503	श्री सुरेन्द्रकुमार चौधरी	प.प्र.	वि	49	एम.ए	सहायक लेखाधिकारी	श्वे.मं.	सिरोही	एफ-108, गाधीनगर, जयपुर	वित्त विभाग, सचि- वालय, जयपुर फो.नं. 60211/557	
		पुत्र श्री सिरहमलजी										
	2.	सुशीला	पत्नी	वि.	43	मिडिल						
	3.	मजुलिका	पुत्री	अवि.	24	एम.ए.						
	4.	मधुलिका	पुत्री	अवि.	22	एम.ए.						
	5.	जयदीप	पुत्र	अवि.	16		शि. हा सै					
381	498	श्री हीराचन्द चौधरी	प.प्र.	वि.	49	हा.सै.	उद्योग	जैन	सिरोही	जगनपथ, चोमू हाउस, फो नं. 63611, 73611	आर. एस. मैटल्स प्रा.लि., 22 गोदाम, जयपुर, फो. न. 72901, 73495, 61430 रतन कॉन्ट्रेक्टर्स, 832303, आर. एस. मैट्रल्स प्रा लि. रतन कॉन्ट्रेक्टर्स, जयपुर, 832303 शान शान कॉन्ट्रेक्टर्स, हीराचन्द	
		पुत्र श्री मगलचन्दजी										
	2.	जीवनकुमारी	पत्नी	वि.	48	साक्षर						
	3.	महेन्द्र	पुत्र	वि.	27	बी. कॉम.	डायरेक्टर, फैंक्ट्री					
	4.	उर्मिला	पुत्रवधू	वि	26	बी.ए.	पार्टनर फैंक्ट्री					
	5.	श्रीपाल	पुत्र	वि.	25	बी.कॉम.	"					
	6.	अनुराधा	पुत्रवधू	वि.	22	हा.सै.	"					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7 महीपान	पुन	धवि	22	बी एम गी	,				एण्ड मत शांतिलाल एण्ड धन्ता तयपुर 61590
382	1248	श्री मानचंद चौधरी पुन स्व श्री नारायणराजजी 2 विजय 3 ऋतु 4 प्रभियरा <u>चौपडा</u>	प प्र पत्नी पुत्री पुत्री	वि वि धवि धवि	42 35 15 13	श्री काँम, एतगन बी ए आई आई बी एटर मि स मि कथा 8		श्व स्या धनवर		ने 44, वृष्णामाग, मीनकीम, जयपुर फा न 77316 पी पी	श्व धारा वलीग, टी 38 ग, ग्रहिमा सकिल, श्री स्वीम, जयपुर
383	2126	आई धार चौपडा पुन श्री एम धार 2 निरगु 3 विशाल	प प्र पत्नी पुन	वि वि धवि	47 39 15	एटर मेट्रिक मि मिडिल	राज वम	जन	जायपुर	4112, जयप्राथ शाह फा रास्ता, जयपुर, फा न 41846 पी पी	आई टी आई, बनीपाव, जयपुर, फो न 65663
384	1585	श्री कवलप्रकाश चौपडा पुन स्व श्री तीवराजजी 2 शरवतपुमारी 3 प्रदीप 4 रावेश 5 निशा	प प्र पत्नी पुन पुन पुत्री	वि वि धवि धवि धवि	50 43 25 21 18	डिप्लोमा धवि मि मिडिन बी काँम श्व धधिनारी श्री ई (धिव) मि बी ए (द्वि व)		श्व स्या धनवर (पत्राव)		बी 222, जनता काँपानी, जयपुर, फो न 44379	श्री प्र, मम-यथ एन लेगा एण्ड सिचाई विभाग, जयपुर, फो न 69403
385	2294	श्री कौनराज चौपडा 2 शांतीदेवी 3 लक्ष्मणमार 4 चंदा 5 शिखा	प प्र पत्नी पुन पुत्री पुत्री	वि वि धवि धवि धवि	50 48 15 16 15	मिडिन मिडिन बी काँम पपडे का व्यापार	जन			फतेहपुरिया नवा, रामनज बाजार, जयपुर	
386	1827	श्री चिरञ्जीवल चौपडा पुन श्री बानीदासजी 2 कमलश 3 चिमनबाता	प प्र पत्नी माई	वि वि धवि	37 32 22	बी काँम मेट्रिक एम काँम	नेताधिनारी गोररी यतिर	जन	व्यावर	मी 73, शास्त्री नगर, जयपुर, फो न 62886	राज ट्रांसमिशन धामम प्रा वि, जयपुर
387	48	श्री जसराज चौपडा पुन स्व श्री निरमलजी 2 रतन	प प्र पत्नी	वि वि	51 48	एम काँम, एतगन बी मिडिल		श्व स्या जोषपुर		4 व 1, न नगर, जयपुर, फो न 852634	त्रिपि एव मानिक संविधानय, जयपुर फो न 63903

पुन-1

पुन 1 पुत्री 1

पुन-1

पुन-2 पुत्रिया-2

	3.	आनन्द	पुत्र	वि.	29	वी कॉम , सी ए. (इन्टर)	मेनेजिंग डाइरेक्टर		मे चोपड़ा मेटल्स प्रा. लि., 8/बी, हैवी इण्ड- स्ट्रियल एरिया, जोध- पुर, फो न. 24469, 27494	
	4.	नीलम	पुत्रवधू	वि.	22	बी ए	डाइरेक्टर		" "	
	5.	चन्द्रशेखर	पुत्र	अवि.	24	बी.एससी., एलएल.बी.	डाइरेक्टर	पुत्री-1	पिंकसिटी के. प्रा.लि., मेड़ता सिटी व मै. चौपड़ा मेटल्स	
388	2437	श्री भँवरलालजी चौपड़ा पुत्र श्री जसकरराजी	प. प्र.	वि	50	बी. कॉम	चाय का थोक व्यापार श्वे. ते.	वीकानेर	एफ-37, घीया मार्ग, वनी पार्क, जयपुर, फो.न. 66562	चौपड़ा ब्रदर्स, तेलीपाड़ा, चौड़ा रास्ता, जयपुर, फो.न 79312
	2.	उमरावदेवी	पत्नी	वि.	45	मिडिल				
	3.	प्रवीणकुमार	पुत्र	वि.	28	बी. कॉम	व्यापार			
	4.	कल्पना	पुत्रवधू	वि.	22	हा. सै				
	5.	नीलम	पुत्री	अवि.	18		शि. बी. कॉम			
	6.	रूप	भतीजा	अवि	22		शि. बी.कॉम (द्वि व)	पुत्री-1		
389	381	श्री विग्विजयकुमार चौपड़ा पुत्र स्व. श्री सोहनमलजी	प प्र	वि.	34	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था.	1276, खो वालो का चौक, गोपालजी का रास्ता, जयपुर-3	जुपीटर जेम्स, 1710, जडियो का रास्ता, जयपुर
	2.	प्रेमवाई	माता	विधवा	56					
	3.	भँवरदेवी	पत्नी	वि	31	मैट्रिक				
	4.	अशोककुमार	भाई	अवि.	24	मैट्रिक				
	5.	गुणमाला	पुत्री	अवि	14		शि. कक्षा 6	पुत्र-1		
	6.	इन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	13		" " "			
390	773	श्री देवकुमार चौपड़ा पुत्र स्व श्री अररचन्दजी	प प्र.	वि.	40	डिप्लोमा (यात्रिकी)	जूनि. इजीनियर सा.	श्वे. स्था	25, सजय कॉलोनी, राज पुलिस अकादमी के पास, शास्त्री नगर, जयपुर-203012	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
	2.	राजकुमारी	माता	विधवा	60	साक्षर				
	3.	निर्मला	पत्नी	वि.	34	मैट्रिक				
391	1558 1211	श्री पदमचन्द चौपड़ा पुत्र श्री केवलचन्दजी	प प्र	वि	52	बी. कॉम	डवलपमेट ऑफिसर	श्वे. स्था. अजमेर	43-क-8, ज्योति नगर, जयपुर, फो.न. 64354	एल.आई सी भवन, भगवानदास रोड़, जयपुर, फोन.67808
	2.	रत्नादेवी	पत्नी	वि	45	मिडिल				
	3.	आनन्द	पुत्र	अवि.	25		शि. सी. ए			
	4.	अजय	पुत्र	अवि.	21	मैट्रिक				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	447/ 2295	श्री पारसमल चौपडा पुत्र श्री भोडालानजी 2 पानीदेवी	प प्र पत्नी	वि वि	40 35	बी कॉम मिडिल	व्यवसाय	श्वेते	पचपदरा	फतेहपुरिया भवन, रामगज बाजार, जयपुर फो न 42268	पारस मल्गुलाइड इण्डस्ट्रीज, मो 54, 22 गोगाम, जयपुर 6 फा न 64595
393	877	श्री प्रकाशचंद चौपडा पुत्र श्री केवलचंदजी 2 उषा	प प्र पत्नी	वि वि	32 26	हा स हा स	व्यवसाय	श्वेस्था	भ्रजमर	2426 भामडिया का चौर, पी बाजा का रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर फो न 44783	
394	452/ 2292	श्री भवरलाल चौपडा पुत्र श्री लदासुखजी 2 तुनमीदेवी 3 राजेश 4 पुष्प 5 लक्ष्मी 6 सुनीता	प प्र पत्नी	वि वि अवि अवि अवि	50 45 21 19 17 15	बी एमबी मिडिल बी कॉम बी कॉम	व्यवसाय	श्वेत	पचपदरा (बाडमर)	फतेहपुरिया भवन, रामगज बाजार जयपुर 3 फो न 44535	शाह भवरमन चौपडा एण्ट व, रामगज बाजार, जयपुर 3
395	2356	श्री महतावचंद चौपडा पुत्र श्री मोतीलानजी 2 मम्पतदेवी 3 कुमनचंद 4 विजयादेवी	प प्र पत्नी	वि वि	56 48		व्यवसाय	श्वेत		रे जी बी का रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर-3	दुबान न 97, जोहरी बाजार, जयपुर-3
396	2293	श्री रतनचंद चौपडा पुत्र श्री गोपीरामजी 2 मोहनदेवी	प प्र पत्नी	वि वि	51 49		व्यापार	श्वेते			
397	309	श्री विद्वकरण चौपडा पुत्र श्री कन्हैयालालजी 2 विमलादेवी 3 कचन 4 महेशकुमार 5 त्रिलोकचन्द 6 शोभा	प प्र माता पत्नी	वि वि अवि , रहित	36 48 26 27 24 21	इंटर सागर बी ए बी कॉम हा स हा स	रत्न व्यवसाय	त्रैल	रूक	जे 149, छादन नगर, शमशान चौराहा के पास, जयपुर-4 फा न 41640 पी पी	

		7. पूनम	”	”	15		शि. कक्षा 8				
		8. संजय	भाई	”	13		” कक्षा 7		पुत्र-4		
398	1319	श्री विजयप्रकाश चौपड़ा पुत्र श्री तीर्थरामजी	प प्र.	वि.	48	मैट्रिक	स्टेनोग्राफर	जंन		एफ-985, गाधी नगर, सहकारी विभाग, जयपुर	जयपुर
		2. सतोप	पत्नी	वि	39	मैट्रिक			पुत्र-2		
		3. अनिता	पुत्री	अवि.	19		शि वी.ए. (प्र. व.)				
		4 अरुण	पुत्र	अवि.	17	सै.	शि. कक्षा 10				
399	101	श्री विजयसिंह चौपड़ा पुत्र श्री मोमराजजी	प. प्र.	वि.	36	इन्टर (विज्ञान)	रत्न व्यवसाय	श्वे ते	वीकानेर	वी एस चौपड़ा, डी-51, सुभाष मार्ग सी-स्कीम, जयपुर	फैक्ट्री मै. पी. सी. जैन एण्ड कम्पनी, 108-ए, नेहरू नगर पानीपेच, जयपुर-6
		2 चंचला	पत्नी	वि	31	हा सै.					
		3 रणजीत	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 8				
		4. विक्रम	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 9				
400	207	श्री विनयचन्द चौपड़ा पुत्र श्री नेमीचन्दजी	प. प्र.	वि	59	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे ते.		म.न. 1877, बारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	देवड़ीजी का मन्दिर जौहरी बाजार, जयपुर
		2 प्रेमवाई	पत्नी	वि.	58						
401	1676	श्री विमलप्रकाश चौपड़ा पुत्र श्री तीर्थरामजी	प. प्र.	वि.	55	मैट्रिक	रा कर्मचारी	श्वे स्था.		II-20, वजाज नगर, जयपुर	ए.जी. ऑफिस, राज. जयपुर
		2. शीलवन्ती	पत्नी	वि.	50	मिडिल					
		3. सुनीलकुमार	पुत्र	अवि.	25	वी. कॉम	नौकरी				राज. वित्त निगम, जयपुर
		4. मधुवाला	पुत्री	अवि.	22	वी. ए.	लिपिक				जे डी ए., जयपुर
		5. बीना	पुत्री	”	20	एम.ए.					फो न 63234/एक्स्टे 16
		6. सुनीता	पुत्री	”	17		शि. वी.ए. (प्र. व.)				
402	24	श्री शीतलचन्द चौपड़ा पुत्र श्री लालचन्दजी	प प्र.	विधुर	65	मैट्रिक	व्यापार	श्वे.ते		महर निवास, हनुमान का रास्ता, जयपुर	दु नं 241, कल्पना, जौहरी बाजार, फो. न 41481 विमल शोरूम, जयपुर
		2. प्रकाशचन्द	पुत्र	वि.	45	वी एससी.	व्यापार				
		3. विमला	पुत्रवधू	वि	39	सै					
		4 प्रीति	पौत्री	अवि.	18		शि वी.ए. (द्वि.व)				
		5. डिम्पल	पौत्री	अवि.	15		शि. कक्षा 9		पुत्र-1, पुत्री-1		
403	2217	श्री शुभकरण चौपड़ा पुत्र श्री छगनमल जी	प. प्र	वि.	46	वी.एससी.	रंगजीन व्यापार	श्वे ते	गगाशहर	वी-117, राम भवन, जनता कॉलोनी, जयपुर	एस. के. चौपड़ा एण्ड कं, रेगरो की कोठी घाटमोट, जयपुर
		2 पुष्पा	पत्नी	वि	42	मैट्रिक					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 रवीन्द्रकुमार	पुत्र	धवि	21	बी नॉम	व्यापार				
		4 सुधीरकुमार	पुत्र	धवि	19		शि बी नॉम				
		5 मनीषकुमार	पुत्र	धवि	17		शि बी एमती				
404	1143/ 938	श्री सरदारमल चौपडा	प प्र	वि	65	माधर	व्यवसाय	रउ स्या		गोधनी याता वा रास्ता, जोहरी	बारह गणगौर 11 रास्ता, जोहरी
		पुत्र श्री जसराज जी								बाजार, जयपुर, फो न 74589	बाजार, जयपुर, फो न 66140
		2 मधल्लेजी	पत्नी	वि	63	माधर					
		3 समीरमन	पुत्र	वि	36	बी ए, एलएल बी डिप्लोमा ल सॉ	व्यवसाय			फो न 74589 77472	
		4 पनव	पुत्रवपू	वि	33	बी ए					
		5 सोमा	पौत्री	धवि	18		शि बी नॉम (डि व)				
		6 मीता	पौत्री	धवि	17		शि स				
		7 रा-नीर	पौत्र	धवि	14		शि पडा 7				
405	1131	श्री तिरहुमल चौपडा	प प्र	वि	44	इ-टर	रता व्यवसाय	श्व स्या		गोधनी बागो ना रास्ता, जोहरी	बारह गणगौर 74 रास्ता, जोहरी
		पुत्र श्री मरुणरमल जी								बाजार, जयपुर, फो न 68614	बाजार, जयपुर, फो न 66140
		2 विमला	पत्नी	वि	40	तं					
		3 झलवा	पुत्री	धवि	21	बी नॉम					
		4 राजश	पुत्र	धवि	20	बी नॉम	रल व्यवसाय				
		5 बापु	पुत्री	धवि	18		शि बी नॉम (डि व)				
406	1913	श्री सुरेन्द्रसिंह चौपडा	प प्र	वि	47	बी नॉम	जर्दी व्यापार	श्वे त	गणगौर	36, श्रीरामपुरा नॉनली, सिविल	133, पनिय स्ट्रीट, पनवत्ता
		पुत्र श्री ताजाराम जी								लाइग, फो न 66082	फो न 267628
		2 जबरकुमारी	माता	विधवा	57	निशित					
		3 पद्मश्री	पत्नी	वि	44	निशित					
407	813	श्री हीरालाल चौपडा	प प्र	वि	36	डिप्लोमा (विद्युत)	जू दजीनियर	श्वे स्या		दुवाग न 15, बीस दुवाग, इहलू नगर,	जयपुर टनक दत्तात्रेयन, जोगी मो के सामने, एम घाई रोड, जयपुर
		पुत्र श्री धमरचन्द्र जी									
		2 सुदेश	पत्नी	वि	30	हा म					
408	1247/ 1180	श्री शानधर चौपडा	प प	वि	46	एम कॉम	रान पर्म	श्वे स्या	धजमेर	4913, मठ के दुग बी पत्नी, के जी बी वा रास्ता, जयपुर	
		पुत्र स्व श्री रतनधरजी									
		2 इन्द्रबाई	माता	विध	85	मिडिल					
		3 प्रेमकुमारी	पत्नी	वि	43	मिडिल					
		4 सुनीलकुमार	पुत्र	वि	23	एम एससी	व्यवसाय				

पुत्र 1

पुत्री 1

पुत्र 1

पुत्र 3

		5. मंजूकुमारी	पुत्रवधू	वि.	20	एम एससी.				
		6 सुनीता	पुत्री	अवि.	20		शि एम कॉम.			
		7. विमल	पुत्र	अवि	18		शि वी कॉम			
		चोरडिया								
409	1787	श्री ए. बी. चोरडिया	प प्र.	वि	50	बी कॉम	डिप्टी मैनेजर	जैन श्वे	आगरा	देवाशीप, 4-भ-27, जवाहरनगर, जयपुर फो. न 852505
		पुत्र स्व. श्री वेनीप्रसादजी								जयपुर उद्योग लि, जयपुर ऑफिस, फो. 78706/78707 भारतीय वायुसेना आगरा
		2 राजकुमार	पुत्र	वि.	25	एम वी ए.	फलाइग ऑफिसर			
		3. जतनकवर	पत्नी	वि	43	सिद्धान्त वि.				
		4. प्रीति	पुत्रवधू	वि.	22	वी.ए.				
410	1212	श्री अभय कुमार चोरडिया	प.प्र.	वि	33	बी कॉम	पेट्रोल पम्प कार्य	श्वे स्था	विजयनगर	श्री राम भवन, सौखियो का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर फो.न 45214 78253
		पुत्र श्री गुलाबचन्दजी								सोडाला रोड़, सांगानेर
		2 सुशीला	पत्नी	वि	30	हा सै.				
		3. राजेन्द्र	भाई	वि.	16		शि हा सै			
		4 अरुण	भाई	अवि	14		शि. कक्षा 9			
411	511	श्री आमोदकुमार चोरडिया	प प्र.	वि.	28	सै	रत्न व्यवसाय	श्वे म.	मुर्शीदाबाद	म न 3936, टाक बिल्डिंग, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. न 40657
		पुत्र स्व श्री शातिचन्द्रजी								के.जी.बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2 विनोदकुमार	भाई	अवि	27	मिडिल	रत्न व्यवसाय			
		3. सुमन	पत्नी	वि	24	सै				
412	805	श्री उमरावमल चोरडिया	प. प्र	वि.	53	वी.ए.	रत्न व्यवसाय	श्वे. म्था.		मै. सरूप ट्रेडिंग कारपो, चौडा रास्ता, आलूदा हाउस, जयपुर, फो.नं. 68276 जैम्स इण्टरनेशनल, आलूदा हाउस, चीडा रास्ता, जयपुर-3 फो.न. 67985
		पुत्र स्व. श्री रूपचन्दजी								
		2. प्रेमलता	पत्नी	वि.	45	प्रवेशिका				
		3. शांतिकुमार	पुत्र	वि.	23	हा सै.	रत्न व्यवसाय			
		4. नयनतारा	पुत्रवधू	वि.	19	सैक.				
413	2278	श्री कन्हैयालाल चोरडिया	प. प्र.	वि.	30	मैट्रिक	खान का कार्य	श्वे ते.	सरदारशहर	सी-36, लाजपत मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फो.न. 62317
		पुत्र श्री मांगीलालजी								
		2. मोतीलाल	भाई	वि.	25	वी काम.	नौकरी			
		3. कमल	भाई	वि	30	वी.कॉम.	नौकरी			
		4. वसन्त	भाई	अवि.	24	वी.कॉम.	नौकरी			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413A	2479	श्री उमरावसिंह चोरडिया पुत्र श्री फतहदासजी	प प्र वि		70	हार्ड स्कूल	व्यवसाय	श्वे म		म न 4459, चोरडिया हाउस, ब जी बी वा रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर, फा न 41038	
		2 नेमीचंद	पुत्र वि		33	हार्ड स्कूल	व्यवसाय				
		3 प्रतापचंद	पुत्र वि		28	"	व्यवसाय				
		4 प्रतापचंद	पुत्र वि		25	"	व्यवसाय				
		5 प्रभा	पुत्रवधू वि		27	"					
		6 इंदू	पुत्रवधू वि		26						
		7 वमता	पुत्रवधू वि		24	बी ए					
414	32	श्री कुंदनमल चोरडिया पुत्र स्व श्री जेठमल	प प्र वि		81	साक्षर	धनकाश प्राप्त	श्वे स्था	गीजगड	2005, प्रेमप्रताप नवन, पीतनिया का चौक, जोहरी बाजार, जयपुर 3 फा न 78307	
		2 रूपवती	पत्नी वि		75	माक्षर					
		3 पुनमचंद	पुत्र वि		36	हा सव	व्यवसाय				
		4 उमिनादेवी	पुत्रवधू वि		31	मैट्रिक					
415	1934	श्री सुगानमल चोरडिया पुत्र स्व श्री रूपचंदजी	प प्र वि		56	इंटर	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था		पीतनिया का चौक, जयपुर 3 फो न 49269	सुगानमल उमरावमल चारडिया, सौधली वालों का रास्ता, जयपुर फो न 49768
		2 मूरजबचंद	पत्नी वि		50	शिक्षित					
		3 प्रभायकुमार	पुत्र वि		30	बी काम	रत्न व्यवसाय				
		4 सपतकुमार	पुत्र वि		29	बी कॉम	रत्न व्यवसाय				
		5 प्रभा	पुत्रवधू वि		29	एम ए					
		6 उज्जवलकुमारी	पुत्रवधू वि		24	हा म					
416	714	श्री चंद्रपाल चोरडिया पुत्र श्री हस्तीमलजी	प प्र धवि		25	एम काम, सी ए, मार्टि मार्टी बी	बक प्राधिकाारी	श्वे म	दुंगी	1884, गा राजिया वा रास्ता, पहला चौराहा, गंगोत्र बाजार, जयपुर, फो न 74526,	बक प्रांफ राज, जोहरी बाजार, जयपुर, फो न 74526, 67432
		2 हस्तीमल	पिता वि		60						
		3 चन्दनबाला	बहिन धवि		23	एम ए					
		4 जोमा	बहन धवि		21	एम ए					
417	1116	श्री चम्पालाल चोरडिया पुत्र श्री सुगानचंदजी	प प्र वि		55	एम ए	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था		1631, चारडिया भवन, घोडा रास्ता, जयपुर, फो न 46386	
		2 वमनादेवी	पत्नी वि		49	मिडिल					
		3 पद्मादेवी	भाभी विधवा		58	माक्षर					
		4 प्रमोदकुमार	पुत्र वि		31	बी कॉम					
		5 प्रनिलकुमार	पुत्र वि		29	बी काम	रत्न व्यवसाय				

पौत्र 2, पौत्रियां 2

पुत्र 3

		6. अरुणकुमार	पुत्र	वि	27	बी कॉम	रत्न व्यवसाय			
		7 अजयकुमार	पुत्र	वि	24	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय			
		8. अलका	पुत्री	अवि.	21	बी. ए.				
		9. रजनी	पुत्रवधू	वि	28	हा सै				
		10 मधु	पुत्रवधू	वि	23	हा. सै				
		11 शैलवाला	पुत्रवधू	वि	24	हा. सै				
		12 मधु	पुत्रवधू	वि	22	बी. ए.				
418	2218	श्री चैनरूप चोरडिया	प प्र	वि.	47	मै.	रेडियो, टेप का व्यापार	श्वे ते टमकोर	बी-234, जनता कालोनी, जयपुर	अजय रेडियोज, मनिहारो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		पुत्र श्री जीवन्मल जी								
		2 कमला	पत्नी	वि	42	साक्षर				
		3. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	21	एम कॉम				
		4. सजयकुमार	पुत्र	अवि	16		शि. हा.सै			
419	2022	श्री जवाहरलाल चोरडिया	प प्र.	वि.	43	बी कॉम	बैंक कर्मचारी	श्वे स्था. मुलतान	410 मनीराम जी की कोठी, हल्दियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	फो. 40083, ,, 44047 ,, 43603
		पुत्र श्री लक्ष्मीचन्दजी								
		2 चन्द्रावती	माता	विधवा	65	साक्षर				
		3. शारदादेवी	पत्नी	वि	40	बी.ए.				
		4 नीरज	पोती	अवि.	17		शि. हा सै			
420	22	श्री जवाहरलाल चौरडिया	प प्र	वि.	52	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय, होम्योपैथी	श्वे.म. आगरा	1477 तोतूका भवन, बारह गणगोर का रास्ता, जयपुर	जौहरी होम्यो क्लिनिक, 2-घ-जवाहर नगर, जयपुर
		पुत्र श्री हीरालाल जी								
		2. जयश्री	पत्नी	वि	46					
		3 कुमकुम	पुत्री	अवि.	24	मिडिल				
		4 रतनमंजूपा	पुत्री	अवि	23	मिडिल				
		6 स्वर्णलता	पुत्री	अवि.	17		शि. कक्षा 11			
		6 सुनीलकुमार	पुत्र	अवि	20	हा सै				
421	2362	श्री डालमचन्द चोरडिया	प.प्र	वि.	40	सै.	दलाली	श्वे.ते.	जे-115, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर	
		2. कमला	पत्नी	वि	35					
		3 चन्द्रप्रकाश	पुत्र	अवि	13		शि. कक्षा 7			
422	2210	श्री तेजकरण चोरडिया	प प्र.	वि.	35	सै.	नौकरी	श्वे.ते	5268 रेगरो की कोठी घाटगेट, जयपुर	धाधिया जेम्स का. के जी.बी. का रास्ता जयपुर फो 43639
		पुत्र स्व श्री सदासुखजी								
		2. चाँद देवी	माता	विधवा	60					
		3 सुशीला	पत्नी	वि	30	सै				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	1631	श्री विलोपासिंह चोरडिया पुत्र स्व श्री धनवरणजी 2 राजकुमारी 3 स्वतंत्रकुमारी 4 अनिता 5 प्ररुण	प प्र माता पत्नी पुत्र पुत्र	वि विध वि धवि धवि	57 84 52 26 24	इ-पीरियर हा स वी नॉन	का मैनेजर व्यापार प्रशिक्षण गोपनी प्रशिक्षण		धजमेर धजमेर	डी 926, बसतमाग, वनीगाव, जयपुर फो 76589	नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज जयपुर फा 74626
424	2120	श्री वीणचंद्र चोरडिया पुत्र स्व श्री नमीचंद्रजी 2 निमला 3 अनिताकुमारी 4 सायकुमार 5 मनोजकुमार	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र	वि वि धवि धवि धवि	42 37 17 15 13	मैट्रि मिडिल वि हा स " " वि बधा 9	उद्योग (हस्तकला)	जग		ने जी बी वा रास्ता, नयमनजी वा चौक जोहरी बाजार, जयपुर	
425	864	श्री धनरामदास चोरडिया पुत्र श्री वेसरीमलजी 2 लारदेवी 3 पारमदेवी 4 पदमचं 5 उत्तमदेवी 6 पुत्रराज	प प्र पत्नी पुत्रवधू पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि वि वि धवि	83 80 40 27 22 20	मैट्रि साक्षर मैट्रि हा स हा स वी नॉन	रत्न व्यवसाय	श्वे तथा		सौमली बासा की गली, चौडा रास्ता, जयपुर	
426	566	श्री धरणीचंद्र चोरडिया पुत्र स्व श्री माणिकचंद्रजी 2 सुनीला 3 धनोचकुमार 4 सुधा	प प्र पत्नी भोजा पुत्रवधू	वि वि वि वि	52 50 28 22	एम ए , बी एड बी नॉन एम ए	प्रधानाध्यापक	श्वे म		1/2 7, जवाहरगर, जयपुर	श्री श्वे जै नै वि पीयाता वा रास्ता, जयपुर फोन 44728 श्री महावीर दि उ मा विद्यालय, जयपुर
427	1318	श्री नरेन्द्रदेव चोरडिया पुत्र स्व श्रीरघुनाथसिंहजी 2 सुलमाता 3 संगीता 4 सजय 5 राजीव	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र	वि वि धवि धवि धवि	48 44 23 21 19	बी ए बी ए वि एम बी बी एम (वा) वि इजी (गृह) वि इजी (द्वि व)	विजी गतिव	श्वे तथा	भीमबाडा	ई 732, गांधीनगर, जयपुर 3	विद्या धामुक्त एवं मणिव, जयपुर, फो 7 74656

पुत्र-1

428	2027/ 2106	श्री नेमोचन्द्र चोरडिया पुत्र श्री कुन्दनमल जी 2 गुणमाना 3. द्वितीयकुमार 4 महीनकुमार	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	48 44 24 22	बी.ए. हा. सं. शि. बी.कॉम.	नोकरी रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. गीजगढ	चोरडिया भवन, शीशे वालों की गली, रामललाजी का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर	मुबोध कालेज, रामवाग नकिल, जयपुर फो. नं. 72989
429	2023	श्री नेमोचन्द्र चोरडिया पुत्र श्री घनरुपमल जी 2. मानदेवी 3. गुरेन्द्रकुमार	प. प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	57 52 24	मिडिल माक्षर बी.कॉम.	व्यापार	श्वे.स्था	2117 सब्जी मंडी, जीहरी बाजार, जयपुर फो. नं. 46273	
430	119	श्री पदमचन्द्र चोरडिया पुत्र श्री कुन्दनमल जी 2. राजेन्द्रकुमार 3. चोरेन्द्रकुमार 4. मधु 5. मधु	प. प्र. पुत्र पुत्र पुत्रवधू पुत्रवधू	विधुर वि. वि. वि. वि.	53 32 29 25 22	मिडिल एम.कॉम. बी.कॉम. एम.ए. बी.ए.	मुपरवाइजर कृषि विभाग रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. गीजगढ	मकान न. 4463, के.जी.बी. का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर	
431	2024	श्री प्रकाशचन्द्र चोरडिया पुत्र श्री कुन्दनमल जी 2. कमल	प. प्र. पत्नी	वि वि	39 35	इन्टर मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. गीजगढ	चोरडिया भवन, शीशे वालों की गली, रामललाजी का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर फो. न. 48261	
432	16	श्री प्रतापसिंह चोरडिया पुत्र श्री जयचन्दलाल जी 2 चन्द्रकला	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	25 22	हा. सं. मिडिल	किराना व्यापार	श्वे.ते. लाडनू	चोरडिया स्टोर, अजमेर रोड़, सोडाला थाने के सामने, जयपुर	
433	191	श्री प्रतापसिंह चोरडिया पुत्र स्व. श्री मोतीकरणजी 2. कान्तादेवी 3 सुबोधकुमार	प. प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	51 44 21	एम. ए. मिडिल बी. ए.	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. अजमेर	1479, वारह गरगौर का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर फो.न. 64879	
434	1882	श्री प्रमोदकुमार चोरडिया पुत्र श्री केतरीचंदजी 2 मंजु	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	33 26	बी.कॉम एलएल बी. बी. ए.	मैनेजर	जैन जंसलमेर	एम.एस.बी का रास्ता, जैनिय डिस्ट्रीब्यूटर्स न्यू मार्केट, सोगानी 14th जयन्ति मार्केट भवन, जीहरी बाजार एम आई रोड़, जयपुर जयपुर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	1271	श्री पारसकुमार चोरडिया पुत्र स्व श्री विजयनालजी 2 विजयनक्षत्री	प प्र पत्नी	वि वि	53 45	बी ए, बी एड एम ए, बी एड	रत्न व्यवसाय प्रधाताचार्या	श्री स्था रिशानगढ		मी 47, प्रियादर्शी माग, तिलवागर, जयपुर मुबोध बागिका, उ मा नि जयपुर, फो न 74532	
436	2119	श्री बालूतालजी चोरडिया पुत्र श्री गणपतलालजी 2 रजना	प प्र पत्नी	वि वि	32 26	बी कॉम बी ए	पाय ना व्यापार	ज श्वे पुत्र-1, पुत्री-1		बी 277, जनता सॉनोती जयपुर	
437	2374	श्री बाबूलालजी चोरडिया पुत्र श्री चम्पलालजी 2 विजयनक्षत्री 3 रमेशकुमार	प प्र पत्नी	वि वि प्रवि	40 35 19	बी कॉम म मि बी ए (प्र व)	गाररलम इ स्पेक्टर	श्री ते पुत्र 2 पुत्री 1		2323, गार्ड यो गनी, श्री बाला ना रास्ता, जयपुर	
438	1195	श्री भवरलाल चोरडिया पुत्र श्री पारसमलजी 2 हेमन्ता 3 विजयनाथ 4 नीताम 5 मलय	प प्र पत्नी	वि वि प्रवि प्रवि प्रवि	54 49 26 21 14	बी कॉम एलएन श्री म सी ए सी ए प्रेक्टिस मि एम ए (फा) मि वक्षा 9	वक्ता टवग	श्री स्था व्यापार		पाटनी जन एण्ट व जोहरी बाजार जयपुर फा 76002 फो न 72766	
439A	2480	श्री भागवत चोरडिया पुत्र श्री उमरावसिंहजी 2 प्रेमलता 3 प्रतिमा 4 मुकेश	प प्र पत्नी	वि वि प्रवि "	38 37 14 13	मैट्रिक मैट्रिक मि म मि वक्षा 8	परगार	श्री म पुत्रिया-1		म न 4459 गोरडिया हाउस, के जी यो ना रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फा न 41038	
439B	2025	श्री भागवत चोरडिया पुत्र श्री कुन्दनमलजी 2 रूपदेवी 3 राजेन्द्रकुमार 4 नवरत्नदेवी 5 भगोबकुमार 6 रेखा	प प्र पत्नी	वि वि वि प्रवि प्रवि	56 55 34 32 22 19	सी ए साक्षर हा म साक्षर मि सी ए (फा) मि एम	गथा निवृत्त	श्री स्था गोजगद		5462, के जी यो ना रास्ता, गोपा चौराहा, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 43590 म न 4846 विर क्षम भवन के माग, के जी यो ना रास्ता, फा न 45796	

440	2133	श्री भूपनसिंह चोरडिया पुत्र श्री हीरालालजी 2. जतनकुमारी 3. रेखा	प प्र. पत्नी पुत्री	वि. वि. अवि	42 35 16	मिडिल मिडिल सं.	नगीनासाजी शि. हा.सं. सर्विस	श्वे.मं पुत्र-1 किशनगढ	3-छ-4, जवाहर नगर, जयपुर 4448 के.जी वी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	बम्ब सदन न. 1, बारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर
441	1758	श्री मनमोहन चोरडिया पुत्र श्री गणपतलालजी 2. सुन्दरदेवी	प प्र. पत्नी	वि. वि.	38 35	सं. मैट्रिक	कार्यालय सहायक मु निर्वा अधि	जैन	ज्ञान भवन, भट्टो की गली, चौडा रास्ता, जयपुर	निर्वाचन विभाग, राज सचि, जयपुर फो 64001 महिला विद्यापीठ जयपुर
2	1357	श्री महेन्द्रकुमार चोरडिया पुत्र स्व श्री छन्नोमलजी 2. प्रतापकंवर 3. कमला 4. रविन्द्र प्रकाश 5. शशिभूषण	पं.प्र. माता पत्नी पुत्र पुत्र	वि. विधवा वि. अवि अवि	53 81 48 23 21	मैट्रिक मैट्रिक बी काँम बी एससी	सहा. अध्यापिका बेरोजगार बेरोजगार	जैन	जयपुर	राज सचि, जयपुर फो 64001 महिला विद्यापीठ जयपुर
443	1847	महेन्द्रसिंह चोरडिया पुत्र श्री समीरमलजी 2. उषा	प प्र पत्नी	वि वि	33 30	बी.एससी, एलएल बी एम.ए (अर्थ)	बैंक मे सेवारत नौकरी	श्वे.मं. मसूदा	125/11 रिजर्व बैंक स्टाफ क्वार्टर, गाधी नगर, जयपुर	भारतीय रिजर्व बैंक, टोक रोड़, रामबाग सर्किल के पास, जयपुर जे डी ए. कार्यालय भवानीसिंह मार्ग, बापूनगर
444	982	श्री मारणकचन्द्र चोरडिया पुत्र श्री रूपचन्द्रजी 2. मानवाई 3. कमला	प प्र माता पत्नी	वि. विधवा वि	44 60 38	इन्टर मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	म नं. 4653, के.जी वी का रास्ता, बेरी का बास, जयपुर	म नं. 4653, के.जी वी का रास्ता, बेरी का बास, जयपुर फोन 45747, 41286
	833	श्री मूलचन्द्र चोरडिया पुत्र स्व. श्री गोपीलालजी 2. कमलादेवी 3. सजयकुमार 4. संदीपकुमार 5. सीमा 6. डॉ. शकुन्तला चौपडा	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री साली	वि. वि अवि अवि अवि	40 36 19 17 13 24	एम एससी (साख्यिकी) मिडिल मिडिल अवि अवि अवि	उपनिदेशक शि बी एससी. (फा) शि. बी.काँम. (प्र व) शि. कक्षा 8 शि. एम एस. (सर्ज)	श्वे स्था पुत्री-1 पुत्र-2 पुत्री-1	किशनगढ जयपुर	विद्युत भवन, विद्युत जनता कॉलोनी, जयपुर मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर फो न 65792
446	1364	श्री मोतीचन्द चोरडिया पुत्र श्री रूपचन्द्रजी 2. पुष्पादेवी	प प्र. पत्नी	अवि वि	46 34	एम.बी वी.एस	रत्न दलाली	श्वे ते.	विजयनगर	के.जी.वी का रास्ता, जयपुर फो न. 45747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 प्रमिता	पुनी	प्रवि	21	बी ए	शि बी ए (का)				
		4 विनयचन्द	पुत्र	प्रवि	20	मैट्रिक				पुनी 1	
		5 विमलचन्द्र	पुत्र	प्रवि	18	बी कॉम	शि बी कॉम (द्वि व)				
447	1296	श्री मोतीलाल चोरडिया पुत्र श्री गोपीलालजी	प प्र	वि	45	एम कॉम	सॉसित	श्वे स्था	विधानगढ़	ई 102 ए, शास्त्री नगर, जयपुर	स्टेट बव धाफ़ ग्रीवा- नर गण्ड जयपुर, तिलक माग, जयपुर फो न 67776
		2 इन्द्रा	पुनी	प्रवि	20		शि बी एनसी (द्वि व)				
		3 राजेशकुमार	पुत्र	प्रवि	18		' "				
		4 धारा	पुनी	प्रवि	16		शि बी कॉम (प्र व)			पुत्र 2 पुत्रिया 2	
		5 रावेणुमार	पुत्र	प्रवि	14		शि एका 9				
448	387/ 1374	श्री मोहनलाल चोरडिया पुत्र स्व श्री मोतीलालजी	प प्र	वि	54	मैट्रि	चिराता ध्ययनाय	श्वे म	गलाडेर	लक्ष्मीवाता ग्री गनी, म न 1915, सोदनी बाजार, जयपुर	पु न 316, जोहरी बाजार, जयपुर
		2 पालाबेबी	पत्नी	वि	51	साम्धार					
		3 सुशीलकुमार	पुत्र	वि	21	स	ध्यापार				
		4 वाग्ता	पुत्रवधू	वि	19	मिडिल					
		5 अनिलकुमार	पुत्र	प्रवि	18		शि बी ए (प्र व)				
449A	1975	श्री राजमल चोरडिया पुत्र स्व श्री सरूपचंदजी	प प्र	वि	42	इंटर	रत्न ध्यवताय	श्वे स्था		माधवीवाता ग्री गनी, चोरडिया टूडिंग बागों चौडा रास्ता, जयपुर	चोरडिया टूडिंग बागों चौडा रास्ता, जयपुर फो न 49768, " 48587
		2 निमता	पत्नी	वि	37	मिडिल					
		3 विजय	पुत्र	प्रवि	20	बी कॉम					
		4 प्रल्हदा	पुनी	प्रवि	16		शि कथा 11				
449B	2475	श्री राजेशकुमार चोरडिया पुत्र श्री राजकुमारजी	प प्र	वि	35	इंटर	ध्यवताय	जन ममम		म न 4459, ने जो बी रा रास्ता, जोहरी	फा न 44764
		2 सुमनकुमारी	पत्नी	वि	32	बी ए					
450	1681	श्री देवराज चोरडिया पुत्र श्री भाट्टराजजी	प प्र	वि	57	बी ए	नला गरीगा प्रधितारी	श्वे स्था	जोधपुर	बाजार, जयपुर ए जो वॉरॉनी, III 172, बज्जाननगर, महालक्ष्मीनगर(माडिट) जयपुर	चौडा रास्ता, फो न 63092, " 73092
		2 बादासचन्द	पत्नी	वि	54						
		3 महावीरराज	पुत्र	वि	37	डिप्लोमा (मैक इ)	जूनि इजीनियर				
		4 प्रताप	पुत्रवधू	वि	30						
		5 नन्दराज	पुत्र	वि	34	एम ए	जूनि एकाउन्टे				
		6 चन्द्रराज	पुत्रवधू	वि	28	हाम					
		7 धनय	पौत्र	प्रवि	13		शि गै				
										पुत्र 1, पुनी 1	
										पुत्र 2 पौत्रिया 2	
											एशो इन्डस्ट्रीज बागों जयपुर राज इन्डस्ट्रीजिटी बोड जयपुर

451	2363	श्री वर्धमानसिंह चोरडिया पुत्र श्री फतेहदासजी 2 रत्नवाई	प प्र. पत्नी	वि. वि	58 53	रत्न व्यवसाय	श्वे ते पुत्र-1	4459, के जी वी का रास्ता, जयपुर
452	1877	श्री विजयकुमार चोरडिया पुत्र श्री वीरभानजी 2. पदमा	प प्र. पत्नी	वि. वि	34 30	रत्न व्यवसाय	जैन दिल्ली पुत्र-1 पुत्री-1	म न 4840, के जी वी का रास्ता, जयपुर म न 2237, हल्दियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो नं 45493
453	1654	श्री शांतीकुमार चोरडिया पुत्र श्री धर्मचन्दजी 2. आशा	प प्र. पत्नी	वि वि	30 28	रत्न दलाली	श्वे स्था आगरा पुत्र-1	1146, सकडी गली, चौडा रास्ता, जयपुर
454	650	श्री स्वरूपचन्द चोरडिया पुत्र श्री रूपचन्दजी 2 स्नेहलता	प प्र. पत्नी	वि वि	31 29	मैनेजर ट्रासपोर्ट कम्पनी	जैन पुत्री-2	म न 2330, घी वालो का रास्ता, जयपुर निर्मल रोडवेज, संसार चन्द्र रोड, जयपुर फो न. 61510
455	158	श्री सुरेशकुमार चोरडिया पुत्र श्री पदमचन्दजी 2. मजू	प प्र. पत्नी	वि वि	32 25	रत्न व्यवसाय	जैन पुत्र-1 पुत्री-1	म.न 2290, राम- ललाजी का रास्ता, चोरडिया भवन, जयपुर
456	1858	श्री हंसराज चोरडिया पुत्र स्व. श्री जयचन्दलालजी 2 लक्ष्मीदेवी 3. सुरेशकुमार 4 मजुदेवी 5. सुनीलकुमार 6. सुधीरकुमार 7. सुमन	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र पुत्री	वि वि वि वि अवि. अवि. अवि.	47 40 24 20 19 17 14	मैट्रिक मिडिल बी ए. सै शि बी कॉम (द्वि व) " " (प्र व) शि कक्षा 9	श्वे ते लाडनू पुत्र-1	म न 570, ठाकुर पचेवर का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर-3
457	178 2290	श्री श्रीचन्द चोरडिया पुत्र श्री मिलापचन्दजी 2. नवरत्नदेवी 3 सुभाषचन्द 4. विमला 5 चन्द्रप्रकाश 6 राजेन्द्रकुमार 7 अनीता	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र पुत्री	वि वि वि. वि. अवि अवि अवि.	53 47 30 27 27 22 14	साक्षर साक्षर बी.ए. सै. सै. बी ए. शि. कक्षा 8	श्वे स्था बडू पुत्र-1	म न 4643, के जी वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	2026	श्री ज्ञानचन्द चोरडिया पुत्र श्री कुन्दनमल जी	प प्र	वि	46	बी ए	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था	गीजगढ	शिवजीराम भवन, एम एस बी का रास्ता, जयपुर फो न 45796	
		2 निमलादेवी	पत्नी	वि	43	हा स्कूल					
		3 सुनीता	पुत्री	प्रवि	21	बी कॉम					
		4 सुनील	पुत्र	प्रवि	19		शि बी ए (टि व)				
		5 सुपमा	पुत्री	प्रवि	18		" "				
		6 सुभाष	पुत्र	प्रवि	14		शि स			पुन-2 पुत्रियां 2	
459	850	श्री ज्ञानचन्द चोरडिया पुत्र श्री धनरूपमल जी	प प्र	विधुर	60	एम ए बी काम एलएल बी	कमिस्ट (प्रोपिथि)	श्वे स्था		म न 2327, शीघे वाता की गनी, रामललाजी का रास्ता, जयपुर फो न 61664	जयपुर केमिक्लम, विशोर निवास, त्रिपालिया बाजार, जयपुर फो न 72828 सजय मडिक्लम, एम भाई रोड, जयपुर फो न 63073
		2 इन्द्रकुमार	पुत्र	वि	35	मैट्रिक	कमिस्ट				
		3 उमिला	पुत्रवधू	वि	30	मैट्रिक				पुन-2	
460	981/ 1363	श्री ज्ञानचन्द चोरडिया पुत्र श्री रूपचन्दजी	प प्र	वि	39	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जा		4653 के जी बी का रास्ता, बेरी का बास, जयपुर फो न 45747, 41286	
		2 माधुरी	पत्नी	वि	35	मैट्रिक					
		3 वन्दना	पुत्री	प्रवि	13		शि कशा 5				
		<u>छत्रसानी</u>									
461	1332	श्री बलपतसिंह छत्रसानी पुत्र रंज श्री चम्पालालजी	प प्र	वि	55	मैट्रिक	कपडे का व्यापार	श्व म		3743, वाता का मै गणेशनाथ सागर- मा, के जी बी का मन जन, दु न 233, रास्ता, जोहरी बाजार, जोहरी बाजार, जयपुर जयपुर फो न 42214 फो न 43211 बगार (कृष्णट्टर)	
		2 छत्रादेवी	पत्नी	वि	48	मिडिल					
		3 बनवन्तसिंह	पुत्र	वि	32	बी कॉम	कपडे का व्यापार				
		4 गुमनदेवी	पुत्रवधू	वि	28	बी ए (प्र व)					
		5 धनपतसिंह	पुत्र	वि	25	बी कॉम	कपडे का व्यापार				
		6 शमिलादेवी	पुत्रवधू	वि	22	बी ए (प्र व)					
		7 राजशकुमार	पुत्र	प्रवि	20	बी काम					
		8 उमिला	पुत्री	प्रवि	18		शि बी ए (टि व)				
		9 दगनकुमार	पुत्र	प्रवि	15		शि म			फो न 1 फोनी 1	

462	485	श्री पदमचन्द्र छजलानी पुत्र श्री चम्पालालजी 2 सरदारदेवी 3. इन्द्रादेवी 4. नवीन	प. प्र माता पत्नी पुत्र	वि विधवा वि. अवि	38 73 34 13	रत्न दलाली	श्वे म	3969, कोठारी हाउस, एम एस वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो न. 43258 पी.पी.	
463	483	श्री सुभाषचन्द्र छजलानी पुत्र श्री ज्ञानचन्द्रजी 2 सुशीलाकुमारी 3 सजयकुमार 4. अजयकुमार 5. शरदकुमार	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि. अवि अवि अवि.	47 39 19 18 13	इण्टर रत्न दलाली	श्वे म. देहली	मं न 570, ठाकुर पचेवर का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर, फो न 42997	
464	482	श्री सुरेन्द्रकुमार छजलानी पुत्र श्री ज्ञानचन्द्रजी 2 मधुकुमारी	प. प्र पत्नी	वि वि	37 32	हा सैंक सैंक.	व्यवसाय श्वे म	570, ठाकुर पचेवर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं 44780	
465	724	श्री सुशीलकुमार छजलानी पुत्र श्री ज्ञानचन्द्रजी 2. पुष्पा 3. दीपककुमार	प. प्र पत्नी पुत्र	वि. वि अवि.	44 38 15	बी कॉम सैंक 15	रत्न व्यवसाय " शिक्षार्थी कक्षा 10	जैन दिल्ली पुत्र-1, पुत्री-1	जवाहर ट्रेडिंग कारपो, जवाहर ट्रेडिंग कारपो, घी वालो का रास्ता, मं न 2444, कूकडा जौहरी बाजार, जयपुर हाउस, घी वालो का फो नं. 42789 रास्ता, जयपुर, फो न. 42789
छाजेड़									
466	2113	श्री अनिल छाजेड़ पुत्र श्री नेमीचन्द्रजी 2. उपा	प प्र. पत्नी	वि वि	27 24	एम.कॉम., एलएल.बी. बी.ए.	बैंक अधिकारी	जैन कोटा पुत्री-1	बैंक ऑफ राजस्थान, सेन्ट्रल ऑफिस, बर्फ- खाना रोड, बनीपार्क, जयपुर बैंक ऑफ राजस्थान, स्टेशनरी डिपार्टमेंट, सेन्ट्रल आफिस, बर्फ- खाना रोड, बनीपार्क, जयपुर फो. न. 67450
467	1957	श्री उत्तमचन्द्र छाजेड़ पुत्र श्री उमरावमलजी 2. कृष्णा 3. सुरेशचन्द्र 4. राजेश	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	50 40 24 20	इन्टर मिडिल 24 20	रत्न दलाली, सन्त सेवा रत्न दलाली रत्न दलाली	श्वे स्था	लाल भवन, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के पास, चौडा रास्ता, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 गंगो	पुन	धरि	16		नि म				
		6 बगो	पुन	धरि	16		नि म				
468	207	श्री जयराजसिंह साखेड़ पुन श्री जयराजसिंह की	प प्र	रि	49	बी बाग भील घाई घाई बी	बैर धरिण	श्वे	भापुरा (भीमबाग)	1-2-15 जवाहर उपर जयपुर 4	दिल्ली क्षेत्र, 11 नव वन फॉर एपीकार एच एच जयपुरमेट, पो 93, सुभाष मार्ग, मीनवीम, जयपुर, पो न 61809
		2 गंगाकुमारी	परती	वि	47	मिडिन					
		3 शिखरकुमार	पुन	धरि	22		नि बी ई (मिडिन)				
		4 शिरीषा	पुनी	धरि	19		नि बी ए (डिप)				
		5 रबीया	पुनी	धरि	15		नि हा म				
469	1610	श्री जयराजसिंह साखेड़ पुन श्री भीमबागकी	प प्र	धरि	22		नि एम बी सी एम	ज	बीदागर (रुह)	42, नं एम के माता होस्टल, सराई बागसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर श्री बाबा का रास्ता, जयपुर	
470	1404	श्री जयराजसिंह साखेड़ पुन श्री भीमबागकी	प प्र	रि	74	हा म	मेरा निवृत्त	ज			
		2 गीतादेवी	परती	वि	61	मादार					
		3 सुभाषकुमार	पीप	धरि	18	हा म	रत्न व्यवसाय				
471	2072	श्री जयराजसिंह साखेड़ पुन श्री भीमबागकी	प प्र	रि	60	मिडिन	रत्न व्यवसाय	श्वे	स्था	154, हृदिया का रास्ता, जयपुर-3, पो न 42449	
		2 सुभाषकुमार	परती	वि	55	मिडिन					
		3 मनिषकुमार	पुन	वि	30	बी कॉम					
		4 गीताकुमारी	पुनवत्	वि	22	मिडिन					
		5 मंजुकुमार	पुन	धरि	17						
		6 गणेशकुमार	पुनी	धरि	21	हा म					
472	2291	श्री जितेंद्र साखेड़ पुन श्री मातंगकी	प प्र	वि	48		नि पी कॉम (प्र व)				
		2 जशमीदेवी	पल्लो	रि	42		पत्रारिवा	श्वे	ते	2073, श्री राजा का रास्ता, यगदीहर प्रेम, जयपुर, पो न 40582	
		3 भारतभूपाल	पुन	रि	24	म					
		4 मातोपदेवी	पुनवत्	वि	22	बी ए					
		5 उमेश	पुन	धरि	22	म					
		6 घणेशकुमार	पुन	धरि	20	"					
		7 पमेश	पत्र	धरि	18						

पुन 1

पुनी-1

पुन-1

473	626	डॉ. डूंगरसिंह छाजेड़ पुत्र श्री हीरालालजी	प प्र	वि.	46	एम.एससी, पीएच.डी.	सहायक प्रोफेसर	श्वे स्था देलवाडा (उदयपुर)	6-ग-6 जवाहर नगर, जयपुर	रसायन शास्त्र विभाग, राज वि वि, जयपुर
		2. कमला	पत्नी	वि	40	एम.ए.				
		3 राकेश	पुत्र	अवि	19		शि. बी.ई. (तृ व. मैक.)			
		4 मुकेश	पुत्र	"	17		शि. बी एससी. (प्र व.)			
		5 नरेश	पुत्र	"	13		शि. कक्षा 8			
474	780	श्री दिनेन्द्रकुमार छाजेड़ पुत्र स्व श्री सुभनचन्द्रजी	प प्र.	वि	42		व्यापार	श्वे. स्था	8-ए, कृष्णानगर II, गांधी नगर मोड़ के सामने, जयपुर	
		2. चम्पादेवी	पत्नी	वि	40					
		3. अन्जुला	पुत्री	अवि.	19		शि. बी ए (द्वि व)			
		4. अरुण	पुत्र	"	16		" सैकण्डरी			
		5 आभा	पुत्री	"	14		" कक्षा 8			
475	1818	श्री दीपचन्द्र छाजेड़ पुत्र श्री चाँदमलजी	प प्र.	वि	74	मिडिल	प्राइवेट सेवा	श्वे. म	सी-51, आर्यसमाज रोड़, राजापार्क, जयपुर, फो न 46370	
		2 कमलादेवी	पत्नी	वि	60	साक्षर				
476	1223	श्री नगेन्द्रमल छाजेड़ पुत्र श्री नथमलजी	प. प्र	वि	54	बी.कॉम	लेखाधिकारी	श्वे. स्था. जोधपुर	सी-229, ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, फो.न 78379	महालेखाकार कार्यालय, जयपुर, फो नं. 68431 एक्स. 219
		2. लीलादेवी	पत्नी	वि.	49	साक्षर				
		3. नीता	पुत्री	अवि.	20		शि. बी.ए. (तृ व.)			
477	1120	श्री नथमल छाजेड़ पुत्र श्री सौभागमलजी	प प्र	वि.	80	साक्षर		श्वे.स्था	3886, एम एस बी. का रास्ता, जयपुर-3	
		2. मोहनवाई	पत्नी	वि	65					
		3 विमलचन्द्र	पुत्र	वि	34	बी कॉम	व्यापार			
		4 पदमाकवर	पुत्रवधू	वि	30	साक्षर				
		5. कमलचन्द्र	पुत्र	वि	30	सै	व्यापार			
		6 मीना	पुत्रवधू	वि.	28	सै				
		7. गुणमाला	पुत्री	अवि	20		शि कक्षा 9			
		8 निर्मलचन्द्र	पुत्र	अवि	18		शि बी कॉम.			
478	1606	श्री नोरतनमल छाजेड़ पुत्र श्री नेमीचन्द्रजी	प प्र	अवि.	22	बी ए. (प्र व)		जैन	उम्मेद भान, बारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो न 72878/77730	
		2. केवलचन्द्र	भ्राता	अवि	21	बी.ए (द्वि व)				

483	622	श्री प्रेमचन्द छाजेड़ पुत्र श्री सरदारमलजी 2 विमलादेवी	प प्र पत्नी	वि वि.	43 38	मैट्रिक हा.सै.	जेन्सन तालो के निर्माता	जैन	'जेन्सन हाउस', सेक्टर 5-ट-21, जवाहर नगर, जयपुर, फो नं 852220 घर	जैन्सन लाकर्स क., बी-40, एम.जी.डी. मार्केट, जयपुर, फोन 66941 4815, प्रीमियर नगर, अलीगढ़ (यू.पी)
		3. संजयकुमार 4. विजयकुमार	पुत्र पुत्र	अवि. अवि.	21 19	बी.कॉम	व्यवसाय व्यवसाय एवं शि. बी.ए (द्वि व.)			
		5. अजयकुमार	पुत्र	अवि.	17		व्यवसाय एव शि. बी.ए. (प्र.व.)			
484	2277	6 प्रीतीबाला श्री एम. सी. छाजेड़ पुत्र श्री मंगलचन्दजी 2. श्रीदेवी	पुत्री प प्र.	अवि. वि.	13 74		शि. कक्षा 7 व्यापार	श्वे ते	सी-37-बी, जगन पथ, चौमू हाउस, सी-स्कीम, जयपुर फो. 62910	
485	2214	श्री एम. के. छाजेड़ पुत्र श्री मालचन्दजी 2. डा. कान्ता 3 उषा 4. कल्पना 5. आलोक	पत्नी प.प्र. पत्नी भाएजी भाएजी पुत्र	वि. वि वि. अवि अवि अवि	69 39 38 21 18 13	बी काम., एलएल बी. एम बी बी एस	वकालत प्रेक्टिस शि एम.ए शि बी ए. शि कक्षा 9	श्वे स्था	सी-31-बी, जगन पथ, चौमू हाउस, सी-स्कीम, फोन 62910	
486	126	श्री महेन्द्रकुमार छाजेड़ पुत्र स्व श्री सुगनचन्द जी 2. सरोज 3. मनीषा	प. प्र पत्नी पुत्री	वि. वि अवि	39 34 13	हा सै	रत्न व्यवसाय शि सै.	श्वे स्था	ए-16, कृष्णा नगर, गाधीनगर, मोड, जयपुर-15, फो. न 69301 पी पी	जेमिको ज्वेलर्स, सिंघड भवन, के जी बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो नं 41022
487	2212	श्री मानमल छाजेड़ पुत्र स्व. श्री बुद्धमल जी 2. मनोहरदेवी 3. कमलसिंह 4 पुखराज 5. अमर 6. मंजू 7 विनोद 8. कुसुम	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि.	63 60 34 30 30 27 26 22	हा सै वी.कॉम. हा. सै. सै. हा. सै हा सै.	फैक्ट्री कार्य	श्वे.ते.	ई-32, अम्बाबाडी, जयपुर, फो न 77160	अशोका इण्डस्ट्रीज, भोटवाडा, फो न. 842615 पी.पी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	293	श्री भागलाल दास पुत्र श्री गणेशरामजी	प प्र	रि	46	मैट्रिग	धरमसिधो ग ध्यागार	वे म	श्री बागो बा रामा,	प 104, जयता तांतानी, जयपुर	बाबांरा फो नं 45599
		2 बसया	पती	रि	41	मैट्रिग	ध्यागार		जयपुर	पा 45135	45021
		3 दनिन	पुत्र	वि	24	एम वॉम	ध्यागार				
		4 प्रिया	पुत्रपु	वि	20	हा स					
489	501	श्री भागलाल दास पुत्र श्री सुजनकाशी	प प्र	वि	60	बी ए,	होम्सोपविन प्रेसिडन	ध्वे म	व्दी	बो 35 पांच भादशा फो बोडी, गोविन्द मार्ग, धामनगर	मल्लभद्र होम्सा रिचिस्ता वेड, मण्ड्य हाटल के पीके, स्टेशन
		2 धनदुर्गा	पती	वि	57	एम ए, ताहिस्य रल				जयपुर 4 फो 65320	रोड जयपुर
		3 शरवान	पुत्र	धरि	21	बी वॉम				43570	फा 65320
490	2213	श्री धार के दास पुत्र श्री मानकाशी	प प्र	वि	42	मैट्रिग	पपरारिता	धरे ने		श्री 31 रि जयत पय, चौमू हाउस, जयपुर,	मगनगर ज्यारि जयपुर
		2 भमदेवी	पती	रि	40	मिडिल				फो न 62910	
		3 स्वयेन	भाएजी	धरि	24		बी ए				
		4 माना	पुत्र	धरि	18		शि बी ई (प्र व)				
		5 मजन	पुत्र	धरि	16		शि ग				
		6 राजकुमार	पुत्र	धरि	14		शि वधा 6				
491	826/ 1959	श्री रतनचंद दास पुत्र श्री गोरीलालजी	प प्र	वि	63	मिडिल	रल व्यवसाय	श्व स्था		2245, धूरा हाउस के सामने, धाजेट भवन, जयपुर	
		2 बलाधुमारी	पती	वि	58	माधर					
492	1790/ 1340	श्री रतनचंद दास पुत्र श्री परदारमलजी	प प्र	वि	39	मैट्रिग	उद्योग	जन		4-म-13, जवाहरनगर, जयपुर	
		2 उमा	पत्नी	वि	37	बी ए					
		3 धनु	पुत्री	धरि	16						
		4 भासू	पुत्री	धरि	15		शि बी एससी (प्र व) शि ग				
493	1641	श्री राजकुमार दास पुत्र श्री चामनजी	प प्र	वि	30	मिडिल	व्यवसाय	जन		3986, के जी बो बा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर-3	
		2 लीलादेवी	माता	विधवा	55						
		3 समताकुमारी	पत्नी	वि	28	मैट्रिग					
		4 शशीकुमार	भाई	धरि	26	मिडिल					
		5 सुशीकुमार	भाई	धरि	24	मिडिल	व्यवसाय				

पुत्री-1

494	2127	श्री राजेन्द्रकुमार छाजेड़ पुत्र स्व श्री हरकचन्दजी 2. किरणवाई 3 अरुणा 4 सजय 5 अर्चना 6 रचना	प.प्र. माता पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि विधवा वि. अवि. अवि. अवि.	45 65 38 18 16 15	सी.ए. मैट्रिक मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	4481, के.जी वी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो.न. 45669
495	192	श्री लक्ष्मीलाल छाजेड़ पुत्र स्व श्री सुगनचन्दजी 2. रूपकवर 3 अनिलकुमार 4 अजीतकुमार 5. अरविन्दकुमार	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि. अवि. अवि. अवि	54 48 24 22 20	इन्टर वी.काॅम. वी काॅम	व्यवसाय व्यवसाय शि वी.ए. (द्वि व)	जैन	21, एवरेस्ट कॉलोनी, शाईनिंग लक्ष्मी लालकोठी, जयपुर ट्रेडिंग कारपो, फो न 75438 कूकडो का दरवाजा, घी वालो का रास्ता, जयपुर
496	2211	श्री विनोदकुमार छाजेड़ पुत्र श्री लालचन्दजी	प प्र	वि	30	वी ई.	इन्जीनियर	श्वे ते. (चुरु)	इ-32, अम्बावाडी, अशोका इण्डस्ट्रीज, जयपुर जयपुरिया टैक्सटाइल कम्पाउण्ड, भोटवाडा
497	582	श्री सरदारमल छाजेड़ पुत्र श्री चान्दमलजी 2 सूरजकला 3 विमलचन्द 4 निवेदिता 5. अजयकुमार	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र	वि. वि वि वि अवि.	70 50 29 26 15	मैट्रिक सं हा सं.	मेवा-निवृत्त व्यापार	श्वे जैन	2/101, जवाहर नगर, जयपुर जयपुर
498	2071	श्री सिरहमल छाजेड़ पुत्र श्री चौथमलजी 2 शान्तिदेवी 3 अनिल 4. सुशील 5 कमल	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि. अवि. अवि. अवि	60 50 20 17 14	साक्षर साक्षर वी काॅम.	व्यवसाय वेरोजगार	श्वे स्था.	4860, के.जी वी का रास्ता, सोतियो की गली, जौहरी बाजार, जयपुर
499	1768	श्री सुभाषचन्द छाजेड़ पुत्र श्री कुन्दनलालजी 2 सन्तोपदेवी	प प्र पत्नी	वि वि.	31 28	मैट्रिक मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म पुत्र-2	2419, छाजेड भवन, 615, ग्रीन हाउस, धीवालो का रास्ता, अशोक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर जयपुर फो 42631/41369 फो नं. 62900

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	1078	श्री सुमेरुचक्र प्रामाण्य पुन स्त्र श्री श्रीभक्तवती	प प्र	वि	48	श्रीद्विज	मोटर व्यवसाय	श्वे स्या		पुलिस मेमोरियल, तारावणसिंह रोड, जयपुर	घाटो बयोर, पुलिस मेमोरियल, जयपुर
		2 शम्भु	पत्नी	वि	41	मिडिल					
		3 शम्भुकुमार	पुत्र	धर्मि	23	बी जॉन	व्यापार				
		4 रामेस	पुत्र	धर्मि	19		शि बी ए (डि ग)				
		5 शम्भु	पुत्र	धर्मि	17		शि स				
501	599	श्री सुमेरुचक्र प्रामाण्य पुन श्री शम्भुचरण शर्मा	प प्र	वि	40	श्रीद्विज	व्यवसाय	जग		3 व 20, त्रवाहर नगर, जयपुर पो नं 44322	39, धातिस मार्केट, जयपुर पो नं 63101
		2 शम्भु	पत्नी	वि	37	बी ए					
		3 शम्भु	पुत्र	धर्मि	16	शि हाम					
502	803/ 1274	श्री श्रीराधेश्वर प्रामाण्य पुन स्त्र श्री शम्भुचरण शर्मा	प प्र	वि	52	बी जॉन	ग घा कारनग	श्वे स्या		2335, एम एल बी रा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर पो नं 41925	
		2 शम्भु	पत्नी	वि	47	श्रीद्विज					
		3 सुधीरकुमार	पुत्र	वि	26	बी जॉन	व्यवसाय				
		4 शम्भु	पुत्रधर्मि	वि	22	एम ए					
		5 प्रदीपकुमार	पुत्र	धर्मि	24	श्रीद्विज	रत्न व्यवसाय				
		6 शम्भुकुमार	पुत्र	धर्मि	23	बी जॉन					
		इसानी									
503	2432	श्री हनुमानकुमार इसानी पुन स्त्र श्री शम्भुचरण शर्मा	प प्र	धर्मि	20	हाथ	गोबरी	श्वे त			डारा घरए मेडिकल स्टोम, वातीनगर, जयपुर
		2 मोहनीश्वरी	माता	विधवा	58						
		जरगड									
504	1062	श्री विहासचन्द्र जरगड पुन स्त्र श्री बशीतामाजी	प प्र	वि	29	बी जॉन	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		म न 3952, एम एल बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर पो नं 40548	
		2 शम्भु	पत्नी	वि	26	बी ग					
505	1590	श्री प्रकाशचन्द्र जरगड पुन स्त्र श्री विजयचन्द्र शर्मा	प प्र	वि	35	बी ग	रत्न व्यवसाय	श्वे मं		378, हनुमानजी वा रास्ता, महर निवास, जयपुर पो नं 69248	
		2 शम्भु	पत्नी	वि	32						

पुत्री-1

पुत्री 1

506	2162	श्री पारसचन्द जरगड़ पुत्र श्री सुव्रतचन्दजी 2 अमीता	प प्र. पत्नी	वि. वि.	30 26	बी.कॉम. इन्टर	रत्न व्यवसाय एव शेयर ब्रोकर	श्वे.म: पुत्र-1 पुत्रियाँ-2	पटोलिया हाउस, न्यू कॉलोनी, पाचवत्ती, जयपुर फो. नं. 65976	2306, घी वाली का रास्ता, गली चन्द्रावतान, जौहरी बाजार, जयपुर फो. न. 43315
507	1225	श्री महावीरचंद जरगड़ पुत्र स्व श्री वशीलालजी 2. पुष्पादेवी 3 सुभाषचन्द 4 कुशनचन्द 5 चन्दा	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि अवि	43 38 22 20 18	मैट्रिक मैट्रिक	व्यवसाय शि वी कॉम शि वी ए (द्वि व.) शि वी.ए (प्र व.)	श्वे.स्था. पुत्र-1	म.नं. 3952, एम. एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो न 42330	
508	1632	श्री लालचंद जरगड़ पुत्र स्व श्री वंशीलालजी 2 रूपलता 3. प्रमिला 4 सुनीता 5 अनिल	प प्र पत्नी पुत्री पुत्री पुत्र	वि वि अवि अवि अवि	38 35 16 15 13			श्वे स्था. पुत्रियाँ-2	3952, एम एस बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
509	2237	विनोदकुमार जरगड़ 2 अरुणादेवी	प प्र. पत्नी	वि. वि	30 26		शि. हा. सै. शि. सै. शि कक्षा 8	श्वे ते. पुत्रियाँ-2	ए-6, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर फो.नं. 61305	आशा ट्रेडिंग कं. धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर
510	2163	श्री शांतिचन्द जरगड़ पुत्र श्री सुव्रतचन्दजी 2 पुखराजकवर 3. विजयलक्ष्मी	प.प्र माता पत्नी	वि. विधवा वि	34 65 31	वी एससी. एस एससी.	रत्न व्यवसाय एव शेयर ब्रोकर	स्वे.म. पुत्र-1 पुत्रिया-3	पटोलिया हाउस, न्यूकालोनी पाचवत्ती, जयपुर, फो 65976	2306, घी वाली का रास्ता, गली चन्द्रावतान, जौहरी बाजार, जयपुर, फो नं. 43315
511	1113	श्री हीराचन्द जरगड़ पुत्र स्व. श्री वशीलालजी 2. मधु 3 रेखा 4 अरुण 5 अजीत	प.प्र. पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि अवि. अवि.	40 35 18 16 13	वी कॉम. मैट्रिक	रत्न व्यवसाय शि वी.ए. (प्र व) शि सैक शि कक्षा 8	श्वे.स्था पुत्री-1	म नं 3952, एम एस वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो न. 42316	
512	1301	श्री ज्ञानचन्द जरगड़ पुत्र स्व श्री वशीलालजी 2 उर्मिलादेवी	प प्र पत्नी	वि वि.	30 25	वी.कॉम. हा सै	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. पुत्र-1	3952, एम.एस.बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो न. 40548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जम्मड, जामड											
513	2318	श्री चन्दनमल जम्मड पुत्र श्री मंगलचन्दजी	प प्र	रि	51		दत्तात्री	श्वेते		जे 17, जे 96, प्रादश नगर रोड, जयपुर	
		2 पुरराजदेवी	पत्नी	वि	49						
		3 विमलकुमार	पुत्र	अवि	23	बी रॉम					
		4 प्रशांतकुमार	पुत्र	अवि	20	मैट्रिक्स					
514	2279	श्री प्रेमप्रकाश जम्मड पुत्र श्री दीपचन्दजी	प प्र	रि	29	बी रॉम	रत्न लतात्री	श्वेते	गरणारगहर	ई 39, रमना माग सी स्त्रीम, जयपुर	
		2 विनोद	पत्नी	रि	27	मैट्रिक्स					
		3 वसन्तप्रयाग	भाई	अवि	24	बी ए	शि एन एन बी				
515	1073	श्री पूनमचन्द जम्मड पुत्र श्री फतेहचन्दजी	प प्र	वि	57	एडर विचारद	वरुण व्यवसाय	श्वेत्या	विश्वामड (घोमेर)	983, राजा हाउस, गापाल जो वा रास्ता, जयपुर, फोन 79163 बी बी	वरुण भण्डार, 19, राजा पार्क, गनी नं 5 के सामने, जयपुर 302004 एसएस जन सुवाध उ मा विद्यालय, जयपुर-3 फोन 66206 वन प्राण बडोदा, प्रशांत माग, सी स्त्रीम, जयपुर फोन 64193
		2 वरुणदेवी	पत्नी	वि	54	शास्त्र					
		3 विमलकुमार	पुत्र	रि	35	बी ए	पुस्तकालय				
		4 वीरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	31	बी ए	सेवा सेवा, विविन				
		5 सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	25	हा स	वित्री प्रतिनिधि				
		6 प्रदीपकुमार	पुत्र	अवि	22	बी ए	रत्न व्यवसाय				
		7 मजुकुमारी		रि	23	हा स					
		8 कमला		रि	32	मिडिल					
516	1262	श्री राजकुमार जामड पुत्र श्री पूनमचन्दजी	प प्र	वि	32	हा स	रत्न व्यवसाय	श्वेत्या	विश्वामड	c/o रमणउपडर ना मकान, जावसू का गौर, हल्दिया का रास्ता,	
		2 प्रेमवता	पत्नी	वि	28						
517	1761	श्री सूरजमल जम्मड पुत्र स्व श्री नोरतमनजी	प प्र	वि	52	इडर	व लेवा अधिकारी	श्वेत्या	विश्वामड	4840 मोलछा नवन, ताम्या निदेशक ववि मोलिया का मोहनना, के जी बी वा रास्ता, जोहरी बाजार,	विश्वाम जयपुर फोन 74365 एसएस 29
		2 सतीषदेवी	पत्नी	वि	49	मिडिल					
		3 सूरजकुमार	पुत्र	वि	31	बी एम	वपडा व्यवसाय				

पुत्र 2

पुत्र 1, पुत्रिया 3

पुत्रिया-2

		4. निर्मला	पुत्रवधू	वि	25	मैट्रिक				फोन 44876	राष्ट्रीय मार्ग, सव-
		5 निर्मलकुमार	पुत्र	वि	25	वी ई सिविल	क अभियन्ता				डिविजन किशनगढ़
		6 लीला	पुत्रवधू	वि	21	हा सै.					
		7 विनोदकुमार	पुत्र	अवि	22	वी कॉम	शि सी ए -(फा)				
518	1041	श्री हुकमचन्द जम्मड़	प प्र	वि	42	इन्टर	ऑटोमोवाइल्स फाइनेंस	श्वे स्था नागीर			
		पुत्र स्व श्री सुगनचन्दजी									
		2 विमलादेवी	पत्नी	वि	38	मिडिल					
		3 सजयकुमार	पुत्र	अवि.	20	वी कॉम	शि सी ए				
		4. सजुकुमारी	पुत्री	अवि	14		शि कक्षा 8				
519	942	श्री हेमचन्द जामड़	प प्र	वि.	48	एम ए	अध्यापन	श्वे स्था किशनगढ़			
		पुत्र श्री फतेहचन्दजी									
		2 फतेहचन्द	पिता	विधुर	78						
		3 पारसदेवी	पत्नी	वि	46						
		4 अनिलकुमार	पुत्र	"	28	इन्टर	रत्न व्यवसाय				
		5. प्रमिलादेवी	पुत्रवधू	"	24	इन्टर					
		6 सुनीलकुमार	पुत्र	"	26	वी कॉम.	रत्न व्यवसाय				
		7. मधुदेवी	पुत्रवधू	"	22	वी ए.					
		जिन्दानी									
520	561/ 911	श्री शेरसिंह जिन्दानी	प प्र	वि.	52	वी कॉम	राजकीय सेवा	जैन जैसलमेर			
		पुत्र स्व श्री कन्हैलालजी									
		2 धापावाई	माता	"	70						
		3 विमलाकुमारी	पत्नी	"	50	मैट्रिक					
		4 सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	"	29	बी एससी., एलएल बी					
		5. आशा	पुत्रवधू	"	25	वी ए					
		6. अमृतलाल	मामा	अवि	65	साक्षर					
		जूनीवाल									
521	2238/ 1932	श्री कैलाशचन्द जूनीवाल	प प्र	वि	51	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे ते			
		पुत्र श्री मानमलजी									
		2 तिलक	पत्नी	"	45						
		3 अजयकुमार	पुत्र	"	28	वी कॉम ,एलएल बी	रत्न व्यवसाय				
		4 मधु	पुत्रवधू	"	25	वी ए					
		5 नवीनकुमार	पुत्र	अवि	26	वी.कॉम	रत्न व्यवसाय				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	978	श्री जतनचंद जूनीवाल पुत्र श्री रतनचंदजी 2 निमनादेवी	प प्र पत्नी	वि ,	10 25	मिट्टिन	मैरानि	जय पुत्र-2		म न 3859, न जा बी वा राम्ना, जोहरी बाजार जयपुर	जन स्टूटर वधन, धनवान गान, श्री बाऊ का राम्ना, जयपुर 3
523	69	श्री बोलतचंद जूनीवाल पुत्र स्व श्री गुलाबचंदजी 2 लटमीपन 3 निमनादेवी	प प्र पुत्र पुत्रमधू	विपुर वि पुत्रमधू	74 34 30	मिट्टिन	रतन ध्यवगाय रतन ध्यवगाय	रत पुत्र-2 पुत्री-1		625, जूनीवाल भवन, विद्यापन का राम्ना, जयपुर	
524	994/ 1861	श्री भोतोचंद जूनीवाल पुत्र श्री रतनचंदजी 2 भागवतचंद 3 निमना 4 सुमन	प प्र नाई पत्नी पुत्री	वि धरि वि धरि	42 40 39 13	मिट्टिन	परमात का नाम वि र ता 7	जा पुत्र 2 पुत्रियां 1		3859, न जी जी का राम्ना जोहरी बाजार जयपुर	
525	1473	श्री रतनचंद जूनीवाल पुत्र श्री धीमीरानरी 2 कमरुद्दीनी 3 मन्तापडुमारी 4 शान्तिदान	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र	वि वि धरि धरि	48 41 17 19	माथार	रतन ध्यवगाय राय "	जन नव पुत्र 5		म न 544, गोलाउकी का राम्ना जयपुर	
526	2314	श्री सरदारमल जूनीवाल पुत्र स्व श्री राजप्रमनजी 2 यदनदेवी 3 मन्तीनडुमार 4 हेमवता	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रमधू	वि वि वि वि	58 54 33 31	बी ए, एलगाड श्री मिट्टिन बी ए, मन्तापन श्री मन ए	गजरोकट रतन ध्यवगाय	पुत्री 3 पुत्र 1 पुत्रियां 2		917, विद्यापन का राम्ना जयपुर फोन 74967	925, विद्यापन का राम्ना, जयपुर फोन 69936
527	995	श्री ह्रीराचंद जूनीवाल पुत्र श्री रतनचंदजी 2 मानिन्दी	प प्र पत्नी	वि वि	32 26	मिट्टिन	मेरेरिज	जा पुत्र 2 पुत्री 1		1859 न बी 41 का राम्ना, जोहरी बाजार, जयपुर	जन स्टूटर वधन धनवान गान, टाहुट पनेबर का राम्ना जोहरी बाजार, जयपुर
528	1184	श्री अजयकुमार जैन पुत्र श्री मदनचान्डी	प प्र धरि	वि धरि	19		मि श्री मममो (दि प)	पुत्री 2 पुत्री 1		म न 19, बरगाड बांशी टीक पाटक,	

529	1161	श्री अमृतलाल जैन पुत्र श्री जयगोपालजी	प प्र.	वि.	58	मैट्रिक	साबुन फैक्ट्री	श्वे.	321/6 राजापार्क, जयपुर
		2. चंचलकुमारी	पत्नी	वि.	36				
		3 रमेशकुमार	पुत्र	वि.	32	बी ए , एलएल.बी.	होजरी का व्यापार		
		4. उषा	पुत्रवधू	वि	30	मैट्रिक			
		5. तरसेनकुमार	पुत्र	वि.	30	„	विजली का काम		
		6 मनीता	पुत्रवधू	वि	28	मिडिल			
530	2449	श्री अरिहंत जैन पुत्र स्व. श्री पवनकुमारजी	प. प्र	वि.	50	बी.कॉम.	बैंक सेवा	श्वे ते	डी-27, कालवाड़ स्कीम, गोपालवाडी, जयपुर
		2. पुष्पादेवी	पत्नी	वि.	45	मैट्रिक			स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर, तिलक मार्ग, जयपुर
		3 अजयकुमार	पुत्र	अवि	20	मैट्रिक	प्रिंटिंग प्रेस		
		4. विवेककुमार	पुत्र	अवि.	19	बी कॉम.	सर्विस		
		5 नवीन	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 9		
531	1385	श्री अशोक जैन पुत्र स्व. श्री धीरजलालजी	प. प्र.	वि	32	हा.सं.	रत्न व्यवसाय	श्वे.जैन खंभात	म.नं. 1004 आचार वालॉ की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर फो. नं. 63898 पीपी.
		2 पल्लवीदेवी	पत्नी	वि.	26	हा सं			
		3 मुकेश	भाई	अवि.	21	हा.सं			
532	2239	श्री अक्षयकुमार जैन पुत्र श्री रोशनलालजी	प प्र	वि	28	बी कॉम	मोटर पार्ट्स व्यवसाय	श्वे ते. हांसी	बी-1, बरीडिया वाची, बनीपार्क, जयपुर
		2. सुमन	पत्नी	वि	25	बी ए.			जैन मोटर कार कं. एम.आई रोड़, जयपुर फो -नं 72159 65775
533	859	श्री उत्तमचन्द जैन पुत्र श्री उमरावमलजी	प. प्र.	वि.	50	इन्टर	रत्न दलाली	श्वे स्था. दौसा	C/o लाल भवन, स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर
534	1268	श्री कमलेशकुमार जैन पुत्र श्री दीपचन्दजी	प प्र	वि	28	इन्टर	सर्विस	जैन स माधोपुर	ए-58, नेहरू नगर, पानीपेच, जयपुर
		2 प्रमिला	पत्नी	वि.	22	मिडिल			23, सिन्धी कालोनी, जयपुर फो न. 77925
535	1179	श्री एन. सी. जैन पुत्र श्री आर. एस. जैन	प प्र.	वि.	38	बी.ए.	एस बी आई. फील्ड आफिसर	जैन दिल्ली	78, राजा पार्क, जयपुर फो नं 73137
		2 विमलादेवी	पत्नी	वि	34	मैट्रिक			
536	771	श्री नरेन्द्रलाल जैन पुत्र श्री राजकुमारजी	प प्र.	वि	40	बी. एससी. (मेकेनिकल)	व्यापार	जैन श्वे. लुधियाना	571/6, राजा पार्क, जयपुर

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 रीता	पुत्री	श्वि	15		शि स		पुत्रिमा-2	फा न 47121	रोड नं 17, वी के घाई ए जयपुर फो न 832549
537	1177	श्री पारसमल जन पुत्र श्री नाथूलालजी	प प्र	वि	44	मिडिल	शक्ति पी डब्ल्यू डी	श्वे स्या भिषडर		देवी जी का मॉ डर,	
		2 सौरभदेवी	पत्नी	वि	40	मिडिल			पुत्र-1, पुत्री-1	राष्ट्रगी शर्मा का मराठ,	
538	1266	श्री वज्रनाथ जन पुत्र श्री चमनलालजी	प प्र	नि	57	मैट्रि	व्यवसाय	श्वे		दुर्गापुरा, जयपुर	
		2 विमलादेवी	पत्नी	वि	50	मिडिल				5 ट 5, जवाहर नगर,	लिबर्टी स्पोर्ट्स, एम घाई रोड, जयपुर, फा 61937
		3 राजेश	पुत्र	श्वि	25	बो एसजी, एलएन बी	प्रेक्टिस				
		4 मू	पुत्री	श्वि	24	एम ए					
539	486	श्री मंगलचंद जन पुत्र श्री मन्नाबी जी	प प्र	वि	45	बी टॉम	परचेजिंग आफिशर	जन	बहभाव (जागीर)	म न 2669 पी वाता जयपुर	मेटलम, रत्नवे वा रास्ता जोहरी स्टेशन न पास, वाजार, जयपुर फो न 74251
		2 भागवतीदेवी	पत्नी	वि	35	मैट्रि					
		3 जितेंद्र	पुत्र	श्वि	19		शि बी ई (डि व)				
		4 महीपत	पुत्र	श्वि	16		शि हा स				
		5 अदिति	पुत्री	श्वि	14		शि स				
540	945	श्री मखनलाल जन पुत्र श्री वानभुराम जी	प प्र	वि	46	हा स	मिलिट्री भ वशिषर	जन		पी ए टी नौबाली, एन बी सी नोयला डिमो, जयपुर	
		2 सनीदेवी	पत्नी	वि	40	मिडिल					
		3 दशना	पुत्री	श्वि	18		शि हा म				
		4 राजेंद्र	पुत्र	श्वि	14		शि स				
541	1176	श्री मूलचंद जन पुत्र स्व श्री बजरंगलालजी	प प्र	वि	45		केली				
		2 राजेंद्रप्रसाद	पुत्र	वि	23	मैट्रि		श्व सवाई स्था माधोपुर		म न 211, दोतागाथ	फो न 46526
		3 अशोकचंद	पुत्र	श्वि	18		प्रा नौकरी			जो का रास्ता, पहला रोहाट्टा, चाम्पास	
		4 मजूदेवी	पुत्रवधू	वि	20	मैट्रि	शि हा म			बाजार, जयपुर	
542	2461	श्री राजेंद्र कुमार जन पुत्र श्री बन्नीलाल जी	प प्र	श्वि	22	एम नॉप	व्यापार				
		2 वादामी देवी	माता	विधवा	53					43, लवकुच नगर प्रथम राज गेटक जयपुर	

543	1133	3. महावीर	भ्राता	अवि	19		शि. एम कॉम (अ व)	पुत्र -3	जैन	म.न 2240, चौकडी मोदीखाना, किशनपोल बाजार, जयपुर		
		4 महेन्द्र	भ्राता	प्रवि	17		शि. बी.ए. (प्र व)					
		श्री राजेश्वरकुमार जैन	प प्र.	वि.	34	हा. सै	प्रदीप प्रिन्टर्स					
		पुत्र श्री रतनलालजी										
544	2430	2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	29	हा. सै		पुत्र-2, पुत्रिया-3	श्वे. ते	मिलापभवन, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर		
		3. दिनेशकुमार	भ्राता	वि.	27	हा सै.						
		4. कान्तादेवी	भ्रा.व.	वि.	22							
		5. पुष्पेन्द्रकुमार	भ्राता	वि.	21		शि. बी ए. (प्र व.)					
		श्री लल्लू जैन	प. प्र	अवि	51		नौकरी					
545	2459	पुत्र श्री कपूरचन्दजी						श्वे. ते	मं.न 50, करतारपुरा, चित्रगुप्त नगर, इमली वाला फाटक, जयपुर			
		श्री लक्ष्मणराज जैन	प प्र	वि	65	बी कॉम	नौकरी					
		पुत्र स्व. श्री गणेशमलजी										
		2. चन्द्रावत	पत्नी	वि.	60							
		3. राजेन्द्र	पुत्र	वि	25	बी.कॉम.	नौकरी					
546	1186	4 सीमा	पुत्रवधू	वि.	20	बी.ए.		श्वे. स्था	214, गली न 1 राजापार्क, जयपुर			
		5 संजय	पौत्र	अवि.	14		शि कक्षा 8					
		श्री विमलकुमार जैन	प प्र.	वि.	32	बी कॉम.	व्यवसाय					
		पुत्र श्री रोशनलालजी										
		2. प्रवीणदेवी	पत्नी	वि.	29	हा.सैक.						
547	1194	श्री विमलचन्द जैन	प प्र	वि.	30	डि सिविल इं.	जूनियर इन्जीनियर	पुत्र-1, पुत्री-1	जैन अलवर	3-ब-40, जवाहर नगर, जयपुर	राज. हाउ. बोर्ड. न. 6, जयपुर	
		पुत्र स्व. श्री खजूलालजी										
		2. मजुदेवी	पत्नी	वि.	25	बी.ए						
548	1032	3 सुरेन्द्रकुमार	भानजा	अवि.	17		शि.बी ए. (प्र व.)	पुत्र-1, पुत्रिया-2	श्वे.स्था.	म न 4784, मठ का कुआ, जयपुर	दु नं. 100, किशन लाल अरुणकुमार जैन, के जी.बी का रास्ता, जयपुर,	
		श्री शंकरलाल जैन	प. प्र.	वि	50	मैट्रिक	किराना व्यापार					
		पुत्र श्री लालचन्दजी										
		2 कमलादेवी	पत्नी	वि	45							
549	1165	3 सुनीता	पुत्री	अवि	17		शि सैक	पुत्र-1	जैन	276, आदर्शनगर, जयपुर, फो 43282	राज सर्जिकल सप्लायर्स, 180, बापू बाजार, जयपुर, फो. 43284	
		4. सुनीलकुमार	पुत्र	अवि.	15		शि कक्षा 8					
		श्री स्वदेशकुमार जैन	प. प्र	वि.	41	बी.कॉम	व्यापार					
		पुत्र श्री रोशनलालजी										
549	1165	2. सविता	पत्नी	वि	38	इन्टर		पुत्र-1	जैन	276, आदर्शनगर, जयपुर, फो 43282	राज सर्जिकल सप्लायर्स, 180, बापू बाजार, जयपुर, फो. 43284	
		3 ऋषी	पुत्र	अवि.	17		शि बी ए (प्र.व.)					
		4. रितु	पुत्री	अवि	15		शि सैक					

	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	2458	श्री सुन्दरदास जन पुत्र स्व श्री पवनकुमारजी 2 नवनील <u>भांडाचूर, भांडाभूड</u>	प प्र	वि	36	बो नर्म	विराना व्यवसाय	श्वे त पुत्र-3		म न 86-गोपालवाडी, डी 27 कासवाड जयपुर स्वामी, जयपुर	
551	1707	श्री उम्मेवसिंह भांडाभूड पुत्र श्री नवरत्नालजी 2 मयूरीदेवी 3 विजया देवी	प० प्र	वि०	38	मट्टिन	रत्न व्यवसाय	श्व जन डीहवाना पुत्र-2 पुत्री-1		म न 575 सत्री भवन, बाशीनाथजी की गली, गोपालजी का रास्ता,	
552	1536	श्री उमरावचंद भांडाभूड पुत्र श्री नवरत्नाल जी 2 शांता देवी 3 पवनकुमार 4 लतादेवी 5 भरपुकुमार 6 मजुदेवी 7 विजयकुमार 8 धरविन्दकुमार 9 कमलकुमार	प प्र	वि०	50	मट्टिन	सहायन निष्प व्यवसाय व्यवसाय	श्व त पुत्र-1 पुत्री-1		म न 617 राजभवन, राज्य बीमा विभाग, विद्यापर का रास्ता बीमा भवन, बनीगाफ, जयपुर	
553	741	श्री कुशलचंद भांडाचूर पुत्र श्री नवरत्नाल जी 2 तुलोचंद 3 पनवदेवी 4 प्रमिता 5 विद्या 6 तुलारी	प प्र	वि०	45	मट्टिन	रत्न व्यवसाय सेवा	श्वे म पुत्री 1		म न 574 बाशीनाथजी की गली, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर	
554	554	श्री किरानचंद भांडाचूर पुत्र श्री हनुमानमलजी 2 मेवाबाई 3 गजुलता	प प्र	वि	38	मैट्टिन	रत्न दलाली	जन पुत्र-3 पुत्री-1		1-न 35, जवाहर नगर, जयपुर	

555	1612	श्री गुलाबचन्द भाडचूर पुत्र श्री फूलचन्दजी 2. वसन्तीदेवी 3. शान्तीदेवी 4. नेमीचन्द 5 सुशीलादेवी 6 कविता 7 रिखवचन्द 8. प्रतिभा 9. शीतलचन्द 10 चचल 11. रमेशचन्द्र 12. कमलेश 13. सुनीलकुमार 14. श्रीचन्द 15 वितयचन्द	प. प्र. माता पत्नी पुत्र पुत्रवधू पौत्री पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र पुत्र	वि. विधवा वि वि. वि. अवि. वि वि वि. वि. वि. अवि. अवि. अवि	66 मैट्रिक 85 58 शिक्षित 36 मैट्रिक 32 सैक 14 32 एम.कॉम.एलएल बी 29 बी ए 30 मैट्रिक 27 बी ए 28 बी. ए. 25 बी ए 26 बी एससी (ऑनर्स) 24 बी. कॉम 22 बी कॉम (द्वि व.)	रत्न व्यवसाय खनन-कार्य रत्न व्यवसाय शि. कक्षा 9 रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय वैक सेवा मशीनरी ट्रेडिंग व खनन रत्न व्यवसाय	श्वे म श्वे. ते. श्वे. म	1502, सौथली वालो का रास्ता,एस एम एस. हाईवे, जयपुर, फो न. 63381 65403	31/33 खारा कुआँ, भवेरी बाजार, वम्बई-400002 भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर
556	1471	श्री ताराचन्द भाडचूर पुत्र स्व. श्री जेठमलजी 2 विजयदेवी	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	34 हा. सँ. 30 मिडिल	सेवा	श्वे. ते. डीडवाना	1514 लक्ष्मीभवन, सौथली वालो का रास्ता, जयपुर, फो न. 74779	रत्नशिल्पी प्रशिक्षण विद्यालय, भालाना- महल, जयपुर, फो.नं. 69748
557	1088	श्री नौरतनमल भाडचूर पुत्र श्री हनुमानमलजी 2. सितारादेवी 3 लक्ष्मीकान्त 4 मधु 5 दिलीपकुमार	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्री पुत्र	वि. वि अवि अवि अवि	44 मिडिल 37 साक्षर 18 16 14	राजकीय सेवा शि कक्षा 11 शि कक्षा 10 शि कक्षा 9	श्वे. म	डी/66, शान्तिपथ, आदर्श नगर, जयपुर	जयपुर विकास प्राधि. जयपुर, फो.न. 44930
558	1725	श्री पदमचन्द भाडचूर पुत्र श्री फूलचन्दजी 2 अनोखीदेवी 3. धरमचन्द	प प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. ,	59 बी.एससी., एलएल बी 54 30 बी. ए.	रत्न व्यवसाय संगमरमर का व्यापार रत्न व्यवसाय	श्वे म	बी-34, प्रभुमार्ग, तिलकनगर, जयपुर, फो न. 46758	1. जौहरी बाजार, 2. टोक रोड, फो.न 75207

पुत्र 4

पुत्र 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	रजनी	पुत्रवपू	,	27						
	5	सुरेमा	पुत्री	धनि	26	॥					
	6	रेनू	,	,	25	एम ए					
	7	सरान	,	,	23	बी ए					
	8	अनिलकुमार	पुत्र		22	एम ए	रत्न व्यवसाय				
							समरमर दा व्यापार				
559	1477	श्री प्रेमचंद भाइचूर पुत्र श्री निरंजनजी	प	प्र	वि	48		श्री मं		2397 पी वाता	जयपुर एम्पायियम
	2	विमलदनी	पत्नी	वि	44					रा रास्ता, जोशी	एम एमई राड
	3	राजना	आ	व	विषया	32				वाजार जयपुर	जयपुर
	4	प्रतिभा	पुत्री	धनि	20					फो 43548	पान 65491
	5	रमल	पुत्र		18	बी एमसी					
560	738	श्री महेशकुमार भाइचूर पुत्र श्री नोपलजी	प	प्र	वि	40	एडर	व्यापार		श्री मं	रूपा विवा ब्रह्मा माग,
	2	निमना	पत्नी	वि	35	मैट्रि					जयपुर
	3	तुनीता	पुत्री	धनि	17		शि बी ए (प्र व)				
	4	प्रमाण	पुत्र	॥	16						
	5	अनिल	॥	,	14		शि एम 10				
561	1812	श्री मोहनलाल भाइचूर पुत्र स्व श्री पुनमपजी	प	प्र	वि	50	बी एम	रत्न व्यवसाय		श्री मं	64 देवी पथ,
	2	ताराकुमारी	पत्नी	वि	46	मैट्रि					वैमर्न पुनमप
	3	विमल	पुत्र	वि	28	बा एम बी ए	रत्न व्यवसाय			वातावा बाग, जयपुर	मोहावा, भाइचूर
	4	प्रेम्मा	पुत्रवपू	वि	23	बी ए				फो 78007	राउम, हल्डो वा
	5	अनना	पुत्री	धनि	19						रास्ता, जोशी वाजार
											जयपुर
562	1467	श्री रत्नचंद भाइचूर पुत्र श्री वरनूरजी	प	प्र	वि	52	मिस्ट्रि	शि बी एमसी (दि व)			फा 41470
	2	विमना	पत्नी	वि	40	म				म नं 1947, मोतीमिह	
	3	मनोज	पुत्र	धनि	23	बी एम				भोमिथो का रास्ता,	
	4	अनुया	पुत्री	॥	19		रत्न व्यवसाय			जयपुर, फो 42272,	
	5	अनित	॥		13		शि बी एम (पा)			44218	

563	534	श्री विजयकुमार भाडचूर पुत्र स्व श्री किस्तूरचन्दजी	प प्र	वि	32	बी. ए.	नौकरी	श्वे. मं.	223, मेमियो का दरवाजा, हल्दियो का रास्ता, जयपुर	भाडचूर हाउस, चाकसू का चौक, जयपुर
		2 किरणदेवी	माता	विधवा	57		नौकरी			
		3. कोमलदेवी	पत्नी	वि.	26	बी. ए.				
564	1466	श्री विमलचन्द भाडचूर पुत्र श्री मोतीलालजी	प प्र	वि.	55	मैट्रिक	व्यवसाय	जैन		4908, मोतीमहल, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर
		2 इचरज	पत्नी	वि	50					
		3. चन्द्रप्रकाश	पुत्र	वि.	27	बी.कॉम	नौकरी			
		4. कान्ता	पुत्रवधू	वि.	22	मैट्रिक				
		5 सरोज	पुत्री	अवि.	20					
565	642	श्री सन्तोषकुमार भाडचूर पुत्र स्व. श्री पूनमचन्दजी	प प्र	वि	56	बी कॉम ,एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय	जैन		12, चेतक मार्ग, जयपुर, फोन नं. 47836
		2 मुगनकुमारी	पत्नी	वि	52	मिडिल				भाडचूर हाउस, हल्दियो का रास्ता, चाकसू का चौक, फो न 45069
		3 विजयकुमार	पुत्र	वि	29	एम एम एस	रत्न व्यवसाय			
		4 सरिता	पुत्रवधू	वि.	25	बी ए	रत्न व्यवसाय			
		5 अजय	पुत्र	अवि	23	बी कॉम.				
566	512	श्री सोहनलाल भाडचूर पुत्र स्व श्री पूनमचन्दजी	प प्र	वि	44	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.म.		भाडचूर हाउस, जयपुर-3, फो.नं. 41561 ,, 45069
		2 कचनकुमारी	पत्नी	वि	39	मिडिल				
		3. सजयकुमार	पुत्र	अवि	18		शि. बी.कॉम. (द्वि.व.)			
		4 अल्पना	पुत्री	अवि.	16		शि. सैक.			
567	204	श्री जानचन्द भाडचूर पुत्र स्व. श्री फूलचन्दजी	प. प्र.	वि	62	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे म		1840, बारह गणगौर का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर
		2 किरण	पत्नी	वि	58	साक्षर				
		3 प्रवीण	पुत्र	वि.	30	बी. ए.	रत्न व्यवसाय			
		4 विनोद	पुत्र	वि	25	बी. ए.	रत्न व्यवसाय			
		5 सुनील	पुत्र	अवि.	22	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		6 विमला	पुत्रवधू	वि.	25	मैट्रिक				
		7 सुनीता	पुत्री	अवि	23	बी. ए				
		8 मजू	पुत्री	अवि.	20		शि. सी ए.			
		भाबक								
568	964	श्री गुमानमल भाबक पुत्र स्व. श्री जेठमल जी	प प्र	वि.	56	इटर (वारिण.)	पत्रकार मानव सम्पादक	जैन श्वे	फलीदी	तिवाड़ी विल्डिंग, एम. आई रोड, जयपुर मगल-कामना (मा) एम.आई रोड, जयपुर

574	65	श्री गिरधारीलाल टांक पुत्र स्व श्री जग्गोमलजी	प प्र	वि.	40	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे म दिल्ली	644, आदर्श नगर, जयपुर, फो न 41942	मै. जेम्स इन्टरनेशनल, 1748/10/v, राम- लला जी का रास्ता, जयपुर फो. 61865 40448
		2. विमला	पत्नी	वि	36	मैट्रिक				
		3. सजय	पुत्र	अवि.	18		शि. हा सै			
		4 नवनीत	भ्राता	वि	25	मैट्रिक	नौकरी			
		5. मधु	भ्रा.व	वि	21	मैट्रिक				
575	1468	श्री गुलावचन्द टांक पुत्र श्री मदनचन्दजी	प प्र.	वि	53	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे. म	3965, के जी वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो.न 44348	
		2 शशिकान्ता	पत्नी	वि.	45					
		3 रानी	पुत्री	अवि.	23	बी.ए	एलएल वी (प्र व.)			
		4. ममता	"	अवि	20	मैट्रिक				
		5. मधु	"	"	17		शि हा सै			
		6. मीनाक्षी	"	"	15		शि. सै.			
576	758	श्री छतरसिंह टांक पुत्र श्री मोतीचन्दजी	प प्र	वि.	42	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		2537, घी वालो का रास्ता, जयपुर	
		2. विमलादेवी	पत्नी	वि.	38					
		3. अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	19		शि हा.सै			
		4 अनिता	पुत्री	अवि	17		शि. सै.			
		5. विनीता	"	"	14		" कक्षा 9			
577	71	श्री बुलीचन्द टांक पुत्र श्री राजरूपजी	प. प्र.	वि	51	बी.ए. साहित्य	रत्न व्यवसाय	श्वे मं	23,चेतक मार्ग, मोती जूंगरी रोड़, जयपुर-4, फोन न 46556	जौहरी बाजार, जयपुर, फो न. 41621 43671
		2. शान्तीकुमारी	पत्नी	वि	49	मैट्रिक				
		3. ममता	पुत्री	अवि.	20		शि बी.ए. (अ. व.)			
		4. धर्मेन्द्र	पुत्र	अवि.	18		शि बी.कॉम.(द्वि व)			
578	750	श्री निर्मलकुमार टांक पुत्र श्री ईसरचन्दजी	प प्र	वि.	32	मिडिल	रत्न दलाली	श्वे. मं.	2537, ठाकुर पचेवर का रास्ता, जयपुर, फो. 43622	
		2. सरोजदेवी	पत्नी	वि.	27	एम. ए				
579	1645	श्री पारसचन्द टांक पुत्र श्री उमरावमलजी	प प्र.	वि.	37	हा. सै.	व्यापार	श्वे.म.	म. न. 4312, सोनी हाऊस, के जी वी का रास्ता, जयपुर	
		2 रानी	पत्नी	"	30	मिडिल				
		3. मनीषकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि कक्षा 8			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	528	श्री ब्राममल टांक पुत्र श्री छोगमलजी 2 सुरेन्द्रकुमार 3 मोभा	प प्र पुत्र वि पुत्रवध	विपुर , ,	67 33 30	मैट्रिक बी एससी बी ए		जन -बापार	इंदौर [पुत्री 2]	1813, विलासा भवन, पी बालो का रास्ता, जयपुर	
581	751	श्री महावीरकुमार टांक पुत्र स्व श्री ईसरच दजी 2 सितारादेवी 3 सुनीता 4 ममता	प प्र माँ पत्नी बहिन	वि विधवा वि भवि	30 60 25 21	बी ए ह्रा स बी ए	रत्न दलाली	श्वे म	[पु 1]	2537 ठापुर पचेवर लेन, पी बालो का रास्ता, जयपुर	
582	754	श्री महेन्द्रकुमार टांक पुत्र श्री मोतीच दजी 2 गुप्तादेवी	प प्र पत्नी	वि वि	36 34		रत्न मजूरी	श्वे म	[पु 2 पुत्री 1]	2537, पी बालो का रास्ता, ठोलियो व मन्दिर के सामने	
583	755	श्री मोतीच द टांक पुत्र श्री छारासालजी 2 वमनादेवी 3 शिवरच द 4 भाभादेवी 5 जीरेन्द्रकुमार	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवध पुत्र	वि वि वि वि भवि	65 60 25 22 18	मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक, मैट्रिक	भाउज टेट परमान रा राम	श्वे म	[पुत्री 1]	म न 2537, पीबालो भद्रवान ब्रदम, का रास्ता, ठोलियो एस एम एस हार्कि, के मन्दिर के सामने, जयपुर, पी न 72456	
584	60	श्री राजरथ टांक पुत्र श्री छगनलालजी 2 सितारदेवी 3 कीर्तिच 4 प्रमिला 5 दुष्यन्त 6 भावना	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवध पुत्र पुत्री	वि वि वि भवि भवि	78 74 36 34 14 12	मिडिल मैट्रिक म	रत्न व्यवसाय	श्व म	चावसू	व जी बी रा रास्ता, पी न 41621 जोहरी बाजार, जयपुर ,, 43671 ,, 40520	
585	2448	श्री विनोयकुमार टांक पुत्र श्री केशवासालजी 2 प्रमिला	प प्र पत्नी	वि वि	27 84	बी एससी	रत्न व्यवसाय	श्व म	इंदौर	म न 1726, पीबाला मणामाता पी मली, का रास्ता, जयपुर मोपालजी का रास्ता, जयपुर फो 48611	
586	749	श्री शरदकुमार टांक पुत्र स्व श्री ईसरच दजी 2 भागादेवी	प प्र पत्नी	वि वि	34 29	मिडिल	रत्न लाली	श्वे म	[पु 2, पुत्री 1]	2537, पीबालो रा रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर, पी न 43622	

587	756	श्री श्रीचन्द्र टांक पुत्र श्री मोतीचन्द्रजी 2. तारादेवी	प प्र. पत्नी	वि वि.	35 30	रत्न दलानी	श्वे मं. पुत्र-2 पुत्री-1	2537, घीवागो का रास्ता, डोन्नियों के मंदिर के पास, जयपुर	
588	748	श्री सुरेन्द्रकुमार टांक पुत्र स्व. श्री ईसरचन्द्रजी 2. विजायधमी 3. सजय 4. अरविन्द्र 5. राजीव	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि. अवि. अवि. अवि.	40 35 17 15 13	मैट्रिक मिडिल शि. हा.सै. शि. कक्षा 9 शि. कक्षा 7	श्वे मं	2537, घीवागो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. न 43622	
टाटीया									
589	1797	श्री भंवरलाल टाटीया पुत्र श्री चुन्नीलालजी 2. रामकुंवर 3. मदनलाल 4. सुशीला 5. मनोजकुमार 6. चन्द्रा	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि वि. वि. वि. वि. वि.	46 34 26 23 23 20	फार्मासिस्ट मैट्रिक हा सै. बी. ए. हा सै. मिडिल	व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय	श्वे स्था जोधपुर पुत्र-4	4/731 जवाहरनगर, भारत एन्टरप्राइजेज जयपुर, वापू बाजार, जयपुर फो नं. 852749 फो. न. 78911
टुंकलिया									
590	1529	श्री पूर्णचन्द्र टुंकलिया पुत्र श्री गोकुलचन्द्रजी 2. फूलदेवी 3. धनपति 4. मोहनसिंह 5. सम्पतसिंह 6. इन्दिरा 7. निर्मला 8. अजय 9. सुपिया 10. परेश 11. सोनाली	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्रवधू पुत्रवधू पौत्र पौत्री पौत्र पौत्री	वि वि. वि. वि. वि. वि. अवि. अवि. अवि. अवि.	75 72 51 48 44 47 40 25 21 16 12	एम.ए.,साहित्यरत्न सार्वजनिक सेवा साक्षर बी.ए. एम. ए.,बी एड बी.एससी. मैट्रिक हा सै. एम ए.,बी.ए.(आ.) पत्रकार हा सै. शि हा सै शि मिडिल	जैन श्वे.	टुंकलिया भवन, के जी वी का रास्ता, जयपुर, फो न. 43983 आकाशवाणी दुर्गापुरा, फो न. 82317	
591	1869	श्री प्रेसंसिंह टुंकलिया पुत्र स्व श्री नथमलजी 2. कुमुमलता	प प्र पत्नी	वि वि.	40 35	बी.ए मैट्रिक	रत्न व्यवसाय श्वे मं.	टुंकलिया भवन, के.जी.वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 नीता	पुत्री	श्रवि	16		शि बी ए (प्र व)			जयपुर 3	
		4 भोता	पुत्री	श्रवि	14		शि सक्		पुत्र-1	फोन 43983 पो पी	
592	62	श्री सत्येन्द्रकुमार ट्ट कलिया पुत्र स्व श्री राजमलजी	प प्र	वि	26	मैट्रिक्	नौकरी	श्वे म	बररीडा	967,पानोका दरीबा, टान विल्डिग, सुभाय चौक, जयपुर, जोहरी बाजार	
		2 पचमदेवी	माता	विषवा	55						
		3 सुधा	पत्नी	वि	23	बी ए			पुत्र 1		
		4 रामचन्द्र	भाई	श्रवि	22	हा स					
		<u>टीलिया</u>									
593	1110	श्री उत्तमचन्द टीलिया पुत्र स्व श्री भाईचलजी	प प्र	वि	50	मैट्रिक्	भताज दलाली	श्वे स्या	राजकोट (गुजरात)	बी 20, घनाजमणी चादपोल बाजार, जयपुर, फोन 65692	कल्याण ट्रेडिंग एजेन्सी, चादपोल बाजार, जयपुर, फोन 78242
		2 रजनबेन	पत्नी	शि	45	साक्षर					
		3 विनायकुमार	पुत्र	श्रवि	21	बी काम	व्यवसाय				
		4 विजयकुमार	पुत्र	श्रवि	22	बी कॉम	व्यवसाय				
		5 दामिनी	पुत्री	श्रवि	20	बी कॉम					
		6 सुधीर	पुत्र	श्रवि	16		शि हा स				
		7 योगिता	पुत्री	श्रवि	13		शि सक्				
594	2088	श्री हीरराज्ज् टीलिया पुत्र श्री भाईचन्द	प प्र	वि	52	मिडिल	नौकरी	श्वे स्या	जामनगर (गुजरात)	सतोबवा दुलभजी शस्पाताल, बापूनगर, जयपुर, फोन 68251 पो पी	
		2 रमा	पत्नी	वि	42	साक्षर					
		3 रमण्डीरलाल	भाई	श्रवि	39	मैट्रिक्	नौकरी				
		4 तरुलता	पुत्री	श्रवि	18	साक्षर					
		5 दबदा	पुत्री	श्रवि	17		शि हा स				
		6 मितेप	पुत्र	श्रवि	14		शि क्पा 7		पुत्र 1		
		<u>डागो</u>									
595	2396	श्री कहेयालाल डागो पुत्र श्री मिश्रीपालजी	प प्र	वि	50	मैट्रिक्	सविस	श्वे त		एस 59, शांतिनगर, खातीपुरा राड, भजमेर रोड, जयपुर	
		2 पिस्तादेवी	पत्नी	वि	42	स					
		3 सम्पतलाल	भ्राता	वि	38	हा स					
		4 इन्द्रादेवी	भ्रा व	वि	36	मिडिल			पुत्र 2, पुत्रियां 2		
		5 प्रयाग	पुत्र	श्रवि	17		शि हा स				

596	665	श्री मबनसिंह डांगी पुत्र स्व. श्री लालसिंहजी 2 अलका	प. प्र पत्नी	वि. वि.	37 30	बी ई. (सिविल) हा. सै.	सहा अभियन्ता सिंचाई विभाग	श्वे.स्था. पुर (भीलवाडा)	वी-99, सूर्य मार्ग, तिलकनगर, जयपुर-4	निदेशालय रूपांकन एवं अनुसंधान सि, जयपुर, फो. नं. 61207
597	1341	श्री सम्पतलाल डांगी पुत्र श्री मिश्रीलालजी 2. इन्द्रा 3. सगीता 4 निर्मलकुमार	प. प्र. पत्नी पुत्री पुत्र	वि वि अवि अवि	39 37 16 14	हा. सै साक्षर शि. कक्षा 11 शि. कक्षा 10	सर्विस	श्वे.म भीलवाडा	डी-81, शातिनगर. खातीपुरा रोड़, जयपुर-6	पीटार स्पिनिंग मिल्स, पौटारपुरी, जयपुर, फो. न. 63255
598	865	श्री सम्पतसिंह डांगी पुत्र श्री मवरलालजी 2 पुष्पा 3 विकास	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि अवि	39 35 13	एम एससी. बी ए शि. कक्षा 8	भू-गर्भ शास्त्री	श्वे.स्था. गुलावपुरा	20, कातिनगर, स्टेशन रोड़, जयपुर	राजस्थान प्रोजेक्ट I, जी.एस.आई, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर फो. नं. 64172
599	1605	श्री सुधीरकुमार डांगी पुत्र स्व श्री सुलतानसिंहजी 2 सुधा	प प्र पत्नी	वि. वि	32 26	बी कॉम. हा सै.	व्यवसाय	श्वे म. कलकत्ता	फ्लेटन. 9, म न.410, मनीरामजी की कोठी, हल्दियो का रास्ता, जयपुर	सुमित जैम्स, 1189, परतानियो का रास्ता, जयपुर, फो न 46805
डागलिया										
600	590	श्रीमती सन्तोष डांगलिया 2. अशोक	प. प्र. पुत्र	विधवा	39 15	मैट्रिक ,,	अध्यापिका शि. सै.	जैन जयपुर	3-च-1, जवाहर नगर, जयपुर	वीर बालिका विद्यालय, फो न. 45940पीपी.
डागा										
601	2128	श्री अशोककुमार डागा पुत्र श्री रामचन्द्रजी 2. भारती 3. राकेशकुमार	प. प्र पत्नी भाई	वि. वि. अवि	31 27 24	बी.फार्म(ग्रानर्स) बी.ए एम कॉम	व्यवसाय व्यवसाय	श्वे. गगानगर जैन	बी-153, जनता कॉलोनी, जयपुर-4	कोस्मिक फार्मा, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ए-16, जनता कॉलोनी, जयपुर-4 जैनसन्स फार्मा, डूनी हाउस, फिल्म कॉलोनी, चौडा रास्ता, जयपुर-3
602	198	श्री इन्द्रचन्द्र डागा पुत्र श्री रतचन्द्रजी 2. चंचलदेवी 3. सुभाषचन्द्र 4. मजू	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि वि. वि. वि.	52 50 30 25	एम.ए, बी एड मिडिल मैट्रिक मिडिल	प्र अ व्यापार	श्वे स्था	बारह गणगीर का रास्ता, जौहरी बाजार, फो.न. 65226	

609	252	3 उत्तमचन्द 4 सुशीला 5 अमरचन्द श्री त्रिलोकचन्द डागा पुत्र स्व. श्री घीसीलालजी	पुत्र वि. पुत्रवधू वि पुत्र अवि प प्र वि.	29 25 20 40	मैट्रिक मिडिल वी कॉम. मैट्रिक	कपडे का व्यापार कपडे का व्यापार रत्न व्यवसाय	कपडे का व्यापार रत्न व्यवसाय	श्वे स्था	फो नं. 66703 चाकसू का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर-3
610	2220	2. शरवतकवर 3 लक्ष्मीवाई 4 पदमचन्द 5 पुष्पा 6. सुनीता 7. वन्दना श्री दीपचन्द डागा पुत्र श्री सुखराजजी	माता विधवा पत्नी वि भ्राता वि. भा.प वि बहिन अवि. पुत्री अवि. प प्र वि.	60 34 27 23 21 13 60	साक्षर मिडिल मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	शि मिडिल माचिस व्यवसाय	श्वे ते. सरदारशहर	एफ-60, कालीदास मार्ग, बनीपार्क, जयपुर फो न 65309
611	2083/ 1698	श्री पन्नालाल डागा पुत्र श्री सौभाग्यमलजी 2 चन्द्रकान्ता 3. नोरतमल 4. पवनकुमार 5. कमलकान्त	पत्नी वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि. बहिन विधवा प प्र वि	55 29 25 75 55	वी एससी सै वी कॉम.	व्यापार व्यवसाय	व्यापार व्यवसाय	जैन	3970, एम एस बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
612	2175	श्री प्रकाशचन्द डागा पुत्र स्व. श्री पमदचन्द 2 शशिकला	प. प्र. वि पत्नी वि	46 50 25 21 46	वी कॉम वी कॉम. मैट्रिक	व्यवसाय शि एलएल.बी (फा) व्यवसाय	व्यवसाय शि एलएल.बी (फा) व्यवसाय	श्वे म. आगरा	नोवाल भवन, हल्दियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-3 एस डी एजेन्सीज, पटोलिया हाउस, घी वालो का रास्ता, जयपुर फो. नं 41134 पी पी. 1482, वारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
613	782	श्री प्रवीप डागा पुत्र श्री मदनचन्दजी 2. नीरू	प. प्र वि पत्नी वि	31 28		कपडा व्यापार	कपडा व्यापार	जैन	
614	195/ 1096	श्री प्रेमचन्दजी डागा पुत्र श्री कन्हैयालाल डागा	प प्र वि.	72	साक्षर	रत्न व्यवसाय	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था	

617	1856	श्रीमती पुष्पाकुमारी डागा पत्नी स्व. श्री तेजकरराजी	प. प्र	विधवा	38	मैट्रिक			
		2 सगीता	पुत्री	अवि	20	बी ए.			
		3. सजयकुमार	पुत्र	अवि	18				
		4. सुमिता	पुत्री	अवि	16				
618	998	श्री मुन्नीलालजी डागा पुत्र श्री प्रभुलालजी	प प्र	वि.	47	मैट्रिक			
		2. कुसुम	पत्नी	वि	41				
		3. गुरामाला	पुत्री	अवि	20				
		4. महावीर	पुत्र	अवि	17				
		5. गौतम	पुत्र	अवि	14				
619	1808	श्री मोतीचन्द डागा पुत्र स्व. श्री सागरमलजी	प. प्र	वि	43	इन्टर			
		2. लाडकवर	माता	विधवा	64	साक्षर			
		3 राजकुमारी	पत्नी	वि	36	मैट्रिक			
		4 सुमतिचन्द	भ्राता	वि	29	हा सै			
		5. उज्ज्वला	भ्रा वधू	वि.	23	बी कॉम.			
		6. प्रशीला	बहिन	अवि	22				
		7. विनीता	बहिन	अवि	21				
		8. अमितकुमार	पुत्र	अवि.	18				
		9. असीमकुमार	पुत्र	अवि	15				
		10. असितकुमार	पुत्र	अवि.	13				
620	1744	श्री मोहनलाल डागा पुत्र स्व. श्री प्रभुलालजी	प. प्र.	वि	35	हा सै.			
		2. गेन्दवाई	भुआ	विधवा	60				
		3. दीपमाला	पत्नी	वि	32	मैट्रिक			
621	196/	श्री रतनचन्द डागा	प प्र.	वि.	75	मिडिल			
	1095	पुत्र स्व. श्री कन्हैयालालजी							
		2. चचलदेवी	पत्नी	वि.	66	मिडिल			
		3. हरीचन्द	पुत्र	वि	41	मैट्रिक			
		4. शकुन्तलादेवी	पु.वधू	वि	37	मिडिल			
		5 हीराचन्द	पुत्र	वि	32	हा. सै.			
							श्वे म	जयपुर	11/2330 एम एस बी का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर
							श्वे म	जयपुर	957, धामाणी मार्केट की गली, चौडा रास्ता, जयपुर-3, फो न. 72851 पी पी.
							श्वे म	जयपुर	25, "जीवन सागर" मै सागरमल डागा तख्तेशाही रोड, जयपुर-3, फो.न 75354, 66162
							श्वे म	जयपुर	एण्ड क, चाकसू का चौक, हल्दियो का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर-3, फो न. 43411 40122
							श्वे म	जयपुर	3774, वैद भवन, बोहरो की गली, के जी बी. का रास्ता, जयपुर-3 फो न. 42142 पी.पी. वारह गणगौर का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर-3, फो.न. 65226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6 प्रेमलता	पुत्रवधू	वि	26	बी बॉम					
		7 धर्मयकुमार	पुत्र	श्रवि	24	मिडिल	पान की कटाई	व्यव			
		8 देवेन्द्रकुमार	पौत्र	,	18		शि स				
		9 शाशा	पौत्री	,	16		शि स				
		10 मनोहरकुमार	पौत्र	,,	14		शि मिडिल				
622	1603	श्री राजेन्द्रकुमार झागा	प प्र	वि	33	स	नौररी	जन	वीवानर	570, घोषरा हाउस,	फो न 69749,
		पुत्र स्व श्री धामकरएजी								का नाम जी की गली,	78037
		2 विमला	माता	विधवा	45	मिडिल					
		3 मूरजदेवी	पत्नी	वि	30						
		4 निमलकुमार	भाई	श्रवि	23	हा स	कपडा व्यापार				
623	289	श्री रिखवच द झागा	प प्र	वि	33	इटर	रत्न व्यवसाय	जन		4/461 जवाहर नगर,	4448, के जी बी बा
		पुत्र श्री मतोकच दजी								जयपुर,	रास्ता, जोहरी बाजार
		2 सरोज	पत्नी	वि	28	मैट्रिक				फो न 852532	जयपुर, फो न 44284
624	1742/	श्री विनयचन्द झागा	प प्र	वि	40	बी ए	रत्न व्यवसाय	श्वे म		3774, वध भवन,	
	1884	पुत्र स्व श्री प्रमूच दजी								भवानीराम बोहरा की	
		2 पवनदेवी	पत्नी	वि	38					गली, के जी बी बा	
										रास्ता, जयपुर,	
625	256	श्री विनयचन्द झागा	प प्र	वि	37	बी बॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे रक्षा	जयपुर	फो न 42142पी पी	
		पुत्र श्री पारममनजी								म न 2055, लान रटले	
		2 हेमलता	पत्नी	वि	31	मैट्रिक				के पीछे, हस्वियो का	
										रास्ता, जोहरी बाजार,	
626	515/	श्री शांतिलास झागा	प प्र	वि	40	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म		जयपुर, फो न 45515	
	1361	पुत्र स्व श्री रूपचन्दजी								एम एस बी का रास्ता	
		2 नाम्तादेवी	पत्नी	वि	35	मैट्रिक				जोहरी बाजार, जयपुर,	
		3 अनिता	पुत्री	श्रवि	16		शि हा स			फो न 42166	
		4 सुखिमा	पुत्री	श्रवि	15		शि स				
		5 राजेश	पुत्र	श्रवि	13		शि कक्षा 9				
627	1756/	श्री सततोचन्द झागा	प प्र	वि	61	मिडिल	रत्न त्साती	श्वे म		4448, के जी बी	
	2491	पुत्र श्री दीपचन्दजी								का रास्ता, जोहरी	
		2 उमरायवादी	पत्नी	वि	55					बाजार, जयपुर	

पुत्र-3 पुत्री-1

पुत्र 1, पुत्री 1

पुत्र-1

पुत्र-1

पुत्र 1, पुत्रिया 2

		3. पारसचन्द	पुत्र	वि.	35	पी.यू.सी.	दलाली		फो.नं. 44284
		4 सरोज	पुत्रवधू	वि	27	हा.सं			
		5. निर्मल	पुत्र	अवि	21		शि. द्वि व.		
		6. सगीता	पुत्री	अवि.	19		शि. सं.	पुत्र-2, पुत्री-1	
628	2174	श्री श्रीचन्द डागा	प प्र	वि.	52	एम.ए.	व्यवसाय	श्वे.म. आगरा	410, मनीरामजी की मै. एलाईड जैम्स का कोठी, हल्दियों का भांडिया भवन, रास्ता, जौहरी हल्दियों का रास्ता, बाजार, जयपुर जौहरी बाजार, जयपुर फो. नं 45549 फो. न 42365
		पुत्र स्व. श्री पदमचन्दजी							
		2. इन्द्रकुमारी	माता	विधवा	72				
		3 तारा	पत्नी	वि.	49				
		4. अनिलकुमार	पुत्र	वि.	28	बी.एससी.	व्यवसाय		
		5. सुनीता	पुत्रवधू	वि.	21	हा.सं.		पुत्री-1	
		6. आलोक	पुत्र	अवि.	24	बी.कॉम.			
629	1740	श्री हीराचन्द डागा	प प्र.	वि	33	सं.	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं.	म.न. 582, काशी- म.न. 5457, नाथजी की गली, के.जी.बी. का रास्ता, गोपालजी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. 41486
		पुत्र स्व. श्री प्रभुलालजी							
		2. मजू	पत्नी	वि.	30	बी.ए.		पुत्र-1, पुत्री-1	
630	1860	श्री ज्ञानचन्द डागा	प.प्र.	वि	54		रत्न व्यवसाय	श्वे.मं.	चाकसू का चौक, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर घीवालो का रास्ता
		पुत्र स्व. श्री प्रतापचन्दजी							
		2. प्रेम	पत्नी	वि.	50				
		3. सुरेशकुमार	पुत्र	वि.	30	बी एससी.	रत्न व्यवसाय		
		4. कल्पना	पुत्रवधू	वि.	28	एम.ए.			
		5. अनिलकुमार	पुत्र	वि.	27	बी काम.	रत्न व्यवसाय		
		6. सतोष	पुत्रवधू	वि.	22		शि. बी.काम. (फा.)		
		7. विपिनकुमार	पुत्र	अवि	19		रत्न व्यवसाय	पुत्री-1	घी वालो का रास्ता
		8. सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	18		शि.बी काम. (प्र.व.)		
631	1743	श्री ज्ञानचन्द डागा	प प्र.	वि.	44	मैट्रिक	स्टेशनरी व्यापार	श्वे.मं	वैद्य भवन, भवानी जैन स्टेशनरी मार्ट, राम बोहरा की गली, न्यू कॉलोनी, जयपुर फो. 66280
		पुत्र स्व. श्री प्रभुलालजी							
		2. चन्द्रादेवी	पत्नी	वि.	35	मिडिल			
		3. जया	पुत्री	अवि.	18		शि. बी ए. (प्र.व.)		
		4. राजेशकुमार	पुत्र	अवि.	15		शि. हा.सं.		
		5. राकेशकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 9	पुत्रियां-2	जयपुर फो 42142
		<u>डूंगरवाल</u>							
632	2330	श्री चांदमल डूंगरवाल	प.प्र	वि.	40	इन्टर	प्रा. नौकरी	श्वे.ते. लाडनू	110, जनता राज. इलेक्ट्रोनिकल कालोनी, जयपुर इक्विपमेन्ट लि.
		पुत्र श्री त्रिलोकचन्दजी							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2	पनादेवी	पत्नी	वि	35						मालवीया नगर,	
	3	नवरत्न	पुत्र	धवि	17		शि स				जयपुर,	
	4	प्रभा	पुत्री	धवि	14		शि स				फो न 79913	
633	2070	श्री विनेशकुमार डूगरवास पुत्र श्री नेमीचन्दजी	प प्र	धवि	19		शि बी एस सी		श्वे स्था	बावला	वे ने एन मुट्टुट्टिया क, यिलानी भवन एम भाई रोड, जयपुर	
डोसी												
634	541/ 2221	श्री एच एम डोसी पुत्र श्री तपनचन्द्र	प प्र	वि	35	वी ई (कमि एंजी)	मैनेजर (टब)		जन	बुरू	जी/6 बबीर भाग, बनीपाक जयपुर	राज वित्त नियम, सी स्कीम, जयपुर, फो न 62084 87
	2	उमा	पत्नी	वि	29	मैट्रिक्स						
635	1360	श्री बहूमावल डोसी पुत्र स्व श्री गोविंदरामजी	प प्र	वि	50	बी काम	बीघो सलाहवार		श्वे म		एत पी 5, भाभा माग, मोती बू गरी रोड जयपुर,	चम्बर भवन, एम भाई रोड, जयपुर, फो न, 76663
	2	घरुणा	पत्नी	वि	41	बी ए						
	3	राजीव	पुत्र	धवि	22	बी काम	व्यवसाय				फो न 72934	66508
	4	रूपल	पुत्री	धवि	17		शि हा सं				69833	
	5	कमला	भतीजी	धवि	30	सं						
636	1330	श्री चन्द्रसिंह डोसी पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	37	टिप इति इंजी	व्यापार		जैन श्व	उदयपुर		मोहनपाल डोसी एण्ड क, दुकान न 204/4, Ebt (पालिका वाजार) जोहरी वाजार, जयपुर, फो न वा 43574 पर 41835
	2	तोजकवर	माता	विधवा	65							
	3	सुशीला	पत्नी	वि	33	बी ए						
	4	पारमचंद	भ्राता	वि	34	बी ए						
	5	शानादेवी	भ्रा बप्	वि	31	बी ए						
	6	महेन्द्र	भ्राता	धवि	27	बी एससी						
	7	सरोज	बहिन	धवि	25	बी ए						
637	536/ 811/ 1785	श्री ताराचंद डोसी पुत्र स्व श्री जोहरीलालजी	प प्र	वि	37	स	नौटरी		श्वे स्था	नतीराबाद	4 द 19, जवाहरनगर, जयपुर	निमल रोडवेज, पाल मडी, बालोतरा फो न 581
	2	मोहनकवर	पत्नी	वि	34	साक्षर						
	3	सुशीला	पुत्री	धवि	15		शि हा स					
	4	नीरद्र	पुत्र	धवि	13		शि वशा 7					

पुत्री 1

पुत्र-1, पुत्रिया-3

पुत्र 1, पुत्रिया 3

पुत्र-1, पुत्री-1

638	1433	श्री दौलतमल डोसी पुत्र श्री गोविन्दरामजी 2 पानबाई 3 निशी 4 शिवचन्द 5. शकुन्तला	प. प्र माता पत्नी भ्राता भ्रा.वधू	वि. विषवा वि. वि. वि	42 75 34 34 32	वी. ए. हा. सै. एम. ए. वी ए.	उद्योग	श्वे म	303, खवासजी का रास्ता, जयपुर	जय ड्रस प्रा. लि, जयपुर
639	542	श्री धर्मोचन्द डोसी पुत्र श्री गोकुलचन्दजी 2 नगीनादेवी 3. ऊपा 4. राजकुमारी 5. मुकेशकुमार 6 आशादेवी	प. प्र पत्नी पुत्री पुत्री पुत्र पुत्रवधू	वि. वि अवि. अवि वि. वि.	48 38 19 13 23 21	सै. साक्षर हा. सै. हा. सै.	राज्य कर्म. कपड़े का व्यवसाय	श्वे स्था. गुलावपुरा	फो. नं. 44048 2801, पद्मावती स्कूल के सामने घी वालो का रास्ता, जयपुर, फो नं. 41420	अधीक्षक बालक गृह, जयपुर 223, भेमियो का दरवाजा, हल्दियों का रास्ता, जयपुर
640	900	श्री नोरतन डोसी पुत्र श्री गोकुलचन्दजी 2. पद्मादेवी 3. गौतमचन्द 4. आरती 5. महावीरकुमार 6. रेणू 7. योगेशकुमार	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्री पुत्र	वि. वि. वि वि अवि , , वि	55 52 25 21 23 17 20	मिडिल इन्टर सै एम.कॉम सै. वी कॉम	व्यापार व्यापार बैंक कर्म	श्वे.स्था. गुलावपुरा	मं.नं 908, नाटानियो का रास्ता, जयपुर, फो.नं. 77808 पी पी.	महावीर जन स्टोर, नाटानियो का रास्ता, पार्श्वनाथ भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर,
641	1412	श्री प्रकाशचन्द डोसी पुत्र श्री कालूरामजी 2. चन्द्रकान्ता 3. शशीवाला 4. राजेन्द्र 5 प्रमिला	प. प्र. माता पत्नी भ्राता बहिन	वि. वि. अवि. अवि.	26 44 21 22 17	मैट्रिक	मर्विस	श्वे. मं	म.न. 4894, मठका कुआ, जौहरी बाजार, जयपुर	
642	1222	श्री पुखराज डोसी पुत्र श्री घेवरचन्दजी 2. मंजू	प प्र पत्नी	वि. वि.	23 22	एम.कॉम. हा सै	कनि. लि.	श्वे.स्था अजमेर	60, कल्याण कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर	पी.एफ. आयुक्त, ज्योतिनगर, जयपुर, फो. न. 77047
643	1437B	श्री महेन्द्रकुमार डोसी पुत्र श्री मालुमसिंहजी	प प्र.	वि	63	वी.एससी. वी.वी.एससी एम.एस (यू.एस.ए)	सेवा निवृत्त कन्सलटेन्ट	श्वे स्था. उदयपुर	38 सग्राम कालोनी, महावीर मार्ग, जयपुर, फो नं. 76602	हक कन्सलटेन्ट्स, आगरा रोड, जयपुर, फो. 40588/40431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 कमलाकुमारी	पत्नी	वि	56	इंटर					
		3 जितेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	34	बी ई (इले)	प्रो इंगी				इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वि, वस्तुतया गांधी मार्ग, नई दिल्ली राणा नि मंडल, जयपुर
		4 प्रदीपकुमार	पुत्र	वि	32	बी ई (इले)	गा इन्जीन				
		5 चंदा	पुत्रवधू	वि	29	एम ए					
		6 मरिता	पुत्रवधू	वि	27	बी ए, बी एड					
						एसएल बी					
644	2222	श्री हसराम बोली	प प्र	वि	55		ब्यापार	श्वेत	गुजानगढ़	बी 103, जनता	जैन साहट ववन,
		पुत्र श्री महालक्ष्मी								वालानी, जयपुर	सुजानगड फो न 32
		2 लक्ष्मीदेवी	पत्नी	वि	52					फो न 41204	
		3 प्रदीप	पुत्र	वि	26	बी वाम	ब्यापार				
		4 लीलादेवी	पुत्रवधू	वि	23						
645	717	श्री हिम्मतसाह बोली	प प्र	धवि	65	मैट्रिक	मविग	जैन	गावागु डला	ई 13 योगेश भवन	
		पुत्र श्री छाटासाहजी							(मोराट्ट)	मधुवन वालोनी,	
		2 भजली	माता	विधवा	84	साक्षर				टाक फाटक,	
		3 नूपतराय	भ्राता	वि	50	मैट्रिक	मविग			जयपुर 15,	
		4 ज्योतिबाबा	भ्रा व	वि	40	निशित				फो न 62864	
		5 भावना	भतीजी	धवि	20	बी ए					
		6 योगेश	भतीजा	धवि	18						
646	901	श्री शानचंद बोली	प प्र	वि	31	मैट्रिक	ब्यापार	श्वेत	भीलसाहा	2026, पीतविघो वा	विशाल एटप्राइजे
		पुत्र श्री मोरतनमलजी								चौर, जोहरो बाजार,	नाटारिया वा रास्ता,
		2 विद्यादेवी	पत्नी	वि	27	सज				जयपुर	पाष्यनाथ भवन, जयपुर
		ढड्डा									
647	1397	श्री भरतकुमार ढड्डा	प प्र	वि	35	बी ई (कमी)	सवित	श्वेत		म नं 1089,	जयपुर उद्योग, माह
		पुत्र स्व श्री दिव्यराजजी								एस बी बी जे के पास,	नगर, सर्वाईमाधोपुर
		2 बुद्धकुमारी	माता	विधवा	55	निशित				घोडा रास्ता, जयपुर	
		3 मरोज	पत्नी	वि	30	बी ए					
		4 सुरेश	भ्राता	वि	30	बी कॉम	एग्रेट				
		5 प्रेम	भ्रा व	वि	27	हा स					मार पी घो

पुनिया-3

पुन 1

6.	अरविन्द	भ्राता	अवि.	24	बी.कॉम.	सर्विस		गोलछा इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., जयपुर फो.67737/73782	
7	अजीत	भ्राता	अवि.	21	बी.कॉम. डी.सी.डब्ल्यू.ए.	सर्विस		पेपर बाक्स क. ऑफ इण्डिया, महाकाली रोड, पी.ओ अघेरी, (ईस्ट) वम्बई	
648	297	श्री उत्तमचन्द ढड्डा	प. प्र.	वि.	55	मैट्रिक	लेखाकार	श्वे स्था.	डी-57, ज्योति मार्ग, वापूनगर, जयपुर, फो.नं. 60577
		पुत्र स्व. श्री सिरहमलजी							
		2. पुखराजदेवी	पत्नी	वि.	52				
		3. कमलकुमार	पुत्र	वि.	35	हा.सं.	रत्न व्यवसाय		
		4 सन्तोपदेवी	पुत्रवधू	वि.	33	हा.सं.			
		5. प्रसन्नकुमार	पुत्र	वि.	27	बी ए., एलएल.बी	रत्न व्यवसाय		
		6. लीलादेवी	पुत्रवधू	वि.	24	बी ए.			
		7. पुष्पलता	पुत्री	अवि.	24	बी.ए.			
		8. अभयकुमार	पुत्र	अवि.	22	एम कॉम.	रत्न व्यवसाय		
		9 हेमलता	पुत्री	अवि.	20		शि. बी ए (द्वि.व.)		
649	1609/ 1981	श्री कानमल ढड्डा	प. प्र.	वि.	63	बी.कॉम.	पत्रकार	श्वे स्था.	4463, ढड्डा भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-3, फो.न. 44574
		पुत्र स्व. श्री सरदारमलजी							
		2. हगामकंवर	माता	विधवा	88	साक्षर			
		3. लाडवाई	पत्नी	वि.	60	मिडिल			
		4. विनय	भ्राता	वि	55	मिडिल	व्यवसाय		
		5 चन्द्रकान्ता	भ्रा वधू	वि	48	मिडिल			
		6 धनरूपचन्द	भ्राता	वि	50	इण्टर	प्रिन्टिंग प्रेस		
		7. राजकुमारी	भ्रा वधू	वि	45	मिडिल			
		8. कुसुमकुमार	भ्राता	वि	35	बी एससी	रत्न व्यवसाय		
		9 तारा	भ्रा वधू	वि.	30	मैट्रिक			
		10. पारस	भ्राता	वि.	33	इण्टर	रत्न व्यवसाय		
		11. हेमलता	भ्रा वधू	वि.	28	मैट्रिक			
		12 अशोक	भतीजा	वि.	30	एम.कॉम ,एलएल.बी.	वकील		
		13 सुशीला	भ्रा. वधू	वि.	29	इण्टर			
		14 अजय	पुत्र	वि	28	बी.कॉम.	पत्रकार		

पुत्र-2, पुत्रियां-2

पुत्र-1, पुत्रियां-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		15 निर्मला	पुत्रवधु वि	26	बी०						
		16 सत्य	भतीजा धरि	20			नि श्री कांठ व वि० देव				
		17 सगीता	भतीजी धरि	22	बी०						
		18 सविता	भतीजी धरि	19			नि श्री०				
		19 सन्	भतीजी धरि	16			नि इया 9				
		20 राजीव	भतीजा धरि	14			नि मे				
		21 सजीव	भतीजा धरि	13			नि व 11 6		नि 7, गीरिका 2		
650	2020	श्री श्रीनिवास इच्छा पुत्र स्व श्री दीवपात्री	प०	वि	43	दी०	रत्न धारणा	इरे स्या		श्री, श्री 28 म०	इच्छा म० व , एच एच श्री वा
		2 काशी	पत्नी वि	36	म०					धरणा व गे०	एच एच श्री वा
		3 विजया	पुत्री धरि	17			नि श्री			धरणा म०, उरुपुर	राधा, श्रीरि
		4 विजया	पुत्री धरि	15			नि व 11 8			श्री 44710	बाबा, उरुपुर
											श्री 40711
651	163/ 1387	श्री श्यामकांत इच्छा पुत्र स्व श्री प्रतापरात्री	प०	विपु०	45	दी०	रत्न धारणा	इरे स्या		1155, लक्ष्मिनी का	
		2 मालकान्त	पुत्र वि	36	बी०		रत्न धारणा			शरणा श्रीरि म०, उरुपुर	
		3 पुष्पा	पुत्रवधु वि	31	दा०	बी०				श्री 77915	
652	892	श्री पालीमत इच्छा पुत्र स्व श्री सुधातमात्री	प०	वि	63	मा०	रत्न धारणा	इरे स्या		श्रीरिमा का श्री	उरुपुर
		2 ताडकनर	पत्नी वि	57							
653	1292	श्री पालीमत इच्छा पुत्र स्व श्री गिरधरमात्री	प०	वि	55	दा०	रत्न धारणा	इरे स्या		725, लक्ष्मिनी का	श्रीरिमा का म०
		2 दादा	पत्नी वि	48	बी०	(सकांति)				रत्न श्री 64240	रत्न का श्रीरिमा
		3 सन्	पुत्री धरि	24	पु०	(सकांति)					श्री 1, उरुपुर
		4 गीता	पुत्री धरि	18			नि श्री० (प०)				
		5 सजीव	पुत्र धरि	17			नि व 11 12				
654	2160	श्री श्रीनिवास इच्छा पुत्र स्व श्री सुधातमात्री	प०	वि	72	दा०	रत्न धारणा	इरे स्या		इच्छा म०, श्रीरि व म०	श्रीरिमा का श्री
										श्री 14	श्रीरिमा का श्री
										उरुपुर	श्रीरिमा का श्री

665	2021	3. विजयगिह	पुत्र	वि	46	एम कॉम	व्यापार	पौत्री-1	श्वे.स्था	4, पु मेमो , नारायण ढड्डा एण्ड क., एम. सिंह रोड, जयपुर, एस. वी. का रास्ता, फो. न. 78186 जौहरी बाजार, जयपुर, फो नं. 40713	
		4. गुनीया	पुत्रवधू	वि.	40						
		5. नीरज	पौत्री	अवि.	19		शि वी.ए (तृ.व.)				
		6. वीरेन्द्र	पौत्र	अवि.	16		शि. हा. सै				
666	169	श्री प्रकाशचन्द ढड्डा	प. प्र.	वि.	41	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था	श्वे.स्था	4, पु मेमो , नारायण ढड्डा एण्ड क., एम. सिंह रोड, जयपुर, एस. वी. का रास्ता, फो. न. 78186 जौहरी बाजार, जयपुर, फो नं. 40713	
		पुत्र श्री दीपचन्दजी									
		2. प्रमिला	पत्नी	वि.	37	मिडिल					पुत्र-1, पुत्रियां-3
		3. सुनीता	पुत्री	अवि.	16	सैक					
श्री प्रेमचन्द ढड्डा	प प्र	वि	50	एम.कॉम.	प्रोक्टिस						
पुत्र स्व. श्री सिरहमलजी				एलएल वी , सी.ए.							
667	481	2. चन्द्रा	पत्नी	वि.	45	मैट्रिक		श्वे.म.	श्वे.म.	1880, ऊँचा कुआ, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. 45119,40409, 44424	
		3. सीमा	पुत्री	अवि.	18	वी.कॉम.	शि. सी.ए.				
		4. संजयकुमार	पुत्र	अवि.	16		शि. वी.कॉम (प्र.व.)				
		5. संयोग	पुत्र	अवि	14		शि. कक्षा 9				
668	1723	श्री पारसदास ढड्डा	प.प्र	वि.	63	इन्टर	व्यवसाय	श्वे.स्था	श्वे.स्था	4463, ढड्डा हाउस, के.जी.वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. नं 43435	
		पुत्र स्व. श्री गोडीदासजी									
		2. सम्पत	पत्नी	वि.	61	मिडिल					पुत्र-2 पुत्री-1
		3. प्रेमलता	पुत्रवधू	वि.	33	सै.					
4. चिन्तामणि	पुत्र	वि.	42	इन्टर	व्यवसाय						
5. विमल	पुत्र	वि	29	एम.ए एलएल वी	व्यवसाय						
668	1723	6 वन्दना	पुत्रवधू	वि.	26	वी.ए.		श्वे.स्था	श्वे.स्था	4463, ढड्डा हाउस, के.जी.वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. नं 43435	
		7. जिनेन्द्र	पुत्र	अवि	25	वी.एससी					
		8. सुविधि	पौत्र	अवि.	16		शि हा सै.				
		श्री मनोहरमल ढड्डा	प.प्र	वि	48	वी.कॉम.	रत्न व्यवसाय				
668	1723	पुत्र स्व श्री सिरहमलजी						श्वे.स्था	श्वे.स्था	4463, ढड्डा हाउस, के.जी.वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. नं 43435	
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	43	मिडिल					
		3. संजयकुमार	पुत्र	अवि.	23	अनपढ	वेरोजगार				
		4. सगीता	पुत्री	अवि.	20	वी ए.	वेरोजगार				
668	1723	5. अजयकुमार	पुत्र	अवि	17		शि. हा.सै.	श्वे.स्था	श्वे.स्था	4463, ढड्डा हाउस, के.जी.वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. नं 43435	
		6 नीता	पुत्री	अवि	18		शि वी ए. (प्र व)				
		7. मोनिका	पुत्री	अवि.	13		शि. मिडिल				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
669	162	श्री मोतीचन्द डबडा पुत्र श्री केवराचन्दरी	प १	वि	38	हा म	रत ध्यवनाय	रवे मं		म न 1385, वरणा रिवां का राणा	रामनाराजी का राणा, भीमे बाबा का
		2 रेखा	पत्नी	वि	35	म				श्रीहरी बाबा का उपपुर मणम, श्रीहरी बाबा का	उपपुर
		3 रुबी	पुत्री	पवि	14		मि मिदिम			का नं 62195	उपपुर
670	885	श्री वपचन्द डबडा पुत्र स्व श्री गिरहमनजी	प २	वि	46	बी म	रत ध्यवनाय	रवे मं		श्री 259, भाभा माण, विमल रागर उपपुर-4, राणा, उपपुर,	एम एम बी का श्री न 63801 श्री न 42989
		2 रामकुमारी	पत्नी	वि	40	श्रीद्विज					
		3 राजेशकुमार	पुत्र	पवि	22	बी रॉमि	रत ध्यवनाय				
		4 रेणुकुमारी	पुत्री	पवि	18	बी रॉमि					
		5 रमाकुमारी	पुत्री	पवि	17		मि शा मी				
		6 सुनिमा	पुत्री	पवि	16		मि म				
		7 रामकुमार	पुत्र	पवि	15		मि कला 9				
671	1178/ 1982	श्री विजयचन्द डबडा पुत्र स्व श्री गाइमाजी	प २	वि	33	बी रॉमि	रत ध्यवनाय	रवे मं		2 रविनाथ माडा एम सी २ ड, उपपुर श्री नं 69205	श्री इला वाम एम एम बी का राणा श्रीहरी बाबा का, उपपुर श्री न 42989
		2 वम लक्ष्मी	पत्नी	विपवा	50						
		3 कषाजी	पत्नी	वि	30	हा मं					
		4 केदारकुमार	भावा	वि	31	बी म	रत ध्यवनाय				
		5 सुनीलजी	भावा	वि	25	एम म					
		6 नरेशकुमार	भावा	वि	25	हा मं	ध्यवनाय				
		7 लक्ष्मीजी	भावा	वि	22	बी ए					
		8 धर्मेशकुमार	भावा	पवि	22	हा मं	ध्यवनाय				
		9 श्रीरामकुमार	पुत्र	पवि	13		मि मिदिम				
672	1386/ 787	श्री विजयचन्द डबडा पुत्र श्री श्रीराचन्दरी	प २	वि	36	बी म	रत ध्यवनाय	रवे मं		म न 1345, वराणा रिवां का राणा	श्रीहरी बाबा का, उपपुर, श्री न 64248
		2 धारणाजी	पत्नी	वि	30	श्रीद्विज					
		3 धारणोद	पुत्र	पवि	13		मि कला 8				
673	937	श्री गिरहचन्द डबडा पुत्र श्री प्रणामिहारा	प २	वि	57	बी ए	रत ध्यवनाय	रवे मं		1385 वरणा रिवां का राणा, श्रीहरी बाबा का उपपुर श्री न 48451	
		2 मी सुनील	पत्नी	वि	55						
		3 विमलचन्द	पुत्र	वि	35		भावा				
		4 कल्प	पुत्रपु	वि	33						

पुत्र-1 पुत्री-1

पुत्र-1 पुत्री-3

पुत्र 1, पुत्री 2

पुत्र 1, पुत्री 1

674	110	श्री सरदारमल ढड्डा पुत्र स्व. श्री गरुणेशमलजी	प प्र	वि	64	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	गरुणेश भवन, परता- नियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो.न.75163,62707
		2. जतनदेवी	पत्नी	वि	58				
		3. उमरावमल	भ्राता	वि	61	इन्टर	रत्न व्यवसाय		
		4. लाडकवर	भ्रा व.	वि	55	साक्षर			
		5. पदमचन्द	भतीजा	वि.	32	बी. कॉम.	रत्न व्यवसाय		पी वी. ज्वेलर्स, गरुणेश भवन, जयपुर,
		6. विजयलक्ष्मी	भती. व.	वि.	25	हा. सैक.			पी.वी एन्टरप्राइजेज, गरुणेश भवन, जयपुर
		7. विमलचन्द	पुत्र	वि	30	बी कॉम	रत्न व्यवसाय		
		8. सुनीता	पुत्रवधू	वि	27	बी.ए			
675	970	श्री स्वरूपचन्द ढड्डा पुत्र श्री सिरहमलजी	प प्र.	वि	43	बी एससी.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	बी-20, प्रभुमार्ग, तिलकनगर, जयपुर, फो नं. 49094
		2 आगजीदेवी	माता	विधवा	80	साक्षर			4463, ढड्डा, हाउस, के.जी वी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो.नं. 42502
		3. सूरजदेवी	पत्नी	वि	38	मिडिल			
		4 सुपमा	पुत्री	अवि.	18		शि. वी.ए. (प्र.व)		
		5. सुभाप	पुत्र	अवि	14		शि. हा.सै.		
		6 सुजीत	पुत्र	अवि	14		शि. कक्षा 9		
679	1016	श्री सिद्धराज ढड्डा पुत्र स्व. श्री गुलावचन्दजी	प.प्र	वि	76	एम.ए.,एलएल.बी.	समाजसेवा, राष्ट्रसेवा	श्वे म.	1088, चूखको का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर, फो.न. 62418
		2. उमरावकवर	पत्नी	वि.	72	साक्षर			
		3. अशोककुमार	पुत्र	वि.	45	बी.ए	कालीन व्यवसाय		ग्रशु एक्सपोर्ट, जयपुर, फो.न. 62413
		4 सरोज	पुत्रवधू	वि.	43	एम.ए.			
		5. अणुमान	पौत्र	अवि	19		शि. एम.कॉम. (प्र.व.)		
		6. शालिनी	पौत्री	अवि.	18		" "		
		7. मृणालिनी	पौत्र	अवि	13		शि. कक्षा 9		
677	2017/ 1721	श्री सुनीलकुमार ढड्डा पुत्र स्व. श्री हरकचन्दजी	प.प्र.	अवि.	24	सैक	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं.	नाटारणी भवन, मठका कुआ, के.जी.वी का रास्ता, जौहरी, बाजार, जयपुर-3
		2. सितारादेवी	माता	विधवा	58				के.जी कोठचारी, के.जी.वी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		3. सजयकुमार	भ्राता	अवि	18		शि. वी.ए. (प्र व.)		
678	886	श्री सुरेन्द्रकुमार ढड्डा पुत्र श्री उत्तमचन्दजी	प.प्र.	वि.	32	हा.सै.	जवाहरात	श्वे.स्था	999, ढोर विल्डिंग, आचार वालो की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर
		2. इन्द्रादेवी	पत्नी	वि.	29	हा सै.			

पुत्र-2, पुत्रियाँ-4

पौत्री-1

पौत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
679	2019	श्री हरिश्चन्द्र डडडा पुत्र श्री दीपचन्द्रजी	प प्र	वि	48	मैट्रिक्स	रत्न ध्यनगाय	श्वे स्या		म न 4, पु मेमो, विद्यान ज्वलस डडडा नारायणसिंह रोड जयपुर फोन 77072	विद्यान ज्वलस डडडा मेहन, रामललाजी बा रास्ता जोहरी बाजार जयपुर
		2 लक्ष्मीदेवी	पत्नी	वि	45	साक्षर					
		3 सविता	पुत्री	प्रवि	16		शि म				
		4 विद्यान	पुत्र	प्रवि	14		शि कक्षा 8				
680	788	श्री हीराचन्द्र डडडा पुत्र श्री प्रतापचन्द्रजी	प प्र	वि	65	मैट्रिक्स	रत्न ध्यनगाय	श्वे म		परतानिया बा रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर फोन 64948	
		2 कचनकर	पत्नी	वि	62	मिडिज					
		3 मोतीचकर छाजेड	मुद्या	विधवा	97						
681	1075	श्री ज्ञानचन्द्र डडडा पुत्र श्री घमोलचन्द्रजी	प प्र	वि	44	बी एमजी	व्यापार	श्वे स्या		4537, जे जी बी बा रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर, फोन 43310	जयपुर एम्पोरियम क्षेतान भवन, एम सार्ड रोड, जयपुर 65491
		2 हेमन्ता	पत्नी	वि	38	मिडिज					
		3 सुरेशकुमार	पुत्र	प्रवि	21	बी एम					
		4 राजेशकुमार	पुत्र	प्रवि	18		शि बी एम (दि र)				
		5 मोनाक्षी	पुत्री	प्रवि	16		" " (प्र व)				
		6 धरमकुमार	पुत्र	प्रवि	13		" कक्षा 9				
		<u>दावरिया</u>									
682	1182	श्री चन्द्रसिंह दावरिया पुत्र श्री मोहनसिंहजी	प प्र	वि	44	बी ए	म नेमापिनारी	श्वे स्या		म न 4784 मठ बा कुप्रा, जे जी बी बा रास्ता जयपुर	
		2 केदारबाई	माता	वि	68	साक्षर					
		3 शांतादेवी	पत्नी	वि	40						
		4 हसा	पुत्री	प्रवि	21		शि बी एम				
		5 मूषेन्द्रसिंह	पुत्र	प्रवि	17		शि ए म				
		6 हनुचन्द्रसिंह	पुत्र	प्रवि	15		शि म				
		7 गजराजसिंह	पुत्र	प्रवि	13		शि कक्षा 9				
683	83	डा सरदारसिंह दावरिया पुत्र श्री मोहनसिंहजी	प प्र	वि	46	एम ए पी एच डी	वरि प्राप्तेमर	श्वे स्या	मुसाबपुरा (भीनवाडा)	सी 116, गाविनी पथ बापूनगर जयपुर	बिडना विधान मोघ मस्थान, 27 मासवीया घोषोमिन क्षेत्र, जयपुर, फोन 68178
		2 रतनदेवी	पत्नी	वि	41	प्रवेशिका					
		3 ऊषा	पुत्री	प्रवि	23	बी एमसी एम ए पी एच डी (शासनापरत)					
		4 सार्व्या	पुत्री	प्रवि	21	बिप्लो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नी प्रवि					

		5. दिग्विजय	पुत्र	अवि.	19		शि. बी.ई. मैक(द्वि व.)		
		6 नन्द्रविजय	पुत्र	अवि.	17		शि. बी एससी (प्र.व)		
		ढेलड़िया							
684	27	श्री खन्विराज ढेलड़िया	प.प्र.	वि	60	बी.ए	सेवानिवृत्त	श्वे.स्था जोधपुर	म.न. 353-55, पत्नी
		पुत्र श्री सुल्तानमलजी							वालो की गली,
		2. रूपकचर	पत्नी	वि	53	साक्षर			चौडा रास्ता, जयपुर,
		3. राजेशकुमार	पुत्र	अवि	17		शि. बी.ए. (प्र.व.)		फोन 76514
		ढोर							
685	1476	श्री कमलचन्द्र ढोर	प.प्र	वि.	36	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	999, ढोर विल्डिंग,
		पुत्र श्री पन्नालालजी							गोपालजी का रास्ता,
		2 प्रेमलता	पत्नी	वि.	28	मिडिल			अचारवालो की गली,
									जौहरी बाजार, जयपुर,
									फोन.नं 63612
686	1403	श्री खेमचन्द्र ढोर	प प्र	वि	52	मैट्रिक	सर्विस	श्वे.ते.	1426, पितलियो घीयाज, एम.आई रोड,
		पुत्र स्व. श्री रिखवदासजी							का रास्ता, जौहरी जयपुर, फो. 73943
		2. प्रेमदेवी	पत्नी	वि	48	साक्षर			बाजार, जयपुर
		3 नवीनकुमार	पुत्र	वि	28	हा.सँ	रत्न व्यवसाय		
		4. अनिता	पुत्रवधू	वि.	24	बीए			
		5. ऊपा	पुत्री		24	मैट्रिक			
		6. मधु	पुत्री		21	बी.ए.			
		7. राजेन्द्रकुमार	पुत्र		19		शि. बी.कॉम (प्र.व.)		
687	1441	श्री चिरजीलाल ढोर	प प्र.	वि.	63	इन्टर	सीनि. एकजीक्यूटिव	श्वे.म.	बैराठी हाउस, हल्दियो
		पुत्र श्री मिश्रीलालजी					सैल्समैन		का रास्ता, जौहरी
		2 किरणकुमारी	पत्नी	वि.	51				बाजार, जयपुर,
		3. तरुणकुमार	पुत्र	वि.	32	बी.एससी., एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय		फो. 43179
		4 तिलक	पुत्रवधू	वि	25	हा.सँ			
		5. नवीनकुमार	पुत्र	अवि.	25	हा सँ	रत्न व्यवसाय		
688	1892	श्री नोरतनमल ढोर	प.प्र.	वि	63	साक्षर	ब्याज का काम	जैन	999, ढोर विल्डिंग,
		पुत्र स्व. श्री मोमीलालजी							गोपालजी का रास्ता,
		2. रजनदेवी	पत्नी	वि.	60	साक्षर			जयपुर, फोन. 46316
		3. टीकमचन्द्र	पुत्र	वि	40	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय		
		4. सुशीला	पुत्रवधू	वि	35	मिडिल			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 लाहदेवी	पुत्रवधू	विधवा	38	मिडिल					
		6 जतामल	पुत्र	वि	35	बी एमसी	रत्न व्यवसाय				
		7 प्रेमदेवी	पुत्रवधू	वि	28	मैट्रिक					
		8 राजेश	पौत्र	घवि	18		शि बी ए (प्र व)				
		9 सुमिता	पौत्री	घवि	16		शि बी ए (डि व)				
		10 मणीता	पौत्री	घवि	14		शि स				
689	848	श्री ह्रीराजचंद डोर पुत्र श्री यत्नमहागजी	प प्र	वि	39	मैट्रिक	ध्वजगाय	श्री मं		1412, गड्ढा भग, पो 7 78302	
		2 घनादेवी	माता	विधवा	68					एलएमबी होटल	
		3 सुनीतादेवी	पत्नी	वि	36	मिडिल				के पीछे जोहरी	
		4 कमल	भ्राता	घवि	26	स	ध्वजगाय			राजार जयपुर	
		5 भीमा तातेड	रहित	घवि	21	मिडिल					
690	1866	श्री कमलचंद तातेड पुत्र श्री प्रीतमचंदानी	प प्र	वि	38	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्री मं	दिल्ली	4319, न जो पी रा	
		2 वमनाथेयी	पत्नी	वि	32	मिडिल				रास्ता, नमनजी रा	
		3 विवाम	पुत्र	घवि	14					रोड, जोहरी बाजार,	
691	49	श्री उमेशचंद तातेड पुत्र श्री बिरजीचंदजी	प प्र	वि	33	मैट्रिक	राजडा व्यवसाय	श्री स्या	गोविन्दगढ़ (धजमेर)	जन व-पु वटवा पुरोहितजी जयपुर,	
		2 पुष्पादेवी	पत्नी	वि	29	मिडिल				पो न 68607	
692	385	श्री कुशलचंद तातेड पुत्र श्री रतनलाली	प प्र	वि	34	बी कॉम	व्यापार	जय	दिल्ली	गी 59 प्रियदर्शी	नक्षारी जयपुर, पांच
		2 राजकुमारी	पत्नी	वि	29	हा म				माग, तिननगर	बत्ती, एम घाई रोड,
693	1264	श्री चमनलाल तातेड पुत्र श्री घमरनाथना	प प्र	वि	57	बी ए	इडिग मैनजर	श्री स्या		जयपुर	जयपुर
		2 सरस्वतीदेवी	पत्नी	वि	55	मिडिल				गी 222, ज्ञान माग,	
		3 कुलदीप	पुत्र	वि	33	बी कॉम				तिननगर, जयपुर,	
		4 जया	पुत्रवधू	वि	31	एम ए				पो 7 65477	
		5 कुलभूपण	पुत्र	वि	31	बी ए एलएन बी	ध्वजगाय				28-मी, एम घाई
							ध्वजगाय				रोड, जयपुर

पुत्र-1

पुत्र 2, पुत्री 1

पुत्र 1, पुत्री 1

		7 डॉ लती	पुत्र	वि	27	एम बी.वी एस, एम. डी.	सेवा			एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर
		8. डा शबनम	पुत्रवधू	वि.	25	एम.बी वी.एस,	सेवा			" "
694	1058	श्री धनराज तातेड़ पुत्र श्री मदनलालजी 2. अरुणाकुमारी 3 पुष्पाकुमारी	प. प्र	वि	24	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
			पत्नी	वि	23	मिडिल				
			बहिन	अवि	15		शि संके			
695	723	श्री पारसमल तातेड़ पुत्र श्री धर्मचन्दजी 2. प्रसन्नलता	प. प्र.	वि.	31	वी कॉम ,ए.सी ए	डिप्टी मैनेजर			
			पत्नी	वि	30	बी.ए.,बी.एड				
								पुत्र-2, पुत्रियाँ-4		
								श्वे.स्था. राताकोट	2037, रामललाजी का रास्ता, जयपुर फो न. 65386 पी पी. 65264 पी पी	
								पुत्र -1		
								जैन सिरौही	2156, मालवीया नगर, जयपुर	राज. कम्प्युनिकेशन लि., उद्योग भवन, जयपुर फो. नं 78751, 65301
								पुत्र-1, पुत्री-1		
697	623	श्रीमती सत्या तातेड़ 2. सीमा <u>तालेरा</u>	प प्र.	विधवा	52	हा. सै.	लेखाकार			
			पुत्री	अवि.	16		शि. कक्षा 11			
								श्वे.स्था. जोधपुर	6क20, जवाहर नगर	ए जी ऑफिस, जयपुर
698	1070	श्री लक्ष्मीचन्द तालेरा पुत्र श्री सरूपचन्दजी 2. उगमकवर 3. माणकचन्द 4. शकुन 5. सुरेन्द्र 6 शान्ती <u>तालेसरा</u>	प. प्र	वि.	48	इन्टर	उद्योग			
			पत्नी	वि.	45	मैट्रिक				
			पुत्र	वि.	26	बी.एससी.	उद्योग			
			पुत्रवधू	वि.	23	मैट्रिक				
			पुत्र	अवि.	20	बी.कॉम.	उद्योग			
			बहिन	विधवा	56	साक्षर				
								पुत्रियाँ-2		
699	1582	श्री बसन्तराज तलेसरा पुत्र श्री मोतीलालजी 2. शशी 3 धर्मेंशकुमार <u>ताम्बी</u>	प प्र	वि	28	वी कॉम	व्यवसाय			
			पत्नी	वि.	24	मैट्रिक				
			भ्राता	अवि	20	एम.काम.				
								पुत्र-1		
								श्वे.स्था. पाली	1, खण्डेलवाल हाउस, बायोडिस्ट्रीब्यूटर्स, ससारचन्द्र रोड, जयपुर, प्रथम खण्डेला हाउस, फो. नं 79279	जयपुर
700	66	श्री शान्तीलाल ताम्बी पुत्र श्री कान्तीलालजी 2. अमिता	प प्र.	वि	37	बी काम	रत्न व्यवसाय			
			पत्नी	वि.	31	बी काम.				
								श्वे.मं. कलकत्ता	35, गंगवाल पार्क, जयपुर-4	201, हल्दियो का रास्ता, जयपुर-3, फो. नं 42656
								पुत्र-1, पुत्री-1		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>तरवेचा</u>								
701	46	श्री सतोयकुमार तरवेचा पुत्र श्री नैसरोमलजी	प प्र	धवि	23	मिडिल	सया	श्वे जन चोमेल (भालावाड)	केपीटल मैयूके वम्पनी के जी वी का रास्ता, जयपुर	
								भाई 2, बहिन 2		
		<u>दक</u>								
702	692	श्री मानमल दक पुत्र स्व श्री नानासाळजी 2 वचनबाई 3 प्रेमलता	प प्र	वि	35	बी रॉम, एलएल वी	वरि लेखापरीक्षक	श्वे स्या डू गला (चित्तौड)	II 201 बजाज नगर, जयपुर	महालेलावार कार्या (भाडिट) जयपुर, फो न 68431, एक्सटें 273
				माता	विधवा	67		पुत्र 2		
703	1183	श्री राजमल दक पुत्र श्री मन्सासालजी 2 वमलादवी	प प्र	वि	35	बी ए	राज्य सया	श्वे जन डू गला (चित्तौड)	472, बडायाना चोक, गीबिंदराजियो या रास्ता, चांणोल याजार, जयपुर	सामाय प्रशासन (पुत्र 4), सचिवालय जयपुर
				पत्नी	वि	30	साक्षर	पुत्र 2, पुत्री 1		
		<u>दपतरी</u>								
704	1324	श्री धनु नराज दपतरी पुत्र श्री धनोतराजजी 2 भानदफवर 3 भरविंद 4 मजु 5 नगीता	प प्र	वि	60	एम नाम	सवानिवृत्त	श्वे जा जोयपुर	डी 9 गिबिंदरा पथ, चौमू हाउस नॉनोती, जयपुर	
				पत्नी	वि	59	मिडिल			
				पुत्र	वि	30	बी एससी	स्टेनो		
				पुत्र	वि	27	बी ए			
				पुत्री	धवि	25	बी ए			
705	2340	श्री धमरचंद दपतरी पुत्र श्री धनूचणजी 2 मोहनीबाई 3 मदनबाई	प प्र	वि	61	मिडिल		श्वे त	2141, हृदिद्या या रास्ता, जयपुर	रीनो कार्या, जयपुर, फो न 67111
				बुधा	वि	65				
				पत्नी	वि	58				
706	1038	श्री नगराज दपतरी पुत्र श्री रिधकरराजी 2 रिधकररा 3 मुखीदेवी 4 गणेशीदेवी 5 महेशनुमार	प प्र	वि	43	मिडिल	गरि मडनीय प्रबंधन	श्वे त	गरनगरगृह	A/48, श्यामनगर, पजमेर रोड, जयपुर फो न 61560
				पिता	वि	71				डी थोरिय टल दश्यो या, सरदार पटेल फो न 64013, 873818
				माता	वि	65				
				पत्नी	वि	41				
				पुत्र	धवि	19	बी रॉम			

707	2002	श्री सोहनचन्द बपतरी पुत्र श्री कल्याणमलजी 2. किरण 3. ऋतु दरडा	प. प्र. पत्नी पुत्री	वि वि अवि.	40 36 13	ए.एम.आई.ई. (इलै) बी.ए. शि. कक्षा 8	सहा अभियन्ता रा. रा. वि. म	श्वे.म जोधपुर	प्लॉट न. 52, गगवाल पार्क, जयपुर	पुराना पावर हाउस, बनीपार्क
708	549	श्री गुलाबसिंह दरडा पुत्र श्री मोतीसिंहजी 2. कृष्णा	प प्र पत्नी	वि. वि	48 44	एम ए ,एम.कॉम एलएल बी , हिन्दी रत्न, विशारद एम.ए ,बी.एड.	शासन उपसचिव आर.ए.एस शिक्षक	श्वे.स्था	जयलालमुंशी मार्ग, जयपुर फो. न 63829	राजस्व व स्वर्ण नियन्त्रण अधिकारी, राजस्थान सरकार महारानी हा. सै. स्कूल बनीपार्क, जयपुर
709	1241	श्री हिम्मतसिंह दरडा पुत्र श्री मोतीसिंहजी 2. पुष्पा 3. अमित 4. सुनीता 5. निधी दसानी	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	40 39 20 16 14	बी कॉम.,एलएल.बी., व्यवस्थापक(क्रेडिट) सी ए मिडिल शि. बी.कॉम.(द्वि.व.) शि. हा. सै. शि. कक्षा 9	व्यवस्थापक(क्रेडिट) सी ए	श्वे.स्था नन्दराय (भीलवाडा)	जयलालमुंशी मार्ग, जयपुर	सी-49, बैंक ऑफ राजस्थान, भगवानदास रोड, सी-स्कीम, जयपुर, फो.न. 75178
710	1451	श्री भंवरलाल दसानी पुत्र श्री सचियालालजी 2. कृष्णादेवी 3. मनोजकुमार	प प्र पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	35 33 13	हा. सै हा सै शि कक्षा 7	व्यवसाय	श्वे.ते सरदार शहर 2042, घो वालो का मे	सर्दार शहर 2042, घो वालो का मे रास्ता, जौहरी बाजार, मार्केट, एम.एस.बी. जयपुर	आशा, 26-न्यू का रास्ता, जयपुर-3
711	2327	श्री श्रीपत दसानी पुत्र श्री शुभकरराजी 2. गणेशीदेवी 3. सुशीला 4. हसा 5. राजप्रभा 6. भारती 7. भरत दासोत	प.प्र. माता पत्नी बहिन बहिन पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि. अवि. अवि.	45 95 43 26 23 22 20	बी ए मैट्रिक मैट्रिक एम ए. , , , ,	वस्त्र निर्यात व्यवसाय	श्वे.ते.	म.न. 12, वरडिया कॉलोनी, जयपुर, फो.नं. 66239	फो.न. 65042
712	1830	श्री मोहकमचन्द दासोत पुत्र श्री सुजानमलजी	प प्र	वि	48	एम ए	पेट्रोल पम्प	श्वे.म	195, सेन विला, चर्च के सामने, एम.आई.	दासोत ब्रदर्स, अजमेरी गेट, जयपुर

2	कूनबाई	दासी	विधवा	80						रोड, जयपुर, फोन 75655,	फोन 75798, 74281
3	शीला	पत्नी	वि	42	मैट्रिक्स						
4	सजय	पुत्र	धवि	22	एम कॉम	रत्न व्यवसाय					
5	मनोज	पुत्र	धवि	20	एम कॉम	पेट्रोल पम्प					
6	मीरज	पुत्र	धवि	18		शि बी कॉम (टि व)					
7	ऋतु	पुत्री	धवि	16		शि हा स					
8	मोनिता	पुत्री	धवि	14		शि कशा 9					
9	सुभाषचंद	भ्राता	वि	34	बी ए	पेट्रोल पम्प भीर टांसपोट					
10	पवन	भ्रा बंधू	वि	30	एम ए						
11	सतीश	भ्राता	वि	28		पेट्रोल पम्प					
12	रीता	भ्रा बंधू	वि	26							

बुधडीया

713	1973	श्री विजयसिंह बुधडीया पुत्र श्री रामचन्द्रजी	प प्र	वि	38	इंटर	प्रिंटिंग प्रेस	श्वेत छापर		मजय प्रिंटस, मोती हू गरी रोड, जयपुर 4 फोन 41640	
2		वरजोदेवी	माता	विधवा	55						
3		उमादेवी	पत्नी	वि	32	मैट्रिक्स					
4		विमलसिंह	भाई	वि	30	एम कॉम					
5		सज्जादबी	भ्रा बंधू	वि	28	मैट्रिक्स					
6		निर्मलसिंह	भ्राता	वि	28	बी काम					
7		बनप्रदेवी	भ्रा बंधू	वि	25	मैट्रिक्स					
8		राजेशकुमार	पुत्र	धवि	16		शि स				
9		सज्जकुमार	पुत्र	धवि	14		शि कशा 8				

पुत्र 1

दुनियाल

714	1215	श्री कल्याणमल दुनियाल पुत्र श्री बीरूलायजी	प प्र	वि	60	मैट्रिक्स	भराजटेंट	श्वेत्या सराना (भजमेर)		रामन्यायजी यदारी, गुमानगा उमरावमल गोरपनाथजीकी मत्नी, पोरडिया, गोपारी जयपुर फोन 69462 वासोकी मत्नी, जयपुर, फोन 47753	
2		भूरजबचर	पत्नी	वि	55						
3		ज्ञानचंद	पुत्र	वि	30						
4		मुशीला	पुत्रबंधू	वि	25						
5		पमना	पुत्री	धवि	20						

		<u>दुसाज</u>							
715	2178	श्री नवीनलाल दुसाज पुत्र श्री पन्नालालजी 2. कमलकुमारी	प प्र पत्नी	वि. वि.	37 33	मैट्रिक एम.ए	रत्न दलाली	श्वे म पुत्र-1, पुत्री-1	3978, एम. एस. बी. का रास्ता, जयपुर
716	1093	श्री प्रवीणलाल दुसाज पुत्र श्री पन्नालालजी 2. शान्ता 3 नीरा	प.प्र पत्नी पुत्री	वि. वि अवि.	44 33 14	मैट्रिक मिडिल 14	रत्न दलाली शि. कक्षा 8	श्वे म. कलकत्ता पुत्र-1, पुत्री-1	4634, के जी.बी. का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर फो न 40729
717	1614	श्री रवीन्द्रलाल दुसाज पुत्र श्री पन्नालालजी 2. कुसुम <u>दुग्गड़, दूगड़</u>	प प्र. पत्नी	वि. वि.	36 28	हा. सै हा. सै	रत्न दलाली	श्वे.म पुत्रियां-3	4537, के. जी. बी. का रास्ता, जयपुर फो.न 41433
718	1586	श्रीमती अशफंदिवी दूगड़ पत्नी स्व. श्री भगवानदासजी	प.प्र.	विधवा	61	साक्षर		श्वे.स्था अलवर	बी-222, जनता कॉलोनी, जयपुर, फो.न 44739
719	518	श्री कीर्तिकुमार दूगड़ पुत्र श्री मोहनलालजी 2. तिलक 3. सीमा 4 रजनीकान्त	प प्र पत्नी पुत्री भतीजा	वि. वि. अवि अवि.	47 42 16 24	मैट्रिक वी कॉम.	रत्न व्यवसाय शि बी.ए (प्र व) रत्न व्यवसाय	श्वे.ते फतेहपुर (सीकर)	कागदी भवन, 1909, लड़ीवालो की गली, तेली- पाडा, जयपुर, फो.न. 64869
720	1533	श्री गुमानमल दूगड़ पुत्र श्री पारसमलजी 2. प्रेमलता	प प्र. पत्नी	वि. वि.	31 25	वी कॉम. वी ए	रत्न व्यवसाय	श्वे.म. विजयनगर (अजमेर) पुत्र-1, पुत्री-1	म न 2681, घी वालो का रास्ता, जयपुर फो नं 41998
721	2134	श्री चन्दनमल दूगड़ पुत्र श्री सदासुखजी 2. धनराज 3. रतनदेवी 4. निर्मलकुमार 5. प्रकाशदेवी 6 कुशलचन्द 7 अनीतादेवी	प. प्र पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्रवधू पौत्र पौत्रवधू	विधुर वि वि. वि. वि. वि. वि.	91 63 58 42 37 28 24	मैट्रिक साक्षर बी.एससी मिडिल बी एससी. बी.ए.	व्यापार व्यापार व्यापार व्यापार	श्वे.ते. 4451, के.जी.बी का रास्ता, जयपुर, फो न 40066	लाल कटला, हल्दियो का रास्ता, जयपुर, फो नं.43048

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
722	1655	8 लीनाकुमारी	प्रणीती	धवि	17		शि बी ए (प्र व)	पौत्र 2				
		9 हेमलकुमार	प्रणोद	धवि	14		शि स					
		श्री डालमचंद ब्रूगड	प प्र	वि	50		भडीरल स्टार	प र त	मुन्नामड्ड	बी 23, जनता	बूगड मेडीकल स्टोर,	
		पुत्र श्री जयचंदनालजी								राजामी, जयपुर	चोडा रास्ता	
		2 श्रीदेवी	पत्नी	वि	45					फो र 42970पी पी	जयपुर,	फो र 68566
723	151	3 हेमराज	पुत्र	धवि	21	बी बॉम						
		4 हेमलता	पुत्री	धवि	17		शि गी ए (द्वि व)					
		5 बबीता	पुत्री	धवि	13		शि वक्षा 9					
		श्री ताराचंद ब्रूगड	प प्र	वि	52	मैट्रि		ताली	श्वे स्या		तेरापथी स्कूल के सामने	
		पुत्र श्री चन्दमनजी								एम एम बी हा रास्ता,	जयपुर	
724	2226	2 बिरजूदेवी	पत्नी	वि	45	साधर						
		3 रेखा	पुत्री	धवि	21	मैट्रि						
		4 राजेशकुमार	पुत्र	धवि	19							
		5 धनिलकुमार	पुत्र	धवि	16							
		श्री बुलेशचंद ब्रूगड	प प्र	वि	70			शि बी ताम (द्वि व)				
724A	2531	पुत्र श्री ब्रूनायचंजी					शि हा म					
		2 केमरीसिंह	पुत्र	वि	40	श्री तॉम पुत्राजी बी, एफ सी ए	मीमेट व्यवसाय	श्वे र	फतेहपुर	डी 275, टोडरमत	मुन्नीकुमार एण्ड क	
		3 सम्पत	पुत्रपत्नी	वि	35	मैट्रि				मांग, बनीपान	धार्मिक मार्केट जयपुर,	फो नं 65371
		4 उम्पेदसिंह	पुत्र	वि	36	हा ग	मीमेट व्यवसाय					
		5 जया	पुत्रपत्नी	वि	34							
725	1532	श्री शीतलसिंह ब्रूगड	प प्र	वि	65	गि ए एलएल बी (भारतीय गण)	सेवा निवृत्त					
		पुत्र श्री दुर्लसिंहजी										
		2 रतनकुमारी	पत्नी	वि	60	मैट्रि						
726	2482	श्री नरेन्द्रराज ब्रूगड	प प्र	वि	32	बी ए, सर्टि आईब्ले गार्दम	सहा पुस्तकालयाध्यक्ष	श्वे म	ने-नामिटी (राजौर)	1833, जोबिया का	भा न-वपानिवर	
		पुत्र श्री कल्याणमनजी										
		2 चन्द्रनता	पत्नी	वि	27	स				घोर, धीराबा का	नवेंशरण, (प गे)	हिमागु भवन,
726	2482	श्री निमलकुमार ब्रूगड	प प्र	वि	37	गि बॉम	रल व्यवसाय एम					
		पुत्र श्री रतनपालजी										
		2 नीता	पत्नी	वि	32	बी ए	इलस्ट्रोलेगि					

पौत्र 4 शैलीया 2

पुत्र 2, पुत्री 1

पुत्र 1, पुत्री 1

727	2223	श्री नोरतनमल दूगड़ पुत्र श्री किशनलालजी 2. सूरजदेवी 3. निरजनकुमार	प.प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	40 35 17	बी.कॉम. मैट्रिक	कपडा-चाय व्यापार "	श्वे.ते. पुत्र-1, पुत्री-1	सरदारशहर 16, मालवीया मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर फो न. 67641	श्री एजेन्सीज, 2186, हल्दियो का रास्ता, जयपुर, फो. 45593
728	2227	श्री प्रमोदकुमार दूगड़ पुत्र श्री वच्छराजजी	प प्र.	अवि.	26	बी.कॉम.	फैक्ट्री	श्वे.ते. लाडनू	टोडरमल मार्ग, वनी- पार्क, जयपुर, फो.न 74771	हरबोसाइट इण्डिया लि., 12, भोटवाडा फो.नं 842309
729	241	श्री प्रेमकुमार दूगड़ पुत्र स्व. श्री कस्तूरीलालजी 2. कमलावती 3 सरोज 4 पवनकुमार 5 मधु 6 हर्षकुमार 7. कल्पना 8 सुधीर 9 ऊषा 10 नवनीत 11 अशोककुमार 12 लता	प.प्र. माता पत्नी भ्राता वहिन भ्राता भ्रा वधू भ्राता भ्रा व भ्राता भ्राता भ्रा.व.	वि. विधवा वि. अवि. अवि. वि. वि वि अवि वि वि.	48 63 43 36 31 30 23 29 28 27 37 36	साक्षर मैट्रिक मैट्रिक एम ए., बी.एड. मैट्रिक हा.सै	खेल के सामान का व्यापार वेरोजगार शिक्षक व्यवसाय	श्वे.स्था पजाव	670, आदर्शनगर जयपुर, फो.न. 40136	राज माध्यमिक वि. सेल्स टैक्स विभाग यूनिवर्सल सप्लाय का राज. महा, वाड़मेर
730	379	श्री पूनमचन्द दूगड़ पुत्र स्व. श्री श्रीचन्दजी 2 शायरवाई 3 शान्तिलाल 4. विमलावाई 5. नैना 6. सरोज 7. सीमा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्री पुत्री पुत्री	वि. वि. वि वि अवि. अवि. अवि.	50 48 22 18 19 17 15	व्यापार मिडिल साक्षर मैट्रिक	व्यापार शिक्षक	श्वे.स्था पुत्र-2, पुत्रिया-3	3587, दूगड़ सदन, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर	
731	1479	श्री भीखमचन्द दूगड़ पुत्र स्व श्री खूबचन्दजी 2 विमलादेवी 3. नवरतनमल 4 मरोज	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि. वि वि वि	50 45 22 20	सै. मिडिल बी कॉम. हा.सै.	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे जैन फतेहपुर	2532, घीवालो का रास्ता, जयपुर	विशाल ज्वैलर्स, 2532, घीवालो का रास्ता, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 सुनीन	पुत्र	धवि	20		शि बी कॉम (डि ग)				
		6 इन्द्रा	पुत्री	धवि	17		शि हा म	पुत्र 1			
732	2046	श्री महेश्वरप्रतापसिंह ब्रूगड पुत्र स्व श्री योगनन्दप्रतापसिंह	प प्र	वि	36	बी ए	व्यापार	श्व म	कानकता	1903	पटवा रा रास्ता जयपुर
		2 मन्जुना	पत्नी	वि	33	बी ए		पुत्र 3			
733	462	श्री सोतोलाल ब्रूगड पुत्र श्री जडावचन्दजी	प प्र	वि	52	बी ए बी एड	रत्न व्यवसाय	श्व म	कातरगाथा 4334	7थमनजी	जूही देम्मा, गोवाला का चीन, गोपालजी रा रास्ता जयपुर
		2 विमलमकुमारी	पत्नी	वि	50						
		3 मजु	पुत्री	धवि	20		शि बी ए (डि ग)				
		4 सुवि	पुत्री	धवि	17		शि बी एससी (डि ग)	पुत्री 1			
		5 प्रनीता	पुत्री	धवि	15		शि हा म				
734	449	श्री राजकुमार ब्रूगड पुत्र श्री जीवनमनजी	प प्र	विधुर	55	रघ	घाणु वेदिन श्या निर्माण	श्व म			ततिन फामेनी, नीन हाउम हृदिपका का रास्ता जयपुर
		2 कुमारराज	पुत्र	वि	30	बी कॉम					
		3 उमिना	पुत्रधर्म	वि	27	हा म					
		4 सुनेम	पुत्र	धवि	22						
		5 रजितकुमार	पुत्र	धवि	20						
735	633	श्री राजेश्वर ब्रूगड पुत्र श्री नानचन्दजी	प प्र	वि	35	शैट्रि	श्रीगर्टी डीटर	जन	पराहपुरगेगा 7 द 18,	जवाहर	30, सुलवानी, पो 42633
		2 चन्द्रबला	पत्नी	वि	30	बी ए					
736	72	श्री राजेशचन्द ब्रूगड पुत्र श्री धानदचन्दजी	प प्र	वि	31	बी ए	रत्न व्यवसाय	श्व म	कानकता	ए 166, गीनम	माय, गी मीम, जयपुर
		2 मधु	पत्नी	वि	25	बी ए					
		3 रमेश	भ्राता	वि	38	एम ई					
		4 सुनता	भा वधू	वि	31		नवा (र-जी)				
		5 प्रिया	ननीजी	धवि	13		शि कक्षा 7	पुत्री-1			रमानी इजी, रा जयपुर
		<u>ब्रूगड</u>									
737	2224	श्री लक्ष्मीचन्द ब्रूगड पुत्र श्री सदासुखजी	प प्र		55		कारपेट उद्योग	श्व म	कानकता	ए डी/डी-4, श्रीराज,	बहीगाव, जयपुर, पो नं 79687
		2 विमलचन्द	पुत्र	धवि	23	बी कॉम					

738	74	श्री लालचन्द ढूगड पुत्र श्री इन्दरचन्द जी 2. सुनीताकुमारी 3. रतनद्वीप 4. चंदनवाता	प प्र पुत्री पुत्र पुत्री	अवि. ,, ,,	64 22 20 17	मेट्रिक हा. सै. 17	सेल्गमैन दलाली शि सैक	जैन पुत्र-2, पुत्रियाँ-2	म न. 3831, मोनी- मिह भोमियो का रास्ता, जयपुर, फो.न 42958	लक्ष्मी कलर्स, तिवाडीजी का कारखाना, गणगौरी बाजार, जयपुर, फो नं 66673
739	2225	श्री शांतिलालजी ढूगड पुत्र श्री पदमचन्दजी 2 चैनरूप	प प्र भाई	अवि. अवि.	25 20	वी कॉम 20	कारपेट उद्योग शि वी.कॉम. (द्वि व)	श्वे ते डूंगरगढ	ए डी/डी 4, देवीपथ, वनीपार्क, जयपुर, फो नं 79687	
740	2228	श्री शुभकरण ढूगड पुत्र श्री धर्मचन्दजी 2 प्रेम	प प्र पत्नी	वि. वि.	30 24	वी कॉम मेट्रिक	नौकरी	श्वे ते श्रीडूंगरगढ पुत्री-1	आर-9, युधिष्ठिरमार्ग, डी डी. पोलियर्स, सी-स्कीम, जयपुर	गणगौरी बाजार, जयपुर, फो. 64256
741	902	श्री सुमतिप्रकाश ढूगड पुत्र स्व श्री देवराजजी 2 सत्या 3 मतीशचन्द 4. सुपमा 5. हेम	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्री	वि. वि. वि. अवि	59 58 37 31 19	मेट्रिक मेट्रिक हा सै. वी ए.	व्यापार व्यापार शि. वी.ए. (प्र व)	जैन लाहौर पुत्र-1, पुत्री-1	ए/329, उदयमार्ग (पाकिस्तान) तिलक नगर, राजापार्क गली नं 7, जयपुर	मै स्वास्तिक डिस्ट्री- व्यूटर्स, जयपुर
742	596	डा. सूरजमल ढूगड पुत्र स्व श्री मानमलजी 2. रतन 3. अरुण 4 सुमन	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि ,, ,, अवि	63 59 38 35	एम वी वी एस ,डी टी एम.,डी एम जे. साक्षर एम. ए एम. ए.	सेवा निवृत्त (राजकीय सेवा) आई. पी. एस.	जैन जोधपुर पौत्र-1, पौत्री-1	3-द-15,जवाहर नगर, जयपुर,	एस.पी. अलवर
743	2045	श्री सूरजमल ढूगड पुत्र श्री बलदेवरामजी 2. धरमचन्द	प. प्र भ्राता	अवि वि.	40 36	साक्षर साक्षर	व्यापार लालभवन मे सेवा	श्वे स्था. नागौर	माणकचन्दजी जैन का मकान, अजवधर का रास्ता, जयपुर	
744	1354	श्री श्रीपाल ढूगड पुत्र श्री हंसराजजी 2. सुलक्षण 3. सुपमा	प प्र पत्नी पुत्री	वि. वि अवि	48 44 21	वी ए ,वी टी एम ए वी टी. 21	लेखाधिकारी व्याख्याता (फा.) शि एम वी वी एस	श्वे स्था. भिवानी पुत्र-1	बूलाहाउस, बापूबाजार, जयपुर	
745	2411	हाथीमल ढूगड पुत्र स्व. श्री मोहनलालजी 2. केसरदेवी 3. ताराचन्द	प प्र. पत्नी पुत्र	वि वि. वि.	60 59 42	मिडिल 59 42	व्यवसाय	जैन फतेहपुर	कोठारी भवन, चौडा रास्ता, जयपुर फो. 77870	ढूगड इक्जीमलिकर्स, जोरावर भवन, परतानियो का रास्ता, जयपुर, फो 77896

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	वातिकुमार	पुत्र	वि	35					
	5	सम्पतदेवी	पुत्रवधू	वि	35					
	6	विमलादेवी	पुत्रवधू	वि	30					
	7	नीरजकुमार	पौत्र	श्रवि	16	शि हा स				
		वेसरला, देसडला								
746	538	श्री पूनमचंद वेसरला	प प्र	वि	47	मैट्रि	नपडे वा व्यवसाय	श्वे स्था देवगढ		रूप रोशन एजेसी,
		पुत्र श्री विरदीचंदजी						(उदयपुर)		73, नया कडला
	2	रूपचंद	पत्नी	वि	42	मिडिल				पुरोहित जी, जयपुर
	3	गिनेशचंद	पुत्र	वि	30	बी वाम				फो न 41901
	4	राशन	पुत्रवधू	वि	27	मिडिल				63121
	5	मवरनाल	पुत्र	वि	27	बी वाम				
	6	वमदा	पुत्रवधू	वि	25	मिडिल				
	7	स्नेहलता	पुत्री	श्रवि	19	मैट्रिक				
747	1034	श्री शांतिलाल दसडला	प प्र	वि	43	इंटर	सेवा, प्राशुतिपिक	श्वे स्था अजमेर	4490, के जी बी	शर के जन एण्ड क,
		पुत्र श्री रूपचंदजी							वा रास्ता, जयपुर	चांपावत मार्केट,
	2	चञ्चलदेवी	पत्नी	वि	40					धीवालो वा रास्ता,
	3	राजेन्द्रकुमार	पुत्र	श्रवि	22	एम वाम	शेयर श्रानर			जयपुर
	4	स्नेहलता	पुत्री	श्रवि	20	मैट्रिक				
	5	अजीतकुमार	पुत्र	श्रवि	18		शि बी वाम (प्र व)			
		धांधिया								
748	1766	श्री अमरचंद धांधिया	प प्र	वि	60	इंटर	रत व्यवसाय	जन	के जी बी वा रास्ता,	
		पुत्र श्री महताबचंदजी							जीहरी बाजार, जयपुर,	
	2	चंकरजबाई	माता	वि	85				फो न 43639	
	3	पुष्पादेवी	पत्नी	"	50				45209	
	4	महरचंद	पुत्र	"	48	बी काम,	रत्न व्यवसाय		47648	
						एलएल बी				
	5	राजकुमारी	पुत्रवधू	,	46					
	6	गानचंद	पुत्र	"	46	बी एससी	रत्न व्यवसाय			
	7	मजुकुमारी	पुत्रवधू	"	42					
	8	अजय	पुत्र	"	20	बी काम	रत्न व्यवसाय			
	9	शरित	पौत्र	,	24	,	रत्न व्यवसाय			

पुत्र-2, पुत्रिया-2

पुत्रिया 2

		10. मनोज	„	अवि.	17		शि. बी.कॉम. (द्वि.व)		
		11. सगीता	पौत्री	„	22	बी ए.			
		12. दीपा	पौ. वधू	वि	21				
		13. शशि	पुत्री	अवि.	22	बी.ए			
		14. वीना	„	„	24	एम ए.			
749	2486	श्री कान्तिचन्द धांधिया	प.प्र.	वि.	39	बी ए (प्र.व.)	व्यापार	श्वे ते.	3933, धांधिया हाउस,
		पुत्र श्री मिलापचन्दजी						पुत्र-2	जौहरी बाजार, जयपुर
		2. आभा	पत्नी	वि.	34	„	„		फो.नं. 43439
750	258	श्री कुशलचन्द धांधिया	प प्र.	वि.	60	साक्षर	रत्न दलाली	श्वे म	4448, के.जी.बी
		पुत्र स्व. श्री कमलचन्दजी							का रास्ता, जयपुर
		2. कल्याणीदेवी	माता	विधवा	80	साक्षर			
		3 रतनदेवी	पत्नी	वि.	55	„			
		4. सुरेशचन्द्र	पुत्र	वि	35	बी ए. (द्वि व.)	रत्न दलाली		
		5. सुपमादेवी	पुत्रवधू	वि.	30	हा सै.			
		6. ललितकुमार	पुत्र	अवि.	24	बी ए. (प्र व)	रत्न दलाली		
		7. प्रदीपकुमार	पुत्र	अवि.	21	बी.ए.	„	पुत्र-1, पुत्री-1	
751	216	श्री ताराचन्द धांधिया	प प्र	वि	65	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे मं	2675, वारह गणगौर
		पुत्र श्री केशरीचन्दजी							का रास्ता, जयपुर-3
		2 चन्दनदेवी	पत्नी	वि	63	साक्षर			फो न 65361
		3. चन्द्रप्रकाश	पुत्र	वि	44	बी कॉम	रत्न व्यवसाय		
		4. ओमप्रकाश	पुत्र	वि	38	बी एससी	„		
		5. उर्मिलादेवी	पुत्रवधू	वि.	37	साक्षर			
		6. जतनदेवी	पुत्रवधू	वि	32	मैट्रिक			
		7. पिकी	पौत्री	अवि.	17		शि. कक्षा 10		
		8. मनोज	पौत्र	अवि	14		शि कक्षा 8	पौत्र-2, पौत्री-1	
752	1832	श्री ताराचन्द धांधिया	प.प्र.	वि	49	बी ए ,	रत्न व्यवसाय	जैन	7, कल्याण पथ,
		पुत्र श्री पदमचन्दजी				एल.एलबी			नारायणसिंह मार्ग,
		2. शान्ताकुमारी	पत्नी	वि.	47	मैट्रिक			जयपुर-302004
		3. मधु	पुत्री	अवि	23	बी.ए (ऑनर्स)			फो.न 73955
		4. सुधा	पुत्री	अवि.	21	एम.ए (मनो.)			
		5. आलोक	पुत्र	अवि.	14		शि कक्षा 9	पुत्र-1	
753	1531	श्री निर्मलकुमार धांधिया	प.प्र.	वि	45	मिडिल	रत्न व्यवसाय	जैन	3933, के जी.बी का
		पुत्र श्री मोतीचन्दजी							रास्ता, जौहरी बाजार,
		2. शशि	पुत्री	अवि.	19		शि. बी ए (प्र व)		जयपुर, फो.न 40649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 भजय	पुत्र	भवि	17		शि बी नॉम (प्र व)	पुत्री-1		फोन 40649	
		4 भनीता	पुत्री	भवि	15		,, कक्षा 10				
754	1988	श्री प्रकाशचन्द धोंधिया	प प्र	वि	31	हा स	रत्न व्यवसाय	श्वे म		के बी जी का रास्ता,	
		पुत्र स्व श्री पूनमचन्दजी						म		जोहरी बाजार,	
		2 लक्ष्मीदेवी	माता	विषवा	55					जयपुर	
		3 घरुणा	पत्नी	वि	30	हा सै			पुत्र 1, पुत्रिया 2		
755	2483	श्री प्रकाशचन्द धोंधिया	प प्र	वि	34	मैट्रिक	दत्ताली	श्वे त		3933, धाधिया हाउस,	
		पुत्र श्री मिलापचन्दजी								के जी बी का रास्ता,	
		2 कचनकुमारी	पत्नी	वि	26	हा स			पुत्री 1	जयपुर 3	
										फोन 43439	
756	432	श्री प्रेमचन्द धोंधिया	प प्र	वि	52	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्व म		4, गोविन्दमाम,	जेम्स ट्रेडिंग कार्पो,
		पुत्र स्व श्री गोपीचन्दजी								मोतीदू गरी रोड,	टेडविया बिल्डिंग,
		2 फूलनुमारी	माता	विषवा	70					फोन 65742	जोहरी बाजार,
		3 मुन्नादेवी	पत्नी	वि	50	मिडिल				जयपुर फो 74028	जयपुर फो
		4 विनयचन्द	पुत्र	वि	29	बी नॉम ,एलएल बी	रत्न व्यवसाय			के बी जी का रास्ता,	
		5 नीलू	पुत्रवधू	वि	26	मैट्रिक				जयपुर	
		6 प्रकाशचन्द	पुत्र	वि	27	बी ई	रत्न व्यवसाय			फोन 40123	
		7 बीनादेवी	पुत्रवधू	वि	25	बी ए				51, नपेसो राड,	सुन्दर डायमण्ड्स,
										बम्बई	1307, पचरत्ना
		8 प्रदीपनुमार	पुत्र	वि	25	बी नॉम	रत्न व्यवसाय			फोन 8126249	धोपेरा हाउस, बम्बई
		9 भनीला	पुत्रवधू	वि	23	हा स				जयपुर-सुपर जेम्स	
		10 रेनुकुमारी	पुत्री	भवि	20	बी ए			पुत्र-3	फोन 41071	
757	1986/ 2037	श्री प्रेमचन्द धोंधिया	प प्र	वि	48	बी एससी	धायत निर्यात, विदेश व्यापार	जन		के जी बी का रास्ता,	धाधिया इन्टरनेशनल
		पुत्र स्व. श्री पदमचन्दजी								जोहरी बाजार,	ज्वलस, 2 मण्डीपारी
		2 इन्द्राकुमारी	पत्नी	वि	39	बी ए				जयपुर	जम्स, 3 डायमण्ड इज
		3 राजीव	पुत्र	भवि	20	बी नॉम	विदेश व्यापार			फोन 43480	फोर एवर, जोहरी
		4 सजीव	पुत्र	भवि	17					बाजार, जयपुर	
		5 धरवा	पुत्री	भवि	15		शि बी नॉम (प्र व) शि हा स			पालवा देवी रोड, बम्बई	

758	2484/	श्री मिलापचन्द धाँधिया	प प्र	वि	64	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे. ते.	3933 धाँधिया हाउस,
	2328	पुत्र स्व. श्री मोतीचन्दजी							जौहरी बाजार,
		2 एनी	पत्नी	वि	63	मिडिल			जयपुर
		3 हरीशचन्द	पुत्र	अवि	29	हा सै.	व्यापार		फो.न 41180
759	1767	श्री राजकुमार धाँधिया	प प्र	वि	32	इन्टर	व्यवसाय	श्वे म	डी-22, मोतीडूँगरी,
		पुत्र श्री हीराचन्दजी							रोड, जयपुर
		2. उमरावबाई	माता	विधवा	60				फो. नं 75516
		3 मधुकुमारी	पत्नी	वि.	25				
		4 राजेन्द्रकुमार	भाई	वि	28				
		5 सगीता	आ वधू	वि	22				
760	651	श्री विजयचन्द धाँधिया	प प्र	वि	52	साक्षर	पुडिया-जोवन का व्यवसाय	श्वे.म.	म न 941, मीर
		पुत्र स्व श्री नौरतनमलजी							1889, ऊँचा
		2. राधाबाई	माता	विधवा	82				बक्षी मोहल्ला,
		3 पदमाबाई	पत्नी	वि.	50				कुआँ, हल्दियो
		4. नगीनचन्द	पुत्र	वि.	32	बी एससी	रत्न व्यवसाय		नायबो की हवेली,
		5. आशा	पुत्र वधू	वि	29	मैट्रिक			पानो का दरोबा,
		6. निशा	पुत्री	अवि.	22	एम कॉम	लैक्चरर		जयपुर-3
		7 रिखवचन्द	पुत्र	अवि.	20	मैट्रिक			
761	2485	श्री विजयचंद धाँधिया	प प्र	वि	46	बी.कॉम (प्रोवियस)	दलाली	श्वे ते	3963, धाँधिया
		पुत्र श्री मिलापचन्दजी							हाउस, के जी.बी.
		2. कुसुमकुमारी	पत्नी	वि.	40	मिडिल			का रास्ता, जयपुर-3
		3. रिखवचन्द	पुत्र	अवि.	20	मैट्रिक			फो न 41180
		4. रूपचन्द	पुत्र	अवि.	16				
		5. विवेककुमार	पुत्र	अवि.	13				
762	1781	श्री सुरेशचन्द धाँधिया	प प्र	वि.	47	इन्टर	श. कक्षा 9 श. कक्षा 8 व्यवसाय	श्वे.म	नथमलजी का चौक,
		पुत्र श्री हीराचन्दजी							जौहरी बाजार,
		2. कुसुमकुमारी	पत्नी	वि.	42				जयपुर
		3. शरदकुमार	पुत्र	अवि.	24				फो न.
		4. राजीव	पुत्र	अवि	22				41030
		5. सजय	पुत्र	अवि	20				42176
7631	987	श्री सौभागचन्द धाँधिया	प. प्र	वि.	34	मैट्रिक	रत्न दलाली	जैन	के जी बी का रास्ता
		पुत्र स्व श्री पूनमचन्दजी							जेम्म एण्ड आर्ट,
		2 प्रेमलता	पत्नी	वि.	32	मिडिल			जौहरी बाजार, जयपुर
									एम.आई रोड, जयपुर

पुत्र-1, पुत्री-2

पुत्र-1, पुत्रियाँ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
764	2038	श्री ज्ञानचन्द्र श्री धर्मिया पुत्र स्व श्री पदमचन्द्र जी 2 छायादेवी 3 विवास <u>धार्कड</u>	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि भवि	37 35 15	श्री श्री श्री ए श्री ए	व्यवसाय शिक्षा 9	जा पुत्र 1		3933, धर्मिया हाउस, ब जी बी रा रास्ता, जीहरी बाजार जयपुर फो न 43480	
765	1547	श्री प्रसन्नचन्द्र धार्कड पुत्र श्री तेजमनजी 2 उषा 3 रक्षा 4 शरत	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र	वि वि भवि भवि	45 40 18 16	श्री श्री श्री ए श्री ए	उद्योग शिक्षा 10	श्री स्था रामपुरा (म प्र)		श्री 81 पृथ्वीराज माग, राजस्थान उद्योग, 'मी' स्कीम, जयपुर (स्टील डिवीजन) फो न -67601 21, मुद्दभन पुरा श्री श्रीमिन दीन जयपुर फो न 67473	
766	676	श्री भोभालाल धार्कड पुत्र श्री नैसरीमलजी 2 ज्ञानवता 3 रणुवा 4 देवा <u>धारीवाल धाडीवाल</u>	प प्र परि पुत्री पुत्री	वि वि भवि भवि	45 40 18 17	श्री श्री एम ए श्री गड गनगन श्री	व्यवसाय व्यापार	श्री स्था बडी गाडी		55, हाथीबावू का बाग, गोविन्दगढ़ी व नामो, रान्नि नगर जयपुर फो न 67204	
767	854	श्री अजीतसिंह धारीवाल पुत्र श्री फतहमलजी 2 कचाराणा 3 भाभा 4 ज्याति 5 देवेन्द्र	प प्र पुत्रपु पुत्री पुत्री पुत्री	वि विभव भवि भवि भवि	76 42 20 19 13	मडिन मडिन श्री ए (धानम) श्री ए (धानम)	व्यवसाय शिक्षा 7	श्री स्था भोववाडा		डी 66, मे-टन हॉस्पिटल रोड, भादानी नगर, जयपुर फो नं 67200	
768	240	श्री कुमालचन्द्र धारीवाल पुत्र स्व श्री हरीशचन्द्रजी 2 सत्यावति 3 वमल 4 मधु	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रपु	वि वि वि वि	63 58 32 28	मैडिन श्री ई (मिन) श्री एन लक्ष्मी	शिक्षा प्राप्त व्यवसाय (गैस एजेंसी) व्यवसाय	श्री स्था चत्रमेर		श्री-208, जगत राजोरी जयपुर फो नं 42973	श्री श्री के एजेसी, 6, तारायणसिंह रोड, जयपुर
769	2330	श्री चदिमल धारीवाल पुत्र श्री हीराचन्द्रजी 2 चन्द्रप्रसाददेवी 3 राज र	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि वि	60 55	माशर	व्यवसाय व्यवसाय	श्री स्था पुत्रिया-2		3672, ताणीशाना गा मदवाजा, मिलापच जै न का मकान, एम एम	

770	1107	श्रीमती जतन धारीवाल पत्नी स्व. श्रीकालूरामजी	प प्र	विधवा	69	साक्षर		श्वे. स्था.	द्वारा/राधेश्याम चौधरी हाउस, वारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
771	2329	श्री तेजसिंह धारीवाल पुत्र श्री चादमलजी 2. सतीषदेवी	प. प्र	वि.	30	मिडिल	व्यवसाय	श्वे ते.	3672, तारणीवालो का दरवाजा, मिलापचंद जैन का मकान, एम. एस वी. का रास्ता, जयपुर
772	2082	श्री प्रसन्नचन्द धारीवाल पुत्र श्री मुकुन्दमलजी 2. मोहनकुमारी 3 शीतलचन्द्र 4. सुपमा 5 डॉ अक्षयचन्द्र 6. शरदचन्द्र 7 कमलचन्द्र	प. प्र	विधुर	75		सेवा निवृत्त	श्वे. म	अजमेर ए-109, जनता कॉलोनी, जयपुर. फो न 41478 पी.पी.
			पुत्रवधू	विधवा	51	मैट्रिक			
			पौत्र	वि.	31	बी एससी.	रत्न व्यवसाय		
			पौत्रवधू	वि.	28	एम ए.			
			पौत्र	अवि	28	एम डी.			
			"	"	20				
			"	"	18				
773	1407	श्री सांगीलाल धारीवाल पुत्र श्री नथमलजी 2 कमलादेवी 3 अशोककुमार 4. मधुवाला 5 बसन्तकुमार 6. प्रतिभा 7. विनोदकुमार 8 अरविन्दकुमारकर्णावट 9. सुनीता 10. विजयकुमार वोरदिया	प.प्र	वि.	51	मिडिल		श्वे.म	रतलाम (म. प्र.) 3733-ए, नाहरगढ़ रोड, जयपुर, फो.न. 60529
			पत्नी	वि.	45				
			पुत्र	वि	28	एम.कॉम.	उद्योग		
			पुत्रवधू	वि.	28	बी ए (प्र.व)			
			पुत्र	वि	25	बी कॉम. (प्र.व.)	दलाली का घधा		
			पुत्रवधू	वि.	22	बी एससी.			
			पुत्र	अवि.	21				
			भानजा	अवि.	23	एम. कॉम.			
			पुत्री	अवि.	15				
			भाई	अवि	18	हा.सै.			
774	2450	श्री सूरजमल धारीवाल पुत्र स्व. श्री तेजमलजी 2. ज्ञानचन्द्र 3. विद्यादेवी 4 विजयकुमार 5 अजयकुमार	प. प्र.	वि	73			श्वे म	स्वालयर द्वारा, माणकचन्दजी अजमेरा, चौदियो का चौक, बनजी ठोलिया की धर्मशाला के पीछे, धी वालो का रास्ता, जयपुर-3
			पुत्र	वि.	30	बी ए	रत्न व्यवसाय		
			पुत्रवधू	वि	26	मैट्रिक			
			पुत्र	अवि	23	मिडिल	दलाली		
			पुत्र	अवि	21	मैट्रिक	सर्विस		

पुत्र-2, पुत्रियाँ-2

पुत्र-2

पुत्री-1

पुत्र-1, पुत्रियाँ-2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	धीम										
775	631	श्री भसोबकुमार धीम पुत्र श्री मांमोलालजी	प प्र	श्रवि	22	एम बॉम	जूनियर एकाउन्टेन्ट	जंत	बानोड	7 त 23, जवाहर नगर जयपुर फो न 43879	पोस्टल प्रवाउटस, जयपुर
	धूपिया, धूप्या										
776	473	श्री भसोबकुमार धूपिया पुत्र श्री मवरलालजी 2 जयरानी	प प्र	वि	34	बी ए	रत्न ध्यवसाय	श्वे रथा	रायपुर (भालावाड)	3606, टाला वा मोहलवा, के जी बी रा रास्ता, जयपुर	1283, भ्राजुज जेम्स, नो बालो का चौक गोपालजी वा रास्ता, जयपुर 3
			पत्नी	वि	30	मैट्रिक			पुत्र-2		
777	1430	श्री उज्जवलकुमार धूप्या पुत्र श्री जीवन्सिंहजी 2 विमलादेवी 3 चन्द्रसिंह हीमड	प प्र	रि	30	हा स	नेल्स एग्जीक्यूटिव	श्वे त	भाण्डलमड (भीलवाडा)	पी एन 4 11 मारी नाले व पास, थियरी गमर ब्रह्मपुरी गगपुर	
			पत्नी	वि	27	बी ए			पुत्र 1, पुत्रिया-2		
				श्रवि	22		गि बी एमजी				
778	647	श्रीमती भवरदेवी धूपिया पत्नि स्व श्री प्रेमचन्दाजी 2 राजगुमार 3 चचनदेवी 4 श्चु	प प्र	विषया	70			श्वे रथा		म त 4794, के जी बी वा रास्ता, जयपुर-302003 फोन 43021	
			पुत्र	वि	35	हा स	रत्न दलानी				
			पुत्रवत्	वि	33	हा स			पुत्र-1		
			पौत्री	श्रवि	15		शिक्षा बहा 9				
779	2081	श्री भवरलाल धूपिया पुत्र स्व श्री नेमीचन्दाजी 2 रमला	प प्र	वि	30	बी एमसी	बन नेवा	श्वे म	वाडेडा (ब्रजमेर)	2005, मेजडा का रास्ता, वॉ-पो न बाजार जयपुर	भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर, फो त 78661
			पत्नी	वि	26	हा स			पुत्रिया 2		
780	2468	श्री राजेन्द्रकुमार धूपिया पुत्र श्री सुभाषचन्दाजी 2 श्यामा	प प्र	वि	28	ग स	ध्यवसाय	श्वे रथा	रायपुर		
			पत्नी	वि	24	मैट्रिक			पुत्र-3		
781	1993	श्री रोशनलाल धूप्या पुत्र श्री दलपतसिंहजी 2 बमलादेवी 3 लोबणकुमार	प प्र	वि	49	एम ए	मनशन दबांग	श्वे म	उन्मपुर	म न सी 9, नेताजी सुभाष बॉलोनी, टॉक काटक, जयपुर फो न 76629	नेतान पो नो टेकरिन जयपुर
			पत्नि	वि	40	मिडिन					
			पुत्र	श्रवि	16		गि हा त				

782	1429	4 सरोजकुमारी 5. ज्योति श्री सुधीर कुमार धूप्या पुत्र श्री सम्पतसिंहजी 2. प्रद्युम्नकुमार	पुत्री पुत्री प.प्र. भ्राता	अवि अवि. अवि अवि.	18 14 21 16	वी कांम.	शि. हा सं शि सं. वेरोजगार शि सं	पुत्र-1	श्वे स्था माण्डलगढ प्लाट नं 7, 11 मोरी (भीलवाडा) नाला के पास, शिवाजी नगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर-2
धोका									
783	1914	डॉ. एल. सी. धोका पुत्र श्री जसराजजी 2. श्रीमती विद्या	प प्र पत्नी	वि. वि.	30 26	एम बी.वी एस., एम डी. वी.एससी. एम. ए एम. फिल	प्राईवेट प्रेक्टिस लेक्चरर	श्वे.स्था. पालीमारवाड ए-21, जमना नगर, सोढाला, अजमेर रोड	राज. विश्वविद्यालय, जयपुर
नवलखा									
784	2250	श्री अभयराज नवलखा पुत्र श्री ज्ञानचन्दजी	प प्र		40		व्यापार	श्वे ते श्रीडू गरगढ बी-208, जनता कालोनी, जयपुर	अमर ड्रेसेज, 38,शाँपिंग सेन्टर, जवाहर नगर, जयपुर
785	2251	श्री अमरचन्द नवलखा पुत्र श्री ज्ञानचन्दजी 2. सवरलाल	प प्र. भ्राता	अवि अवि	22 19	वी.कांम	व्यापार	श्वे ते. बी-210, जनता कोलोनी, जयपुर	अमर ड्रेसेज, जवाहर नगर, जयपुर
786	2302	डा. आर. एल. नवलखा पुत्र श्री चौथमलजी 2. चन्दनदेवी	भ्राता प प्र पत्नी	अवि वि वि.	35 32	एम कांम., पीएच डी एम.ए., एम कांम.	शि. बी कांम. (अ व) व्याख्याता व्याख्याता	श्वे ते डौलगढ ए-ब-19, मधुवन काँलोनी, टोक फाटक, जयपुर	एस.एस जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर
787	527	श्री केसरीचन्द नवलखा पुत्र श्री स्वरूपचन्दजी 2. श्रीमती केसरीचद 3. डा. राजकुमार 4. गुणमाला 5 सुरेन्द्रकुमार 6. सुजाता 7 सुशीलकुमार 8. अर्चना 9 पिंकीबाला 10 ईशू	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्री पौत्र	वि. वि. वि वि वि वि वि. अवि. अवि.	60 58 37 33 35 30 31 25 21 14	मैट्रिक शिक्षित एम एस एम.वीएच. एम ए. इन्टर " " मैट्रिक एम ए.	व्याख्याता रत्न व्यवसाय चिकित्सक लेक्चरर रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय शिक्षक शि. सं.	पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	श्वे स्था 4, नारूपथ, नारायण सिंह मार्ग, जयपुर फो. न 74981 नवलखा जैम्स, पर- तानियो का मन्दिर, जौहरी बाजार, जयपुर, फो न. 74981

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11 मा	पीन	प्रवि	14		शि स				
		12 कोरसुव	पीन	प्रवि	13		शि मिडिन				
788	1163	श्री गुलाबचंद नवलखा पुत्र स्व श्री स्वरूपचंदजी	प प्र	वि	69	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या			वाला का माहला, के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर
		2 सतीपदेवी	पत्नी	वि	66						
		3 नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	32	डॉक्टर	परमान का नाम				
		4 राजकुमारी	पुत्रवधू	वि	27	हास					
789	1117	श्री ताराचंद नवलखा पुत्र स्व श्री जतनमलजी	प प्र	वि	58	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे स्या			वाला का मोहला, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 42317, 69662
		2 जतननवर	पत्नी	,	51	मैट्रिक					
		3 प्रभोवनुमार	पुत्र	,	29	बी एससी, एलएल बी	व्यवसाय				
		4 प्रनिलकुमार	,	,	27	एम कॉम, एलएल बी	व्यवसाय				
		5 प्रजयकुमार		प्रवि	25	बी काम	व्यवसाय				
		6 चंद्रलता	पुत्रवधू	वि	25	बी ए					
		7 कुमुम	"	"	24	बी ए					
790	177/ 1718	श्री धनराज नवलखा पुत्र स्व श्री रतनचंदजी	प प्र	वि	63	साक्षर	रत्न मजूरी	श्वे स्या			प्लाट न 202 बी, नरमीणारायणपुरी, मूरजपोल, जयपुर 3
		2 सुशीलादेवी	पत्नी	वि	58	साक्षर					
		3 राजेन्द्रकुमार	पुत्र	प्रवि	23	मिडिल	नौकरी, रत्न व्यवसाय				
791	189	श्री निर्मलकुमार नवलखा पुत्र स्व श्री रत्नारमलजी	प प्र	वि	40	डॉक्टर	रत्न व्यवसाय	जन			पट्टोल पम्प के मामले गाल कोठी, टाक रोड, जयपुर 15 फोन 65342
		2 गंगादेवी	माता	विपवा	60						
		3 गजुलता	पत्नी	वि	37						
		4 सुभाषचंद	भ्राता	"	35		रत्न व्यवसाय				
		5 शक्ति	भ्रा व	"	32						
		6 विवेक	पुत्र	प्रवि	16		शि स				
		7 रितु	पुत्री	"	13		शि स				
792	1209	श्री परमेश्वर नवलखा पुत्र स्व श्री रतनचंदजी	प प्र	वि	70	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या			वाला का मोहला, जोहरीबाजार, जयपुर, फोन 42912
		2 किरणुदेवी	पत्नी	,	64	साक्षर		नर			गंगावती का मंदिर, जोहरी बाजार जयपुर

		3. गणना	पुन	36	सी एमि	रत्न व्यवसाय	पुन-1 पुनियों-2		पानूरुं टाउन, मन्थर ट्रेडिंग, चोडा रास्ता, जयपुर	
		4. मुजीताकुमारी	पुन मधु	30	मेट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		5. पुन-नन्द	पुन	34	„	रत्न व्यवसाय				
		6. पुनमाता	पुनमधु	28	मेट्रिक					
		7. गजेन्द्रकुमार	पुन	26	मेट्रिक					
		8. सरोज	पुनमधु	25	मेट्रिक					
793	1230	श्री. पन्नालाल नवलराज पुन स्व श्री स्वरूपचन्द्रजी	प. प्र. वि.	46	एम. बी. बी. एस. एम डी ,एफ आर्ट. सी. आर	कंसर स्पेशियलिस्ट सीनियर प्रोफेसर		उच्चे. स्था	बी-4, मेडिकल कॉलेज कैम्पस, जयपुर, फो. न. 65655	एम एम एस हॉस्पिटल, जयपुर
		2. मुजीतादेवी	पत्नी वि.	41	सीनियर कैम्ब्रिज					
		3. राजेश	पुन अवि.	22	बी ए ,एम एम.एन	शि.मैनेजमेन्ट एण्ड रिमर्च				
		4. सनुराधा	पुत्री अवि	21		शि एम ए (अ व)				
		5. विजयी	पुत्री अवि	17		शि. बी.ए (प्र.व.)				
794	477	श्री महादेवचन्द्र नवलराज 2. सञ्जनदेवी 3. प्रकृष्ट 4. रत्ना 5. मनिष 6. गीति 7. पञ्चक 8. गुण	प प्र. वि. पत्नी वि. पुन वि. पुनमधु वि. पुन वि. पुनमधु वि. पुन वि. पुनमधु वि.	55 47 29 25 26 24 25 23	मेट्रिक मेट्रिक मेट्रिक मेट्रिक मेट्रिक मेट्रिक मेट्रिक	व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय	उच्चे. स्था	कालो का मोहल्ला के जी बी. का रास्ता जयपुर,	तारघर, न्यू मार्केट, जौहरी बाजार, जयपुर	
795	819	श्री मितापचन्द्र नवलराज पुन स्व श्री रूपचन्द्रजी 2. हान्तीचन्द 3. पुष्पादेवी 4. देवा	प प वि. पुन वि. पुनमधु वि. पुत्री अवि.	68 34 33 13	मेट्रिक „ „ शि कक्षा 7	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	उच्चे. स्था.	के जी बी. का रास्ता, जयपुर. फो.न 41390	जौहरी बाजार, चापावतों का मन्दिर, जयपुर	
796	831	श्री मोहनलाल नवलराज पुन स्व श्री जतनमलजी 2. मोहनचन्द 3. प्रमोदचन्द 4. विमलाचन्द 5. प्रमोदचन्द	प प. वि. पत्नी वि. पुन वि. पुनमधु वि. पुन वि.	62 60 43 37 41	शिक्षित शिक्षित	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	उच्चे. स्था	3739, कालो का मोहल्ला, जौहरी बाजार, जयपुर, फो न 43095, 41748	जतनमल मोहनलाल, कालो का मोहल्ला, जयपुर, फो. न 43369	

पुन-3, पुत्री-1

पुन-1, पुनियों-3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	राजकुमारी	पुत्रवधू	वि	38					
		7	सपना	पौत्री	प्रवि	19		शि बी ए (प्र व)			
		8	राजेश	पौत्र	प्रवि	16		शि बी ए (प्र व)			
		9	सजय	पौत्र	प्रवि	17		शि बी ए (प्र व)			
		10	नल्पना	पौत्री	प्रवि	19		शि बी ए (द्वि व)			
		11	सदीप	पौत्र	प्रवि	15		शि वधा 8			
797	1232	श्री सुरजमल नवलला पुत्र स्व श्री जतनमलजी	प प्र	वि	58	मैट्रिक	व्यवसाय	प्रव स्या		3708, के जी वी का रास्ता, बाली ना मोहल्ला, जयपुर, जयपुर 42805 फोन 45162, 40413	
		2	प्रेमबाई	पत्नी	वि	55	साधर				
		3	कुशलचन्द	पुत्र	वि	39	बी ए	रत्न व्यवसाय			
		4	चन्द्रा	पुत्रवधू	वि	37	बी ए				
		5	बमलचन्द	पुत्र	प्रवि	24	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		6	प्रमित	पौत्र	प्रवि	17		शि हास			
		7	समील	पौत्र	प्रवि	15		शि वधा 9			
798	2173	श्री धीपाल नवलला पुत्र स्व श्री सतराम	प प्र	वि	55	एम ए, एलएल बी प्रभाकर	प्राचाय	श्वे म पजाब		229, हिम्मतनगर, टीक रोड, जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड,
		2	प्रियतारानी	पत्नी	वि	52	मैट्रिक				
		3	रविन्द्रकुमार	पुत्र	वि	31	बी एससी	लबाकार			महालेलाकार
		4	नरेशकुमार	पुत्र	वि	30	एम ए	सेलापरीक्षक			कार्यालय, जयपुर
		5	प्रनिता	पुत्रवधू	वि	29	मैट्रिक				
		6	स्नेहलता	पुत्रवधू	वि	28	एम ए				
		नलबाया									
799	688	श्री उजयलाल नलबाया पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	56	एम ए	सेवानिवृत्त	श्वे जन कानौड		सी 48, बजाजनगर, जयपुर फोन 63289	
		2	उमादेवी	पत्नी	वि	50					
		3	डा राजद्रकुमार	पुत्र	"	27	एम पी बी एस	चिविस्सक			
		4	सरोज	पुत्रवधू	"	23	बी ए				
		5	प्रनिलकुमार	पुत्र	प्रवि	25					
		6	प्रनिता	पुत्री	प्रवि	22		शि बी ए (द्वि व)			
800	1049	श्री नरेन्द्रसिंह नलबाया पुत्र स्व श्री मनोहरलालजी	प प्र	वि	42	बी ए	भारतीय वायुसेना म सेक्टर	श्वे स्या उदयपुर		पी 7, मधुवन, टाक रोड, जयपुर	प्रिडियन एयरलाइन्स, जयपुर

		2. सन्तोष	पत्नी	वि.	40	मिडिल						
		3. दुर्गेश	पुत्र	अवि.	17			शि. हा.सै.				
		4 ममता	पुत्री	अवि.	16			" "				
801	336/845	श्री पारसमल नलवाया	प.प्र.	वि.	35	मैट्रिक		सर्विस		पुत्री-1	श्वे.जैन व्यावर	फो.नं. 72940, 74500
		पुत्र श्री हीरालालजी										
		2. वसतीबाई	माता	विधवा	62							
		3 कचनदेवी	पत्नी	वि	30	मिडिल				पुत्र-1	लाल हाथियों के मंदिर के पास, नाहरगढरोड़, जयपुर	दामोदरलाल माधो- पुरिया सर्राफ, माणक चौक, जयपुर, फो.नं 41632पी.पी.
नागदौन												
802	1474	श्री पूरनचन्द नागदौन	प प्र	वि	48	मैट्रिक					श्वे.जैन	म.न 899, नानाजी नगर परिपद, जयपुर
		पुत्र श्री मोतीलालजी						कर्मचारी				
		2 शिमलादेवी	पत्नी	वि	43							
		3. अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	25	एम कॉम		लेखाकार				
		4. मधु	पुत्री	अवि.	22	बी.ए.						रा. पुल निगम, जयपुर
		5. वन्दना	पुत्री	अवि.	21			शि बी.ए.				
		6 भावना	पुत्री	अवि	19			शि. बी.कॉम.				
नागोता												
	793	श्री उमरवासिह नागोता	प प्र		33	बी.एससी.		रत्न व्यवसाय			निम्वाहेडा	म.न 560, गोपालजी का रास्ता, जयपुर-3
		पुत्र श्री मेहरीलातजी										
		नागौरी										
804	1171	श्री ख्यालीलाल नागौरी	प प्र.	वि	55	इन्टर		सर्विस			श्वे.स्था. भीलवाडा	12-क-9, ज्योतिनगर जयपुर
		पुत्र स्व. श्री भखतावरमलजी						सीनियर ए.ओ.				
		2 मानकवर	पत्नी	वि	46	साक्षर						
		3. सुरेश	पुत्र	अवि.	21			शि बी कॉम. (फा.)				
		4. विनोद	पुत्र	अवि.	19			शि. बी कॉम. (द्वि व.)				
		5. सुनील	पुत्र	अवि	17			" " (प्र.व.)				
805	1500	श्री धनरूपमल नागौरी	प.प्र	वि	63	एम.ए., बी एड		सेवानिवृत्त			श्वे.म. छोटी सादडी	पोस्ट ऑफिस के बगल की गली, हल्दियों का रास्ता, जयपुर-3
		पुन श्री नाथूलालजी						साहित्यरत्न, विशारद, न्याय मध्यमा				
		2 कचनबाई	पत्नी	वि	58	शिक्षित						
		3. कनकमल	पुत्र	वि.	41	मैट्रिक		रत्न व्यवसाय				
		4. कुशलबाई	पुत्रवधू	वि.	37	मिडिल						
		5. सुनीलकुमार	पुत्र	अवि.	16			शि. हा.सै.				
										पुत्र-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

नानेचा

806	395	श्री सुरेशसिंह नाणेचा पुत्र श्री भोपालसिंहजी	प प्र	वि	39	मैट्रिग	प्राइडिंग ट्रान्सेक्टर	श्व स्था	भांडलगाड	म न 6, ग्यारह भोरी नाले के पास, नोगह मंदिर के नीचे, शिवाजी नगर ब्रह्मपुरी, जयपुर	नशातन इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर
		2 भोपालसिंह		वि	70						
		3 भवरबाई		वि	65						
		4 रोशादेवी		वि	35						
		5 शशी		प्रवि	16	मिडिल					
		6 रजना		प्रवि	15			शि न			
		7 पुष्पेद्र		प्रवि	13			शि वस्ता 7			

नाहटा

807	2473	श्री प्रभयसिंह नाहटा पुत्र स्व श्री जवाहरलालजी	प प्र	वि	57	बी ए एनएनबी	विद्युत सप्लय मशीनरी श्वे म एन उपकरणा सप्लायस			657, धाचाय हृप लानी माग, धादग नगर, जयपुर 4	वेतार भवन, एम धाई रोड, जयपुर
		2 गुभाजुमारी		वि	54	मैट्रिग					
		3 प्रवीणकुमार		प्रवि	28	एम टॉम एनएलबी	एक्जीक्यूटिव प्रवि			फोन 40143	मार्केटिंग एण्ड फार्म- नेटिवल व सलटट, अपोलो टायर लि, जयपुर
		4 यशना		प्रवि	21	बी ए, एम बी ए	मार्केटिंग व सलटट शि बी टॉम (ट्रि व)				
		5 हेमंत		प्रवि	19						
809	1823	श्री प्रोमप्रकाश जन पुत्र श्री तेजपालजी	प प्र	वि	40	बी टॉम	रतल ध्ययमाय	श्वे म		810, आदजनगर, जयपुर	निशोरीलावा जाट एण्ड ब्रदम, गोपालजी का रास्ता, जयपुर, फोन 65856
		2 शशी		वि	32	बी ए					
		3 विपिन		प्रवि	13		शि वक्षा 8				
809	2248	श्री कमलसिंह नाहटा पुत्र स्व श्री रूपचन्द्रजी	प प्र	वि	27	मैट्रिग	पट्टोल पम्प	श्व ते	कालू	ए 100, जनता वालोनी जयपुर, फोन 41988	नाहटा पेंड्राज पम्प, द्रामपोट नगर जयपुर
		2 रजना		वि	25						
810	1833	श्री करनोदान नाहटा पुत्र श्री महालक्ष्मणजी	प प्र	विधुर	61		मेवा निवृत्त	श्वे ते	लावनू	23, चेतव माग, भोवीडू गरी रोड, जयपुर, फोन 74556	राज् पतर इन्स्टीट्यूट भागभा मार्ग, एम डी रोड, जयपुर, फोन 69179
		2 कमलसिंह		वि	36	बी टॉम					
		3 उषा		वि	34		रग निर्माता				
		4 भाज		प्रवि	16		शि बी टॉम (प्र व)				

पुत्री 1

पुत्री 1

पुत्र 1, पुत्री 1

811	2249	श्री दीपचन्द नाहटा पुत्र श्री कुन्दनमलजी	प प्र	वि.	55		उद्योग	श्वे ते	सरदारशहर	सी-36, लाजपत मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर, फो.न. 62317
		2 मोहनीदेवी	पत्नी	वि	50					
		3 अजय	पुत्र	वि	30		उद्योग			
812	2320	श्री नौरतन नाहटा पुत्र श्री भवरलालजी	प प्र	वि	30	बी.कॉम , एलएल.बी	सर्विस	श्वे ते		पोरवाल सदन, मिनर्वा रोड़, जयपुर
		2 शीला	पत्नी	वि	26	एम ए				
813	514	श्री पारसचन्द नाहटा पुत्र स्व. श्री पन्नालालजी	प प्र.	वि.	46	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे म.		कल्याण पथ 3947, एम.एस बी. नारायणसिंह रोड, का रास्ता, जौहरी पुलिस मेमोरियल, बाजार, जयपुर, जयपुर, फो न. 42811
		2 लादीवाई	माता	विधवा	70					
		3 पुखराजदेवी	पत्नी	वि.	40	साक्षर				
		4 प्रकाशचन्द	भ्राता	वि.	28	बी कॉम., सी.ए	प्रेक्टिस			
		5. सुपमा	भ्रा व	वि	25	एम ए.				
		6 बीना	पुत्री	अवि.	20	मैट्रिक				
		7 सगीता	पुत्री	अवि.	18	मैट्रिक				
		8 रेखा	पुत्री	अवि.	15		शि कक्षा 8			
		9. विमल	पुत्र	अवि	15		शि कक्षा 8			
814	2140	श्री पृथ्वीराज नाहटा पुत्र श्री मालचन्दजी	प प्र	वि.	56	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.ते	लाडनू'	के-7, मालवीय मार्ग, 201, हल्दियो का 'सी' स्कीम, जयपुर, रास्ता, जौहरी फो न 61219, बाजार, जयपुर 68329 फो न 44613
		2. मनोहरदेवी	पत्नी	वि	54	साक्षर				
		3 जसवन्तराज	पुत्र	वि.	37	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय			
		4 मानराज	पुत्र	वि	32	बी कॉम				
		5. निर्मल	पुत्र	अवि.	26	बी एससी				
		6 राजकुमार	पुत्र	अवि.	23	बी कॉम				
		7. ललित	पुत्र	अवि.	21	बी.कॉम.				
		8 पवन	पुत्र	अवि.	19		शि.बी.कॉम.(तृ.व.)			
		9 सरोज	पुत्रवधू	वि.	28	मिडिल				
		10. विमला	पुत्रवधू	वि.	24	बी.ए				
815	1824	श्री यशपाल नाहटा पुत्र श्री किशोरीलालजी	प प्र	वि.	29	बी.कॉम, एलएल बी	रत्न व्यवसाय	श्वे मं		म.न. 486, आदर्श, किशोरीलाल जैन नगर, बीस दुकान के एण्ड ब्रदर्स, गोपालजी पास, जयपुर का रास्ता जयपुर, फो न. 49193
		2 चम्पावती	माता	विधवा	55	साक्षर				
		3 मधु	पत्नी	वि.	26	एम ए.				
		4 मगीता	पुत्री	अवि	21	एम.ए.				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816	2247	श्री सुभकररा नाहटा पुत्र श्री रूपचंदजी 2 चौथोदेवी 3 शमिलादेवी 4 नमलगिहू 5 रजनादेवी	प प्र वि माता वि पत्नी वि भ्राता वि भ्रा बंधू वि	वि वि वि वि वि	32 65 25 28 22	एम एससी बी ए बी ए	पट्टोल पम्प पट्टोल पम्प	श्व ते बालू (बीनातेर)	बो 41, सठी बालोनी, फो न 44339	नाहटा पट्टीपयूल सप्लाई क, ट्रासपोट रवर, जयपुर,	
817	1951	श्री सुभाषचंद नाहटा पुत्र स्व श्री तेजभानजी 2 मेवाबाई 3 प्राणीबाई 4 पुष्पलता 5 प्रदीपकुमार 6 रेणु 7 राजेश 8 सुधीर	प प्र वि माता विषया वहिन विषया पत्नी वि पुत्र वि पुत्रबंधू वि पुत्र भवि पुत्र भवि	वि विषया विषया वि वि वि वि वि वि	52 70 60 45 30 29 22 18	बी ए मैट्रिक बी कॉम बी ए	रतन व्यवसाय रतन व्यवसाय	श्वे म श्वे म	810, अशाप चौक, आदशनगर, जयपुर	मैसस किशोरीनाल जैन एण्ड ब्रदर्स गोपाल जी का रास्ता, जयपुर फो न 49169	
818	1517	श्री सुरेशकुमार जैन पुत्र श्री धमचंदजी 2 चंद्रवती 3 विनीता 4 विनोदकुमार 5 प्रेमलता 6 अनिलकुमार 7 घनीता	प प्र वि माता विषया पत्नी वि भ्राता वि भ्रा बंधू वि भ्राता भवि वहिन भवि	वि विषया वि वि वि वि वि वि	32 52 28 30 26 22 20	बी एससी साक्षर बी ए, बी एड बी एससी, एलएल बी बी ए बी ए	रतन व्यवसाय रतन व्यवसाय	श्वे म श्वे म	486 ए, आदशनगर, बीम दुकान के पास, जयपुर 4	धमचंद एण्ड स स, सो बालो का चौक, गोपालजी का रास्ता, जयपुर-3 फो न 46971	
819	1893	श्री सुरेशचंद नाहटा पुत्र श्री चेतनामजी 2 आशा 3 मनीष नाहर	प प्र वि पत्नी वि पुत्र भवि	वि वि वि	41 37 13	बी कॉम जी ए	रतन व्यवसाय रतन व्यवसाय	जन डेरामाजी खान	वाजीजी का चौराहा, जड़ियो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फो न 49057		
820	958	श्री धर्मयकुमार नाहर पुत्र स्व श्री रतननाथजी	प प्र वि	वि	32	बी बीएम	लिपिक	श्वे म	35, बसुघरा कॉलोनी रामजी	एस एस जन सुबोध कालेज, जयपुर	

पुत्र 2

पौत्र 1, पौत्री-1

पुत्र 2 पुत्री 1

पुत्र-2, पुत्री-1

821	2487	2. कमला बाई 3 मञ्जनदेवी 4. सुशील श्री अमरचन्द नाहर पुत्र श्री मागीलालजी	माता विधवा पत्नी वि भ्राता अवि. प प्र. वि	52 30 मिडिल 18 40 मैट्रिक	शि. बी.ए (प्र.व.) व्यवसाय	पुत्र-2, पुत्री-1 श्वे स्था. कुचेरा (नागौर)	काक का बाग, टोक फो. न 72989 रोड़, जयपुर कोडीवाल भवन, नाई की गली, धी वालो का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर	
822	116	2. उच्छवदेवी 3 लीला 4. राकेशकुमार 5. रीटा श्री उमरावासिंह नाहर पुत्र स्व. श्री नारायणजी	पत्नी वि पुत्री अवि. पुत्र अवि. पुत्री अवि. प. प्र. वि.	37 शिक्षित 19 16 14 48 मैट्रिक	शि. सं. शि हा सं. शि कक्षा 7 नौकरी	पुत्र-2, पुत्री-1 श्वे स्था नरायना (साभर)	यादवभवन, तेलीपाडा, पायिनियर बुड प्रोडक्ट्स चौडारास्ता, जयपुर-3 प्रा. लि., माकुम फो नं 63770 पठार, पो. ओ. मारगेरिटा (आमाम)	
823	445	2. जमचन्द्रदेवी 3. कमलचन्द 4. पूनम 5. हीराचन्द श्री किस्तूरचन्द नाहर पुत्र श्री जगन्नाथजी	पत्नी वि. भाई अवि पुत्री अवि. पुत्र अवि प प्र वि	42 मिडिल 22 वी कॉम. 17 13 57	वेरोजगार शि. हा.सं. शि कक्षा 9 व्यवसाय	श्वे स्था स्यालकोट 490/5 राजापार्क, जयपुर, फो.न 49651	दु.नं. 154, जे. के श्रीसवाल होजरी, जौहरी वाजार, जयपुर	
824	1045	2. लव्दोदेवी 3. विमलादेवी 4. पवनकुमार 5. किरण 6 प्रवीण 7 अमिता श्रीकुन्दनमल नाहर पुत्र स्व श्री केसरीचन्दजी	माता पत्नी वि. पुत्र वि पुत्रवधू वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि प.प्र. वि	90 55 28 27 27 26 70 मैट्रिक	व्यवसाय व्यवसाय सचिस	पुत्र-1, पुत्रियां-2 श्वे स्था. किशनगढ	म न 1803, फतेहपुरियो का दरवाजा, चौडारास्ता, जयपुर, फो 49288	जिनवाणी कार्यालय, वापू वाजार, जयपुर पुलिस मुख्यालय, राज जयपुर जैन फोटोस्टेट, चौडा रास्ता, जयपुर सीएट टायर्स, भगवानदास रोड़, जयपुर दी बैंक ऑफ राज लि, आदर्श नगर, जयपुर
		2 रोशनदेवी 3 नेमीचन्द 4 सुरेखा 5 रूपचन्द 6 प्रतिभा	पत्नी वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि	63 साक्षर 33 वी.कॉम. 27 वी.ए. 26 वी कॉम 24 एम ए	पुलिस सेवा, फोटोस्टेट व्यवसाय व्यवसाय बैंक सेवा	पुत्रिया-3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	1042	श्री कुशलचंद नाहर पुत्र श्री कुंदनमलजी 2 शांतादेवी 3 निमला 4 सीमा	प प्र पत्नी पुत्री "	वि वि प्रवि "	39 29 16 14	हा स " " "	प्राइवेट सेवा " शि बी ए (द्वि व) शि वक्षा 10	श्वे स्या " " "	निशनगढ़ " पुत्र 1, पुत्रियाँ 2	1803, फतेहपुरियो का दरवाजा, चौडा रास्ता, जयपुर फोन 49288	सुराना भवन, हनुमानजी का रास्ता, जयपुर-3 फोन 48333
826	1053	श्री कैवलचंद नाहर पुत्र श्री कुंदनमलजी 2 निमला	प प्र पत्नी	वि वि	31 30	हा स रा	वरिष्ठ लिपिक	श्वे स्या	निशनगढ़	म न 1803, फतेह पुरियो का दरवाजा, चौडा रास्ता, जयपुर फोन 49288	राज रमाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि उद्योग भवन, जयपुर फोन 63266 63267 वी बी एक्स
827	732	श्री घासीराम नाहर पुत्र स्व श्री चांदमलजी 2 इंद्रमला 3 वंदना 4 राजीव 5 सजीव	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र	वि वि प्रवि " "	47 45 21 19 16	बी कॉम मैट्रिक बी ए " "	मशीनरी व्यवसाय " " शि बी कॉम (द्वि व) शि कक्षा 11	श्वे म वदनावर (म प्र)	जी 22 बभला मार्ग, सी स्वीम, जयपुर, फोन 68825 78514	मैसर्स एटनाटिर एजेन्सीज, एम फ्राई रोड, जयपुर, फोन 67465 60069	
828	2399	श्री जतरूप नाहर पुत्र श्री गणेशचं दजी 2 जमनी 3 माहनीदेवी 4 मुनमुन 5 गान्ती	प प्र माता पत्नी पुत्री "	वि वि प्रवि " "	35 58 33 18 15	नोकरी " " " "	नोकरी " " " "	श्वे ते	15, शांति भवन ससारचंद्र रोड ध्रुव सिनेमा के पास, जयपुर फोन 79309		
829	1111	श्री घमचंद नाहर पुत्र श्री प्रभयराजजी 2 सविता 3 पनजकुमार 4 नीरजकुमार 5 वबीता 6 वविता 7 मुनी नकुमार मोहन	प प्र पत्नी पुत्र " पुत्री पुत्री भाजा	वि वि प्रवि " " " "	49 45 20 18 16 14 17	इंटर मैट्रिक बी कॉम " " " मिडि	रत्न व्यवसाय " " शि बी ए (द्वि व) शि वक्षा 11 शि वक्षा 9 गाम सीन्य रहर है ।	श्वे स्या	दाइ की गली, पो याला या रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर 3		

830	2157	श्री धर्मचन्द नाहर पुत्र स्व. श्री अमरचन्दजी	प प्र	वि.	47	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म	1930, सोथली वाली का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर, फो नं 48476
		2 मम्पतदेवी	पत्नी	वि.	43				
		3. विजयचन्द	पुत्र	वि.	28	सैक.	रत्न व्यवसाय		
		4. कुशलचन्द	पुत्र	वि	25	"	रत्न व्यवसाय		
		5 ज्ञानचन्द	पुत्र	अवि.	23	एम कॉम.	रत्न व्यवसाय		
		6 मजुलता	पुत्रवधू	वि	26	सैक			
		7 मधु	पुत्रवधू	वि.	23	"			
		8. राजकुमारी	पुत्री	अवि	18		शि. वी ए (प्र व)		
831	820	श्री धर्मचन्द नाहर पुत्र श्री कानमलजी	प प्र	वि	48	एम काम ,सी ए. आई. बी आई.बी	बैंक सेवा	श्वे स्था नसीराबाद	म न 4514,सिकतर जी का चौक, टिक्की वालो की गली, जौहरी बाजार, जयपुर
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	44	मैट्रिक			भारतीय स्टेट बैंक, सांगानेरी गेट, जयपुर-3
		3 डा. अभयकुमार	पुत्र	अवि	25	एम.बी.वी एस	हाउस सर्जन		कन्या महाविद्यालय, अलवर
		4 सुनीता	पुत्री	अवि	21	एम.कॉम	व्याख्याता		
		5. राजकुमार	पुत्र	अवि.	19		शि. बी कॉम.(तृ व)		
832	1191	श्रीमती नगोनादेवी नाहर पत्नी स्व श्री किशोरीलालजी	प. प्र	विधवा	80	मिडिल		श्वे.स्था. सियालकोट	म.न 572, आदर्श- नगर, जयपुर-4, फो न. 43492
		2 सुदर्शनकुमार	पुत्र	वि	58	बी ए	सराफी		पजीबी ओसवाल ज्वैलर्स, हल्दियो का रास्ता, जयपुर-3
		3. प्रेमकुमार	पुत्र	वि.	45	बी.ए.	सराफी		
		4. तिलकचन्द	देवर	अवि.	62				
		5. आशारानी	पुत्रवधू	वि	48	मिडिल			
		6. गुणमाला	पुत्रवधू	वि	45	मैट्रिक			
		7. सुरेन्द्रकुमार	पौत्र	वि.	32	बी.कॉम.	सराफी		ओसवाल ज्वैलर्स एम्पोरियम, राजापा जयपुर-4
		8. देवेन्द्रकुमार	पौत्र	वि	31	एम ए.	उद्योग		सन्नी इण्डस्ट्रीज, मालवीया नगर. जयपुर
		9 रविकुमार	पौत्र	अवि.	24	बी कॉम	उद्योग		
		10. सुनीता	पौत्रवधू	वि.	27	बी ए			
		11 कुसुम	पौत्रवधू	वि	29	एम ए.,बी एड			
		12. अशीष	प्रपौत्र	अवि	16	हा सै.			
		13 डेजी	प्रपौत्री	अवि	20	बी ए			
833	861	श्री नरेन्द्रकुमार नाहर पुत्र श्री सम्पतलालजी	प प्र	अवि.	28	सैक	व्यापार	श्वे स्था मंदसौर	तीलवालो का मकान, गोपालजी का रास्ता,

पुत्रियां-3

पुत्र-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 सुरेन्द्र कुमार	भ्राता	वि	32	सक	व्यापार			जयपुर	
		3 सुशीला	भा व	वि	27	मिडिल			पुन 2		
		4 अरिसेष	भ्राता	अवि	21	एन					
834	726	श्री पारसमल नाहर पुत्र श्री गजराजजी	प प्र	वि	49	मैट्रिन	प्रकाउ टे ट	श्वे मं	व्यापार	शाह बिल्डिंग, चोड़ा रास्ता, जयपुर फोन 73476	ममरा एटलाटिक एंजे नीज, एम आई रोड़, जयपुर, फोन 67465
		2 मेनाचवर	पत्नी	वि	43	साधार				64869	60069
		3 सराज	पुत्री	अवि	23	बी ए				74212	
		4 राजकुमारी	"	"	21	बी वाम					
		5 स्नेहलता	"	"	18	हा स					
		6 सुनीता	"	"	16		शि ग				
		7 घाशा	"	"	15		शि वक्षा 9		पुन 1, पुत्रियां 2		
835	1417	श्री प्रवेशकुमार नाहर पुत्र श्री निशनचन्दजी	प प्र	वि	55	इ टर	उद्योग	श्वे मं	पजाब	म न 1390, चोडागी हाउस, एल एम बी रो पीछे, जयपुर	
		2 चन्द्ररानी	पत्नी	वि	54	मिडिल					
		3 शशिबाला	पुत्री	अवि	25	मन					
		4 राजेशकुमार	पुत्र	अवि	23	"	उद्योग				
		5 देवदासा	पुत्री	"	20	"					
836	112/ 1236	श्री प्रेमचन्द नाहर पुत्र स्व श्री घमयरजजी	प प्र	वि	43	बी कॉम	एल आई टी एजट	श्व स्या	भगवापुर (प्रजेर)	ई 33 ए, वमना माग, सी स्त्रीम, जयपुर फोन 42822	
		2 कमलादेवी	पत्नी	वि	39						
		3 सुनीलकुमार	पुत्र	अवि	23		शि बी ए (प्र व)				
		4 ममता	पुत्री	अवि	19		" " "				
837	1251	श्री कलचन्द नाहर पुत्र श्री चांदमलजी	प प्र	वि	38	इ टर	उद्योग	जय	प्रजमर	बी 2, मन्दि माग, सुभापागर, जयपुर 16 फोन 78447	नाहर वेबल्स, जोशिया वा मोहल्ला, भोटवाड़ा, जयपुर 12
		2 वमलाबाई	पत्नी	वि	33	हा स					
		3 सुरेशचन्द्र	भ्राता	"	28	"	उद्योग				
		4 मीरा	भ्रा प	"	25	"					
		5 सुनीता	पुत्री	अवि	15		शि बी ए (प्र व)		पुन 1, पुत्री 1		
838	2252	श्री बाबूदास नाहर पुत्र श्री धीचन्दजी	प प्र	वि	29		उद्योग	श्वे ते	दागर	ई 25, घम्बाबाड़ी, जयपुर	भारत उद्योग, भोटवाड़ा, जयपुर फोन 77160 पी पी
		2 उर्मिकादेवी	पत्नी	वि	26						
		3 राजश	पुत्र	अवि	17		शि बी ए (प्र व)		पुत्रियां-2		

839	987	श्री भागचन्द नाहर पुत्र श्री भवरीलालजी 2 सायरबाई 3 प्रेमलता 4. सुनीता	प प्र माता पत्नी पुत्री	वि वि वि अवि	34 74 32 14	मैट्रिक साक्षर शिक्षित	रत्न व्यवसाय	जैन		म न. 4334, नथमलजी का चौक, के जी वी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-3
840	882	श्रीमती मिश्रीदेवी नाहर पत्नी स्व श्री हसरराजजी 2 रेणु 3 दीपककुमार 4. दिलीपकुमार	प प्र. पुत्री पुत्र पुत्र	विधवा अवि अवि अवि.	58 23 21 18	सैक सैक हा सै	शिक्षा 6 व्यापार	श्वे.स्था. पजाव		नथमलजी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर
841	589	श्री यशवन्तचन्द नाहर पुत्र श्री रूपचन्दजी 2 सुनन्दादेवी 3 आलोक 4 हेमन्त	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि वि अवि अवि	45 40 16 13	एम.एससी (सा) बी.एससी. वि.एससी. वि.एससी.	सांख्यिकी अधिकारी	जैन	जोधपुर	3-घ-7, जवाहरनगर, जयपुर फोन नं 60211 एक्स. 594
842	1604/ 1349	श्री आर यू नाहर पुत्र श्री रिखवचन्दजी 2 एम डी नाहर 3 ओसवालचन्द 4 सरिता 5 राजश्री 6 मिलबाँन	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री पुत्र	वि. वि अवि. अवि अवि अवि	40 38 21 17 15 16	मैट्रिक मैट्रिक बी कॉम. वि.एससी. वि.एससी. वि.बी.कॉम (प्र व)	व्यापार व्यापार			मिलबोन हाउस, सी-19, भगवानदास रोड, जयपुर फोन नं 74442, 74443, 72873
843	2445	श्री राजेन्द्रकुमार नाहर पुत्र श्री हेमचन्दजी 2 इन्दू	प प्र पत्नी	वि वि	42 35	इन्टर इन्टर	व्यापार	श्वे.स्था.		ज्ञान विहार, 2682, एम एस वी.का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फोन न. 45158
844	1307	श्री रिखवचन्द नाहर पुत्र स्व श्री भूरामलजी 2 कमलादेवी	प प्र पत्नी	वि वि.	47 46	बी.ए मैट्रिक	पेंरोकार	जैन	जंतारण	1057, पानो का दरीवा, जयपुर म्यूनिसिपल, कोसिल, जयपुर, फोन न. 75001
845	215	श्री रोहितकुमार नाहर पुत्र श्री उमरावमलजी 2. पुष्पादेवी	प प्र पत्नी	वि वि	30 24	हा सै. सैक.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था अजमेर		c/o आर सी शाह, धूला हाउस, बापू बाजार, जयपुर, फोन न. 62701 रोहित ज्वैलर्स, सिघड हाउस, के जी वी. का रास्ता, जयपुर फोन 41022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
946	265	श्री शारदासाहू नाहूर पुत्र श्री विशालसाहूजी	प प्र	वि	49	मिडिल	ध्वसगाय	श्वे म	पजाव		जन स्टोर, कटवा पुरोहितजी जयपुर, वा न 64913 पीपी
		2 दुग्गिणी	माता	विधवा	79						
		3 स्वर्णकान्ता	पत्नी	वि	47	मिडिल					
		4 कमलकुमार	पुत्र	धवि	20	एम वाम	ध्वसगाय				
847	444	श्री सौरीसाहू नाहूर पुत्र श्री जगन्नाथजी	प प्र	वि	53	मैट्रिक	ध्वसगाय	श्वे स्या	स्यालबोट	272/4 राजापारक, जयपुर	
		2 बमलादेवी	पत्नी	वि	48	साक्षर					
		3 सुनीतादेवी	पुत्री	धवि	21	सज					
		4 धनिलकुमार	पुत्र	धवि	18	सज					
		5 सजयकुमार	पुत्र	धवि	16	सज					
		6 भजयकुमार	पुत्र	धवि	14						
848	113	श्री स तोपचंद नाहूर पुत्र स्व श्री मप्रानालजी	प प्र	वि	64	साक्षर	शि वक्षा 9	श्वे स्या	जोबनेर	डो-17, वृष्णनगर, सांपीनगर के सामने, जयपुर	मै पी थी ज्वलर्स, परतानियों का रास्ता, जयपुर, फो न 75163 62707 भार एन ई बी
		2 मोहनदेवी	पत्नी	वि	57						
		3 श्रीचंद	पुत्र	धि	37	मैट्रिक	दवाईयो री दुहाण				
		4 लक्ष्मीदेवी	पुत्रवधु	वि	32	मैट्रिक					
		5 राजकुमार	पुत्र	वि	29	बी ए	भरतउटम् वाम				
		6 मिमसादेवी	पुत्रवधु	वि	27	बी ए					
		7 भभयकुमार	पुत्र	धवि	25	मैट्रिक	दवाईयो की दुवान				
		8 विजयकुमार	पुत्र	धवि	22	बी ए	" "				
		9 धनिलकुमार	पुत्र	धवि	19	बी ए	" "				
		10 राजेशकुमार	पुत्र	धवि	18		शि हा सं				
		11 भजयकुमार	पुत्र	धवि	15		शि म				
849	2003	श्री सुभाषचंद नाहूर पुत्र श्री भानूदचंदजी	प प्र	वि	44	शिखित		श्वे म	लखनऊ	गुमान सागर, 51, गगवान पार्क, मोती डू गरी रोड, जयपुर	
		2 रतनदेवी	पत्नी	वि	40	मिडिल					
850	193	श्री सुरेशकुमार नाहूर पुत्र श्री मम्पतलालजी	प प्र	धि	31	हा स	रत्न ध्वसगाय	श्वे स्या	मन्सौर (म प्र)	म न 867, गोपानजी का रास्ता जयपुर	
		2 सुधीया	पत्नी	धि	25	मिडिल					

पुत्री 1

पुत्र-1, पुत्रियां 2

851	338	3. अखिलेशकुमार 4 नरेन्द्रकुमार श्री सुरेश नाहर पुत्र श्री सुवालालजी 2. सुशीला	भ्राता भ्राता प प्र पत्नी	अवि. अवि. वि वि	19 28 34 31	बी काँम. सं बी एससी., एलएल बी. एम.ए., बी. एड.	नौकरी नौकरी एनफोर्समेंट इन्स्पेक्टर श्वे. स्था.	पुत्र-2 भीलवाड़ा	म न 3814, दीनानाथ की गली, पुरानी बस्ती, जयपुर, फो.नं. 66827	कार्यालय जिला रसद अधिकारी, जयपुर फो.न 76566 62520
852	1865	श्री हुकमचन्द नाहर पुत्र श्री आनन्दचन्दजी 2. विमला 3. अनिता 4. तरुण नैनावटी	प प्र. पत्नी पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. ,,	51 47 22 21	शिक्षित साक्षर हा. सं बी.काँम.	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे. म. लखनऊ	2172, चाकसू का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर-3 फो न 42976	
853	1701	श्री पुष्पेन्द्रसिंह नैनावटी पुत्र श्री लक्ष्मणसिंहजी 2. चन्द्रकला नैनावटी	प प्र. पत्नी	वि वि	29 26	बी.एससी, एलएल बी हा सं.	सीमा शुल्क निरीक्षक श्वे. ते पुर (भीलवाडा)	गुलजी पटेल का मकान, हवा सड़क, 22 गोदाम, जयपुर	केन्द्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क, स्टेच्यू सर्कल, जयपुर, फो न 60400, 68421	
854	2532	श्री बलवन्तसिंह नैनावटी पुत्र श्री मनोहरसिंहजी 2. अनोपकंवर 3. कमलादेवी 4. प्रवीनकुमार 5. संजयकुमार 6. प्रियाकुमारी	प. प्र. माता पत्नी पुत्र पुत्र पुत्री	वि विधवा वि. अवि. ,, ,,	43 75 40 19 16 15	सी.ए. बी.काँम. शि. सी.ए शि. कक्षा 11 शि. कक्षा 10	प्रशासकीय अधिकारी जैन भीलवाडा	सी-3, एल.आई.सी. ऑफिसर्स फ्लैट्स, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर	एल. आई. सी. मडल कार्यालय, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर, फो न. 64648	
855	128	श्री महेन्द्रसिंह नैनावटी पुत्र स्व श्री मोखमसिंहजी 2. उर्मिला पंसारी	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	37 30	इन्टर वी ए.	रत्न व्यवसाय श्वे. ते. पुर (भीलवाडा)	4312, सोनी भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरीबाजार, जयपुर, फो.नं. 42463	जेमिको ज्वैलर्स, सीघड-भवन, के.जी. बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो.न. 41022	
856	1490	श्री धर्मचन्द पंसारी पुत्र श्री विमलचन्दजी 2 राजकुमारी	प प्र पत्नी	वि. वि	35 33	बी.काँम., एलएल बी	नौकरी श्वे. म भुक्तू	सी-76, अम्बावाड़ी, जयपुर-12, फो.नं. 79292बी.पी	मुख्य कार्यालय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, तिलक नगर, जयपुर, फो.न 72242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	742	श्री राजेशकुमारो पत्तारो स्व श्री वपुर्चन्दजी 2 पद्मादेवी	प प्र माता	धवि विषया	24 58	बी वॉम	व्यवसाय	श्वे म भु भन्नू		1813, यू बिलाला भवन, पी यानो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	
858	63	श्री विमलचन्द पत्तारो पुत्र स्व श्री भूरामलजी 2 पेफबाई	प प्र पत्नी	वि वि	59 55	मिडिल	गोरी	श्वे म भु भन्नू		4396, पुरानी तत- वाली का रास्ता, गोहरी बाजार, जयपुर, फो न 69318 फो 42801 40791	
		3 महावीरप्रसाद 4 पवनकुमारी 5 भगवतकुमार 6 नीता 7 बंधिता 8 गीतम	पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पौत्री पौत्र	वि वि वि वि धवि धवि	18 36 24 22 15 13	हा स हा स बी वॉम बी वॉम	रत्न व्यवसाय गएल बी रत्न व्यवसाय			डॉक्टर गेगनल ज्वलरा 1749/10/7/राम ललाजी का रास्ता जोहरी बाजार जयपुर, फो न 61965, 40448	
		पगारिया							पुप-1		
859	2256	श्री सुमेरमल पगारिया पुत्र श्री चम्पानालजी 2 विजयकुमारी 3 राजेशकुमार 4 प्रभाषचन्द 5 सुनीलकुमार 5 सुमन	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्री	वि वि धवि धवि धवि "	53 50 24 22 18 20		मप्याई पाय मप्याई पाय शि बी वॉ (द्वि व) " " (प्र व) " " (द्वि व)	श्वे ते गुजानमद		नलय भवन, 44, यू वॉलोनी, एम फाई रोड, जयपुर, फो न 65878	
		पटनी									
660	47	श्री शेषलचन्द पटनी पुत्र स्व श्री बालचन्दजी 2 बुद्धिदेवी	प प्र पत्नी	वि वि	59 55	एम एसजी (बोटेनी)	मवानिष्ठत प्रापाय राज राज्य मवा	श्वे म		फो 46, राजापार्क, परतानी मन्दिर के पास जयपुर	
861	1521	श्री गट्टीलाल पटनी पुत्र स्व श्री भूरामलजी 2 रत्नबाई 3 पूनमचन्द	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि वि	78 75 46	मैट्रिक साक्षर डॉक्टर	व्यवसाय	श्वे स्या		परतानिया का रास्ता, 1, बालेज पुन डिपो जोहरी बाजार जयपुर त्रिपोलिया बाजार, फो न 61623 जयपुर, फो 75827 2 सात निवास 2 रे र प	

870	2254	श्री मिलापचन्द पटावरी 2 सरला 3 परवीन	प प्र. पत्नी पुत्र	वि वि. अवि.	37 32 14	बी कॉम शि. सै.	श्वे ते भोमासर पुत्र-1 पुत्री-1	ई-77, अम्बावाडी जयपुर	राज ट्रासफारमर्स एण्ड स्विच गीयर, विश्वकर्मा इन्ड एरिया, जयपुर फो. न. 832289
पटोलिया									
871	2323	श्री उम्मेदराज पटोलिया पुत्र स्व श्री हरकराजजी 2 कमला	प प्र पत्नी	वि वि	39 32	एम कॉम सरकारी सेवा	श्वे.ते पुत्र 1-, पुत्री-1	पटोलिया बिल्डिंग, घीवालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
872	2322	श्री जतनराज पटोलिया पुत्र स्व श्री हरकराजजी 2. भारती	प प्र पत्नी	वि वि.	39 26	एम ए व्यापार	श्वे ते.	पटोलिया बिल्डिंग, घीवालो का रास्ता, जयपुर	
873	2064	श्री धर्मचन्द पटोलिया पुत्र स्व. श्री सूरजमलजी 2 नगीना	प प्र. पत्नी	वि वि	27 22	बी काम ,एलएल बी. शेयर ब्रोकर एण्ड इन्वेस्टमेंट कंसलटेन्ट एम ए	श्वे ते. पुत्र-1	पटोलिया हाउस, न्यू कॉलोनी, जयपुर फो न 65976	2040, घीवालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो न 43315
874	2321	श्री प्रवीपराज पटोलिया पुत्र स्व. श्री हरकराजजी 2. जतनदेवी 3. चन्द्रकला	प प्र. माता पत्नी	वि. विधवा वि.	26 48 20	बी काम व्यापार बी काम.	श्वे.ते. पुत्र-1, पुत्री-1	घीवालो का रास्ता, जयपुर	
875	1329	श्री प्रेमराज पटोलिया पुत्र स्व श्री हरकराजजी 2. इन्द्रा 3 मीनू	प. प्र पत्नी पुत्री	वि वि अवि.	41 36 13	एम.कॉम., विजिनस उद्योग एडमिनिस्ट्रेशन इन्टर शि कक्षा 8	श्वे ते पुत्र-1, पुत्री-1	पटोलिया बिल्डिंग, घी वालों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो न. 44855 पीपी	
876	2329	श्री सज्जनराज पटोलिया पुत्र श्री छगनलालजी 2 सीतादेवी 3 सुरेन्द्रकुमार 4 आशादेवी 5. महेन्द्रकुमार 6. अजूदेवी 7. दीपककुमार 8. अनिलकुमार	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र	वि वि. वि. वि वि. अवि. अवि	55 50 36 33 33 30 27 26	इन्टर साक्षर मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक इन्टर मैट्रिक	श्वे ते. सेवानिवृत्त एजेन्सी व्यापार	घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. न. 41314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
865	903	श्री जौहरीलाल पटवा पुत्र श्री मिश्रीमलजी	प प्र	वि	57	मिडिल	ध्यापार	श्व स्या	जोधपुर	म न 2685, चूडी वाला का मोहल्ला	पटवा एण्ड कम्पनी, धीवाला वा रास्ता,
		2 राजबुमारी	पत्नी	वि	55	साधार					जयपुर, फा न 42451
		3 नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	32	हा स	रत्न व्यवसाय				
		4 महेंद्रकुमार	पुत्र	वि	30	हा स	रत्न व्यवसाय				
		5 जितेन्द्रकुमार	पुत्र	प्रवि	25	हा स	रत्न व्यवसाय				
		6 सुधाकुमारी	पुत्री	प्रवि	22	"	शि बी काम (प्र व)				
		7 शलद्रकुमार	पुत्र	प्रवि	19		शि बी एससी (प्र व)				
		8 मजु	पुत्रवधू	वि	26	हा स					
		9 उषा	पुत्रवधू	वि	23	बी ए					
866	2039	श्री धनपतमल पटवा पुत्र श्री सोभागमलजी	प प्र	वि	48	मैट्रिक	राजकीय सया	श्वे जन		308, जन घण हाउम, मोतीसिंह भोमियो वा रास्ता, तीसरा चौ , जयपुर	
		2 शान्ता	पत्नी	वि	42	बी ए	प्रध्यापिका				
		3 संगीता	पुत्री	प्रवि	20	बी कॉम	बेरोजगार				
		4 माराजकुमार	पुत्र	प्रवि	17		शि बी ए (प्र व)				
867	1878	श्री रगरूपमल पटवा पुत्र स्व श्री फोजमलजी	प प्र	वि	72			जन		म न 177, हटिदियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	फो न 40658
		2 सरदारचंद	पत्नी	वि	66						
		3 प्रभाकरचंद्र	पुत्र	वि	31	बी वाम	रत्न व्यवसाय				
		4 सरोजचंद	पुत्रवधू	वि	28	हा स					
868	2040	श्री राजेंद्रकुमार पटवा पुत्र श्री सोभागमलजी	प प्र	वि	37	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्व म		गो 32, नृपत सदन, पतानसिंह गनिन, शास्त्रीनगर, जयपुर	फो न 68110
		2 सुमीता	पत्नी	वि	32	मिडिल					
		3 सुनीलकुमार	पुत्र	प्रवि	14		शि कथा ७				
		<u>पटावरी</u>									
869	2253	श्री गोकुलचंद पटावरी पुत्र श्री वृणाररणजी	प प्र	वि	48	बी कॉम एलएलबी	ट्रगफामर वा व्यवसाय	श्वे ते	भादरा	गो 79, विजयपथ, तिलवनगर, जयपुर	राज इल इनिवपमट प्रा शि, राड न 4, मालवीया इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर फो न 79863
		2 कमलादेवी	पत्नी	वि	42						
		3 राजेश	पुत्र	प्रवि	22	बी कॉम	शि एलएलबी (फाइनेंग)				फो न 79913

870	2254	श्री मित्तापत्तनन्द पट्टाचरी 2 मत्ता 3. परतीन	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि. प्रवि.	37 32 14	बी.कॉम. शि.सं.	श्वे.ते. भोमानर पुत्र-1 पुत्री-1	ई-77, अम्बावाडी जयपुर	राज ट्रांसफारमर्स एण्ड मिनि गीयर, निरयकर्म इन्ड एरिया, जयपुर फो. नं 832289
पटोलिया									
871	2323	श्री उम्मेदराज पटोलिया पुत्र स्व. श्री हरकराजजी 2. कमला	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	39 32	एम कॉम सरकारी सेवा	श्वे.ते. पुत्र 1-, पुत्री-1	पटोलिया बिल्डिंग, धीवालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
872	2322	श्री जतनराज पटोलिया पुत्र स्व. श्री हरकराजजी 2. भारती	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	39 26	एम ए व्यापार	श्वे.ते	पटोलिया बिल्डिंग, धीवालो का रास्ता, जयपुर	
873	2064	श्री धर्मचन्द पटोलिया पुत्र स्व. श्री मूरजमलजी 2. नगीना	प. प्र. पत्नी	वि. वि	27 22	बी.काम ,एलएल बी शेरर ब्रोकर एण्ड इन्वेस्टमेंट कमलटेन्ट एम ए.	श्वे.ते पुत्र-1	पटोलिया हाउस, न्यू कॉलोनी, जयपुर फो. नं 65976	2040, धीवालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. नं 43315
874	2321	श्री प्रवीपराज पटोलिया पुत्र स्व. श्री हरकराजजी 2. जतनदेवी 3. चन्द्रकला	प प्र. माता पत्नी	वि. विधवा वि.	26 48 20	बी काम व्यापार	श्वे.ते. पुत्र-1, पुत्री-1	धीवालो का रास्ता, जयपुर	
875	1329	श्री प्रेमराज पटोलिया पुत्र स्व. श्री हरकराजजी 2. इन्द्रा 3. मीनू	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि प्रवि.	41 36 13	एम कॉम., विजिनम उद्योग एडमिनिस्ट्रेशन इन्टर शि. कक्षा 8	श्वे.ते पुत्र-1, पुत्री-1	पटोलिया बिल्डिंग, धीवालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. न. 44855 धीपी.	
876	2329	श्री सज्जनराज पटोलिया पुत्र श्री छगनलालजी 2. सीतादेवी 3. सुरेन्द्रकुमार 4. आशादेवी 5. महेन्द्रकुमार 6. अजूदेवी 7. दीपककुमार 8. प्रमिलकुमार	प. प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र	वि. वि. वि. वि. वि. वि. प्रवि. प्रवि	55 50 36 33 33 30 27 26	इन्टर साक्षर मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक इन्टर मैट्रिक	मेवानिबृत्त एजेन्सी व्यापार	श्वे.ते	धीवालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. नं. 41314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9	प्रतुलकुमार	पुत्र	धवि	24	मैट्रिक्स				
		10	मनीषकुमार	पुत्र	धवि	19		शि हा स			
		11	सरजनाकुमारी	पौत्री	धवि	14		शि वधा 8			
		12	सवीनाकुमारी	पौत्री	धवि	13		शि वधा 8			
		<u>परमार</u>									
877	802	श्री सम्बालास परमार	प प्र	वि		73		श्वे स्या	उदयपुर	4/402, जवाहरनगर	
		पुत्र श्री एलेषादजी								जयपुर, फोन 41309	
		2	नमलाबाई	पत्नी	वि	70					
		3	सूबेद्र	पुत्र	वि	32	बी ए	ध्यापार			
		4	मजू	पुत्रवधू	वि	30	हा स				
		5	सपन	पुत्र	वि	28	बी कॉम	ध्यापार			
		6	मुनीता	पुत्रवधू	वि	26	बी ए				
878	281	श्री पारसमल परमार	प प्र	वि		27	मैट्रिक्स	प्राइवट जोबरी			
		पुत्र श्री रितबहादजी									
		2	भाशादवी	पत्नी	वि	23					
879	1789	श्री बी एल परमार	प प्र	वि		51	एम एससी	निशान एच	जन	बडगांव	
		पुत्र श्री पूलाजी					पी एच डी	शाभारतां, प्रोफेसर		(जालीर)	
		2	मीना	पत्नी	वि	35	मैट्रिक्स				
		3	मुखराज	पुत्र	धवि	19		शि बी ए (द्वि व)			
		4	नलिता	पुत्री	धवि	17		शि बी ए (प्र व)			
880	611	श्री अबरलाल परमार	प प्र	वि		50	एम ए	विश्वविद्यालय सेवा	श्वे स्या	उदयपुर	4/402, जवाहरनगर,
		पुत्र श्री सम्बालालजी									जयपुर 4
		2	सम्पत	पत्नी	वि	44	मिडिल				
		3	प्रभय	पुत्र	वि	23	एम कॉम	ध्व राधिस			
		4	हसा	पुत्रवधू	वि	22	एम ए				
		5	मीना	पुत्री	धवि	20	बी ए धानस				
		6	दीपिका	पुत्री	धवि	18		शि बी ए (प्र व)			
881	1226	श्री सातिसाल परमार	प प्र	वि		40	एम ए	मुद्राधिकारी	श्वे स्या	धायड (उदय)	R 100, रिजय बक, भारतीय रिजय बक,
		पुत्र श्री सम्बालालजी									धवि निवास, गांधी टाक रोड, जयपुर
		2	चंद्रकांता	पत्नी	वि	34	एम ए				नगर, जयपुर फोन 79616

पुत्र 1 पुत्रिया 2

पुत्र-1

पुत्र-1

पानगडिया

882	2094	श्री बी एल. पानगडिया पुत्र स्व. श्री राजमलजी	प.प्र	वि.	63	बी.ए.,एलएल बी. सेवानिवृत्त राजकीय अधिकारी	श्वे.स्था. सुवाणा (भीलवाड़ा)	राज निकेतन, 7, मोती डू गरी रोड़, जयपुर, फो.न. 68670		
		2. मोहनदेवी	पत्नी	वि.	62	मिडिल			ग्रेफाइट इण्डिया लि.,	
		3 आर के पानगडिया	पुत्र	वि	36	एम. ई. (मेट.) सीनि. सुपरि. (रिसर्च)				
		4 आशा	पुत्रवधू	वि	35	एम ए.				
		5 डा अशोक	पुत्र	वि.	34	एम डी.(मेडिसिन) न्यूरोलोजिस्ट डी.एम (न्यूरोलोजी)			एस.एम.एस. हास्पिटल जयपुर, फो.न. 60291-259	
		6. मीना	पुत्रवधू	वि	31	बी.ए.			मेरीलैण्ड होम, वाशिगटन, कन्सलटेन्ट इन वर्ल्ड बैंक	
		7. डॉ अरविन्द	पुत्र	वि.	32	एम.ए पीएच.डी. एसोसियेट प्रोफेसर				
		8 अमिता	पुत्रवधू	वि	27	एम.ए.	पुत्र-1, पुत्रियाँ-4			
883	840	श्री भंवरलाल पानगडिया पुत्र श्री नाहरसिंहजी	प प्र	वि	60	मैट्रिक सेवानिवृत्त डि. चीफ कन्ट्रोलर	श्वे.स्था वनेड़ा (भीलवाड़ा)	पानगडिया निवास, सी-94, शास्त्रीनगर, जयपुर	पश्चिम रेलवे, जयपुर	
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	54	साक्षर				
		3. राजीव	पुत्र	अवि	19	बी.कॉम.				
884	1555	डा. सागर पानगडिया पुत्र श्री मिश्रीलालजी	प प्र	वि	35	एम.बी.बी.एस , निजी क्लिनिक एम डी.(मेडिसिन)	श्वे.स्था. सांगानेर (भीलवाड़ा)	नथमलजी का कटला, आगरा रोड़, जयपुर फो न. 40473	सागर क्लिनिक, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो.न. 44874	
		2. डा राजप्रभा	पत्नी	वि	30	एम.बी.बी.एस.,एम एस. ,, (गायनेकोलॉजी)	पुत्रियाँ-2			
पामेचा										
885	99	श्री भंवरलाल पामेचा पुत्र श्री जोधराजजी	प प्र.	वि.	54	इन्टर, प्रभाकर वरिष्ठ लेखाधिकारी	जैन देलवाडा (उदयपुर)	सी-120, सेठी काँलोनी, शिवालय मार्ग, जयपुर-4, फो न. 44612	समाज कल्याण वि., जयपुर, फो. न. 72285 जे के. इण्डस्ट्रीज, काकरोली प नेशनल बैंक, यू. को. बैंक राज. वित्त निगम	
		2. दाखदेवी	पत्नी	वि.	53	मिडिल				
		3 अरविन्द	पुत्र	वि	32	बी ई (इलैक्ट्रीकल) वरिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)				
		4 शकुन्तला	पुत्रवधू	वि.	31	एम. ए.				
		5 अरुण	पुत्र	वि.	26	एम कॉम बैंक कर्मचारी				
		6 सध्या	पुत्रवधू	वि	24	बी.एससी ,एम कॉम. बैंक कर्मचारी				
		7 सुनील	पुत्र	अवि	22	बी.कॉम., सहायक व्यवस्थापक आई सी.डब्ल्यू.ए				
		8 सजय	पुत्र	अवि	20	शि. एम बी.बी एस.	पुत्र-1, पुत्री-1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	690	श्री सुरेशसिंह पामेचा पुत्र श्री मातीलानजी 2 मागीलाल 3 डा रेणुका 4 अमित	प प्र पिता पत्नी पुत्र	वि विधुर वि अवि	39 73 38 13	एम ई (मिविल) माक्षर एम ए पी एच डी शि वक्षा 7	अधि अभियंता व्याख्याता शि वक्षा 7	जन श्वे	नन्दराय (भीलवाडा)	एम 5, वजाज नगर जयपुर 15	गमस्वास्थ्य अधि विभाग, जयपुर फो 62201 वानाडिया काराज, जयपुर
पारख											
887	165	श्री अश्वयचव पारख पुत्र श्री नेमीचणजी 2 पुण्या 3 प्रीति 4 नवीन 5 प्रसान्त	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र	वि वि अवि अवि अवि	38 36 14 13 12	इण्टर री ए शि वक्षा 9 शि वक्षा 8 शि वक्षा 7	दलानी	श्व स्या	देहनी	410, मनीरामजी बी बोडी हृदय्यो वा रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर	
888	426/ 2313	श्री अमरसिंह पारख पुत्र श्री मोहनलालजी 2 रतनदेवी 3 सुनीलकुमार 4 हेममता 5 रेखा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि वि अवि अवि अवि	41 39 21 19 16	बी शाम इण्टर बी कॉम बी शाम शि हा म	जोहरी नोवरी नोवरी शि हा म	जन		2454, मारुजी रा चौक, जोहरी बाजार, जयपुर 3	
889	2125	श्री उम्बेवमल पारख पुत्र श्री छोटमलजी 2 विमलादेवी 3 प्रदीपकुमार 4 सुधीरकुमार 5 प्रीति	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्री	वि वि अवि अवि अवि	52 44 22 19 16	राज्य नर्माचारी मैट्रिक हा म "	राज्य नर्माचारी वेरोजगार "	श्वे म		म न 3985, नीपड भवन, भीतर रा चौक, के जी बी वा रास्ता जोहरी बाजार	
890	965	श्री गगाराम पारख पुत्र श्री मोतीलानजी 2 विजयादेवी 3 नरोज 4 रावेशकुमार	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र	वि वि अवि अवि	55 47 22 16	मिडिल माक्षर इण्टर स	मवित	जन	दादा सिध	नाल हवेली, एम एम बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फो न 41810 बी बी	जन साडी स्टोर बापू बाजार, जयपुर

891	1949	श्री धेवरचन्द पारख पुत्र श्री मागीलालजी 2 शातिदेवी 3 अनिल 4 सुनील	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि अवि. अवि	55 45	धर्मरत्न	नौकरी	जैन	सुशीलजी बुरड का मकान, वेरी का वास, के जी.वी. का रास्ता, जयपुर	कर्नावट ट्रेडर्स
892	2312	श्री धीतरासह पारख पुत्र श्री मोहनलालजी 2 राजकुमारी	प प्र पत्नी	वि वि	35 30	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे ते. चूरु	टी सी. ढड्डा, के जी.वी. का रास्ता, जयपुर	
893	2080	श्री धीरजलाल पारख पुत्र स्व. श्री सुधारचन्दजी 2. वादलीदेवी 3. सुमनकुमारी 4. सुशीलाकुमारी 5. दिनेशकुमार	प.प्र माता पत्नी वहिन भ्राता	वि. विधवा वि. अवि. अवि.	38 60 30 24 16	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	लाल हवेली, मोतीसिंह लक्ष्मी भवन भोमियो का रास्ता, फो.न. 41982 जौहरी बाजार, जयपुर फो न. 41982	
894	1102	श्री निहालचन्द पारख पुत्र श्री मोतीलालजी 2. लीला 3. सजय जैन	प प्र. पत्नी सोला	वि. वि अवि.	36 30 22	एम एससी.	प्राध्यापक (भौतिकशास्त्र)	श्वे.स्था. ग्रजमेर	डी-18 ए, गणेशमार्ग, भौतिक शास्त्र विभाग, वापूनगर, जयपुर-4 राज.विश्वविद्यालय, फो न 67638पी.पी जयपुर	
895	989	श्री प्रेमचन्द पारख पुत्र श्री बाबूलालजी 2. कुसुमदेवी	प प्र. पत्नी	वि. वि.	38 35	एम.कॉम.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. आगरा	कृष्ण भवन, मठ का 3707, कालो का कुआ, के जी वी. का मोहल्ला, के जी वी. रास्ता, जयपुर का रास्ता, जयपुर फो.न 44709	
896	2135	श्री बलवीरसह पारख पुत्र श्री मागीलालजी 2 सुशीला 3 प्रीति 4. नीति 5 सदीप	प प्र पत्नी पुत्री पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	46 40 19 17 16	बी एससी	व्यवसाय	जैन	3-घ-8, जवाहर नगर, जयपुर	
897	1100	श्री मूलचन्द पारख पुत्र श्री भाईचन्दजी 2. हीराबेन	प प्र पत्नी	वि वि.	65 65	बी.एससी.(इन्जी.)	नौकरी	श्वे.स्था. सौराष्ट्र (गुजरात)	गोविन्द भवन. ग्रजमेरी गेट, सब्जी एम आई रोड, जयपुर मण्डी के पीछे, एम आई फो.न. 60061, रोड, जयपुर ,, 73817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 डॉ० नयना	पुत्री	प्रवि	27	एम बी बी एस	नीररी			फोन 73009	धर्मर जन हासिटल, चौडा रास्ता, जयपुर
898	58	श्री राजेन्द्रकुमार पारख पुत्र श्री रतनचन्दी 2 विजय नरमी	प प्र	वि	31	बी बीएम ए सी ए	चाटङ घनाउण्डेष्ट	जैन		138, पारख भवन, यू कालोनी जयपुर फोन 77487	
				पत्नी	25	एम ए				67504	
899	1438	श्री शिवसाह पारख पुत्र श्री सुधारचन्दनी 2 लक्ष्मीदेवी 3 हीरालाल 4 प्रभावती 5 प्रभवकुमार 6 भजू	प प्र	वि	62	मैट्रिग	रत्न व्यवसाय	श्वे म		4033, सातहवेली, एम एस बी वा रास्ता, जौहरी वागार, जयपुर, फोन 41810	राजस्थान ज्वलम, जौहरी वागार, जयपुर
				पत्नी	60	साधार					
				भ्राता	56	एलएल बी	रत्न दलानी				
				भ्रा बधू	49	बी ए (द्वि व)					
				पुत्र	40	बी एससी	रत्न व्यवसाय				इम्प्लेकस जम व, 201 हृत्विद्यो वा रास्ता, जयपुर, फोन 42678
				पुत्रवधू	35	बी ए (द्वि व)					प्रभोवा ए टरप्राइजेज, जोरास्टर बिल्डिंग ने सामने, एम एस बी वा रास्ता, फोन 41754
		7 प्रभोवकुमार	पुत्र	वि	35	बी ए (द्वि व)	रत्न व्यवसाय				मण्डिभद्र होम्सो चि केन्द्र, गणेश होटल, स्टेशन रोड, जयपुर, फोन 65320
		8 इत्मा	पुत्रवधू	वि	27	डा होम्सोपविन	नीररी				चिन्तोत्कर इले व, 6, गोपीनाथ माग, जयपुर फोन 65003
		9 अनूपकुमार	पुत्र	वि	26	बी ई	विद्युत इंजीनियर				
		10 प्रजू	पुत्रवधू	वि	23	बी ए डिप्लोमा इन टक्सटाटन डिजाइनिंग					
		11 भरतकुमार	पुत्र	प्रवि	22	बी बीएम	रत्न व्यवसाय				
		12 बीना	भतीजी	प्रवि	23		शि बी ए (तृ व)				
		13 सुषा	भतीजी	प्रवि	20		शि बी ए (तृ व)				
		14 सतीता	पुत्री	प्रवि	19		शि बी ए (द्वि व)				

	15.	प्राथम्यभार	भतीजा	गवि.	18		गि.वी.ए. (प्र 7.)			
	16.	चर्मचन्द्रकुमार	भतीजा	गवि.	16		गि. कक्षा 9			
	17.	मनूरा	पोरी	गवि.	13		गि. कक्षा 7			
900	1880	श्री सुरजमल पारख पुत्र श्री चान्दमलजी	प. प्र.	वि.	60	मैट्रिक	सेना निवृत्त		जैन	म. नं 3925, एम.एस. बी. का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर-3
	2.	मुशीमादेवी	पत्नी	वि.	50	हिन्दी रत्न				
	3.	प्रजय	पुत्र	वि.	28	हा. मं.	रत्न व्यवसाय			
	4.	गीता	पुत्रवधू	वि.	21	मं.				
901	415	श्री सुरेन्द्रकुमार पारख पुत्र श्री बाबूनालजी	प. प्र.	वि.	32	बी.एससी.	रत्न व्यवसाय			
	2.	कंचनदेवी	माता	विधवा	60					
	3.	शशिदेवी	पत्नी	वि.	28	बी.ए.				
	4.	वीरेन्द्रकुमार	भ्राता	वि.	28	हा. सै.	पारख लेडीज कार्नेर			
	5.	चन्द्रादेवी	भा.वधू	वि.	25	हा. सै.				
	6.	हेमन्तकुमार	भतीजा	प्रवि.	23	इन्टर	रत्न व्यवसाय			
	7.	मधु	भतीजी	प्रवि.	20		शि.वी.ए. (फाइनाल)			
902	1104	श्री सुरेशकुमार पारख पुत्र रच. श्री निहालचन्द्रजी	प. प्र.	वि.	38	बी.ए.	व्यवसाय			
	2.	शशि	पत्नी	वि.	32	बी.ए.				
903	1950/ 312	श्री सोहनताल पारख पुत्र श्री हीरालालजी	प. प्र.	विधुर	76	साक्षर				
	2.	ताभचन्द्र	पुत्र	वि.	46	मिडिल	रत्न व्यवसाय			
	3.	कमलारिनी	पुत्रवधू	वि.	40	मिडिल				
	4.	भावना	पोरी	प्रवि.	13		शि. कक्षा 8			
		<u>पालावत</u>								
904	2052/ 1639	श्री अशोककुमार पालावत पुत्र श्री पद्मचन्द्रजी	प. प्र.	वि.	33	बी.एससी.	कपडे का व्यवसाय			
	2.	शशि	पत्नी	वि.	29	हा.मं.				
905	849	श्री कमलचन्द्र पालावत	प.प्र.	वि.	38	सै.क.	रत्न व्यवसाय			
	2.	शीना	पत्नी	वि.	37	हा.मं.				

पोरी-2, पोरी-1

पुत्री-1

पुत्र-4, पुत्री-1

पुत्रियाँ-2

पुत्र-3, पुत्री-1

पुत्र-1, पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 विमला	पत्नी	वि	55	हा स					
916	440	श्री हेमराज पालरेवा पुत्र श्री देवीचंदजी	प प्र	वि	40	मट्टिन	दवाइया का घात व्यापार	श्वे जन शिवराज (गिरोही)		रास्ता, जयपुर, फोन 42477	गमित, जयपुर फोन 69763
		2 सुंदरबाई	पत्नी	वि	37	साक्षर					
		3 विमल	पुत्र	अवि	22	बी लपत्तो					
		4 सुभाष	पुत्र	अवि	19	बी कॉम					
		5 रुमली	पुत्री	अवि	16	हा स					
917	2131	श्री मिलापचंद पालेचा पुत्र स्व श्री नारायणदजी	प प्र	वि	42	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय				
		2 विमला	पत्नी	वि	38	मिडिल				3884, एम एन बी का रास्ता, जोहरी	मातवाल मंडिकल एजेन्सी, दहडा मार्केट, जोहरी बाजार, जयपुर फोन 44386
		3 मजु	पुत्री	अवि	16		गि म				
		4 रजु	पुत्री	अवि	15		गि वधा 9				
		5 प्रकाश	पुत्र	अवि	13		गि वधा 7				
918	1144	श्री मोहनलाल पालरेवा पुत्र श्री हरचंदजी	प प्र	वि	53	मैट्रिन	सुरीय	जन रोमा		फोन 105	श्रीगा
		2 चान्दर	पत्नी	वि	50						श्री लक्ष्मण स्वरूप एण्ड नम्पनी, हिंदु- स्तान रेट्रो वप्प, रोमा, फोन 105
		3 महावीरप्रसाद	पुत्र	अवि	23	बी ए, बी एड	गिदाव				पीपली का पातवपात, त नारासोट, जयपुर जे क मिडिटिव रोडा
		4 सुमीना	पुत्री	अवि	18	बी ए					
		5 अमरचं	पुत्र	वि	27	हा स	नोकरी				
		6 मजुना	पुत्रवधू	वि	25	बी ए					
919	2257	श्री सिरहमल पालेचा पुत्र श्री गणेशमदजी	प प्र	वि	63	मैट्रिन	सवानिहृत	पुत्रिना 2 स्वे त		552, दौत निवास, उपमाग, तिनवनगर, जयपुर फोन 68373	
		2 उच्चवकवर	पत्नी	वि	58	गाक्षर					
		3 मथाईमल	पुत्र	वि	38	मी ए	रेडिट				
		4 चित्रवलक्ष्मी	पुत्रवधू	वि	36						
पिछोतिया											
920	701	श्री प्रकाशचंद पिछोतिया पुत्र श्री विमलराजजी	प प्र	वि	31	बी ए, एनएन बी	कॉन्स्ट्रिक्शन			मूना रमागर 3770, गणगोरी (गिरोही) बाजार पुनर्दिन जी	राज विद्यालय, जयपुर फोन 61321

2 प्रकाश
3 बसन्तकुमार दक

पत्नी वि.
साला अवि.

28 सैक.
26 एम.कॉम
एलएल.बी.(द्वि.व.)

कनिष्ठ लिपिक

पुत्र-2

का नोहरा, जयपुर

एक्सटे-245
राज. विधानसभा,
जयपुर

पीपाड़ा

921 831 श्री निर्मलकुमार पीपाड़ा
पुत्र श्री नौरतनमलजी

प प्र

26 हा.सै.

रत्न व्यवसाय

श्वे स्था अजमेर

म न. 4163, रामगज
बाजार, श्याम भवन,
जयपुर,
फो. न. 40335

2 नौरतमल

पिता वि.

55 मिडिल

गोटे का व्यापार

3. सम्पतकवर

माता वि.

49 साक्षर

4 प्रमोदकुमार

भ्राता अवि

23 एम काम

5 अनिताकुमारी

बहिन अवि.

18 सैक

6. अनिलकुमार

भ्राता अवि

16

शि. सैक

पुत्र-1, पुत्री-1

922 881 श्री भीमसिंह पीपाड़ा
पुत्र श्री उगमसिंहजी

प.प्र वि.

50 मैट्रिक

प्राइवेट सर्विस

श्वे स्था

म नं 4806 के जी बी
का रास्ता, सौतियो की
गली, जयपुर

2 कमलादेवी

पत्नी वि

45 मिडिल

3. सुरेशकुमार

पुत्र अवि.

25 मिडिल

प्राइवेट सर्विस

4. सुनीताकुमारी

पुत्री अवि.

21 सैक.

5 अनिलकुमार

पुत्र अवि.

18 मिडिल

923 795 श्री महासिंह पीपाड़ा
पुत्र श्री मूलचन्दजी

प प्र. वि

61 मिडिल

सर्विस

श्वे स्था

श्री दीपचन्द सुकलेचा सागर ज्वैलर्स,
कामकान,एम.एस बी. जौहरी बाजार,
का रास्ता, जयपुर, जयपुर
फो न 42830 राज. आ. मण्डल,
जयपुर

2 पन्नाबाई

पत्नी वि

44 साक्षर

3. अशोककुमार

पुत्र वि.

25 मिडिल

सर्विस

4. मजूकुमारी

पुत्रवधू वि

22

पुत्र-1, पुत्रिया-2

924 997 श्री सहेन्द्रसिंह पीपाड़ा
पुत्र श्री कन्हैयालालजी

प प्र वि.

32 इण्टर

मुनीम

श्वे स्था. उवरेला
(अजमेर)

10/930 भण्डारी
सदन, गोरधननाथ की कारपो, आलूदा
गली, एस.बी.बी जे हाउस, चौड़ा रास्ता,
के पीछे, चौड़ा रास्ता, जयपुर, फो 68276
जयपुर

2 पारसदेवी

पत्नी वि

29 साक्षर

पुत्र-2, पुत्रिया-3

925 1160 श्री लाडूसिंह पीपाड़ा
पुत्र श्री मूलचन्दजी

प प्र वि

43 मैट्रिक

दलाली

श्वे स्था

'ए वन' चश्मे वाले
के पास, चौड़ा रास्ता,
जयपुर

2 उमरावदेवी

पत्नी वि.

37

3. माधुरी

पुत्री अवि.

20 बी.ए., बी एड

अध्यापिका

4. नीरू

” ”

17

शि बी ए.(प्र.व)

		7. कमलादेवी	भ्रा वधू	वि.	39	मैट्रिक			
		8. कुशलचन्द	भतीजा	अवि.	16		शि. हा.सं		
		9. धर्मन्द्र	"	अवि.	14		" कक्षा 9		
		10. दीपक	"	अवि.	13		" कक्षा 8		
		11. विनीता	भतीजी	अवि.	17		" वी ए. (प्र.व.)		
		12. अजु	"	अवि	16		" हा.सं.		
929	913	श्री नरेन्द्र पुंगलिया पुत्र श्री अमरसिंहजी	प प्र.	वि	25	वी ए	प्लास्टिक के थोक व्यापारी	श्वे स्था. बघेरा (केकडी)	गुलाबचन्दजी घड़ी साज का मकान, पुरानी कोतवाली, जयपुर
		2. आशा	पत्नी	वि.	21	वी ए.			
		3. राजेन्द्र	भ्राता	अवि.	20	संके.			
		4. राकेशकुमार	"	अवि.	13		शि. कक्षा 6		
930	35	श्री पूनमचन्द पुंगलिया पुत्र श्री इन्दरचन्दजी	प प्र.	वि.	34	इण्टर	व्यवसाय	श्वे.ते. सरदारशहर	ए-61, लक्ष्मी- नारायणपुरी, जयपुर, फो.नं. 44087
		2. सरोजदेवी	पत्नी	वि.	30	मिडिल			फ्रेण्ड्स कलर एण्ड कैमिकल, सूरजपोल गेट से बाहर, पी पी जयपुर
931	398	श्री रूपचन्द पुंगलिया पुत्र स्व श्री हरकचन्दजी	प. प्र	विधुर	50	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	1356, पीतलियों का रास्ता, जोहरी बाजार. जयपुर
		2. गणेशवाई	माता	विधवा	45				
		3. माधोलाल	भ्राता	अवि	70	साक्षर	रत्न व्यवसाय		
		4. सुधीला	भ्रा वधू	विधवा	40	साक्षर			
		5. गुमानचन्द	भ्राता	वि.	45	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
		6. सेमचन्द	भ्राता	वि.	35	मिडिल	रत्न व्यवसाय		
		7. प्रेमलता	भ्रा वधू	वि	32	मिडिल			
		8. सज्जनदेवी	भ्रा वधू	वि.	40	मिडिल			
		9. महेशचन्द्र	भतीजा	अवि.	23	साक्षर	रत्न व्यवसाय		
		10. अशोककुमार	भतीजा	अवि.	21	मिडिल	रत्न व्यवसाय		
		11. महेन्द्रकुमार	भतीजा	अवि.	19		शि कक्षा 10		
		12. राजेशकुमार	भतीजा	अवि	15		शि कक्षा 8		
		13. मीनाकुमारी	पुत्री	अवि	16		शि. कक्षा 10		
		14. सगीताकुमारी	पुत्री	अवि	14		शि कक्षा 9		
		15. अनिता	पुत्री	अवि	13		शि कक्षा 9		
932	873	श्री विजयकुमार पुंगलिया पुत्र स्व श्री चम्पालालजी	प. प्र	वि.	30	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे स्था,	सुखलेचा हाउस, म.न. 1995, पीतलियों का

पुत्र-1, पुत्री-1

पुत्री-1

पुत्र-2, पुत्रियाँ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	1752	5 राजेश	पुत्र	॥	13		शि स	पुन-1	श्वे स्या भिनाय (प्रजमेर)	न न 1996, पीत लियो वा चोक, जोहरी बाजार, जयपुर, फो न 68243 82569	वागलिय सौभाग मलजी गोमुनचदजी पु गलिया ज्वलस जोहरी बाजार, जयपुर फो न 42644 जयपुर नागोर प्रांच लिक बक, जयपुर वन प्रांच बडौदा मे प्राफिसर, जयपुर स्टेट बैंक प्रांच वीवा- नेर एण्ड जयपुर, जयपुर
		6 बीनू	पुत्री	॥	16		शि बी ए (प्र व)				
		श्री सम्पतराय पोपाडा	प प	वि	65	बी कॉम		प्राउटेट			
		पुत्र स्व श्री हृदरमलजी									
		2 वैसरदेवी	पत्नी	वि	59	साक्षर					
		3 रपुनाभविह	पुत्र	वि	33	इ जी, एम कॉम		सोनियर टेक् प्रसि राज वि विशालय			
		4 वीगा	पुत्रवधू	मि	30	बी ए, एलएन बी		बैंक सेवा			
		5 महेश्रिंह	पुत्र	वि	31	एम एससी		बैंक सेवा			
		6 शिमला	पुत्रवधू	वि	25	बी ए					
		7 भायचंद	पुत्र	मि	29	बी एससी, एलएन बी		बैंक सेवा (कलक)			
		8 सुधा	पुत्रवधू	वि	24	बी कॉम					
		9 अशोककुमार	पुत्र	वि	27	एम एससी		बक सेवा			
10 मधु	पुत्रवधू	वि	22	एम ए							
11 सुभाषचंद	पुत्र	प्रवि	25	बी कॉम, एलएल बी		बैंक सेवा (बॉइन नोट एग्जामिनर)					
12 यशवन्तप्रुमार पु गलिया	पुत्र	प्रवि	23	चाट्ट एपाउटेट		प्रेक्टिस	पुन-3, पुत्री-1				
927	571	श्री अशोककुमार पु गलिया पुत्र श्री उमरावमलजी	प प्र	वि	40	मट्रिक	वमीशन एजेट	अन		1 न 10 जवाहर नगर, जयपुर	
		2 सन्तोषदेवी	माता	विधवा	56						
		3 मजू	पत्नी	वि	38	इटर					
928	2151	श्री गोपीचंद पु गलिया पुत्र श्री जारावरमलजी	प प्र	प्रवि	55	साक्षर	प्रध्यापिका राज्य सेवा	पुन 3		पु गलिया हाउस, एम एस बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	मेडिकल एण्ड हेलथ डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार, जयपुर
		2 प्रेमदेवी	भाभी	विधवा	66	साक्षर					
		3 शान्तिचंद	भतीजा	वि	45	मेट्रिक					
		4 विमलचंद	॥	वि	42	बी कॉम	राज्य सेवा				
		5 पदमचंद	,	वि	38	इटर	रत्न व्यवसाय				
		6 इन्द्रादेवी	भ्रा वधू	वि	41	निहित	रत्न व्यवसाय				

		7 कमलादेवी	भ्रा.वधू	वि.	39	मैट्रिक			
		8. कुशलचन्द	भतीजा	अवि.	16		शि. हा.सै		
		9. घमोन्द्र	"	अवि.	14		" कक्षा 9		
		10 दीपक	"	अवि.	13		" कक्षा 8		
		11. विनीता	भतीजी	अवि.	17		" बी ए (प्र.व.)		
		12. अजु	"	अवि	16		" हा सै.		
929	913	श्री नरेन्द्र पुंगलिया पुत्र श्री अमरसिंहजी	प.प्र	वि	25	बी ए	प्लास्टिक के थोक व्यापारी	श्वे.स्था. बघेरा (केकडी)	गुलाबचन्दजी घड़ी साज का मकान, पुरानी कोतवाली, जयपुर
		2. आशा	पत्नी	वि.	21	बी ए.			
		3 राजेन्द्र	भ्राता	अवि.	20	सैके.			
		4. राकेशकुमार	"	अवि.	13		शि कक्षा 6		
930	35	श्री पूनमचन्द पुंगलिया पुत्र श्री इन्दरचन्दजी	प प्र	वि.	34	इण्टर	व्यवसाय	श्वे.ते. सरदारशहर	ए-61, लक्ष्मी- नारायणपुरी, जयपुर, फो.नं. 44087
		2. सरोजदेवी	पत्नी	वि.	30	मिडिल			फ्रेण्ड्स कलर एण्ड कैमिकल, सूरजपोल गेट से बाहर, पी पी जयपुर
931	398	श्री रूपचन्द पुंगलिया पुत्र स्व श्री हरकचन्दजी	प. प्र	विधुर	50	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	1356, पीतलियो का रास्ता, जौहरी बाजार. जयपुर
		2 गरेशवाई	माता	विधवा	45				
		3. माधोलाल	भ्राता	अवि	70	साक्षर	रत्न व्यवसाय		
		4. सुशीला	भ्रा वधू	विधवा	40	साक्षर			
		5 गुमानचन्द	भ्राता	वि.	45	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
		6 खेमचन्द	भ्राता	वि.	35	मिडिल	रत्न व्यवसाय		
		7. प्रेमलता	भ्रा वधू	वि	32	मिडिल			
		8. सज्जनदेवी	भ्रा वधू	वि	40	मिडिल			
		9 महेशचन्द्र	भतीजा	अवि	23	साक्षर	रत्न व्यवसाय		
		10. अशोककुमार	भतीजा	अवि.	21	मिडिल	रत्न व्यवसाय		
		11. महेन्द्रकुमार	भतीजा	अवि.	19		शि. कक्षा 10		
		12 राजेशकुमार	भतीजा	अवि.	15		शि कक्षा 8		
		13. मीनाकुमारी	पुत्री	अवि	16		शि. कक्षा 10		
		14. सगीताकुमारी	पुत्री	अवि	14		शि. कक्षा 9		
		15. अनिता	पुत्री	अवि.	13		शि कक्षा 9		
932	873	श्री विजयकुमार पुंगलिया पुत्र स्व श्री चम्पालालजी	प. प्र	वि.	30	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे.स्था,	सुखलेचा हाउस, म.न. 1995, पीतलियो का

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
943	632	श्री सुरेन्द्रकुमार पोखरना पुत्र श्री मनाहारमिहजी	प प्र	वि	39	इष्टर	विश्वविद्यालय मेवा	ज न	बानाड (उदयपुर)	7 न 23, ब्रवाहर गमर बयपुर, पा न 43879	टिजी मचिय कुलपति, राजस्थान विश्वविद्या लय जयपुर पा म 72063
		2 निर्मना	पत्नी	वि	38	मैट्रिग					
		3 सजय	पुत्र	धवि	18		नि बी ए (टि व)				
		4 सुनीन	पुत्र	धवि	15		नि हा म				
944	681/ 1903	श्री सोहनलाल पोखरना पुत्र स्व श्री नरमोलाचारी	प प्र	वि	52	मैट्रिग	निजी महायम	र व इ	बानाड (उदयपुर)	36 महावीरनगर, टाक रोड, गांधी शाम क पास, जयपुर	गतिवालय, विस विभाग, जयपुर
		2 जगकुवर	पत्नी	वि	45	मिडिंग					
		3 चन्द्रबान्ना	पुत्री	धवि	23	एम ए					
		4 सुगीपनुमार	पुत्र	धवि	21	बी बीएम	नि एमएन बी				
		5 मगीना	पुत्री	धवि	19		नि बी ए (टि व)				
		<u>फाफू</u>									
945	1643	श्री सुमितकुमार फाफू पुत्र श्री रावकुमारमिहजी	प प्र	वि	50	सी इन्जिन		ज न	भागलपुर	4319, के जी बी वा रागा, इगु हाउस, जयपुर, पा न 43856	पंडावन हाउस एम एम जी वा गछा, जयपुर पो न 41754
		2 निमलाकुमारी	पत्नी	वि	40	मैट्रिग					
		3 श्री धामनुमार	पौत्र	धवि	19		नि बी एमबी (टि व)				
		4 त्रिरीपकुमार	पौत्र	,	13		नि कडा 7				
		<u>कूलफगर</u>									
946	2326	श्री नरपतसिंह कूलफगर पुत्र स्व श्री मानीचानजी	प प्र	वि	26	सक	गोररा	र व म		5205, रेपल बी बाडी, घाटगेट, जयपुर	
		2 रुचनबी	माता	विधवा	45	गागर					
		3 प्रभादेवी	भ्रा बधु	वि	26	मिडिंग					
		4 विमलेश	पत्नी	वि	21	मक					
		5 लविना	भ्रा बधु	वि	19	मिडिंग					
		6 सपतराज	भ्राया	धवि	21		सक				
		7 मनु	बहिन	धवि	16		"				
947	1564	श्री धरमराज कूलफगर पुत्र श्री ग्राहननाचारी	प प्र	वि	32	एम बीएम	घनिस्टेट पी डर	र व म	बाधपुर	48 व 2, ग्जोटिगर, जयपुर	राजस्थान इंफ्रस्ट्रुक्च कॉर्पोरेशन, जयपुर, पा न 78751
		2 मुख्या	पत्नी	वि	25	सक					

पुन-1, पुनी-1

948	2325	श्री बाबूलाल फूलफगर पुत्र श्री चम्पालालजी	प प्र	वि	47	वी कॉम	कलर फॅक्ट्री	श्वे ते.	15 बरडिया कॉलोनी फो.न. 75629 जयपुर फो न 64268
		2. केशरदेवी	पत्नी	वि.	44				
		3. आलोक	पुत्र	वि	20	वी कॉम			
		4. उषा	पुत्रवधू	वि	18	मैट्रिक			
		5. राजकुमार	पुत्र	अवि	19	वी कॉम.			
		फोफलिया							
949	1889	श्री अशोककुमार फोफलिया पुत्र श्री अमरचन्दजी	प प्र.	वि	29	एम कॉम ,पीएच डी.	व्याख्याता	जैन	520, हनुमानजी का राजस्थान विश्व- रास्ता, मोती प्रेस के विद्यालय, जयपुर पास, जयपुर
		2 शकुन्तलादेवी	माता	विधवा	40				
		3. कुसुम	पत्नी	वि	24	एम.ए. (अर्थ)			राज. पर्यटन विभाग
		4. अरुणकुमार	भाई	अवि	24	एम कॉम ,एम फिल.	नौकरी		पुलिस मेमोरियल, फो.नं 78748
		5 इन्द्रा	बहिन	„	20	वी ए			
		6. मीना	„	„	18	वी ए.			
		7. अजयकुमार	भ्राता	„	16		शि. वी कॉम(प्र व.)		
950	1485	श्री उम्मेदमल फोफलिया पुत्र स्व. श्री छट्टनलालजी	प प्र.	वि	36	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	फोफलिया भवन, 538, हनुमानजी का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर फो न 75550
		2 मीनादेवी	माता	विधवा	69				
		3. मधु	पत्नी	वि	32	वी ए.			
951	1780	श्री कर्मचन्द फोफलिया पुत्र श्री राजमलजी	प. प्र	वि.	31	साक्षर	रत्न व्यवसाय	जन	2072, बारह गणगौर का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर फो न. 46795 पी.पी
		2. वीणा	पत्नी	वि	31	मैट्रिक			
952	620	श्री कुशलचन्द फोफलिया पुत्र श्री गोकुलचन्द	प. प्र.	वि.	43	वी ए	व्यापार	श्वे जैन	5-भू-17, जवाहर नगर, जयपुर फो न 852517
		2. लक्ष्मीदेवी	पत्नी	वि	40	मैट्रिक			बम्ब सदन, बारह गणगौर का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर
		3. सजय	पुत्र	अवि	22	वी.कॉम. (आनर्स)	व्यापार		फो.नं. 75117
		4. किट्टी	पुत्री	अवि	18		शि वी ए (द्वि व)		
953	395	श्री कृष्णकुमार फोफलिया पुत्र श्री राजमलजी	प प्र	वि	32	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे. जैन	म. न. 2072, बारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2 शशि	पत्नी	वि	28				फो न 77664

पुत्र-1

पुत्रियां-2

पुत्र-2, पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
954	1470	श्री गोपीचन्द फोकलिया पुत्र श्री बच्चूबालजी	प प्र	वि	35	बी राँम	रत्न लता	श्व जा		520	हनुमानजी का रास्ता, जयपुर	
		2 बाता	पत्नी	वि	33	मैट्रि			पुत्र 2 पुत्री 1			
955	1629	श्री गोविन्दसिंह फोकलिया पुत्र श्री मञ्जनसिंह जी	प प्र	वि	49	एम ए, बी एड	रत्न ब्यवसाय	श्वे म	मन्मोर (म प्र)	1	बसवपथ, सईया गञ्जिन, सी स्वीम, जयपुर	1215, प्राचारवाला की गली, परतानिया का रास्ता, जोड़ी बाजार जयपुर
		2 चन्दनबाता	पत्नी	वि	47	एम ए बी एड						
		3 राजीव	पुत्र	अवि	22	बी राँम	मि एम राँम					
		4 बदा	पुत्री	अवि	19		मि एम राँम (जी)		पुत्री 1			
		5 चाँदबाई	माता	विषवा	70							
956	752	श्री छट्टनलाल फोकलिया पुत्र श्री जमराजजी	प प्र	वि	63	मैट्रि	बपटा ब्यवसाय	श्वे न		म र	2397, जोड़ी बाजार, धीवाता का रास्ता, जयपुर	
		2 मैनासुन्दरी	पत्नी	वि	59	साक्षर						
		3 अतिता	पुत्री	अवि	24	बी ए						
		4 नवीन	पुत्र	अवि	21	बी राँम	बपटा ब्यवसाय					
957	323	श्री जतनमल फोकलिया पुत्र श्री छट्टनलालजी	प प्र	वि	56	मैट्रि	रत्न ब्यवसाय	श्वे म		538,	पाण्डिया भवन, हनुमानजी का रास्ता, जयपुर	
		2 प्रभुता	पत्नी	वि	49	बंध विचारद मैट्रि						
		3 मोहनमल	पुत्र	वि	38	बी ए	रत्न ब्यवसाय					
		4 बनिना	पुत्रवधु	वि	32	बी ए						
		5 धारतकुमार	पुत्र	अवि	20	बी ए						
		6 अमिता	पुत्री	अवि	23	एम ए				पुत्र 2, पुत्रिया 3		
958	67	श्री नवीनकुमार फोकलिया पुत्र स्व श्री नपूरचण्डी	प प्र	वि	35	इंटर, डिप्लोमा मेकनिक्ल इंजी	रत्न ब्यवसाय	श्वे म	नमन	प्लॉट न 2, गोविन्द मार्ग, वाल मन्दिर स्कूल के सामने, मोती कुमरी रोड, जयपुर		
		2 मोन्दीदेवी	माता	विषवा	60							
		3 मान	पत्नी	वि	30							
		4 अमित	पुत्र	अवि	13		मि बसा 8		पुत्री 1			
959	1487	श्री वारसमल फोकलिया पुत्र श्री छट्टनलालजी	प प्र	वि	45	बी ए	रत्न ब्यवसाय	जा		म र	538, काफ़ामिया भवन, हनुमानजी का रास्ता, जयपुर	
		2 पवनकुमारी	पत्नी	वि	39	मैट्रि						
		3 प्रमप्रकुमार	पुत्र	अवि	19		मि बी ए (डि व)					
		4 सुमन	पुत्री	अवि	18		मि बी ए (प्र न)		पुत्र 1			

960	372	श्री मानमल फोफलिया पुत्र श्री छुट्टनलालजी	प प्र	वि.	49	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे म	म न. 538, फोफलिया भवन, हनुमानजी का रास्ता, जयपुर
		2. पितुलकुमारी	पत्नी	वि	42	मिडिल			
		3. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	20	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
		4 राजा	पुत्र	अवि	18	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
		5. ऋपभ	पुत्र	अवि.	17		शि. बी कॉम		
961	804	मिलापचन्द फोफलिया पुत्र श्री राजमलजी	प प्र.	वि.	34	मैट्रिक	जनरल मर्चेन्ट	श्वे जै.	2072 बारह गणगीर का रास्ता, जयपुर
		2 विजयलक्ष्मी	पत्नी	वि.	30				
962	432	श्री रवीन्द्रकुमार फोफलिया पुत्र स्व. श्री कानमलजी	प.प्र.	अवि.	22	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे.म.	538, हनुमानजी का रास्ता, फोफलिया भवन, जयपुर
		2 सुशीलादेवी	माता	विधवा	35				
963	2304	श्री राजमल फोफलिया पुत्र श्री गोपीचन्दजी	प प्र	वि.	70			श्वे ते	2072 बारह गणगीर का रास्ता, जयपुर, फो न 63763पी पी
		2 उमादेवी	पत्नी	वि	68				
		3. मिलापचन्द	पुत्र	वि	28				
		4. विजयलक्ष्मी	पुत्रवधू	वि	25				
		5 विमलचन्द	पुत्र	वि.	26				
		6 रेखा	पुत्रवधू	वि.	24				
964	31	श्री विनयचन्द फोफलिया पुत्र श्री राजमलजी	प.प्र.	वि	46	मैट्रिक	सर्विस	श्वे ते.	2072 बारह गणगीर जमनालाल शकर का रास्ता, जीहरी लाल, एफ. 308 बाजार, जयपुर-3 त्रिपोलिया बाजार, फो न 63733पी पी जयपुर
		2. स्नेहलता	पत्नी	वि	37	मिडिल			
		3 प्रदीपकुमार	पुत्र	अवि.	20	मैट्रिक			
		4 सदीपकुमार	पुत्र	अवि.	17		शि. हा सै		
		5 तिलक	पुत्री	अवि.	13		शि कक्षा 6		
965	1488	श्री सुमेरमल फोफलिया पुत्र स्व श्री छुट्टनलालजी	प प्र	वि.	39	हा सै	रत्न व्यवसाय	जैन	538 फोफलिया भवन, हनुमान जी का रास्ता, जयपुर फो.न 75550
		2 अजना	पत्नी	वि	35	मैट्रिक			
		3. श्रेयासकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि कक्षा 6		
		4. विनोदकुमार	भानजा	अवि	22		शि. बी.ए. (अ.व.)		
966	2303	श्री ज्ञानचन्द फोफलिया पुत्र श्री राजमलजी	प प्र	वि	55	साक्षर	व्यापार	श्वे.ते.	पटोलिया विल्डिग 2444, घी वालो का

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 पारसदेवी	पत्नी	वि	51	साक्षर				रास्ता, त्रौहरी बाजार	
		3 प्रेमचन्द	पुत्र	वि	34	बी ए (टि व)	व्यापार			जयपुर पो न 44799	
		4 कचन	पुत्रवधू	वि	30	बी एमसी					
		5 भगवानशम	पुत्र	वि	28	एम बीएम	रति केपारार				स्वाधीय विधि
		6 प्रेमलता	पुत्रवधू	वि	23	बी ए					धर्मशास्त्र विभाग, राज
		<u>बच्छावत (महता)</u>									जयपुर
967	827	श्री निमलकुमार बच्छावत	प	प्र	वि	33	बी एम	रस्त दतारी	रवे म		सी 184, बाग माा
		पुत्र श्री साधवन्जी									तिरानगर, जयपुर,
		2 जतन	पत्नी	वि	29	हा म					पो न 47470
968	285	श्री मानचन्द बच्छावत	प	प्र	वि	70	मैट्रि	मवातिशूत	रवे म		एम बी 184 ए,
		पुत्र श्री नेमीचन्दजी									जवाहरराज तहक भाग,
		2 प्रेमकुमारी	पत्नी	वि	64	साक्षर					बापूतगर जयपुर
		3 कमलचन्द	पुत्र	वि	40	बी ई (मेने)	इजीगियरिंग मरा				पो न 63737
		4 सुमित्रा	पुत्रवधू	वि	35	एम ए					सीकव बाँटा एण्ड क
		5 विमलचन्द	पुत्र	वि	33	एम ए	बैक म				धापर हाउस जनपथ,
		6 प्रमिला	पुत्रवधू	वि	24	बी ए					22ए, नई दिल्ली
969	355	श्री मोहनसिंह बच्छावत	प	प्र	विपुत्र	65	मैट्रि	मेवा निरुत	रवे म	बीरारो	प्लान न 39, एक्स्टेन्ड,
		पुत्र श्री रामचन्दजी									नागोरी, जयपुर
		2 कुशरसिंह	पुत्र	वि	37	मैट्रि	उद्योग				
		3 बादामदेवी	पुत्रवधू	वि	33	मैट्रि					
		4 विमलसिंह	पुत्र	वि	31	इंटर	बिगारी री दुका				
		5 शक्ति	पुत्रवधू	वि	29	मैट्रि					
		6 सुरद्रकुमार	पुत्र	धवि	25	बी ए	वा गोपरी				
		7 महावीर	पुत्र	धवि	23	इंटर	दुका				
		8 विजयकुमार	पुत्र	धवि	13		मि कमा 9				
970	1885	श्री रमेशचन्द बच्छावत	प	प्र	वि	44	बी ए	मनेट्री	रवे म		2535, महता राउग घा सी एम
		पुत्र स श्री काचन्दजी									पाटोटे जयपुर 3
		2 सुनीता	पत्नी	वि	39	बी ए					धर्मतर
		3 मन्नता	पुत्री	धवि	16		मि सं				

रीज 1, पोरी 1

पुत्र-2

पुत्र 2

पुत्र-1, पुत्री 1

पुत्र-1

971	1492	श्री लाभचन्द बच्छावत पुत्र श्री जानचन्दजी	प. प्र	वि.	55	नीकरी	श्वे.म.	सी-184, ज्ञान मार्ग, तिलकनगर, जयपुर	यू. को. बैंक, जयपुर	
		2. ममन्दरकंधर	पत्नी	वि	50			फो.न.68143		
		3. निर्मलकुमार	पुत्र	वि	33	बी.कॉम.	व्यापार	,, 47670		
		4. जतन	पुत्रवधू	वि.	30	हा सै.				
		5. त्रिनोदकुमार	पुत्र	वि	29	बी.ए.(द्वि.व.)	व्यापार			
		6. वन्दना	पुत्रवधू	वि	26	हा सै.				
972	1801	श्री सुनील बच्छावत पुत्र श्री जतनसिंहजी	प. प्र	वि	25	बी कॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे.म	3/105, जवाहरनगर, फो. नं. 43667	
		2. विमलादेवी	माता	विधवा	48					
		3. सगीता	पत्नी	वि.	23	बी.एससी.(गृ. वि.)				
		बड़ला, बडाला								
973	1437A	डा. चैतनसिंह बड़ला पुत्र श्री लक्ष्मीचन्दजी	प. प्र.	वि	46	एम ए.,एम.एससी. पी.एच डी.	अध्यापन	श्वे.स्था. कोटा	एल.वन.ए, विश्व- विद्यालय प्रागण, जयपुर, फो. न. 62304	अर्थशास्त्र विभाग, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर, फो नं. 60271/269
		2. शाता	पत्नी	वि	42		शि. सी ए			
		3. पकज	पुत्र	अवि	20	बी.कॉम.				
		4. अतुल	पुत्र	अवि	16		शि. सै.			
974	2165	श्री पूर्णचन्द बडाला पुत्र श्री खूमाणचन्दजी	प.प्र	वि	53	विशारद	सहा. विकास अधिकारी	श्वे.ते. उदयपुर	बी-106, यूनिवर्सिटी मार्ग, बापू नगर, जयपुर	खादी ग्रामोद्योग कमीशन, 7, सहदेव मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
		2. कमला	पत्नी	वि	50	मिडिल				
		3. प्रज्ञा	पुत्री	अवि.	21	बी.एससी., एम,ए	बेरोजगार			
		4. उपाकिरण	पुत्री	अवि	19		शि. एम.ए. (पूर्वा)			
		5. पारिजात	पुत्र	वि.	29	एम एससी.	लेफ्टीनेन्ट जलसेना			
		6. शाता	पुत्रवधू	वि	28	एम.ए ,बी.एड			भारतीय नौ सेना, विशाखापट्टनम	
		बडेर								
975	430	श्री उत्तमचन्द बडेर पुत्र श्री उमरावमल	प प्र.	वि	44	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय	श्वे म	सी-80, विजयपथ, गुरुनानकपुरा, जयपुर, फो.न 49055	जैनसन ज्वैलर्स, चाकसू का चौक, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो न 43540
		2. इचरजवाई	माता	विधवा	64	साक्षर				
		3. विमला	पत्नी	वि.	38	मिडिल				
		4. नरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	18		शि. बी.कॉम (तृ व)			
		5. अजू	पुत्री	अवि.	16		शि. बी.ए (प्र व)			
		6. सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	14		शि. हा सै.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
976	1807	श्री पूनामचंद बडेर पुत्र श्री हजारीमलजी 2 कुमनप 3 कुमुम	प प्र पुत्र पुत्रवधू	विपुत्र वि वि	72 34 32	माधर हा म हा म	विशाम रत व्यवसाय	रत रथा		14, तम्बोगाही राड, मोती झू मरी ने मागणे, जयपुर, पो न 69665	बडेर नवा पयमलजी वा चौर, जोहरी बाजार जयपुर पा न 40923, 41223
977	968	श्री शान्तिचंद बडेर पुत्र श्री मिनापचंदजी 2 रजनी 3 मधुबाला	प प्र पत्नी बहिन	वि वि धनि	35 28 22	बी बॉम बी ल 22	रत व्यवसाय मि बी ल (टू व)	रत		नो/117, मिवाजी माग, तिरवागड, जयपुर	999 दोर बिल्डिंग, मोवाल जी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर
978	1810/ 1139	श्री हरीशचंद्र बडेर पुत्र श्री पूनामचंदजी 2 मरदारकुमारी 3 देवेन्द्र 4 सुवीला 5 महेंद्र 6 हिमाली बडोला	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि वि वि वि वि वि	50 28 24 23 21	मैट्रिग मिशित बी बॉम मैट्रिग बी ल (जी जी) बी ए	रत व्यवसाय रत व्यवसाय रत व्यवसाय	रते रथा		15, तम्बोगाही रोड जयपुर पा न 73099	बडेर नवन, पयमलजी वा चौर, जोहरी बाजार जयपुर
979	405/ 271	श्री जोहरीलाल बडोला पुत्र श्री देवहरणजी 2 चांदवाई 3 दामकुमारी 4 नेमीचं 5 मरौज 6 उषा 7 पवनकुमार 8 कुमनचंद 9 मीनू	प प्र चाची पत्नी पुत्र पुत्रवधू पत्नी पुत्र पुत्र पुत्री	वि विषया वि वि धनि , , , "	56 54 40 30 28 22 19 16 13	मिनिग माधर हा म " बी ल हा म , , "	प्रा गजिम रतापी रत व्यवसाय " " मि वस्ता 9	रते रथा	विजेगड	म नं 1188, परता विवा रा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर पो न 44218, 42272	मै रतापचंजी भाड- पूर, एम एम बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, पो न 44218, 42272
980	2182	श्री एम कुमार बडोला पुत्र श्री मोहनमालजी 2 शान्तिश्री	प प्र पत्नी	वि वि	33 30	एम ई बी ए				राजमग	296, मिनि माग, वापूगड, जयपुर

पुत्र 1, पुत्री 1

पुत्रियो-2

पुत्री 2

981	1423	श्री हस्तीमल पुत्र श्री मदनलालजी 2. चचल 3. पूनमचन्द बदलिया	प.प्र. पत्नी भाई	वि. वि. वि.	25 23 22	वी.काँम , आई सी डब्ल्यू ए.(इन्टर) एम.काँम. शि. एम.काँम	लेखाकार जैन	भीलवाडा	डी-249-ए, टोडर- मल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-7 फो न.75055पी पी.	ओसवाल केवल्स क., आकाशवाणी के पास, कृष्णायतन, एम आई.रोड, जयपुर
982	1481	श्री उम्मेदकुमार बदलिया पुत्र स्व. श्री पदमचन्दजी 2. रजवन्तीदेवी	प प्र. माता	अवि. विधवा	20 65	सै. रत्न व्यवसाय	श्वे म.	भुंभनूं	नथमलजी का चौक, के जी.बी. का रास्ता, जयपुर	
983	743	श्री सुमतिचन्द बदलिया पुत्र स्व. श्रीपूरणचन्दजी 2. सुशीला 3 अर्चनाकुमारी	प.प्र. पत्नी पुत्री	वि. वि. अवि	44 37 15	एम.काँम सैक. शि सै.	व्यवसाय	हरियाणा	डी/60 पत्रकार कॉलोनी, आदर्श नगर, जयपुर	आर.जे. ट्रेडिंग कम्पनी, अग्रवाल मार्केट, 1014, मिश्रराजाजी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर
बम्ब										
984	1277	श्री राजेन्द्र बम्ब पुत्र श्री केशरीलालजी 2. मजू	प प्र. पत्नी	वि. वि.	25 21	मैट्रिक वी.काँम.	व्यवसाय	श्वे.स्था	510, पारस कुटीर, गरागौरी बाजार, जयपुर	अजय टी कम्पनी, जाट के कुए का रास्ता, जयपुर
986	1203	श्रीमती पुष्पा बम्ब पत्नी श्री समीरमलजी 2. रेखा 3. पुखराज	प प्र. पुत्री पुत्र	विधवा अवि अवि	38 20 18	बी ए. बी.एड वी.काँम वी.एस.सी.	अध्यापिका	श्वे स्था. टौक	म.नं. 5733, कालो का मोहल्ला, के.जी बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	राजकीय स्कूल, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर
987	441	श्री भंवरलाल बम्ब पुत्र श्री लक्ष्मीचन्दजी 2. कंचनदेवी 3 विनोदकुमार 4. उर्मिला 5. सुशीलकुमार 6. सरोज	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्री	वि. वि. वि. अवि अवि	49 46 26 22 19 17	वी.काँम. वी.काँम वी.काँम ,एलएल.बी वी.ए शि. बी.काँम शि. बी ए.	व्यवसाय	श्वे स्था.	नाथू पहलवान के सामने, तेलीपाड़ा, चौडा रास्ता, जयपुर	ढड्डा मार्केट, जयपुर-3, फो न. 45651
988	1493	श्री मदनसिंह बम्ब पुत्र स्व. श्री चन्द्रसिंहजी 2. गोरादेवी	प प्र पत्नी	वि. वि.	38 31	सैक. मिडिल	नौकरी	श्वे.स्था	2871, गूजरो की गली, धी वालों का रास्ता, जयपुर	एन.बी सी फॅक्ट्री, हसनपुरा, टेपर डिबीजन, जयपुर

पुत्र-1, पुत्री-1

पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 मनु	दुग्दी	दरि	16		मि से				
		4 मरिगुण द	दुग्दी	दरि	14		मि मिरेप		दुग्दी 1		
957	621	भी मारमण मर	दरि	दरि	42	अ	अ मरे मर		मर मरे	मर 32 मर दुर	मर मर मर
	324	दुग्दी भी मरिगुण मर								मर मर	मर मर
		2 मरिगुण	दरि	दरि	63						मर मर 17431, 753
		3 मरिगुण	दरि	दरि	60						
		4 मरिगुण	दरि	दरि	38	मरे					
		5 मरिगुण	दुग्दी	दरि	17		मि मरे (मरे मरे)				
		6 मरिगुण	दुग्दी	दरि	17		मि मरिगुण (मरे मरे)				
		7 मरिगुण	दुग्दी	दरि	14		मरे मरे		दुग्दी 1		
990	1705	भी मरिगुण मर	दरि	दरि	42	मरे	मरे मर मर		मर मरे	मर मरे मर मरे मरे मरे	
		दुग्दी मर भी मरिगुण मर								मर मरे मर मरे मरे मरे मरे मरे	
		2 मरिगुण	दरि	दरि	38	मरे मरे				मर मरे मर मरे मरे मरे मरे मरे	
		3 मरिगुण	दुग्दी	दरि	21		मरे मर मरे			मर मरे	मर मरे
		4 मरिगुण	दुग्दी	दरि	7		मरे मर मरे			मरे मरे	मरे मरे
		5 मरिगुण	दुग्दी	दरि	17		मरे मरे			मरे मरे	मरे मरे
		6 मरिगुण	दुग्दी	दरि	14		मरे मरे				
991	2143	मरिगुण मर	दरि	दरि	4	मरे मरे मरिगुण मरे	मरे मरे मरिगुण मरे		मरे	मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	मर मरे मरे मरे
		दुग्दी मर भी मरिगुण मर								मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	
		1 मरिगुण	दरि	दरि	44					मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	मरे मरे मरे मरे
		2 मरिगुण	दरि	दरि	31	मरे मरे				मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	मरे मरे मरे मरे
		4 मरिगुण	दरि	दरि	76	मरे मरे	मरे मरे मरे			मर मरे	मरे मरे
		5 मरिगुण	दरि	दरि	23	मरे मरे					
		6 मरिगुण	दरि	दरि	28	मरे मरे	मरे मरे मरे				
		7 मरिगुण	दरि	दरि	22	मरे मरे	मरे मरे मरे				
		8 मरिगुण	दुग्दी	दरि	16		मरे मरे मरे				
		9 मरिगुण	दुग्दी	दरि	13		मरे मरे मरे				
102	105	भी मरिगुण मर	दरि	दरि	32	मरे मरे	मरे मरे मरे		मरे मरे	मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	मरे मरे मरे मरे
		दुग्दी मर भी मरिगुण मर								मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	
		1 मरिगुण	दरि	दरि	9					मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	मरे मरे मरे मरे
		2 मरिगुण	दरि	दरि	36	मरे मरे				मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	मरे मरे मरे मरे
		4 मरिगुण	दरि	दरि	3	मरे मरे	मरे मरे मरे			मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे मरे	मरे मरे मरे मरे

		५. विमलदेवी	भा.र.	वि.	35	सी.एन.सी.			
		6. अमरनाथ	प्रा.प.	वि.	34	मैट्रिक	रत्न व्यापार		
		7. देवराज	भा.र.	वि.	32	मैट्रिक			
		8. विमल	भा.ना	वि.	30	इन्टर	रत्न व्यापार		
		9. वैजदेवी	भा.र.	वि.	28	बी.ए.			
		10. मंगेश	पुणे	प्रवि.	13		वि. रक्षा 7		पुन-1, पुनी-1
००३	1306	श्री गणेशमल्लो बन्धु पुत्र श्री मंगेशमल्लो	प.प.	वि.	45		रत्न व्यापार	जंन	म.नं. 2073, पुणे श्री-116. विमल मल्ल, श्रीम. नौरा. पाठे ते मल्लो, विमल- जोहरी बाजार, जयपुर प.प. विमलमल्ल, जयपुर
		2. मंगेश	पुनी	वि.	40				
		3. गणेश	पुण	वि.	25	बी.ए.	रत्न व्यापार		
		4. मंगेश	पुण	प्रवि.	23		रत्न व्यापार		
		5. मंगेश	पुनी	प्रवि.	21		रत्न व्यापार		
		6. मंगु	पुनी	"	19		वि. मै.		
००४	2148	श्री गोदानराज बन्धु पुत्र श्री गणेशमल्लो	प.प.	वि.	55	माधर	मजदूरी	जे.स्वा.	म.नं. 4367, श्रीमल्लो का रास्ता, मंगेशमल्लो का बाजार, फोन 41057 के.सी.पी. का रास्ता, जयपुर
		2. मंगेश	पुनी	वि.	45	माधर			
		3. गणेश	पुनी	प्रवि.	20	बी.कॉम.			
		4. मंगु	पुनी	प्रवि.	18		वि. बी.ए.		
		5. मंगेश	पुण	प्रवि.	17		वि. बी.कॉम.		
		6. विमल	पुण	प्रवि.	15		वि. हा. मै.		
००५	२७०	श्री गणेशमल्लो बन्धु पुत्र श्री मंगेशमल्लो	प.प.	वि.	48	मैट्रिक	व्यापार	जे.स्वा.	बन्धु मल्ल न. 1, म.प. श्री गणेशमल्लो वैज मार्ग, बारह मण्डीगोर का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 62891
		2. मंगेश	पुनी	वि.	42	मिडिल			
		3. गणेश	भा.ना	वि.	35	इन्टर	व्यापार		
		4. विमलदेवी	भा.पु	"	33	मै.			
		5. विमल	भा.ना	"	32	पी.यू.सी.	व्यापार		
		6. विमल	भा.पु	"	28	मै.			
		7. मंगेश	भा.पु	विमल	35	एम.ए.	वि. पी.एन.डी		
		8. गणेशमल्ल	पुण	प्रवि.	23	बी.कॉम.	वि. बी.ए.		
		9. गणेशमल्ल	पुण	"	21	बी.कॉम.	वि. (रत्न व्यापार)		
		10. मंगेश	पुनी	"	18		वि. बी.ए. (प.प.)		
		11. मंगेश	पुनी	"	14		वि. मै.		पुनिका-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
996	1524	श्री ज्ञानचव बम्ब पुत्र श्री बेसरीमलजी 2 गङ्गुतला	प प्र पत्नी	वि वि	36 32	मैट्रिक मिडिल	विजली ध्वयसाय	श्व स्या टाक पुत्रिया 4		510, पाच कुटीर, गत्स हा स स्मूल के सामने, गण्णोरी बाजार, जयपुर, फो 67101	
बरडिया											
997	2403	श्री क्षमरचव बरडिया पुत्र श्री जोरावरमलजी 2 नेशरदेवी 3 भ्रथोरनुमार 4 राजद्र 5 निमलकुमार 6 विनोदकुमार 7 सरोज 8 किरण 9 लक्ष्मी 10 मङ्ग 11 प्रवीण	प प्र पत्नी	वि वि	75 65	मैट्रिक बी एम बी एम , एलएल बी सब बी काम , एलएल बी हा स स ," बी ए	व्यापार	श्वे ते		45, ची बावो ना रास्ता, जयपुर, फो न 41636	
998	924	श्री उम्मेबमल बरडिया पुत्र श्री कल्याणमलजी 2 चंदा 3 नरेद्रकुमार 4 महेनुमार 5 भजीतकुमार 6 क्षति 7 राजकुमारी 8 मधुलता	प प्र पत्नी	वि वि	59 52	मिडिल ," बी ई बी एससी एलएल बी बी कॉम बी ए बी ए बी ए	व्यापार व्यापार व्यापार	श्वे ते		17, बरडिया कॉलोनी, म्सुबियम रोड, जयपुर, फो न 63152 69386	
999	2397	श्री कल्याणमल बरडिया पुत्र श्री तेजकरराजी 2 भरदारमल 3 धनवतीदेवी 4 भूरजयाई	प प्र भतीजा भती य भा वधू	विपुत्र वि वि विधवा	83 66 62 85	विपुत्र मिडिल साक्षर साक्षर	समाज सेवा रत्न ध्वयसाय	श्वे ते जोवनेर		72, जौहरी बाजार, जयपुर फो न 48230	
								पुत्र 7, पुत्रिया 3			
								पुत्र 2, पुत्री-1			

	5	विमलचन्द	पौत्र	वि.	39	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय					
	6	विजयचन्द	पौत्र	वि	35	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय					
	7	मुधीरकुमार	पौत्र	वि.	26	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय					
	8.	शकुन्तला	पौत्रवधू	वि	33	शिक्षित						
	9	सरोज	पौत्रवधू	वि	31	शिक्षित						
	10.	चंचल	पौत्रवधू	वि	22	शिक्षित						
	11.	नीतू	पौत्री	अवि	15		शि. कक्षा 9					
1000	1703	श्री कुशलचन्द बरड़िया पुत्र स्व श्री दीपचन्दजी 2. सुशीला 3. प्रदीपकुमार	प प्र	वि.	42	हा सँ.	रत्न व्यवसाय		पौत्रियाँ-2, पौत्र-2	श्वे.ते. जोवनेर	1410, केवलचन्द मेहता का मकान, ताराचन्द नाथव की गली, जौहरी बाजार, जयपुर 15, विचून मार्ग, ससारचन्द्र रोड़, जयपुर-1 फोन 72042	नथमलजी का चौक, के जी.वी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
1001	1425	श्री गुलाबचन्द बरड़िया पुत्र श्री कालूरामजी 2. विमलेश 3 प्रकाश 4. अनिल 5 अजय	प प्र.	वि.	44	इन्टर	विजली-पम्प सैट		पुत्र-1 पुत्री-1	जैन सरदारशहर		
1002	404	श्री गुलाबचन्दजी बरड़िया पुत्र श्री रामचन्दजी 2 सन्तोषचन्द 3. पुष्पा 4. ज्योतिप्रभा 5. हेमन्तकुमार	प. प्र.	विधुर	76		विश्राम		पुत्र-3	श्वे.स्था.	मं न 4667, चण्डालिया भवन, के जी वी का रास्ता, जयपुर	
1003	14	श्री जवाहरमल बरड़िया पुत्र श्री माणकलालजी 2. स्नेहलता 3. राजीव 4. शकुन्तला 5 कल्पना	प.प्र	वि	56	एम.ए.,बी.कॉम एलएल वी.,विशारद (राजकीय सेवा)	सेवानिवृत्त		पुत्री-3	श्वे.स्था उदयपुर	आराधना ए-2, जमना- लाल वजाज मार्ग, अशोकनगर, जयपुर, फोन 67588	
1004	1253	श्री जीवनकुमार बरड़िया पुत्र श्री विमलकुमारजी 2. प्रमिलारानी 3 जतीन्द्रकुमार	प प्र	वि	39	पी यू.सी.	व्यापार			जैन रोपड़ (पजाव)	प्लॉट न 221, आदर्श नगर, जयपुर फोन 44964 पी पी.	सेन्टपॉल स्कूल, जयपुर
					37	मैट्रिक			पुत्र-1, पुत्री-2			
					14		शि मैट्रिक					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1005	170	श्री जीवनमल बरडिया पुत्र श्री सुगनचामी	प प्र	विभुर	60	बी ए	सिम	श्वे ते	जोबनेर	1883, बरडिया भवा, राज वि वि, जयपुर तेनीवाडा, चौडा	
		2 राजकुमार		पुत्र वि	35	एम ए, एनएल डी	रत्न व्यवसाय			रास्ता, जयपुर	पटोनिया भवन, पी
		3 निमला		पुत्रवधू वि	33		रत्न व्यवसाय			फोन 61787	वाला रा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर राज वि वि जयपुर
		4 हीराचाम		पुत्र वि	30	एम ए	सिम				
		5 चन्द्रा		पुत्रवधू वि	28						
		6 सुभाषचंद		पुत्र वि	28	एम कॉम	लवचरर			26, रतन निवास,	राज वि वि, जयपुर
		7 ऊषा		पुत्रवधू वि	27	बी ए				जय कितान बॉलोनी टॉन रोड, जयपुर	
		8 तिलमचाम		पुत्र वि	25	हा स	रत्न व्यवसाय				
		9 दिनेश		पुत्रवधू वि	23	बी ए					
1006	29	श्री बोलतमल बरडिया पुत्र श्री गणेशलालजी	प प्र	विभुर	80	,,		श्वे ते		2072, बारहू गणेशपुर रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	
1007	368	श्री बोलतसिंह बरडिया पुत्र श्री उमरावसिंहजी 2 उमादेवी	प प्र	वि	35	हा म	हैडीगापट	श्वे स्या	हपनगर (विश्रानगड)	लवान भवा, हृदियो पकज हैडीगापट वा रास्ता, जोहरी 2339, रामललाजी बाजार, जयपुर का रास्ता, जयपुर फोन 44846 फोन 67941	
				पत्नी वि	28	,					
1008	1637	श्री धनराज बरडिया पुत्र श्री रतनलालजी 2 गोहादेवी 3 विनयचंद 4 शांति 5 शलेद्रकुमार 6 बीना 7 चन्द्रा	प प्र	वि	56		व्यापार	श्वे ते		1995, मुलेतपा भवन, सेमतास कुसेज, पीतलियो वा चौरु, 126, जोहरी बाजार, जोहरी बाजार, जयपुर जयपुर फोन 47602 फोन 47178	
				पत्नी वि	51					विनयचंद एटरप्राइजेज	
				पुत्र वि	31	बी कॉम	व्यापार				
				पुत्रवधू वि	28	बी ए					
				पुत्र अवि	21	बी कॉम	व्यापार				
				पुत्री अवि	23	बी ए					
				पुत्री अवि	19	बी ए (द्वि व)					
1009	2401	श्री धनराज बरडिया पुत्र श्री स्व जीवनमल 2 पशुकुमार 3 विजयकुमार 4 रंदेशुमार	प प्र	वि	55	मैट्रिक	प्रिंटिंग प्रेस	श्वे ते		के जी पी का रास्ता, जोबनेर प्रिंटस, देरी वा वास, जोहरी वावा हृदिये र द, मार्ग बाजार, जयपुर चावपोल बाजार, फोन 76753	
				पुत्र वि	34	एम ए	सवित				
				पुत्र वि	30	बी एससी	सवित				
				पुत्र	26	मिडिल	रत्न व्यवसाय				

पुत्र 2

पुत्र-2

पौत्र 2, पौत्री 1

	5. अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	16		शि. वी ए. (प्र.व)	
	6. निमंला	पुत्री	अवि	20	एम ए.		
	7. इन्द्रा	पु० व०	वि०	29	मिडिल		
	8. मुशीला	पु० व०	वि०	26	मैट्रिक		
	9. मधु	" "	" "	22	मैट्रिक		
1010 2400	श्री पूनमचन्द बरडिया पुत्र श्री चौथमलजी	प. प्र.	विधुर	77	मिडिल		
	2. मोतीलाल	पुत्र	वि०	48	मैट्रिक	राज्य सेवा	
	3. हीरादेवी	पुत्रवधू	वि.	45	मिडिल		
	4. रमेशचन्द	पौत्र	वि.	28	हा.सं.	व्यापार	
	5. प्रेमलता	पौत्रवधू	वि	24	साक्षर		
	6. प्रवीणकुमार	पौत्र	वि.	26	मैट्रिक	व्यापार	
	7. पवनकुमारी	पौत्रवधू	वि.	23	साक्षर		
	8. नवीनकुमार	पौत्र	वि.	24	मैट्रिक	व्यापार	
	9. ताराकुमारी	पौत्रवधू	वि.	21	मैट्रिक		
1011 402	श्री प्रेमचन्द बरडिया पुत्र श्री चौथमलजी	प. प्र.	वि	54	हा. सं.	व्यवसाय	
	2. लोचनदेवी	पत्नी	वि.	48	मिडिल		
	3. महेन्द्रकुमार	पुत्र	वि०	24	बी कॉम.	व्यवसाय	
	4. सुपमा	पुत्रवधू	वि.	21	हा सं.		
	5. उपा	पुत्री	अवि.	21	बी. ए.		
	6. राजेशकुमार	पुत्र	अवि	19		शि. वी.कॉम (फा)	
	7. सरिता	पुत्री	अवि.	15		शि. सं.	
	8. पकज	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 9	
	9. राकेश	पुत्र	"	13		शि कक्षा 7	
1012 2101	श्री फतेहसिंह बरडिया पुत्र श्री हिम्मतसिंह	प प्र	वि	37	हा.सं.	रत्न व्यवसाय	
	2. चंचलकुमारी	माता	विधवा	60			
	3. सरोज	पत्नी	वि	34	हा सं.		
1013 2404	श्री भंवरलाल बरडिया पुत्र श्री मूलचन्दजी	प. प्र.	विधुर	67	मिडिल	रत्न व्यवसाय	

पुत्र-1 पुत्री-1

श्वे.ते.

4427, धाविया हाउस
के.जी वी. का रास्ता,
जयपुर

पुत्र-3

श्वे.ते.

1059, बरडिया
निवास, भट्टो की गली,
चौडा रास्ता, जयपुर
फो.न. 65089

पुत्रियाँ 2

श्वे.ते.

मेहदी का चौक,
रामगंज बाजार, जयपुर
फो.नं 43595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	प्रेमचन्द	पुत्र	वि	41	मैट्रिक्	रता व्यवसाय				मगन सेल्म, धातिश
	3	बमला	पुत्रवधू	वि	39	साक्षर					मार्केट, जयपुर
	4	अशोबकुमार	पौत्र	वि	21	स	गविस				फोन 77234
	5	बल्पना	पौ वधू	वि	20	स					
	6	अनिल	पौत्र	अवि	17		शि हा स				
1014	179	श्री भोपालसिंह बरडिया पुत्र श्री उमरावसिंह जी	प प्र	वि	43	मैट्रिक्	पुरतार विनेता	श्वे स्था	रूपनगर (अजमेर)	1905, लमान भवन, हल्दियो का रास्ता, तीमरा चौराहा, जोहरी बाजार, जयपुर	वेस्टन लॉ बुक न 2339, प्रथम मंजिल, रामलताजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 44946
	2	जनतदेवी	पत्नी	वि	40	मिडिल					
	3	हृषिकुमार	पुत्र	अवि	20		शि बी ए (डि ग्रे)				
	4	हेमलता	पुत्री	अवि	18		शि बी ए (डि ग्रे)				
	5	हेमचक्रुमार	पुत्र	अवि	16		शि हा स				
	6	शीलू	पुत्री	अवि	14		शि रक्षा 7				फोन 67941
1015	2391	श्री भैरुलाल बरडिया पुत्र श्री नेमीचन्दजी	प प्र	वि	72	मैट्रिक्		श्वे ते		1996, पीतनिया रा चोक, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 66180	
	2	प्रवासचन्द	पुत्र	वि	38	बी ई (सिविल)	इंजीनियर				जे डी ए, जयपुर
	3	सुमेरचन्द	पुत्र	वि	33	एम बी ए	नोनरी				एस बी बी जे, जयपुर
	4	मजू	पुत्रवधू	वि	34	बी ए					
	5	दुसुम	पुत्रवधू	वि	28	बी ए					
	6	आलोक	पौत्र	अवि	13		शि वक्षा 8				
1016	2398	श्री मधुकरभार बरडिया 2 मानभवर	प प्र	वि	25	एम बी ए, एम फिल	व्याख्याता	श्वे ते		1737, लडीवाला नौ पत्नी, तेत्तीपाडे का रास्ता, जयपुर,	सीक्युटी विभाग, राज विश्वविद्यालय, जयपुर
	3	देवा	पत्नी	वि	20	बी ए					
	4	सता	वहिन	अवि	20		शि एम ए (प्रि)				फोन 63230 फी फी
	5	शारदा	वहिन	अवि	16		शि बी बी ए (डि ग्रे)				67845 फी फी
1017	2280	श्री मांगीलाल बरडिया पुत्र श्री पूनमचन्द	प प्र	वि	45		ड्रामापोट व्यवसाय	श्वे ते	जायनेर	7, देवी कुञ्ज जमनालाल बजाज मार्ग, चौमू हाउस, जयपुर	श्रीमदलाल ट्रांसपोट न, ससारा टाट रोड, जयपुर फोन 60091
	2	सागरदेवी	पत्नी	वि	40						
	3	अमरचन्द	भ्राता	वि	40						
	4	बमलादेवी	भ्रा वधू	वि	35						

पुत्र 1, पुत्री 1

पुत्र-1, पुत्रिया 2

पुत्र-1

पुत्र-1

1015	1940	श्री सागरलाल बरड़िया पुत्र श्री इन्द्र लाली 2. शीमा	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	36 31	इन्टर मैट्रिक	पाइनेट मेवा सर्विस	श्वे. मं. पुत्री-1, पुत्रिया-2	श्री एन.जी. डड्डा एण्ड सं, डड्डा मार्केट, चौहरी बाजार, जयपुर, फो. नं. 44169	
1019	2392	श्री मिश्रीलाल बरड़िया पुत्र श्री मूलचन्दजी 2. मानदेवी 3. मानचन्द 4. देवादेवी 5. सुशीमा	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. वि. वि. अवि.	57 40 30 23 18		मुनीम सर्विस	श्वे. ते. पुत्री-1	हीरालालजी गण्डेल- बान, का मकान, रंगरों की कोठी, घाटगेट, जयपुर	रामगोपाल अग्रवाल, जयपुर
1020	2394	श्री विनोदकुमार बरड़िया पुत्र श्री मदनचन्द 2. कमलादेवी	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	32 28	बी.कॉम, एलएल बी. नं.	व्यापार	श्वे. ते. पुत्र-1	60, गोपाल बाडी, जयपुर	
1021	366	श्री शान्तिलाल बरड़िया पुत्र श्री गुताबचन्दजी 2. ताराकुमारी 3. कुमुदचन्द्र 4. रोहित	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	45 30 20 17	इन्टर शिक्षित	बैंक कर्म. शि इंजी. शि. बी.कॉम.(प्र.व.)	श्वे. स्था किशनगढ पुत्री-1	2014, पीतलियो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर-3	बी बैंक ग्रॉफ राज. लि., जोहरी बाजार, जयपुर-3
1022	2390	श्री स्वरूपचन्द बरड़िया पुत्र स्व. श्री सुगनचन्दजी 2. इन्द्रा देवी 3. गीरा 4. भूपेन्द्रकुमार 5. चेतनप्रकाश 6. नीलकमल	प.प्र. पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	45 42 21 19 16 14	एम एससी, (एजी.) हा. सै.	महायक मैनेजर शि. बी. कॉम शि हा.सै. शि. कक्षा 9	श्वे. ते. जोबनेर पुत्री-1	1883, बरड़िया भवन, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर	भारतीय वायु निगम, जयपुर
1023	156	श्री सागरमल बरड़िया पुत्र श्री कल्याणमनजी 2. कमलादेवी 3. सुरेन्द्रकुमार 4. मरोजदेवी 5. राजेन्द्रकुमार 6. किरणदेवी	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. वि. वि. वि. वि.	52 48 27 24 26 24	मैट्रिक साक्षर बी.कॉम सैक बी कॉम. बी.ए.	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे. ते. पुत्री-1	मं नं. 1507, उम्मेद भवन, बारह गणगीर का रास्ता, जयपुर, फो 72818,77730	कल्पतरु जैम्म, उम्मेद भवन, जयपुर

1024	1985	7 निमलकुमार	पुत्र	वि	23	बी नॉम	रत व्यवसाय	पुत्र-1, पुत्री-1	श्वेते	जाबनेर	रूपचंदजी डागा का मकान, जोरास्टर न पास, एम एस बी का रास्ता, जयपुर
		8 तुमुदेवी	पुत्रवधू	वि	21	बी ए	व्यापार				
		श्री सिरहमल बरडिया	प प्र	वि	60	मेट्रिन					
1025	237	पुत्र श्री उगरचंदजी						श्वेस्था	रामनगर (घनमेर)		प्लाटन 73, पिचपुरी बायां मु घभि जा स्वा घभि रोड, सोडाला, जयपुर विभाग, जयपुर
		2 सतोपदेवी	पत्नी	वि	44	साधार					
		श्री सुनीलकुमार बरडिया	प प्र	वि	23	बी नॉम	राज्य नमतारी				
1026	2402	पुत्र श्री भागचंदजी						श्वेते			पटादिया रोड लाइस, हीजरी इंडस्ट्रीज, 4 2, ट्रीतपोट नगर, पुरानी कोतवाली का जयपुर, फो 45134 रास्ता, तीसरा चौराहा, जोहरी बाजार, जयपुर
		2 मजूदेवी	पत्नी	वि	21	बी ए					
		श्री श्रीचंद बरडिया	प प्र	वि	28	बी नाम	एजाउटेट				
1027	209	पुत्र स्व श्री उत्तमचंदजी						पुत्र 1, पुत्री 1	श्वेते	रिशनमड	बारह गणगौर का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर
		2 नमता	माता	विधवा	59						
		3 शकुन्ता	पत्नी	वि	25	बी ए					
1028	3197/2057	<u>बरमेचा</u>						श्वेते	म		4764, प्राति भवन, सोतिया का माहस्ता, के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर फो 4 3096
		श्री गोलमचंद बरमेचा	प प्र	वि	37	मेट्रिन	पटसन व्यापार				
		पुत्र श्री दीपचंदजी									
1029	2198	2 काता	पत्नी	वि	35	मेट्रिन		पुत्र 2, पुत्रियां 3	श्वेते	चुरू	57 बी, बर्मीज बाँलोनी, सेठी बाँलोनी न पास, जयपुर फो न 41951
		3 वदनाकुमारी	पुत्री	,,	14	शि नशा 6					
		<u>बाडिया</u>									
1029	2198	श्री भती गणपतबाई बाडिया	प प्र	विधवा	70			श्वेते		चुरू	सूरजमल बाडिया एंड सत, रामलवाजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो 67306
		पुत्री स्व श्री सुगनचंदजी काठारी									
		2 किरण	पुत्रवधू	विधवा	36	हा स					
1029	2198	3 गुणीलकुमार	पौत्र	अवि	13		शि नशा 8	श्वेते			
		श्री जयचंदलाल बाडिया	प प्र	वि	70		चाय व्यापार				
		पुत्र श्री सूरजमलजी									
		2 नलकसी देवी	पत्नी	,,	66						
		3 उत्तमचंद	पुत्र	,,	36						
		4 विनयचंद	,,	,,	31						
5 धानदलता	पुत्रवधू	,,	29								
6 बानादेवी	पत्नी	,,	29			पौत्र 3, पुत्री 1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8 विजय	पुत्री	अवि	32	बी ए	रखिस				
1036	259	9 कल्पना	"	"	20	मट्टिक					
		श्री प्रेमचन्द बाँडिया	प० प्र	वि०	64	साक्षर	परसान का काम	श्व म		4540, बाँडिया भवन,	विजयगच्छ मन्दिर
		पुत्र स्व श्री हजारीमलजी								क जी बी का रास्ता,	वे पास, वे जी बी
		2 उमरावदेवी	पत्नी	वि	60					जयपुर-3	का रास्ता, जोहरी
		3 प्रवाशचन्द	पुत्र	वि	35	हा स	रत्न दलाली			फो न 42936	बाजार, जयपुर,
		4 प्रमोलादेवी	पुत्रवधू	वि	33	राज					
		5 निमलकुमार	पुत्र	अवि	24	"	जनरल मर्चेट				
		6 निमलाकुमारी	पुत्री	अवि	22	एम काम					
		7 राजे द्रबुमार	पुत्र	अवि	20	सक	घाट बनाने का काम				
		8 कमलादेवी	बहिन	विपवा	72	विशारद	विश्राम				
1037	1079	श्री बहादुरसिंह बाँडिया	प प्र	वि	33	मट्टिक	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या बीवानेर			
		पुत्र स्व श्री प्रतापमलजी									
		2 कमला	पत्नी	वि	26	मिडिल					
1038	2199	श्री महेन्द्रकुमार बाँडिया	प प्र	अवि	18		शि बी ए (प्र व)	श्वे जन हनुमानगढ़			
		पुत्र श्री मांशीलालजी									
		2 विजयचन्द बाँडिया	प प्र	वि	43	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म बीकानेर			
		पुत्र स्व श्री मोहनलालजी									
		2 मीनाबाई	माता	विधवा	65						
		3 बसन्ती	पत्नी	वि	35	मिडिल					
		4 गीरू	पुत्री	अवि	16						
		5 लक्ष्मीचन्द	पुत्र	अवि	14		शि बी ए (प्र व)				
1040	2374	श्री सागरमल बाँडिया	प प्र	वि	69		शि कक्षा 9				
		पुत्र श्री सरदारमलजी									
		2 मोहनलाल	पुत्र	वि	56		व्यापार	श्वे जन		म न 2500, बाँडिया	भवन, मारुजी का चौक,
		3 दोलतदेवी	पुत्रवधू	वि	53		व्यापार			जयपुर	
		4 सुलराज	पौत्र	अवि	19						
		5 गृभकररा	पौत्र	वि	32						
		6 चन्द्रकाता	पौ व	वि	28						

पुत्री-1

पुत्री-1

पुत्रियाँ 2

1041	2197	7. ज्ञानचन्द्र	पौत्र	वि.	30	मोटरपार्ट्स का व्यापार	श्वे ते	चूरू	सी-56, सेठी कॉलोनी, लक्ष्मी एजेन्सी, ए-34, जयपुर-4, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर फो नं. 44642		
		8. स्नेहलता	पौ. व.	वि.	29						
		श्री हंसराज बांठिया	प. प्र	वि	48	हा सै.					
		पुत्र श्री मूरजमलजी									
1042	13	2. मानकवर	पत्नी	वि.	41	सै	मोटरपार्ट्स का व्या.	श्वे ते	चूरू		
		3. प्रसन्नकुमार	पुत्र	वि.	23	बी ए, एलएल बी.					
		4 मंजुला	पुत्रवधू	वि.	20	इन्टर					
		5. सज्जनकुमार	पुत्र	अवि	18	बी. कॉम					
		श्री हाथीमल बांठिया	प प्र	वि.	47	बी ए					
		पुत्र स्व. श्री सूरजमलजी									
1043	1883	2. मानिक	पत्नी	वि.	40	मैट्रिक	व्यापार	श्वे ते	चूरू		
		3. प्रवीण	पुत्र	अवि.	24	बी ए					
		4. प्रशान्त	पुत्र	अवि.	22	बी. ए					
		श्री हीराचन्द्र बांठिया	प्र प	वि	32	मैट्रिक					
		पुत्र श्री कमलचन्द्रजी									
		2. चन्द्राबाई	माता	विधवा	62						
		3 आशा	पत्नी	वि.	27	इन्टर					
		बागचार									
1044	93	श्री गुलाबचन्द्र बागचार	प.प्र.	वि.	45	एम एससी.	लेक्चरार	श्वे मं.	हाथरस (अलीगढ)	बी-72, राजेन्द्र मार्ग वापूनगर, जयपुर, फो.न. 66352	खेतान पोलीटेक्निक जयपुर, फो.न. 76629
		पुत्र श्री त्रिलोकचन्द्रजी									
		2. मजुला	पत्नी	वि	38	बी ए. (द्वि व)					
		3. सदीप	पुत्र	अवि	21		शि. एम.कॉम.				
		4. सीपी	पुत्री	अवि.	17		शि. बी.ए. (प्र व.)				
		बागरेचा									
1045	296	श्री उगमराज बागरेचा	प.प्र.	वि	47	एम एससी	परियोजना निदेशक	श्वे.म.	जोधपुर	बी-बी-19, गाधीनगर, जयपुर, फो न 69639	सी ए.डी. विभाग, सचिवालय, जयपुर, फो न. 75600
		पुत्र स्व. श्री मोहनराजजी									
		2. चादकवर	माता	विधवा	68	साक्षर					
		3 गुलाब	पत्नी	वि०	42	बी. ए					
		4. मंजू	पुत्री	अवि.	20		शि. एम ए.				
		5. सुरेन्द्र	पुत्र	अवि.	18	बी कॉम.	शि सी ए				
		6 अजू	पुत्री	अवि.	14		शि कक्षा 9			जी. मेहता एन्ड क., धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर	

पुत्र-2, पुत्रियाँ-4

पुत्र-1, पुत्रियाँ-2

पुत्र-1, पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1046	1098	श्री शक्तिपाल बागरेचा पुत्र श्री युगराजजी 2 पुण्यदेवी	प प्र पत्नी	वि वि	27 25	बी नॉम हॉम	रत्न व्यवसाय	श्री रथा तागोर		4343, छावडा भरत, नयमलजी का चीर, के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	फो न 41057 पी पी
1047	1284	श्री पंभूलात बागरेचा पुत्र श्री बाणरामजी 2 विरमदेवी 3 रामेण 4 सुनीता	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री	वि वि धवि धरि	48 39 17 13	मिडिल मिडिल शि वी ए (प्र व) शि कला 9	प्रॉ गतिंग	श्री रथा		म न 4888, के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	टीबडेवाला टक्स- टाइलस, बापूबाजार, जयपुर
1048	232	श्री रमलसाल बागरेचा पुत्र श्री हरराजजी 2 प्रेमलता 3 पवनपुमार 4 विनोदकुमार 5 उमरलकुमारी 6 शिरजकुमारी	प प्र पत्नी प्राता पुत्र पुत्री पुत्री	वि वि धवि धवि धरि	40 39 17 16 18 14	बी नॉम मैट्रि शि बी वॉम (प्र व) शि बी वॉम (प्र व) शि बी वॉम (दि व) शि सक्	रत्न व्यवसाय	श्री रथा तलेगांव (महाराष्ट्र)		ए 21, वृष्णागर, टॉक राठ, जयपुर फो न 78323	3942, माधवनिवाय, एम एल बी रा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 43228
1049	1208	श्री शिवरत्न बागरेचा पुत्र श्री बाणरामजी 2 मोभादेवी 3 तिमलाथेची	प प्र पत्नी	वि वि	27 65 20	हॉस साक्षर मिडिल	सविन	श्री रथा तागोर		म न 2446, नत्याग जी रा रास्ता जयपुर	गौरीमकर प्रायल एण्ड डाल मित्र, प्रताप मण्डी, शंभूदान, जयपुर
1050	1770	श्री सुनीलपुमार बागरेचा पुत्र श्री मातादीलाजी 2 प्रवीण वागला	प प्र प्राता	धरि धरि	23 20	हॉस शि वी ए	रत्न व्यवसाय	श्री रथा जनगांव		म न 5462, मठ रा रा कुष्ठा, के जी बी का रास्ता, जयपुर, फो न 43390	
1051	574	श्री गणपतसिंह बागला पुत्र श्री रामराजजी 2 शकुंतला 3 रजनी 4 राजेश 5 मधु 6 शशी 7 भजन	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र पुत्री " " पुत्र	वि धवि धवि धवि " " धवि	49 42 24 22 19 17 14	मैट्रि मैट्रि शि एम ए शि एम बी डी एल शि एम ए शि बी ए (प्र व) शि कला 9	ए ई ए	श्री जन भरतपुर		2 ट 7, जवाहरनगर, जयपुर	पी डब्लू डी रायलिय, जयपुर, फो 79916

पुत्री 1, पुत्री 1

पुत्री-1

पुत्री 1

1052	634	श्री गणपतिदास बापना पुत्र श्री मा. वि. बापना	द.प.	वि.	57	बी.ए.	कै.म.	जयपुर	7-ज-7, राजपुर, जयपुर
		2. पंजाब	पुत्री	पति.	23	प्रध्यापिका			
		3. श्रीव	पुत्र	"	20	मि. बी. काम.			
		4. मन्ना	पुत्र	"	17	मि. बी. काम. (द्वि.प)			
1053	1089	श्री महाशय कुमार बापना पुत्र श्री श्रीमती गंगा देवी	द.प.	पति.	30	बी. काम.	कै.म.	जयपुर	मि. काम. श्री श्रीमती, पु.म. वि. मन्ना, कै.पी.पी. हा. मन्ना, नं. 2, जयपुर
		2. श्रीमती	माता	विधवा	65				श्रीमती बाबा, जयपुर
		<u>बापना</u>							
1054	89	श्री श्रीमती कुमार बापना पुत्र श्री श्रीमती गंगा	प.प्र.	वि.	38	एम.ए. श्रीमती	कै.म.	जयपुर	सी-114, मा. वि. मन्ना, जयपुर, को. 76575
		2. उषा	पत्नी	वि.	34	एम.ए., बी.एड.			वि. मन्ना को. मन्ना जयपुर, को. 60211/ ए.ए. 344
									मन्ना क. मन्ना विभाग, जयपुर, को. 65789
1055	193	श्रीमती कमलेश बापना पुत्री श्री देवदास देवी	प.प.	विधवा	36	एम.ए.	स्व.म.वा.	जयपुर	म.न. 2019, पी.म. वि. हा. मन्ना, जयपुर
		2. श्रीमती	भतीजी	पति.	14				श्रीमती बाबा, जयपुर को. 67432/67694
1056	1938	श्री श्रीमती बापना पुत्र श्री श्रीमती गंगा	प. प्र.	वि.	67	बै.टि.क	स्व.म.	जयपुर	13, गोपालवाड़ी, को.न. 79337 पी.पी.
		2. श्रीमती	पत्नी	वि.	62	माधव			
		3. श्रीमती	पुत्र	वि.	40	एम.टी.			स्व.म.वा.
		4. श्रीमती	पुत्रपुत्री	वि.	37	एम.ए.			
		5. श्रीमती	पुत्र	वि.	37	एफ.सी.ए.			
		6. श्रीमती	पुत्रपुत्री	वि.	34	एम.ए.			
		7. श्रीमती	पुत्र	वि.	31	ए.एम.आर्.डी.ई.			
		8. श्रीमती	पुत्रपुत्री	वि.	27	बी.ए.			
		9. श्रीमती	पुत्री	पति.	13				
1057	1125	श्री श्रीमती बापना पुत्र श्री श्रीमती गंगा	प. प.	वि.	54	बी.ई.	कै.म.	जयपुर	5-20, गो.म. मन्ना, सी.म.पी.म, जयपुर, को.नं. 74126
		2. श्रीमती	पत्नी	वि.	50	मि.टी.क			पु.म. वि. मन्ना, जयपुर, को. 67529
		3. श्रीमती	पुत्र	पति.	25	बी.ए.			श्रीमती मन्ना, एम.पी.डी. मन्ना, जयपुर
		4. श्रीमती	पुत्री	पति.	18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1058	2107	श्री गिरधारीसिंह बापना पुत्र स्व श्री बैरलालजी 2 मजू	प प्र पत्नी	वि वि	35 31	बी एमसी, एलएन बी एम ए	बाल	जन जोधपुर पुत्र 1, पुत्री-1	जोधपुर हीरा बाग, रामबाग राड जयपुर, गान 66300		
1059	661	श्री जयसिंह बापना पुत्र श्री रामसिंह 2 चना	प प्र पत्नी	वि वि	28 24	एम वॉम एलएल बी मिडिल	लेखा प्रधिकारी	श्व स्था विशनगढ (धजमर) पुत्र-2	विशनगढ 946, सूटेटोक्षारास्ता, विशनपाल बाजार जयपुर	राज पत्रिया, जयपुर, फो न 74231 एक्सटें 16	
1060	358	श्री जोयासिंह बापना पुत्र श्री तख्तसिंहजी 2 प्रीतमदेवी 3 दीपनकुमार 4 प्रतिताकुमारी 5 राकेशकुमार 6 सजय 7 मोना 8 मुनेशकुमार	प प पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि वि प्रवि प्रवि प्रवि प्रवि	50 48 25 22 23 19 15 13	इंटर मिडिल बी वॉम ,एलएल बी एम ए बी ई माइनिंग इंजीनियर शि बी एससी शि हा स शि सभ	स लेखाधिकारी	श्वे स्था भीतवाडा जन उदयपुर	भीतवाडा ए 132, गाधीनगर, जयपुर	जे डी ए, जयपुर फो 63234-38 एक्सटें 20	
1061	778	श्री तख्तसिंह बापना पुत्र श्री भोपालसिंह 2 मोहनदेवी 3 सुभाष 4 रेखा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री	वि वि प्रवि प्रवि	58 54 26 22	बी ए एम वॉम ,सी ए एम ए	सेवा निवृत्त प्रविटग	जन उदयपुर	उदयपुर 32 एकरेस्ट बॉलोनी, जयपुर फो न 77487	प्रवाण एण्ड क, 138, पारल भवन, सू बॉलोनी जयपुर	
1062	1127	श्री बामोदरलाल बापना पुत्र श्री स्व विष्णु नालजी 2 पुष्पादेवी 3 सुभाष 4 सुषा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि वि वि वि	54 49 30 29	मैट्रिक हा स हा स	मडार नियंत्रक	जा डरस्पक्टर	जा सोमानी बाग मयक राज राज्य पथ सोमना क पीछे, जयपुर, परिवहन निगम, फो न 76607	राज राज्य पथ मोटवाडा रोड, जयपुर पियरलम जन इंसो कंपनी लि, जयपुर शाखा कमचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर, फो न 60406	
		5 धर्मोद 6 उमिता	पुत्र पुत्र	वि वि	27 20	एम वॉम हा स	वरि लिपिक	पुत्र 1, पुत्री 1			

		7 वीरेन्द्र	पुत्र	अवि	24	वी कॉम	कैशियर			जयपुर नागौर ग्रामीण ग्रामचलिक बैंक, जयपुर फो न 62792
1063	52	श्री नन्दलाल बापना पुत्र स्व. श्री जगदीशलालजी 2. रतन बापना	प. प्र पत्नी	वि. वि.	37 33	वी कॉम	नौकरी	जोधपुर पुत्र-2	बापना हाउस, न्यू कॉलोनी, जयपुर	राज आवासन मडल, ज्योति नगर, भगवान- दास रोड, जयपुर
1064	30	श्री प्रकाशचन्द बापना पुत्र स्व श्री अमरचन्दजी 2 कमला 3. पुनीत 4. शिल्पा 5. सतोप	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि अवि ,,	50 40 19 16 15	एम ए हा. सै	सर्वे सुपरिन्टेन्डेन्ट शि बी ए. (द्वि व.) शि हा. सै. शि. कक्षा 9	श्वे. म. जयपुर	बी-39, जनता कॉलोनी, साकेत मार्ग, जयपुर	पुरातत्व विभाग, रामनिवास बाग, जयपुर
1065	1276	श्री प्रकाशचन्द बापना पुत्र श्री भोजराजजी 2. पूर्णिमा	प प्र पत्नी	वि० वि.	35 30	एम एससी. (टेक)	पर्चेज ऑफिसर	श्वे. जैन पुत्र-2	पी-39, मधुवन कॉलोनी, किसानमार्ग टोक रोड, जयपुर फो. न 68668	भारत एल्यूमीनियम कारपोरेशन, कोरबा, (उडीसा)
1066	2443	श्री पृथ्वीराज बाफना पुत्र स्व. श्री फूसराजजी 2. मानक 3. राजीव	प प्र पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	35 33 13	वी कॉम.	व्यवसाय	श्वे.ते सुजानगढ पुत्र 1	16-बी, तख्तेशाही रोड, जयपुर फो न. 68823, 67075	बाफना ब्रादर्स, 435, हृल्दियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो नं 41471
1067	521	श्री प्रेमचन्द बापना पुत्र श्री मारणकचन्दजी 2. आशाकुमारी 3 पदमकुमार	प.प्र पत्नी भ्राता	वि० वि अवि	33 32 21	हा सै.	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं. टोडारायसिंह पुत्रियाँ-2	म नं. 4806 सौतियो का मोहल्ला, के.जी बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
1068	45	श्री प्रेमचन्द बापना पुत्र श्री मिश्रीलालजी 2. शाता 3 नेमीचन्द	प प्र. पत्नी भ्राता	वि. वि. अवि	29 25 20	सी ए. वी. ए बी.कॉम.	प्रेक्टिस	श्वे स्था अजमेर पुत्र-2	बी-84, सेठी कॉलोनी, जयपुर फो नं 45259पी पी	बाफना एण्ड एसो- सियेट, 2416, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 43249
1069	801	श्री भोजराज बाफना पुत्र श्री जुगराजजी 2 कस्तूरीदेवी 3. प्रकाशचन्द	प प्र. पत्नी पुत्र	वि वि. वि.	53 45 30	वी ए	मुख्य व्यवस्थापक	जैन लीचन (जोधपुर)	पी -39, मधुवन कॉलोनी, किसान मार्ग, टोक रोड, जयपुर फो न. 68668	राज खादी ग्रा.सस्था संघ, टोक फाटक, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1070	7	4	पूरिमा	पुत्रवधू	वि	26		श्वे म	जाधपुर	52, गगवाल पाक मोती हू गरी रोड, जयपुर 4 फो न 46460	कार्यालय फो न 75560
		5	सजयकुमार	पुत्र	प्रवि	16	शि हा स सेवानिवृत्त				
			श्री मदनराज बाफना	प प्र	वि	63	बी काम एलएल बी				
			पुत्र श्री जोरावरमलजी								
		2	सतोपबुधवर	पत्नी	वि	56	साधर				
		3	गौतमचन्द	पुत्र	वि	35	मिडिल				
		4	इन्द्रादेवी	पुत्रवधू	वि	29	सच सरकारी काम				
1071	1168	5	पारसराज	पुत्र	वि	33	सच व्यवसाय	श्व स्या	पुन 1 पुत्री 1	161, बरवत कॉलोनी, टॉन पाटन, जयपुर	राज बरु, ब्यावर जलदाय विभाग, ब्यावर पी एच ई डी, जयपुर खादी प्रभोगन, बम्बई, जयपुर कार्यालय
		6	मातादेवी	पुत्रवधू	वि	28	एम ए प्रध्यापिका				
		7	श्रीपालचन्द्र	पुत्र	प्रवि	29	बी एससी, एम ए राज्य काम				
			श्री महावीर बाफना	प प्र	वि	52	एम ए नौररी				
			पुत्र श्री रूपराजजी								
		2	मजु	पत्नी	वि	45	हा स				
		3	बीना	पुत्री	प्रवि	21					
1072	50	4	सजय	पुत्र	प्रवि	18	शि एलएल बी (दि व) शि बी ए (दि व) शि बी ए (प्र व)	श्वे स्या	जोधपुर	वापना हाऊस, पू कॉलोनी, जयपुर	दीपक कॉन्फिगन, बापू जागर, जयपुर
		6	राजीव	पुत्र	प्रवि	16					
			श्री महेश बाफना	प प्र	वि	42	बी कॉम व्यवसाय				
			पुत्र स्व श्री विष्णुनालजी								
1073	51	2	चमेली	पत्नी	वि	38	मिडिल	श्वे स्या	पुत्रियां-3	वापना हाऊस, बी 3, पू कॉलोनी, जयपुर	बमल एण्ड बम्पनी, एम घाई रोड, जयपुर फो न 67399
			श्री मुकुटबिहारीलाल बाफना	प प्र	वि	34	बी एससी नौररी				
			पुत्र श्री जगमोशलालजी								
1074	1310		श्री लक्ष्मीलाल बाफना	प प्र	वि	48	सच मट्रिग	जन श्वे	पुत्रियां-2	2020, मिस्त्री खाना रोड, गणेशगोरी बाजार, जयपुर	फो न 832298
			पुत्र स्व श्री बन्धुपालजी								
		2	मातिदेवी	पत्नी	वि	45	मिडिल				
		3	विजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	28	बी कॉम				
		4	भारदा	पुत्रवधू	वि	25	मट्रिग				
		5	राजेशकुमार	पुत्र	वि	25	बी कॉम				
		3	रुपा	पुत्रवधू	वि	22	बी ए				
		7	जम्बूकुमार	पुत्र	प्रवि	21	मट्रिक				
8	जीवनबाना	पुत्री	प्रवि	19	बी राम	पुत्र-2					

1075	1173	श्री विजयकुमार वाफना पुत्र श्री सेजमलजी	प प्र.	वि	32	बी ए , एलएल.बी	सविम	श्वे जैन भीलवाडा	एस डी 3, कबीर मार्ग, वनीपार्क, जयपुर
		2 चचलकुमारी	पत्नी	वि	28	सैक.		पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	
1076	1595	डा. वीरेन्द्रकुमार वाफना पुत्र श्री रखवचन्दजी	प.प्र	वि	46	बी.एससी., एम.बी.बी एस , एम.एस	डाक्टर	श्वे.म. मध्यप्रदेश	बी-44, जनाना हॉस्पिटल के सामने, स्टेशन रोड, जयपुर
		2. रखवचन्द	पिता	वि.	80			पुत्र-2	फो न 75775
		3. डा. नवरत्न	पत्नी	वि.	44	बी एससी. एम बी.बी.एस., एम.एस. एफ.आई.सी.एस	डाक्टर		एस.एम एस मेडिकल कालेज एव जनाना अस्पताल, जयपुर
1077	618	श्री शांतिलाल वाफना पुत्र स्व श्री मुन्नीलालजी	प प्र	वि	53	बी कॉम	व्यापार	जैन पाली	5-छ-8, जवाहरनगर, जयपुर, फो,852282
		2. मनभरदेवी	पत्नी	वि	49	मिडिल			वाफना ब्रुक डिपो, चौड़ा रास्ता, जयपुर फो.न. 67636
		3 पारस	पुत्र	वि	33	बी कॉम.	व्यापार		" "
		4. रत्ना	पुत्रवधू	"	29	हा.सं			
		5 साधना	पुत्री	अवि	24	एम.एससी.			
		6. राजेन्द्र	पुत्र	"	23	बी ए , एलएल बी.	शि एलएल.एम		
		7 अनिता	पुत्र	अवि	21	बी.ए. टैक्स	डिप्लो.		
		8. सारिका	"	"	20	बी एससी.,,		पुत्र-1	
1078	54	श्री श्यामसुन्दर वाफना पुत्र स्व. श्री विष्णुलालजी	प प्र	वि	66	सीनि	केम्ब्रिज सेवानिवृत्त	श्वे.जैन	3818, रावजी नीदड का रास्ता, जयपुर फो 64267
		2. सरदारकुमारी	पत्नी	"	61	मिडिल			
		3. सुरेश	पुत्र	वि	40	मैट्रिक	प्रिन्टिंग प्रेस		श्री श्याम प्रिन्टर्स, 3818, रावजी नीदड का रास्ता, जयपुर फो नं 64267
		4. प्रमीला	पुत्रवधू	वि.	35	"		पौत्रियाँ-2	
1079	383	श्री सुजानसिंह वाफना पुत्र श्री पदमसिंहजी	प.प्र	वि	50	एम.कॉम	सहायक निदेशक	श्वे जैन उदयपुर	पी-27, मधुवन (वैस्ट) कालोनी, टोक फाटक, जयपुर
		2 विमला	पत्नी	वि.	45	मिडिल			नियोजन सेवा निदेशालय, जयपुर फो.न. 65810
		3 राजकुमार	पुत्र	अवि	22		शि. सी.ए		
		4. अनिलकुमार	पुत्र	"	20		शि. एम एससी	पुत्र-2	
1080	1396	श्री सौभाग्यचन्द वाफना श्री कुन्दनमल जी	प प्र	वि	54	इन्टर	सहा लेखा परीक्षक	जैन जोधपुर	102/ए, वाफना निवास, चितरंजन लेन, सी-स्कीम जयपुर, फो 75988
		2. सुशीला	पत्नी	वि	50	मिडिल			ए जी (आडिट) ऑफिस, जयपुर फो न. 68431/290
		3. राजेन्द्र	पुत्र	वि	32	बी ए एलएल बी	लेखाकार		रा.रा.वि.म , जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 चंद्रकुमार	पुत्र	वि	30	बी ई (सिविल)	सहा अभियन्ता				साव निर्माण विभाग, राजस्थान
		5 प्रशोककुमार	पुत्र	भवि		बी काम	स्वयं वा व्यवसाय (सी ए की तय्यारी)				मै निर्माण इण्डिया, 102/ए, चित्तूरजन लेन सी स्वीम जयपुर फो न 62397
		6 रविंद्र	पुत्र	भवि	26	बी एस सी	स्वयं वा व्यवसाय				मै सोभाग्य ट्रेडर्स बी/3, चमेली घाला मार्केट, जयपुर फो न 62397
		7 मन्जू	पुत्रवधू	वि	28	बी ए					
		8 मधुसिखा	पुत्रवधू	वि	25	बी ए					
1081	2129	श्री हुकमराज बाफना पुत्र श्री सत्यतराजजी	प प्र	वि	70	इंटर	सवा निवृत्त	स्वे म	जाधपुर	बी 277, जनता कॉलोनी, जयपुर	
		2 धीपाल	पुत्र	वि	30	मिडिल	सविस्				
		3 गुलाब कवर	पत्नी	वि	55	मिडिल					
		4 नीता	पुत्रवधू	वि	23	मिडिल					
1082	1123	श्री त्रिभुवनलाल बाफना पुत्र स्व श्री विष्णुनालजी	प प्र	वि	48		नौकरी	स्वे ज		बी 16 बी, रूपम, चौमू हाउस, जयपुर	यूको वा जयपुर
		2 निमला	पत्नी	वि	43	मैट्रिक					
		3 प्रदीपकुमार	पुत्र	भवि	24	हा स	रत्न व्यवसाय				
		4 प्रमोदकुमार	पुत्र	भवि	19		मि बोर्न (द्वि व)				
		5 प्रिया	पुत्री	भवि	16	प्र व	मि बी ए (प्र व)				
1083	1392	श्रीमती ज्ञानकुमारी बाफना पुत्री स्व श्री विगनराजजी मसाली	प प्र		49	हा स	सुपरवाइजर	जन	सिरोही	एम 2, पी एण्ड टी कॉलोनी, सी स्वीम जयपुर	पास्ट एण्ड टेनीस विभाग, जयपुर
		2 सुनील	पुत्र	भवि	28	बी एससी	सेल्स ऐक्जीक्यूटिव				
		3 भनिल	पुत्र	भवि	25	बी कॉम ,एलएल बी	व्यवसाय				
बाबेल											
1084	1331	डा प्रभु न वावेल पुत्र श्री नानासालजी	प प्र	वि	34	एम बी बी एस , एम एस	राज्य कम		उदयपुर	मोहनलाल दोसी, दुकान न 204/4, पालिका बाजार, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 41835	
		2 डा विमला	पत्नी	वि	31	एम बी बी एम एम एस	राज्य कम				

पुत्र 2, पुत्रियाँ 3

पुत्र-1

1085	1922	श्री कुन्दलमल बाबेल पुत्र श्री शान्तिचन्द्रजी 2 सुशीला	प प्र पत्नी	वि. वि.	32 26	एम काँम. मैट्रिक	उप प्रबन्धक	श्वे ते कानोड पुत्र-2, पुत्री-1	सी-148, श्यामनगर, राज. स्टेट को-ऑपरेटिव अजमेर रोड, सोडाला, बैंक लि., नेहरू जयपुर बाजार, जयपुर
1086	678	श्री चन्द्रासिंह बाबेल पुत्र श्री मोहनलालजी 2. लता	प प्र पत्नी	वि. वि.	38 30	बी.ई (कृषि) एम ए	बैंक सेवा	जैन कानोड पुत्रियाँ-2	सी-81, पृथ्वीराज मार्ग, जयपुर, फो.न. 72558
1087	188	श्री जयसिंह बाबेल पुत्र श्री फतेहसिंह जी 2 लाडकवर 3 अनिलकुमार	प प्र पत्नी पुत्र	वि. वि अवि	49 45 21	एम एससी. डाक्टर शि एम काँम. (फा)	राज्य कर्म. डाक्टर	जैन	18, एवरेस्ट कालोनी, कृषि सूचना अधिकारी, लाल कोठी, जयपुर गरौश मार्ग, वापू फो.न. 77827 नगर, जयपुर
1088	847	श्री जसवन्तसिंह बाबेल पुत्र श्री विजयसिंह जी 2 जीवनदेवी	प.प्र पत्नी	वि. वि.	57 54	बी काँम मिडिल	जनरल मैनेजर	श्वे स्था. उदयपुर	बी-72, सुभापनगर, सी-49, भगवानदास जयपुर, फो 72239 रोड, सी-स्कीम, जयपुर फो न 77333/ 60081
		3. नजरसिंह	पुत्र	वि	36	बी एससी	परचेज आफिसर		जे.के सीमेट वर्क्स निम्वाहेडा (चित्तौड), एम.आई.रोड, जयपुर
		4. मदनसिंह	पुत्र	वि.	30	बी.काँम.	विकास इन्स्पेक्टर		यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी, एम आई. रोड, जयपुर
		5 मजू	पुत्रवधू	वि	28	एम.ए			
		6. रेखा	पुत्रवधू	वि.	27	बी ए			
		7. सुचित्रा	पुत्री	अवि.	23	बी ए.			
		8 ललित	पुत्र	अवि	18		शि बी ए. (प्र.व)		
1089	1353	श्री फतेहसिंह बाबेल पुत्र श्री मदनसिंहजी 2. प्रमोद	प. प्र पुत्र					जैन	स.न. 279, सुभाप काँलोनी, नाहरी का नाका, जयपुर
		3. प्रमिला	पुत्री	अवि	24	बी काँम , डी.सी. डब्लू ए	एजेन्ट एल आई. सी		
		4. मीना	पुत्री	अवि	22	एम ए	अध्यापिका		डी.ए.बी. पब्लिक स्कूल, जयपुर
		5 प्रवीण	पुत्र	अवि	28	एम ए.	शि. टैक्सटा इजीनियरिंग		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1090	435	श्री यशवन्तसिंह बाबेल पुत्र श्री हिम्मतसिंहजी 2 कुसुम 3 शिवा 4 विभा।	प प्र पत्नी पुत्री पुत्री	वि वि अवि अवि	42 38 15 15	एम एस गी पोपच डी मैट्रिक	गहू धापाय वि हा स शि सर	श्वे स्था उजयपुर		सी 78 सिवाड गरिया, धनुमधान सपायक, बापूनगर, जयपुर वृत्ति पावोगिन के 2, फो नं 67677पी पी दुर्गापुरा, जयपुर, फो 82391, 82392 82562 पी पी	
1091	82	श्री राजेंद्रसिंह बाबेल पुत्र श्री शोभा नालजी 2 आशा	प प्र पत्नी	वि वि	34 26	बी एस सी एम ए	राज्य नर्म राज्य	श्वे स्था उजयपुर	पुत्र-3	सी 116 ए, सावित्री मै इन्डियन फार्मा पथ, बापूनगर, जयपुर डिस्ट्रीक्टुटर्म फिलम कॉलोनी जयपुर	
1092	2335	श्री सुन्दरलाल बाबेल	प प्र	अवि	23	सक	सविम	श्वे ते तायौर		रेसल लड प्रोडेक्शा, मोती डू गरी रोड, नायला हाउस, जयपुर फा न 70217	
बाबो											
1093	442	श्री अशोक कुमार बाबो पुत्र श्री पुनजारीमनजी 2 अशोककुमारी 3 सुनील 4 मजय	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि वि अवि अवि	45 40 18 16		रीररी	श्वे स्था होशियारपुर (पजाब)	पुत्र 1	3702, बालो फा मोहल्ला, के जी बी का रास्ता, जयपुर	
1094	443	श्री अशोक कुमार बाबो पुत्र श्री शादीलालजी 2 रीटा	प प्र पत्नी	वि वि	30 28		होजरी व्यवसाय	श्वे स्था होशियारपुर (पजाब)	पुत्र 1, पुत्री 1	3/409, मानवीर नगर, जयपुर फो न 49651	ते पी असवाल होजरी, जौहरी बाजार, जयपुर
1095	446	श्री कीमतीलाल बाबो पुत्र श्री भगवानदाम 2 यचना	प प्र पत्नी	वि वि	30 26	बी ए	व्यवसाय	श्वे स्था होशियारपुर (पजाब)	पुत्र 1, पुत्री 1	490/5, राजापाठ, जयपुर	
बालिया											
1096	130/ 1432	श्री छपनलाल बालिया पुत्र श्री मोहनराजी 2 शकुन्ता 3 धनीता	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि अवि	40 35 16	री ए मैट्रिक	राज्य नमनारी वि हा स	श्वे स्था बिसाहा	पुत्री 1	मदाकुञ्ज, पू कॉलोनी, जयपुर	राज रमाल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, री स्वीम, जयपुर

1097	129	श्री मोहनराज बालिया पुत्र श्री लालचन्दजी	प प्र.	वि.	65	शिक्षित	सेवानिवृत्त	श्वे स्था विलाड़ा	819, सेवापथ गली, चूरुको का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर
		2 कल्याणदेवी	पत्नी	”	58				
		3 प्रकाशचन्द	पुत्र	”	33	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		II पु गलिया विंल्डिंग, एम एस बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		4 पूर्णिमा	पुत्रवधू	”	27	”			
		5. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	”	30	”	रत्न व्यवसाय	पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	
		6 रेणु	पुत्रवधू	”	25	”			
1098	172	श्री ज्ञानचन्द बालिया पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि.	35	स्नातक	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था. विलाडा	1448, वारह गणगौर का रास्ता, जयपुर
		2. सुनीता	पत्नी	वि.	30	मैट्रिक		पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	2, पु गलिया हाउस, एम एस बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
विनाकिया									
1099	2395	श्री बाबूलाल विनाकिया पुत्र स्व श्री आशाकरणजी	प प्र.	वि	29	मैट्रिक	रेडीमेड वस्त्रव्यवसाय	श्वे त	कादम्बरी, घीवालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2 मोहनीदेवी	माता	विधवा	58			पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	
		3 पुष्पा	पत्नी	वि	21	मैट्रिक			
विनायक्या									
1100	1167	श्री चन्द्रप्रकाश विनायक्या पुत्र श्री पुखराजजी	प प्र	वि	30	बी कॉम.	ग्राटो पार्ट्स फॅक्ट्री	जैन श्वे तबीजी	ए-2, साकेत कॉलोनी, (अजमेर) जयपुर, फो 43738
		2. कोशलया	पत्नी	वि	28	हा.सँ		पुत्र-2	778, खवासजी का रास्ता, जयपुर, फो 44024/44496
1101	1424	श्री राजकुमार विनायक्या पुत्र श्री पुखराजजी	प प्र	वि	36	मैके इन्जीनियर	उद्योग	श्वे स्था तबीजी (अजमेर)	वी-74, जनता कोलोनी, जयपुर फो.न. 43738
		2 चन्द्रप्रकाश	भ्राता	वि.	31	एम कॉम	उद्योग		आटोमोबाइल कम्पो- नेन्टस ऑफ इन्डिया, 778, खवासजी का रास्ता, जयपुर फो.न 44496 44024
		3 रतनकुमार	भ्राता	अवि	26	एम कॉम	उद्योग		ए-2, साकेत कॉलोनी, जयपुर
		4 सरला	पत्नी	वि	31	हा सँ		पुत्र- 2	न्यू ब्राइट इन्जीनियरिंग वर्क्स, 773, खवासजी का रास्ता, जयपुर
		5. कोशलया	भ्रा व.	वि.	26	मैट्रिक			इलैक्ट्रिक हार्न मैन्यू- फैक्ट्रिंग कम्पनी, ब्रह्मपुरी, जयपुर

बिराणी

1102	2061	श्री प्रवीणकुमार बिराणी पुत्र श्री रतनलालजी	प प्र	वि	34	पा स	व्यापार	श्वे स्या	विजनगर (भजमेर)	1393 परतानिया रा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 46589 47582
	2	मधु	पत्नी	वि	33	सक				
	3	अमित	पुत्र	अवि	12		शि कथा 8			
	4	अचला	पुत्री	अवि	13		शि कथा 7			
	5	अमिता	पुत्री	अवि	12		शि कथा 7			
	6	रजीत	भ्राता	अवि	20	बी पॉम	व्यापार			
1103	1326	श्री भयरलाल बिराणी पुत्र श्री सादूलालजी	प प्र	वि	45	बी ए	धर्म्यापार	श्वे स्या	विजनगर (भजमेर)	625 जूरीवाल हाउस, विद्याधर का रास्ता त्रिपालिया राजार, जयपुर 3
	2	सादूलाल	पिता	विधुर	63	साक्षर	रतनेन व्यापार			
	3	रमला	पत्नी	वि	30	साक्षर				
	4	नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	23	एम कॉम	गमीनरी का व्यापार			चम्पालाल जैन एंड रम्पनी, ब्यावर
	5	सानू	पुत्रवधू	वि	22	बी ए				
	6	जितेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	20		शि हा स			
	7	मधु	पुत्री	अवि	17		शि मक			
1104	838	श्री ताराचंद बिराणी पुत्र श्री सादूलालजी	प प्र	वि	30	एम कॉम, एलएल बी	रहा व्यवसाय	श्वे स्या	विजनगर (भजमेर)	पदमराजजी जूनीसाल का मकान, विद्याधर का रास्ता, त्रिपालिया बाजार, जयपुर, फोन 48340
	2	निमना	पत्नी	वि	27	हा स				

बुरड

1105	553	श्री कर्मवीरलाल बुरड पुत्र श्री बभलादास	प प्र	वि	44	बी पाम, एलएल बी	मैनेजर	श्वे मं		1 स 32 जवाहरनगर जयपुर, फोन 41973 पी पी फोन 67491
	2	प्रेमवता	पत्नी	वि	38	हा सै				
	3	विद्यावती	माता	विधवा	66	साक्षर				
	4	समीता	पुत्री	अवि	16		शि हा सै			
1106	1649	श्री रेशमचंद बुरड पुत्र श्री बशीरालजी	प प्र	वि	58	गक	व्यापार	श्वे स्या	गुजरावाला (पाकिस्तान)	190 फाटियर चौसवाल होजरी, फॉनोरी, भादपनगर, 157, बापू बाजार, जयपुर, फो 42544 जयपुर, फो 47605
	2	सहिमा	पत्नी	वि	54	निष्ठिन				

		3 कपिल	पुत्र	वि.	23	बी.ए.	व्यापार				
		4. मुक्ता	पुत्रवधू	वि.	22	बी.ए.					
		5 सुमन	पुत्री	अवि.	18		शि. बी.ए (प्र.व.)				
		6 रेणु	पुत्री	अवि	16		शि. बी.ए.(प्र.व.)				
		7. सुनीला	पुत्री	अवि.	13		शि कक्षा 8				
1107	311	श्री खैरातीलाल बुरड पुत्र स्व श्री हीरानालजी	प प्र.	वि	48	मैट्रिक	सर्विस	श्वे मं	म नं. 2, चंवररी बरदार	एस जोरास्टर एण्ड का वाग, एम.एस बी. कं., प्रेमप्रकाश सिनेमा, का रास्ता, जयपुर जयपुर	
		2 सोनाबाई	माता	विधवा	44						
		3. हेमलता	पत्नी	वि	35						
		4. राकेश	पुत्र	अवि.	16	संक.					
1108	310	श्री चांदमल बुरड पुत्र स्व. श्री भूरालालजी	प.प्र.	वि.	50	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे स्था.	गगा माता की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर		
		2. कचन	पत्नी	वि	47	मिडिल					
		3. जितेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	22	बी.ए.	व्यापार				
		4. शशि	पुत्री	अवि	19		शि. बी.ए.(तृ.व.)				
1109	930	श्री चौयमल बुरड पुत्र श्री नन्दलालजी	प प्र	वि	46	साक्षर	व्यवसाय	श्वे.स्था.	भोजाडा हाउस, तेलीपाडा, जयपुर	फो. नं. 49136	
		2. निर्मला	पत्नी	वि.	40	सं.					
		3. नंजू	पुत्री	अवि.	22		शि. एम.ए.				
		4. अंजू	पुत्री	अवि.	20		"				
		5. ज्योति	"	"	19		शि. बी.ए (अ.व.)				
		6. संदीप	पुत्र	अवि.	18		शि. बी.ए. (द्वि.व.)				
1110	97	श्री नेमीचन्द बुरड पुत्र श्री सोभाग्यमलजी	प प्र.	वि	49	एम कॉम	सहायक निदेशक	श्वे स्था	शाहपुरा	बी-101, जनता काँलोनी, जयपुर	समाज कल्याण विभाग, जयपुर फो. नं. 76226
		2. विमला	पत्नी	वि.	44	साक्षर			(भीलवाडा)	फो.न 42458	
		3 निर्मलकुमार	पुत्र	वि.	24	बी.कॉम, एलएल.बी, सी ए	प्रेक्टिस			मे. बी एल. अजमेरा एंड कम्पनी, चा.अकाउन्टेन्ट, एम.आई. रोड, जयपुर	
		4. विमला	पुत्रवधू	वि	22	बी.ए.				मे. के जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर,	
		5. सम्पतकुमार	पुत्र	अवि	21	एम कॉम.	रत्न व्यवसाय			फो न. 44039	
		6 सुभापकुमार	पुत्र	अवि	18		शि. बी.एससी. (फा)				
		7 राकेशकुमार	पुत्र	अवि	16		शि बी.ए (प्र व.)				
		8 गौतमकुमार सकलेचा	साडूपुत्र	अवि	20	बी कॉम.	शि सी ए				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111	999	श्री पदमचन्द बुरङ्ग पुत्र स्व श्री मुन्नीलालजी 2 श्रुनोखीदेवी 3 श्रुशोक 4 श्रुनित्त	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि वि श्रवि श्रवि	51 44 22 20	सक मिडिल बी कॉम "	पेंटिंग ग्राट	श्वे म		4841, सोधियो का मोहल्ला, के जी बी रास्ता, जोहरी बाजार, फो न जयपुर 63592	पदम घाटस, चौडा रास्ता, जयपुर
1112	525	श्री पारसमल बुरङ्ग पुत्र श्री नथमलजी 2 राजे द्रसिह 3 प्रेमलता	प प्र पत्नी पत्नी	वि श्रवि वि	28 32 24	सक शिक्षित मिडिल	नौवरी नौवरी	श्वे स्या मसूदा	श्रजमेर	म न 4435, के जी बी का रास्ता, जन मन्दिर के पास, जोहरी बाजार, जयपुर	श्रशाका सविस् स्टेशन, श्रजमेर रोड, जयपुर, फो न 76591
1113	182	श्री पारसमल बुरङ्ग पुत्र श्री नदलालजी 2 यालपुमारी 3 सुनीलपुमार 4 शशि 5 मधु	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री पुत्र	वि वि श्रवि " "	45 40 19 16 13	मिडिल साधर मिडिल , "	उद्यान व्यवसाय	श्वे स्या मसूदा		म न 4323, के जी बी ग्यारह हद्र महादेव का रास्ता, जयपुर	का मन्दिर, जोहरी बाजार, जयपुर
1114	979	पुष्पकुमार बुरङ्ग पुत्र श्री पूनमचन्दजी 2 निमला 3 पूर्वावि	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि श्रवि	40 34 15	हा स मैट्रिक 15	रत्न व्यवसाय शि मैट्रिक	जन श्वे म	दिल्ली श्रजमेर	म न 3859 के जी बी का रास्ता, दूसरा चौराहा, जोहरी बाजार, जयपुर-3	
1115	1855	श्री बुद्धसिंह बुरङ्ग पुत्र श्री नथमलजी 2 हिन्द बाला 3 सरिता	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि श्रवि	35 32 15	बी काम मैट्रिक 15	प्राईवट सेवा शि स	श्वे म	श्रजमेर	3965 के जी बी का वायस एण्ड फब्रिसल रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर	(प्रा लि), इंडस्ट्रियल एरिया, भोटवाडा, जयपुर
1116	10	श्री माणकचन्द बुरङ्ग पुत्र स्व श्री तेजकरणजी 2 पूरकुमारी	प प्र पत्नी	वि वि	67 62	साधर साधर		श्वे म		म न 4657, बेरी का बास, के जी बी का रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर, फो न 40778	
1117	1784	श्री रतनचन्द बुरङ्ग पुत्र स्व श्री मुन्नीलालजी 2 विमला	प प्र पत्नी	वि वि	42 41	सक सक	पेंटिंग काम	श्वे म		4 त 18, जवाहरनगर जयपुर 4, फो न 852441	4860 के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर

पुत्र 2, पुत्री 1

पुत्र-1, पुत्रियाँ 2

पुत्री-1

1129	1903	श्री किरणमल बंगानी पुत्र स्व. श्री हनुमानमलजी 2 भंवरी	प प्र माता	विधुर विधवा	43 60	बी कॉम बी.कॉम.,	व्यापार व्यापार	श्वे ते लाडनू'	इन्द्र निवास, चांदपोल बाजार, जयपुर फो. 62508	विजय इन्वैस्टर्स, 36-37, चाँदपोल बाजार, जयपुर फो न. 61568 विजय इलैक्ट्रॉनिक्स 4, जयन्ती मार्केट, जयपुर विजय ट्रेडर्स, 174, नेहरूबाजार, जयपुर फो न. 64067
		3. विजयसिंह	भ्राता	वि	40	बी.कॉम.,	व्यापार			
		4. पुष्पादेवी	भ्रा वधू	वि	35					
		5. राजकुमार	भ्राता	वि.	32	बी कॉम	व्यापार			
		6. सरोज	भ्रा वधू	वि.	27	सं.				
		7. महेन्द्र	पुत्र	अवि.	22	बी.कॉम.	व्यापार			
		8. राजेश	पुत्र	अवि.	19		शि. बी. कॉम. (द्वि व)			
		9. दीपक	भ्रा पुत्र	अवि.	18		शि. बी ए (प्र.व)			
		10. ज्योति	भ्रा.पुत्री	अवि.	16		शि. संक.			
		11. सीमा	पुत्री	"	16		"			
		12. दिनेश	भ्रा.पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 9			पुत्रियां-4
1130	572	श्री केवलराम बेगाणी पुत्र श्री चेलारामजी	प प्र.	वि.	48	संक.	व्यापार	जैन	2-क-26, जवाहरनगर 69, चेलाराम जैन हाउसिंग बोर्ड, जयपुर एड संस, बापू बाजार, जयपुर, फो. 78072	
		2. कान्ता	पत्नी	वि	40	"				पुत्री-1
		3. सुनील	पुत्र	अवि.	23	बी.कॉम.	व्यापार			
1131	2185	श्री गुलाबचन्व बंगानी पुत्र स्व. श्री चन्दनमलजी	प.प्र.	वि.	54	बी कॉम. एलएल.,बी.	आर्ट डीलर	श्वे.ते. लाडनू'	9-बी, शर्मा सदन, न्यू कॉलोनी, जयपुर	वैगानी एण्ड वैगानी, न्यू कॉलोनी, जयपुर
		2. किरण	पत्नी	वि.	50					
1132	1553	श्री घनश्याम बंगानी पुत्र श्री ईश्वरलालजी	प प्र	वि.	33	डी सी.ई	व्यापार	जैन	जे-228, आदर्शनगर, जयपुर	आनन्द प्रिन्टिंग प्रेस, गोपालजी का रास्ता, जयपुर, फो.नं.46858
		2. प्रमिला	पत्नी	वि.	27	इन्टर				पुत्र-1, पुत्री-1
1133	1514	श्री चन्द्रप्रकाश बंगानी पुत्र श्री शानुरामजी	प प्र.	वि	50	इन्टर	रत्न व्यवसाय व हैडीक्राफ्ट्स	श्वे म.	595, आचार्य कृपलानी मार्ग, आदर्शनगर, जयपुर फो न 41693	चन्द्रा ज्वैलर्स, हैन्डीक्राफ्ट एम्पोरियम, एम आई. रोड, जयपुर, फो. 67175
		2. पेमवाई	पत्नी	वि	45	मिडिल				
		3. महेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	30	बी कॉम				
		4. रानी	पुत्रवधू	वि.	26	बी.ए.				
		5. नरेशकुमार	पुत्र	वि.	28	बी.एससी.				
		6. शशि	पुत्रवधू	वि	24	बी कॉम.				
		7. रेणु	पुत्री	अवि	18					पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1134	1515	श्री चम्पालाल बगानी पुत्र श्री शानुरामजी	प प्र	वि	45	बी रॉम ,एलएल बी	वन कर्मचारी	श्वे म		म न 595, घाचाय कृपतानी माग, भाद्रशानगर, जयपुर फोन 41693	एम बी बी जे, जयपुर
	2	चंद्रप्रभा	पत्नी	वि	40	भैट्टिक					
	3	सुनील	पुत्र	प्रवि	21	बी रॉम	रत्न व्यवसाय		पुत्र 1		शिवावर एण्ड प्रापर्ट्स एम्पोरियम, कलाक होटल, जयपुर
	4	प्रवीण	पुत्र	प्रवि	18		रत्न व्यवसाय				
1135	1520	श्री तिलकराज बगानी पुत्र स्व श्री ईश्वरलालजी	प प्र	वि	45	बी रॉम एलएल बी	प्रिंटिंग प्रस रायं	जन		जे 228, घाचद हुटीर, भाद्रशानगर, जयपुर, फो 72858	घानद प्रिंटिंग प्रेस, गोपालजी वा रास्ता, जयपुर
	2	दयावतीदेवी	माता	विधवा	65						
	3	निर्मला	पत्नी	वि	35	सर	सामाजिक सेवा व होमियोपेथी डाक्टर				मथी, श्री महावीर महिला मण्डल, जयपुर सपालक, इनर व्हील क्लब, जयपुर ईस्ट, जयपुर
	4	अनुजा	पुत्री	प्रवि	14				पुत्रिया-3		
1136	1844	श्री दीनदयाल बगानी पुत्र श्री भगवानदासजी	प प्र	वि	52	बी ए एलएल बी 'विशारद'	केन्द्रीय सरकार सेवा	श्वे म		बी 57, प्रजु नलान भेठी नगर, जयपुर	पी एम जी कार्यालय, राज समित, जयपुर, फो 62141/232
	2	शांतादेवी	पत्नी	वि	46	मिडिल					
	3	दिनेशकुमार	पुत्र	वि	28	बी रॉम	रत्न व्यवसाय				
	4	मधु	पुत्रवधू	वि	24	एम ए					
	5	राजेश	पुत्र	प्रवि	23	बी रॉम	रत्न व्यवसाय				
	6	इंदू	पुत्री	प्रवि	18		शि बी रॉम		पुत्री-1		
1137	2184	श्री धनपतसिंह बगानी पुत्र श्री सूरजमलजी	प प्र		62	इंटर	सिनमा व्यवसाय	श्वे त	लाडनू	बी 147 ए मगतमाग, रापू नगर, जयपुर फोन 62978	
	2	उमरावसिंह	पुत्र	वि	38	बी ए	निनेमा व्यवसाय				
	3	शांता	पुत्रवधू	वि	35	बी ए					
	4	मधुसिंह	पुत्री	प्रवि	14		शि कथा 9		पुत्री 1		
1138	2331	श्री भरपतसिंह बगानी पुत्र श्री मूलचन्जी	प प्र	वि	36	बी वाम	सविम	श्वे ते	लाडनू	224, पत्नी गाहन वरजूजा मडी, मोती डू गरी रोड, जयपुर फोन 69426	
	2	सुशीला	पत्नी	वि	30	मास्टर					
	3	घारती	पुत्री	प्रवि	13		शि कथा 6		पुत्र 1, पुत्री-1		

1139	1511	श्री नेमकुमार बंगानी पुत्र स्व श्री ईश्वरलालजी 2 शशि	प प्र पत्नी	वि वि.	38 33	एम ए , साहित्य अलंकार, विशारद सैक.	व्यवसाय	पुत्र-1, पुत्री-1	जे-228, आनन्दकुटीर, धरतीधन, 6, नारायण आदर्शनगर, जयपुर सिंह रोड़, पुलिस मेमोरियल, जयपुर फोन 64271
1140	262	श्री पदमचन्द बंगानी पुत्र श्री नारायणदासजी 2 वीनारानी 3. सुनीलकुमार 4. राजकुमार 5. अशोककुमार 6. पारसकुमार 7 शुचि	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि अवि अवि. अवि. वि	51 45 27 23 21 15 24	मैट्रिक मैट्रिक वी.कॉम " " एम कॉम. " " डी एच एम.एस	व्यापार व्यवसाय " " " " शि हा.सं.	श्वे म. पुत्री-1	म नं. 1706, पारस भवन, ऊंचा कुआ, हल्दियो का रास्ता, जयपुर नारायणदास पदम चद जैन, पुरोहितजी का कटला, जयपुर
1141	2180	श्री प्रशान्तकुमार बंगानी पुत्र श्री राजमलजी 2 मनोज	प प्र. पत्नी	वि. वि.	30 26	वी ए	फैक्ट्री	श्वे ते. लाडनू	9, शर्मा सदन, न्यू कॉलोनी, जयपुर गोल्डन पेपर मिल्स, विश्वकर्मा, जयपुर
1142	629	श्री प्रीतमलाल बंगानी पुत्र श्री चेलारामजी 2 वीना 3. अनिलकुमार 4. नीना	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि वि.	52 47 26 21	व्यवसाय साक्षर वी.ए., एलएल.वी. वी ए.	व्यवसाय		7-क-8, जवाहरनगर, जयपुर, फो. 43787 मै. चेलाराम जैन एण्ड कम्पनी, 7-धूला हाउस, वापू बाजार, जयपुर, फो. 78072
1143	2186	श्रीमती मोहनीदेवी बंगानी पत्नी स्व श्री चन्दनमलजी 2. कानमल 3. गुलाबचन्द 4 जोरावरसिंह 5 विजयसिंह 6 निर्मलकुमार भूतोडिया 7. प्रशान्तकुमार 8. सुशीलकुमार 9 शशाककुमार 10 कुणाल 11. विमलसिंह	पत्नी पुत्र " " " " " " दोयता पौत्र पौत्र पौत्र पौत्र पौत्र	विध. वि. " " " " " " वि वि वि. वि. अवि अवि	75 58 54 45 40 32 29 30 26 17 40	साक्षर मैट्रिक वी.कॉम , एलएल.वी. एम.काम. वी.ए. वी.ए., एलएल वी वी ए वी ए. वी ए. " " मैट्रिक	कृषि " " " " " " इन्डस्ट्रीज " " व्यापार व्यापार शि सैक कृषि	श्वे ते लाडनू	बंगानी एण्ड बंगानी, 9, शर्मा सदन, न्यू कॉलोनी, जयपुर

1151	1890	श्री हरभगवान बंगानी पुत्र स्व. श्री चादारामजी	प प्र	वि	52	मिडिल	व्यापार	जैन	मुल्तान (पजाब)	म.नं. 1260, खोवालो का चौक, गोपालजी का रास्ता, जयपुर (राज)	जैन जनरल स्टोर, मनिहारो का रास्ता, जयपुर अशोका होटल, जयपुर
		2. पुष्पा	पत्नी	"	45	मैट्रिक					
		3 कुशलचन्द	पुत्र	"	28	बी.कॉम	सर्विस				
		4 मंजु	पुत्रवधू	"	24	बी.ए					
		5. रनककुमार	पुत्र	अवि.	25		शि बी.कॉम				
		6. पुष्पेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	20		शि. सैक				
1152	550	श्री ज्ञानचन्द बंगानी पुत्र स्व. श्री सी. आर. जैन	प.प्र	वि.	35	बी ए.	व्यवसाय	जैन श्वे.		1-क-11,जवाहरनगर, जयपुर	फोन 61922 (दुकान)
		2. एस. जैन	पत्नी	वि.	30				पुत्री-1		
		3. सजय	पुत्र	अवि.	18		शि इजिनियरिंग				
		4. सुमन्त	पुत्र	अवि.	16		शि. हा. सै				
1153	2470	श्रीमती ज्ञानदेवी बंगानी पत्नी स्व श्री गोपालदासजी	प प्र.	विधवा	56	हिन्दी कोविद	अध्यापिका	श्वे म.	मुल्तान (पजाब)	चौबीस महाराज का मंदिर, एम.एस वी का रास्ता, जयपुर	एस. एस. जैन, बालिका प्रा. वि, जयपुर
		<u>बैताला</u>									
1154	1072	श्री श्रीचन्द बैताला पुत्र श्री सोहनलाल	प. प्र.	वि.	27	सी.ए.	प्रेक्टिस	श्वे स्था	नागौर	म.न 1920, धी वालो का रास्ता, ढड्डा कटपीस मार्केट, जौहरी बाजार,जयपुर	एस.एस बैताला, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, भाडचूर हाउस, हल्दियो का रास्ता, जयपुर
		2. कान्तादेवी	पत्नी	वि.	23						
		3. राजेशकुमार	भ्राता	अवि	18		शि. बी कॉम. (द्वि.व.)				
		4. प्रकाशचन्द	भ्राता	अवि.	17		शि. बी.कॉम (प्र.व)				
1155	1157	श्री श्रीपाल बैताला पुत्र श्री मानमलजी	प. प्र	वि.	54	मिडिल	व्यापार	श्वे.स्था	नागौर	म.न. 3738, कालों का मौहल्ला, के. जी बी. का रास्ता, जयपुर	2137, नोवाल भवन, हल्दियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2. डचीबाई	पत्नी	वि.	49	मिडिल					
		3. शातिलाल	पुत्र	वि.	32	बी.कॉम.	व्यापार				
		4 रतनचन्द	भतीजा	अवि.	22	बी ए.	शि. एलएल बी.				
		5. सुभाषचन्द	पुत्र	अवि	21		शि सी.ए.				
		6 अनिलकुमार	भतीजा	अवि.	17		शि. हा. सै.				
		7. पुष्पा	पुत्रवधू	वि	23	हा.सै.					
		<u>बैद</u>									
1156	1661	श्री अनिलकुमार बैद पुत्र श्री खेमचन्दजी	प प्र.	वि.	31			जैन		4319,के.जी बी.का रास्ता,जौहरीबाजार, जयपुर	राज. स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
		2 शकुन्तालादेवी	पत्नी	वि.	33	मिडिल			पुत्र-2	फो न. 41304	फो.63266 पी बी एक्स.

1161	378	श्री उमरावमल बैद पुत्र श्री सुगनचन्दजी 2 मानदेवी 3. हीराचन्द 4. विमलादेवी 5 विनीता 6 रचना 7. ललिता 8 दीपक	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पौत्री पुत्री पौत्री पौत्र	वि वि वि. वि अवि. अवि अवि अवि	78 60 46 42 21 18 18 15	बी कॉम मिडिल बी ए	रत्न व्यवसाय व्यवसाय	श्वे म	म न 3774, वैदभवन, के जी.बी. का रास्ता, भवानीराम वोहरा की गली, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 42142
1162	2189/ 40	श्री उम्मेदासिंह बैद पुत्र श्री मोहनलालजी 2 शकुन्तला	प प्र पत्नी	वि वि	33 27	हा सै मिडिल	व्यवसाय (मशीनरी)	श्वे ते.	डो-64, माधोसिंह रोड, विकास कारपोरेशन, बनीपार्क, जयपुर जयपुर फो.नं. 68788
1163	1523	श्री ओमप्रकाश बैद पुत्र स्व श्री गणेशलालजी 2. सुमन	प प्र पत्नी	वि वि.	26 20	सैक. सैक.	व्यवसाय	जैन अजमेर	मोहनसिंह मेहता, तीनो नसियो के बीच मे, बदनपुरा, गंगापल, जयपुर
1164	2380	श्री कन्हैयालाल बैद पुत्र स्व श्री सूरजमलजी 2 मगलीदेवी 3. क्रान्तिकुमार 4. मन्जू 5. किशोर 6 सुमन	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि. वि वि. वि वि ,,	60 58 39 28 30 25	बी कॉम. साक्षर हा सै. सैक. बी.ए मैक	व्यवसाय व्यापार व्यापार	श्वे ते	30, शिवपथ, सूरजनगर, हनूत इण्डस्ट्रीज, सिविल लाइन्स, जयपुर 22 गोदाम, जयपुर फो नं 78611 फो.न. 74687
1165	862	श्री कमलचन्द बैद पुत्र श्री नोरत्नमलजी 2. गेदवाई 3. सुजाता 4. राजीव	प प्र माता पत्नी पुत्र	वि. विषवा वि. अवि.	38 80 32 13	मैट्रिक मिडिल मैट्रिक	सर्विस	श्वे रथा.	1448, बारह गणगीर राज पचायत प्रकाशन का रास्ता, जौहरी चौड़ा रास्ता, जयपुर बाजार, जयपुर फो नं. 62072 पी.पी.
1166	940	श्री कमलसिंह बैद पुत्र श्री मिलापचन्दजी 2. मिलापचन्द 2 छोटीवाई 3. डॉ. रत्ना	प प्र पिता माता पत्नी	वि. वि वि. वि.	37 76 64 35	बी ई. शिक्षित 64 एम बी बी.एस.	व्यापार व्यापार चिकित्सक	श्वे तै	जैन क्लीनिक जैन इलेक्ट्रॉनिक्स, ए-19, अम्बा बाडी ई-155, भोटवाड़ा, भोटवाडा क्रोसिंग, जयपुर, फो 832298 जयपुर, फो 65593

	3. छतरसिंह	पुत्र	अवि.	18		शि. वी.ए. (प्र.व.)			
	4. शान्तिलाल	पुत्र	अवि	16		शि. हा सै.			
	5 विनोद	पुत्र	अवि.	14		शि मिडिल			
1173 2192	श्री खडगसिंह वैद	प प्र.	वि.	35		नौकरी			
	पुत्र श्री मालचन्दजी								
	2. सरोज	पत्नी	वि.	33					
1174 941	श्री गुलाबचन्द बैद	प प्र.	वि.	40	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
	पुत्र श्री मिलापचन्दजी								
	2. विमला	पत्नी	वि	37	मैट्रिक				
	3. अजू	पुत्री	अवि	16		शि सैक.			
	4. मंजू	पुत्री	,,	14		शि. कक्षा 9			
1175 2154	श्रीमती चक्काबाई बैद	प्र.प	विधवा	50	साक्षर				
	पत्नी स्व. श्री हीराचन्दजी								
1176 2344	श्री चन्दनमल बैद	प. प्र.	वि.	62	एम ए ,एलएल बी.	मिनिस्टर राजस्थान			
	पुत्र श्री जयचदलालजी					(कैनाल बोर्ड)			
	2. सोहनीदेवी	पत्नी	वि.	58					
	3. चन्द्रशेखर	पुत्र	वि.	30	एम.बी.बी.एस., एम.डी.	डॉक्टर			
	4. सुभांग	पुत्रवधू	,,	26					
	5. चन्द्रदीप	पुत्र	,,	26	बी. कॉम.	व्यापार			
	6. सरोज	पुत्रवधू	,,	23	बी ए.				
1177 1115	श्री चन्द्रसिंह वैद	प प्र.	वि	54	साक्षर	रत्न व्यवसाय			
	पुत्र श्री तुद्धसिंहजी								
	2 कमला	पत्नी	वि	48	साक्षर				
	3 दिलीपसिंह	पुत्र	अवि	21	बी ए	रत्न व्यवसाय			
1178 34	श्री जतनमल बैद	प. प्र.	वि.	41	मैट्रिक	व्यवसाय			
	पुत्र स्व. श्री हीरालालजी								
	2 कचन	पत्नी	वि.	37	साक्षर				
	3. उपाकुमारी	पुत्री	अवि.	17		शि. हा सै			
	4. सज्जनकुमारी	पुत्री	अवि.	15		शि. सैक.			
	5. सजयकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 9			

पुत्र-3, पुत्री-1

श्वे ते. रतनगढ

पुत्र-1, पुत्री-1

श्वे. ते

पुत्र-1

श्वे. स्था.

जैन सरदार शहर

पौत्र-2, पौत्रियाँ-2

श्वे स्था. वीकानेर

श्वे.ते. राजलदेसर
(चूरू)

पुत्र-1, पुत्री-1

सरोजकोल्ड स्टोरेज
145, इण्डस्ट्रियल
एरिया, भोटवाड़ा,
जयपुर, फो 842425

11, वली गार्डन,
म्यूजियम रोड, जयपुर
फो.न 79985
ढड्डा मार्केट, जौहरी
वाजार, जयपुर
फो. न 42948

डिग्गी हाउस,
हॉस्पिटल रोड, जयपुर
फो.न. 62176

के-15, मालवीय मार्ग,
जयपुर
फो न. 73770
राज. सचिवालय
जयपुर
फो.न. 73383

घीवालो का रास्ता,
जयपुर, फो 44256

वी-14, लक्ष्मीनारायण
पुरी, सूरजपोल,
जयपुर-3
ओसवाल साडी
सेन्टर, 46, न्यू
मार्केट, घी वालो का
रास्ता, जयपुर-3,
फो नं. 40288

1185	779	श्री घमंचन्द बंद पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्दजी	प प्र	वि	41	एम एससी.,बी एड. अध्यापक(पी जी टी) श्वे.ते.	44-बी, एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी, जयपुर	केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर, फो. 63593
		2 कौशल्या	माता	विधवा	65	साक्षर		
		3 नरेश	भ्राता	अवि.	23	एम.ए	रत्न व्यवसाय	
		4. विमला	भ्रा वधू	वि	35	बी ए.		
		5 निर्मल	भ्राता	वि	30	एम.एससी.	बैंक अधिकारी	एस.वी.बी.जे , तिलक मार्ग,सी-स्कीम, जयपुर
		6. मीना	भ्रा वधू	वि.	26	एम. ए.		
		7. भारतभूषण	भ्राता	वि	34	हा सैंक	सुपरवाइजर एव मैकेनिक.	सोना एन्टरप्राइजेज, शालीमार के सामने, जयपुर
		8 गुणमाला	भ्रा.वधू	वि.	27	सैंक		जयपुर
		9 सतीश	भ्राता	अवि	31	हा सैंक	मैकेनिक	जी ई सी. ऑफ इडिया, जी.पी.ओ के सामने, एम आई.रोड, जयपुर
1186	1757	श्री नरेन्द्रसिंह बंद पुत्र स्व श्री किशोरसिंहजी	प प्र.	वि	27	बी कॉम	रत्न दलाली	श्वे.स्था बीकानेर 7-च-4, जवाहरनगर, जयपुर
		2 सिरहकवर	माता	विधवा	48			
		3 सगीता	पत्नी	वि.	22	सैंक		
		4. सुरेन्द्रसिंह	भ्राता	अवि.	20		शिक्षार्थी	
1186A	1999	श्री नेमीचन्द बंद पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्दजी	प. प्र	विधुर	62		फैक्ट्री प्लास्टर ऑफ पेरिस	श्वे म. 2774, मेहता निवास, 2154, हल्दियों का आगरा रोड, पुराना घाट, जयपुर फो न 43542
		2 अशोककुमार	पुत्र	वि.	36	बी.एससी	रत्न व्यवसाय	2154, हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर, फो. 42564
		3. विजयकुमार	पुत्र	वि.	32	बी कॉम.	फैक्ट्री	2775, मेहता निवास प्लास्टो मिनरल
		4 अनिलकुमार	पुत्र	वि	26	बी कॉम. एलएल बी.,	फैक्ट्री एव रत्न व्यवसाय	एण्ड केमिकल इन्डस्ट्री 2775, मेहता निवास आगरा रोड, पुराना घाट, जयपुर-3 फो.न. 43542
		5. चेतनकुमारी	पुत्रवधू	वि.	32	हा सैं.		
		6. मजूकुमारी	पुत्रवधू	वि	27	बी ए		
		7. अर्चनाकुमारी	पुत्रवधू	वि.	23	हा सैं.		
		8 मजू	पुत्री	अवि	21	एम कॉम.		

पुत्र-2 पुत्रियाँ-4

पुत्र-1

पुत्र-5,पुत्री-1

1201	356	श्री भारतभूषण बंद पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्दजी	प.प्र.	वि	36	इन्टर	व्यवसाय	श्वे.स्था.	डी-15, इन्द्रपुरी, लाल कोठी, एवरेस्ट कॉलोनी, जयपुर	सोना एन्टरप्राइजेज, चर्चरोड, जयपुर फो.न. 65902
		2. गुणमाला	पत्नी	वि	26	इन्टर		पुत्र-1, पुत्री-1		
1202	1009	श्री मगनचन्द बंद पुत्र श्री इन्द्रचन्दजी	प.प्र.	वि.	45	मिडिल	व्यवसाय	श्वे.जैन	1572, परवाल भवन, जडियो का रास्ता, जयपुर	
		2. सुन्दरवाई	पत्नी	वि	42	साक्षर				
		3. बबली	पुत्री	अवि.	22	हा.सं.				
		4. सम्पतकुमार	पुत्र	अवि.	16		शि. कक्षा 6			
1203	309	श्री मगनसिंह बंद पुत्र श्री मुकुन्दसिंहजी	प.प्र.	वि	45	बी.ए., प्रभाकर	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. वीकानेर	1193, पाटनी भवन, जयपुर बैंक की गली, चौडा, रास्ता, जयपुर	
		2. सुशीला	पत्नी	वि.	38	हा.सं		पुत्री-1		
		3. संगीता	पुत्री	अवि	16		शि. हा.सं.			
1204	939	श्री मन्नालाल बंद पुत्र श्री मिलापचन्दजी	प.प्र.	वि.	55	डॉक्टर	व्यापार	श्वे.ते	ए-18, अम्बावाडी, भोटवाडा मोड पर, जयपुर	जैम इलेक्ट्रो मैकेनिकल ई-155, बी.के.ए, जयपुर, फो.नं. 84
		2. पुखराजदेवी	पत्नी	वि	50					
		3. विनोद	पुत्र	वि.	30	बी कॉम.	व्यापार			फो न 64647
		4. नलिना	पुत्रवधू	वि.	28	"				
		5. सुभाष	पुत्र	"	26	बी.ए.	व्यापार	पुत्री-1		
1205	2194	श्री मारणकचन्द बंद पुत्र श्री मालचन्दजी	प.प्र.	वि	49	मैट्रिक	नौकरी	श्वे.ते रतनगढ	44, न्यू कॉलोनी, जयपुर	
		2. किरणदेवी	पत्नी	वि.	45	मैट्रिक				फो.न. 65878 पी पी.
		3. सुरेन्द्र	पुत्र	वि.	25	मैट्रिक	पैकिंग मैटिरियल			
		4. प्रभा	पुत्रवधू	वि	22	मैट्रिक				
		5. चन्द्रप्रकाश	पुत्र	अवि.	20	बी.कॉम	पैकिंग मैटिरियल			
		6. पुष्पा	पुत्री	अवि.	18	बी ए.				
1206	1431	श्री मानचन्दजी बंद पुत्र स्व. श्री रतनलालजी	प. प्र.	वि.	32	एम.ए , एम कॉम , एम फिल.,एलएल बी.	अध्यापन	जैन खडेला (सीकर)	अशोक भवन, ऊँचा कुआ,हल्दियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	सुबोध महा वि., जयपुर फो.न 72989
		2. सतोष	पत्नी	वि	31	बी ए.				
1207	2190	श्री मिलापचन्द बंद पुत्र श्री जोधराजजी	प.प्र.	विधुर	77		फैक्ट्री	श्वे.ते लाडनू	फो न 43415	(1) जैन इलेक्ट्रो मैके- निकल जयपुर लैम्प्स, विश्वकर्मा, जयपुर
		2. पन्तालाल	पुत्र	वि.	57	हा सं.	व्यवसाय			(2) जैम टैंक., मालवीया नगर, जयपुर
		3. पुखराजदेवी	पु व	वि.	50					
		4. गुलाबचन्द	पुत्र	वि	36	सं				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 विमला	पुत्रवधू	वि	36						जयपुर
		6 कमलसिंह	पुत्र	वि	35	बी ई	व्यवसाय				
		7 डॉ रत्ना	पुत्रवधू	वि	33	एम बी बी एल, एम एल					
		8 विनोदकुमार	पुत्र	वि	27	बी कॉम एलएल बी	व्यवसाय				
		9 नलिना	पु व	वि	25	बी ए					
		10 सुभाषचंद	पुत्र	वि	26	इंटर					
1208	1557	श्रीमती मुन्नादेवी बब पुत्री श्री जसरराजजी चापडा	प प्र	विषया	48	शाक्षर		श्वे स्या		2611, नागोरियो बा चौर, जोहरी बाजार, जयपुर	
		2 प्राप्ति	पुत्री	प्रवि	27	एम ए	नविस				
		3 कुमुम	पुत्री	प्रवि	25	बी ए (टि व)					
		4 राजकुमार	पुत्र	प्रवि	22		शि बी ए (टु व)				
		5 प्रयुजा	पुत्री	प्रवि	20		शि एम ए (पा)				
		6 प्रयुजा	पुत्री	प्रवि	18		शि बी ए (टु व)				
1209	583	डा मोतीचंद बब पुत्र श्री चंदनमलजी	प प्र	वि	45	एम एमसी, पीएच डी	प्राध्यापक	जग	काटा	2/180, जवाहरनगर, जयपुर, फो 44051	
		2 प्राधा	पत्नी	वि	42	हाई स्कूल					
		3 निरूपमा	पुत्री	प्रवि	19		शि बी कॉम			पुत्री-1	
		4 मनीष	पुत्र	प्रवि	15		शि स				
1210	2196	श्री मोतीलाल बब पुत्र श्री जयचन्द्रतासजी	प प्र	वि	48	बी ए	फार्मडी	श्वे ते	नरदारगहर	के 15, मासवीप माग, विद्याल पकेजिंग जयपुर, फो 77448	
		2 गीतमदेवी	पत्नी	वि	42					इन्स्टीट्यूट, बाईस गोदाम, जयपुर फो नं 74687	
1211	408	श्री मोहनलाल बब पुत्र श्री प्रमत्तराजजी	प प्र	वि	63	मैट्रिक	बपडा व्यवसाय	श्वे स्या	व्यापक	बी 103, मठी कॉलोनी, दुर्गा ट 25, बापू जयपुर, फो 44478	
		2 मुन्नादेवी	पत्नी	वि	55	मिडिल				बाजार, भूलेतान बपडा मार्केट, जयपुर	
		3 पानचंद	पुत्र	वि	28	बी ए (टि व)	बपडा व्यापार			फो नं 64025	
		4 उपाकुमारी	पुत्रवधू	वि	26	बी ए (टि व)				पुत्र-2	
1212	1683	श्री रामराज बब पुत्र श्री रामराजजी	प प्र	वि	43	मैट्रिक	व्यापार	श्वे म	बूमी(पाली)	बी 31/32, घनीता कॉलोनी, बजाज नगर, नेटल बसग, बी 8, जयपुर,	घनोर फाउंड्री एण्ड भवानीसिंह मार्ग,
		2 नीताकुमारी	पत्नी	वि	40	शाक्षर					

		3. महेन्द्र	पुत्र	अवि.	20	
		4. राजेन्द्र	पुत्र	अवि.	14	
		5 कविता	पुत्री	अवि.	17	
1213	41	श्री रणजीतसिंह बंद	प प्र	वि	31	हा.सै.
		पुत्र श्री मोहनलालजी				
		2 भंकारदेवी	पत्नी	वि.	25	मिडिल
1214	2456	श्री रणजीतसिंह बंद	प प्र.	वि.	32	एम कॉम
		पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र जी				
		2 भमकूदेवी	माता	विधवा	52	साक्षर
		3 रतनदेवी	पत्नी	वि	30	बी.ए.
		4. विजयसिंह	भ्राता	वि	29	बी.ए
		5. सुशीला	भ्रा.व	वि.	28	बी.ए
1215	1665	श्री रतनचन्द्र बंद	प. प्र.	वि	62	साक्षर
		पुत्र श्री सुगनचन्द्रजी				
		2. मानबाई	पत्नी	वि	55	साक्षर
		3 अशोककुमार	पुत्र	वि.	31	साक्षर
		4 प्रदीप	पुत्र	अवि.	22	मैट्रिक
		5. रेखा	पुत्रवधू	वि.	28	इन्टर
1216	2193	श्री रतनलाल बंद	प प्र	वि.	44	मैट्रिक
		पुत्र श्री सोहनलालजी				
		2 कचनदेवी	पत्नी	वि.	40	
		3 विनय	पुत्र	वि.	26	बी. कॉम.
		4 रेणु	पुत्री	अवि.	21	
		5. कुमारी पुष्पा	पु.वधू	वि.	20	हा. सै.
		6. अतुल	पुत्र	अवि.	18	
1217	926	श्री राजकुमार बंद	प प्र	अवि.	21	बी कॉम.
		पुत्र स्व श्री सागरमलजी				
		2 मुन्नादेवी	माता	विधवा	47	मिडिल
		3 शशि	वहिन	अवि	26	एम.ए.
		4. कुसुम	वहिन	अवि.	24	बी ए
		5. अनुजा	वहिन	अवि.	19	
		6. अनूपा	वहिन	अवि.	17	

शि. बी. कॉम (द्वि व.)
शि. सै.
शि. बी.ए.(प्र.व)
व्यवसाय

श्वे.ते. चूरु

पुत्र-2, पुत्री-1

रत्न व्यवसाय

श्वे ते. चूरु

रत्न व्यवसाय

पुत्रियां-5

परसान का कार्य

श्वे.म

परसान का कार्य

टी.वी रेडियो का कार्य

पुत्र-1

कपडे का व्यापार

श्वे.त. राजलदेसर

कपडे का व्यापार

शि. एम ए

शि हा.सै.

फैक्ट्री

श्वे.स्था.

राज्य.कर्म

शि. एम.ए (फा.)

शि बी ए.(फा.)

फो 66170 पी.पी. जयपुर, फो. 6510
7739.

भवरलालजी गाँधी का मनोज इन्जीनियर
मकान, एम.एस.वी का कॉरपोरेशन, अशोक
रास्ता, जयपुर होटल, स्टेशन रोड़,
जयपुर

सुराणा हाउस,
हनुमान का रास्ता,
जयपुर, फो. 42483,
48333

म. नं 2629

पसारी भवन, चूड़ीवालो
का रास्ता,जौहरी बाजार,
जयपुर

सी-108, शिवाजी रतनलाल एण्ड सन्स,
मार्ग, तिलक नगर, कटला पुरोहितजी,
जयपुर, फो. 75084 जयपुर,फो.79378

2611,नागोरियो का
चौक, मोतीसिंह भोमियो
का रास्ता, जौहरी-
बाजार, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1218	2383	श्री रामचन्द्र बब पुत्र श्री केमपीचन्दजी	प प्र	वि	32	हा स	रत्न व्यवसाय	शे ते	लाडनू	4463, डडडा हाउम, के जी बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फो 42565	बद एटरप्राइजेज, 4463, के जी बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फो 42565 प्रमित एटरप्राइजेज, जयपुर फो 60115
		2 मोहनीदेवी	माता	विधवा	60						
		3 विमलादेवी	पत्नी	वि	28	साक्षर					
		4 नवरत्नमल	भ्राता	वि	27	स	जवाहररात				
		5 सरोजदेवी	भ्रा व	वि	24	स					
		6 हनुमानमल	भ्राता	अवि	21	हा न	दुबानकारी				
		7 प्रभाशचन्द	भ्राता	अवि	19	स	रत्न व्यवसाय				
1219	246	श्री रत्नकररा बब पुत्र श्री छगनलालजी	प प्र	वि	58	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था	सखेला (सीकर)	2369, पुमानिया भवन, एम एस बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 73475 फी फी	
		2 रूपादेवी	पत्नी	वि	54	साक्षर					
		3 राजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	29	बी काम	रत्न व्यवसाय				
		4 सविता	पुत्रवधू	वि	27	हा न					
1220	42	श्री ललितकुमार बब पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	36	स	व्यवसाय	श्वे ते	बुरू	म न 2343, एम एस बी का रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर,	जंम रेडीमेड सेटर 14 "यू मार्केट, जयपुर
		2 भज	पत्नी	वि	30						
1221	783	श्री लक्ष्मीचन्द्र बब पुत्र स्व श्री नोरतनमलजी	प प्र	वि	50	मैट्रिन	रकषण हैड	श्वे स्था		85, भट्टा वा रास्ता, सिरह ड्योडी बाजार, जयपुर	एल आई सी ब्राँक इंडिया, भवानीमिह रोड, जयपुर-5
		2 पुष्पा	पत्नी	वि	43	हा न					
		3 अरणकुमार	पुत्र	अवि	24	बी काम	रत्न व्यवसाय				
		4 उत्तमकुमार	पुत्र	अवि	20	बी काम	"				
1222	44	श्री विजयचन्द्र बब पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	42	स	लेखक	श्वे त	बुरू	2343, एम एस बी वा रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर,	"यू इण्डिया जनरल इन्शोरेंस, समारचन्द्र रोड, जयपुर
		2 तारादेवी	पत्नी	वि	35						
1223	2191	श्री विजयसिंह बब पुत्र स्व श्री चुक्रीलालजी	प प्र	वि	50	बी एमसी (टय)	व्यापार	श्वे त	सुजानगढ	डी 73, भ्रम्माबाडी, जयपुर, फो न 77890	सी के उद्योग एफ एफ 46 48, एम ब्राई एरिया, बसानी I जोधपुर फो न 21559
		2 बुलासचन्द	भाई	वि	75		व्यापार				
		3 चरित्रकुमार	पुत्र	वि	30	बी ई (मैके)					
		4 विमलेशकुमार	"		28	बी कॉम, एम बी ए					
		5 प्रशान्तकुमार	"		24	बी ई (सिविल)					

पुत्र-3, पुत्री-1

पुत्र 1, पुत्री 1

पुत्र-1, पुत्री-1

पुत्र 2 पुत्री 1

	6.	अरुणकुमार	पुत्र	अवि	21	बी.एससी., सी. डल्लू ए.			
1124	277	7 अनिलकुमार श्री विनोदकुमार बंद पुत्र श्री लक्ष्मीपतजी 2. श्रीमती विनोदकुमार बंद	" प प्र पत्नी	अवि. वि वि.	18 39 35	वी कॉम. वी कॉम.	शि वी कॉम.(फा) रत्न व्यवसाय	श्वे स्था. खडेला (सीकर)	तोतूका भवन, वारह गरागौर का रास्ता, जयपुर, फो. 78165
1225	2016/ 392	श्रीचन्दजी बंद पुत्र श्री शुभकरराजी 2 चन्दा 3 अजू	प प्र पत्नी पुत्री	वि. वि. अवि	36 33 14	इन्टर सैंक.	राज्य सेवा शि सैंक.	श्वे स्था खडेला (सीकर)	म न 1916, सौंथली ग्रामीण विकास एव वालो का रास्ता, पंचायती राज विभाग, जयपुर, फो 46094 सचिवालय-परिसर, जयपुर, फो 68472
1226	560	श्री सम्पतराज बंद पुत्र श्री मोतीलालजी 2. कमला 3 रोशन 4. सुमित्रा 5 नरेन्द्रकुमार 6 ललित 7. राजेन्द्र	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि अवि अवि. अवि.	52 48 29 25 23 20 17	वी.कॉम मिडिल वी कॉम हा.सैं एम कॉम.	वैक मैनेजर व्यापार (एजेन्सी) नीकरी शि. वी.कॉम. शि वी कॉम.(द्वि व.)	जैन श्वे ते वीकानेर	1-ग-23,जवाहरनगर, राज. स्टेट कोपरेटिव वैक, सी-स्कीम, जयपुर फो न 68305
1227	2385/ 401	श्री संचियालाल बंद पुत्र श्री सतोकचन्दजी 2 चिमला 3 रायचन्द 4. अशोककुमार 5. कुसुमदेवी 6 कमला	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्री	वि वि. वि. अवि वि अवि.	50 42 25 19 22 13	मिडिल	व्यवसाय	श्वे ते वीकानेर	इमली वाले पंसारी का मकान, जौहरी वाजार, जयपुर फो.नं. 40925
1228	318	श्री सागरमल बंद पुत्र श्री हमीरमलजी 2. शाति 3 रामवीरसिंह 4 सुनीता 5 अनिल	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि वि वि. अवि.	56 54 30 27 20	वी कॉम , एलएल.वी एम ए. वी एससी , एलएल वी एम.ए.	एडवोकेट एडवोकेट शि वी.कॉम (फा)	श्वे जैन	एस वी.36, भवानीसिंह रोड, वापूनगर, जयपुर फो न 62757
								पुत्र-1	
								पुत्र-1	
								पुत्र-1	
								पुत्रियाँ-2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1229	247	श्री सतीशचन्द बब पुत्र स्व श्री खगनलालजी	प प्र	वि	60	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या	खडेल (सीनर)	2369 पु गलिया भवन, एम एस बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फा न 73475	
	2	सम्पतदेवी	पत्नी	वि	50	साक्षर					
	3	मजू	पुत्री	अवि	23	एम कॉम					
	4	अशोकपुरमार	पुत्र	अवि	21	बी कॉम	रत्न व्यवसाय				
	5	अभयकुमार	पुत्र	अवि	15		शि सव				
1230	1388	श्री सुबोध बब पुत्र श्री अभयारणजी	प प्र	वि	41	सव	रत्न व्यवसाय	जन	अजमेर	बुरह भवन, सातियो का मोहल्ला, के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 43096 पी पी	
	2	नाता	पत्नी	वि	36	सव					
	3	मुत्ता	पुत्री	अवि	15		शि बी ए (प्र व)				
	4	वन्दना	पुत्री	अवि	14		शि नक्षा 9				
1231	2382	श्री सुरेशकुमार बब पुत्र श्री इलासचन्दजी	प प्र	वि	33	सव	रत्न व्यवसाय	श्वे ते	चूरु	1416, ताराचन्द नायब की गली, पीतलियो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 64999 पी पी	
	2	मोहनीदेवी	माता	विषवा	68						
	3	सुसुम	पत्नी	वि	31	हा स					
1232	916	श्री सुरेशसिंह बब पुत्र श्री नैमसिंहजी	प प्र	वि	42	सी ए	फक्ट्री	श्वे स्या	बीकानेर	2-ख 23 जवाहरनगर, जयपुर, फो न 44397, " 45513	
	2	नवरवाई	माता	वि	65	साक्षर					
	3	शांतादेवी	पत्नी	वि	36	मैट्रिक्स					
	4	अमपालसिंह	भ्राता	वि	34	सी ए	चा अवाउटेट (बम्बई)				
	5	निमला	भ्रा बधू	वि	23	मैट्रिक्स					
	6	योगेशसिंह	भ्राता	वि	30	सी ए	रत्न दलाली				
	7	सुशीलादेवी	भ्रा बधू	वि	21	मैट्रिक्स					
	8	हीरासिंह	भ्राता	वि	28	सी ए	रत्न व्यवसाय				
	9	मधु	भ्रा बधू	वि	25	बी ए					
	10	सरिता	पुत्री	अवि	20						
	11	मजू	,	,	16		शि बी ए (प्र व)				
	12	हिम्मतसिंह	पुत्र	अवि	18		शि सव				
	13	आनन्द	भ्राता	अवि			शि कक्षा 9				

1233	2384	श्री हनुमानमल वैद पुत्र श्री मागीलालजी 2. श्रीमती हनुमानमल	प प्र. पत्नी	वि वि	39 36	बी कॉम शिक्षित	व्यापार	श्वे ते लाडनू'	जैन क्लॉथ हाउस, मिलाप भवन के पीछे, के.जी.वी का रास्ता, जयपुर
1234	860	श्री हिम्मतसिंह वैद पुत्र स्व श्री पूनमचन्दजी 2 विमला 3. ज्योत्सना 4 दीपक 5 राजश्री 6. जयश्री 7. सजय	प प्र. माता पत्नी भ्राता पुत्री पुत्री पुत्र	वि. विधवा वि. अवि. अवि. " "	48 76 41 26 24 20 18	इण्टर वी कॉम ,एलएन बी. इण्टर वी ए. गि. वी.ए (द्वि व.)	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	गुलाव निवास, एम आई. रोड, जयपुर, फो न. 74183 78548 69873
1235	2405/ 1602	श्री हीराचन्द वैद पुत्र श्री बुद्धसिंहजी 2 रतनदेवी 3. प्रेमचन्द 4. तारादेवी 5. मोतीचन्द 6. मधुकुमारी 7. मानकचन्द 8. सरोजदेवी 9. नवरतनमल 10. प्रकाशचन्द 11 राजकुमार 12 पारसचन्द 13 सजयकुमार 14. इन्द्रचन्द 15. सगीता 16 लक्ष्मी	प प्र. पत्नी भ्राता भ्रा.वधू भ्राता भ्रा वधू भ्राता भ्रा.वधू भ्रा पुत्र " " " " भ्रा पुत्री "	वि. वि. " " " " अवि. " " अवि. " " अवि. " "	59 55 50 45 42 37 39 34 24 22 20 16 15 13 17 16	मैट्रिक मिडिल मैट्रिक मिडिल मैट्रिक मिडिल इण्टर मैट्रिक इण्टर वी कॉम. वी.कॉम. सैक. सैक. गि. मिडिल गि. वी.ए. (प्र व.) गि. हा.सं	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रेडीमेड कपडे " " गि. मिडिल गि. वी.ए. (प्र व.) गि. हा.सं	श्वे म	जोरावर भवन, परतानियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 48617 वैंगलोर रेडीमेड क्लॉथ स्टोर, 130, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 47104 2. राजदूत एण्टर- प्राइजेज, चौकडी मोदी खाना, जयपुर, फो.नं 69749
1236	1998	श्री ज्ञानचन्द वैद पुत्र श्री फूलचन्दजी 2 सरदारवाई	प. प्र माता	वि विधवा	54 80	एम ए	जवाहरात	श्वे.मं.	2154, हल्दियो का रास्ता, जयपुर, फो नं. 42564

पुत्र-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 किरनकुमारी	पत्नी	वि	49	मिडिल					
		4 राजेश	पुत्र	अधि	15		शि स				
1237	798	श्री ज्ञानचंद शंकर पुत्र श्री भवरीलालजी	प प्र	वि	39	बी ए	जवाहरराज	श्वे स्या	सडमा (सीरर)	2450, मास्की का चौक मोतीसिंह भोमिया का रास्ता, जयपुर, फोन 44731	
		2 मूलीबाई	माता	विधवा	80	साक्षर	विश्राम/धम ध्यान				
		3 लक्ष्मी <u>बेराठी</u>	पत्नी	वि	38	बी ए			पुत्र 1, पुत्री 1		
1238	314	श्री अमरचंद बराठी पुत्र श्री सरातीलालजी	प प्र	वि	47	मिडिल	परमान रा काम	श्वे म		म न 2388, गुजराती हाउस र रामने, धी वालो रा रास्ता, जयपुर	
		2 विमलादेवी	पत्नी	वि	38						
		3 नानचंद	पुत्र		18	स			पुत्री 1		
		4 चंद्रप्रकाश	पुत्र		16	स					
		5 उमादेवी	पुत्री		19						
1239	760	श्री छट्टनलाल बराठी पुत्र श्री गैदीलालजी	प प्र	वि	66	मिडिल		श्वे म		रामलताजी का रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 46982	
		2 किरणदेवी	पत्नी	वि	58	साक्षर					
1240	486	श्री सुगराजमल बराठी पुत्र श्री गैदीलालजी	प प्र	वि	35		गौररी	श्वे म		म न 1-48, बुलियन के पास, हृदिये का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 42617	गजानन कामेंरी, हृदिये का रास्ता, जयपुर-3 एन बी सी, सातीपुरा रोड, जयपुर
		2 राजावती देवी	पत्नी	वि	51						
		3 उम्मेदचंद	पुत्र	रि	34	डी एम ई	गौररी				
		4 विजयचंद	पुत्र	वि	30	मैट्रिक	रत्न ध्ययसाय				
		5 पुण्या	पुत्री	अधि	22		शि बी ए (फा)				
		6 मधु	पुत्री	अधि	20		शि बी ए (प्रथ)				
		7 नयना	पुत्रवधू	वि	30	मैट्रिक					
		8 सोहसता	पुत्रवधू	वि	25	बी ए			पुत्र 3-1, पुत्रियाँ-2		
1241	1469	श्री लालचंद बराठी पुत्र श्री गणेशीलालजी	प प्र	वि	64		रत्न ध्ययसाय	श्वे म		बराठी भवन, हृदिये का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 45008	
		2 राजदुलारी	पत्नी	वि	63						
		3 प्रकाशचंद	पुत्र	वि	42						

		5. सुभाषचन्द्र	पौत्र	वि	45	इन्टर	रत्न व्यवसाय			
		6. रमनदेवी	पौ.व.	वि	40	साक्षर				
		7. सजीव	प्रपौत्र	अवि.	21	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय			
		8. संदीप	प्रपौत्र	अवि	18		शि बी कॉम (द्वि.व)			
1251	183	श्री चन्द्रराज बोथरा	प प्र.	वि	36	हा.सं.	रत्न व्यवसाय	जैन	वीकानेर	1846, कोचर भवन, बारह गणगौर का रास्ता, जयपुर
		पुत्र श्री चम्पातालजी								
		2. नवरत्नदेवी	माता	विधवा	72					
		3. कलादेवी	पत्नी	वि.	29					
		4. सन्तकुमार	भतीजा	अवि.	13		शि कक्षा 7			
1252	180	श्री चन्द्रसिंह बोथरा	प.प्र.	वि.	59	शिक्षित	विश्राम			
		सुपुत्र श्री सुजानसिंहजी								
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	54	साक्षर				
		3 सरदारसिंह	पुत्र	वि	32	इन्टर	रत्न व्यवसाय			
		4 रीतादेवी	पुत्रवधू	वि.	28	साक्षर				
		5. ताराचन्द्र	पुत्र	वि.	30	इन्टर	रत्न व्यवसाय			
		6. निर्मलादेवी	पुत्रवधू	वि	26	मिडिल				
1253	1109	श्री चम्पालाल बोथरा	प प्र	वि	51	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		पुत्र श्री हजारीमलजी								
		2. छैलीवाई	माता	विधवा	70	साक्षर				
		3. रूपकवर	पत्नी	वि	45	साक्षर				
		4. शरदकुमार	पुत्र	वि.	28	बी ए.	रत्न व्यवसाय			
		5. सुमन	पुत्रवधू	वि.	24	बी.ए.				
		6 विजयकुमार	पुत्र	अवि.	21	बी ए.	रत्न व्यवसाय			
1254	2488	श्री चैनरूप बोथरा	प प्र	वि.	60	मिडिल	नौकरी			
		पुत्र श्री ईश्वरदासजी								
		2 सम्पतदेवी	पत्नी	वि	56	साक्षर				
		3. कमलचन्द्र	पुत्र	वि.	40	मैट्रिक	नौकरी			
		4. आशादेवी	पुत्रवधू	वि.	37	साक्षर				
		5 सुनीलकुमार	पौत्र	अवि.	17		शि. हा.सं			
		6. अनिलकुमार	पौत्र	अवि	13		शि. कक्षा 7			
1255	1295	श्री जतन बोथरा	प प्र.	वि.	29	बी.एससी.	व्यवसाय	जैन	वीकानेर	चदन केवल्स 6-पी8-सी, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, वाईस गोदाम, जयपुर फो न 77367
		पुत्र श्री चतुरमुजजी								
		2. तारादेवी	पत्नी	वि.	25	हा सं.				

पुत्र-1, पुत्रियाँ-4

पुत्र-2, पुत्रियाँ-2

पौत्री-1

पुत्रियाँ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1256	2137	श्री जतनवास बोधरा पुत्र श्री त्रिलोकचन्द्रजी	प प्र	विधुर	60	साक्षर	व्यवसाय	श्वे ते	वीकानेर	ए 86 ए, जनता रॉलोनी, जयपुर फोन 43395	
		2 मुन्नीलाल		पुत्र रि	35	बी ई	व्यवसाय				
		3 मोहलाल		पुत्र वि	28	इ इ एम एम	रखिम				
		4 धर्मचन्द्रगुमार		पुत्र वि	23	बी ए	व्यवसाय				
		5 भुवेंगुमार		पुत्र भवि	21	बी कॉम	व्यवसाय				
		6 सुशीलादेवी		पुत्रवधू	28	भट्टिवा					
		7 मजू		पुत्रवधू	24	बी ए					
		8 रेनु		पुत्रवधू	23	बी ए					
		9 राजीवकुमार		पुत्र भवि	13		शि रक्षा 7			पोत्र 2, पोत्री 1	
1257	1508	श्री जीवराज बोधरा पुत्र श्री रूपचन्द्रजी	प प्र	रि	75	साक्षर	विश्राम	श्वे स्या	वीकानेर	3956, बोधरा हाउस, के जी वी ना रास्ता, जयपुर, फोन 42345	
		2 पानावाई		पत्नी वि	67	साक्षर					
		3 प्रवाणचन्द्र		पुत्र वि	33	पी एमसी	रत्न व्यवसाय				
		4 पुष्पा		पुत्रवधू	31	साक्षर				पुत्रियर-3	
1258	2206	श्री विनेश बोधरा पुत्र श्री जयचन्द्रजी	प प्र	भवि	22	बी कॉम	रखिम	श्वे त		बी 210, जनता रॉलोनी, जयपुर फोन 42476	सुनियमल लमज मैयू व प्रा वि सी 1, यू कॉलोनी, जयपुर फोन 61172
		2 मगलीदेवी		माता वि	42						
		3 हसरज		भाई भवि	20	पी कॉम	रखिस				
		4 बच्छराज		भाई भवि	17		शि हा स				
1259	2203	श्री धमचन्द्र बोधरा पुत्र स्व श्री जियालालजी	प प्र	वि	38	बी एससी	वस्त्र मालीवा उद्योग	श्वे ते	डूगरगढ़	सी 18, विहारी मार्ग, टगोर बिद्या भवन के सामने, वनीपाक, जयपुर फोन 79687	जैन कारपेटस ए डी 0/4 डी देवीमार्ग वनीपाक, जयपुर फोन 79687
		2 मजूदेवी		पत्नी वि	31	हा स	वस्त्र उद्योग				
		3 रेणु		पुत्री भवि	15		शि हा स			पुत्री 1	
		4 रेखा		पुत्री भवि	13		शि कदा 10				
1260	92	श्री प्रकाशचन्द्र बोधरा पुत्र श्री गुलाबचन्द्र बोधरा	प प्र	वि	60	एम ए साहित्यरत्न	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		बी 9 गणेश मार्ग, बापूगढ़, जयपुर फोन 63591	प्रकाश ज्वलस, राम भवन, हृदयको बा रास्ता, जयपुर
		2 कमलादेवी		पत्नी वि	55	साक्षर					
		3 तवीनचन्द्र		पुत्र भवि	25	हा स	रत्न व्यवसाय				
		4 प्रवीण		पुत्र भवि	23	एम कॉम					

1261	107	श्री प्रकाशचन्द बोथरा पुत्र श्री सुजानसिंहजी	प प्र	वि	49	बी.काँम.	वैक-नीकरी	श्वे स्था.	प्रकाश भवन, घीवालो एस.बी बी जे चादपोल का रास्ता, जौहरी ब्राच, जयपुर बाजार, जयपुर
		2. दर्शनकुमारी	पत्नी	वि.	44	मैट्रिक			
		3. नीना	पुत्री	अवि.	21		शि. एम. ए.		
		4. नीरा	पुत्री	अवि.	15		शि. कक्षा 10		
		5. सजय	पुत्र	अवि	17		शि. कक्षा 11		
1262	260	श्री भंवरलाल बोथरा पुत्र श्री वस्तीचन्दजी	प. प्र.	वि.	62	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था. भोपालगढ (जोधपुर)	2857, पुलन्दरजी की गली, तेलीपाडा, जयपुर-3 वी एम पावर फो.न. 61540 केवल्स लि., औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
		2. रिखवचन्दजी	पुत्र	वि	40	बी.ई. (मैक)	टेक्नि. एडवाइजर		
		3. सुवावाई	माता	विधवा	78				
		4. समानकवर	पत्नी	वि.	57				
		5. जतनमाला	पुत्रवधू	वि.	35	मैट्रिक			
		6. जीतमल	पुत्र	वि	30	बी.काँम., एलएल बी.हार्डवेयर टूल्स सप्लायर्स			
		7. कमला	पुत्रवधू	वि.	25	बी.एससी.			
		8. तिलोकचन्द	पुत्र	अवि	19		शि. बी.एससी. (फा)		
		9. नरेशकुमार	पौत्र	अवि.	17		शि. बी ए (प्र.व.)		
		10. मीनाक्षी	पौत्री	अवि.	13		शि मिडिल		
1263	122	श्री महेन्द्रकुमार बोथरा पुत्र स्व. श्री जीवनलालजी	प. प्र.	वि.	35	हा सं.	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था. देहली	887, जड़ियो का मै.रूपचन्द महेन्द्रकुमार, रास्ता, चौड़ा रास्ता, बरड़िया हाउस, जयपुर, फो. 76204 पीतलियो का चौक, जयपुर-3
		2. सीतादेवी	माता	वि.	65				
		3. कुसुमदेवी	पत्नी	वि	31	सैक.			
		4. पूनमचन्द	भाई	वि	30	सैक	रत्न व्यवसाय		
		5. विनीता	भ्रा व	वि	28	बी.ए.			
		6. प्रकाशचन्द	भाई	अवि.	27	बी काँम	रत्न व्यवसाय		
		7. नीता	भतीजी	अवि.	19		शि बी ए. (प्र व)		
		8. धर्मेन्द्र	भतीजा	अवि	17		शि हा सं.		
		9. जितेन्द्र	भतीजा	अवि	15		शि मिडिल		
1264	1622	श्री मिलापचन्द बोथरा पुत्र श्री गुलाबचन्दजी	प प्र	विधुर	70	हाईस्कूल	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था.	'अल्पना' 178, हल्दियो फो.न.45409,40361 का रास्ता, जौहरी 44294 बाजार, जयपुर
		2. सतीशचन्द	पुत्र	वि	39	बी ई. (सिविल)	रत्न व्यवसाय		
		3. इन्द्रानी	पुत्रवधू	वि	35	हा सं.			
		4. सुरेशचन्द	पुत्र	वि	34	हा सं	रत्न व्यवसाय		
		5. माया	पुत्रवधू	वि	32	बी.ए			

पौत्रियाँ-2

पुत्र-1 पुत्रियाँ-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	शरद	पुत्र	वि	30	बी ए	रत्न व्यवसाय				
	7	अनीता	पुत्रवधू	वि	22	बी ए		पोनिया 4			
	8	सलिन	पौत्र	अवि	14		शि मत्र				
1265	1826	श्री मूलचंद घोषरा पुत्र श्री विचानचंदजी 2 सुधादेवी	प प्र	वि	35	बी एम	गलीचा व्यवसाय	जा	बीरानेर	A-10 मुभाप नगर, शास्त्री नगर जयपुर	
	2	सुधादेवी	पत्नी	वि	30	हा म	गलीचा व्यवसाय		पुन 1 पुनी 1		
1266	2317	श्री मोतीलाल घोषरा पुत्र श्री जीवराजजी 2 तारादेवी	प प्र	वि	37	मैट्रि	सत्रिम	श्वे ते		5268 रगरानी टोडी टु न 57 चरजीतान	रामजीदास, जयपुर
	2	तारादेवी	पत्नी	वि	32				पुन 2, पुनी-1	घाटनेट, जयपुर पो न 72720	
1267	1891	श्री रामलाल घोषरा पुत्र श्री रूपचंदजी 2 पारसमन 3 विमलादेवी 4 हुकमचंद 5 उषा 6 हीरेन्द्र 7 लता 8 राजेश	प प्र	विधुर	79	हा म हा म	सेवा निवृत्त	जा		590 घोषरा हाउन, वासीनापजी की गली, गोपालजी बा राम्ना, जयपुर 3 पो 78232	मुगल इण्डिया हाउन रामदाग पलेग, जयपुर
	2	पारसमन	पुत्र	वि	43	हा म	रत्न बनानी				
	3	विमलादेवी	पुत्रवधू	वि	40	म					
	4	हुकमचंद	पुत्र	वि	25	हा म	नौदरी				
	5	उषा	पुत्रवधू	वि	24	बी ए (डि ग)					
	6	हीरेन्द्र	पौत्र	अवि	18		शि बी एम व व्यवसाय				
	7	लता	पौत्री	अवि	14		शि रत्ना 9				
	8	राजेश	पौत्र	अवि	13		शि पक्षा 8		पुन 2, पुनी 1		
1268	2205	श्री रिद्धकरण घोषरा पुत्र श्री विरधीचंदजी 2 विमला	प प्र	वि	33	बी ए	गोररी	श्वे ते	लूणकरनगर बी 305 त्राता	लेशिव धानन्द बटरीज, सी 33, लाजपतमार्ग, जयपुर, पो 78797	
	2	विमला	पत्नी	वि	30	मर			पुन 1, पुनिया 2		
1269	81	श्री बिमलचंद घोषरा पुत्र श्री चान्मलजी 2 सुमोला 3 सनिता	प प्र	वि	37	इंटर	प्रा मंत्रिम	श्वे म	नागौर	इंटरजीवनिह मुहाडिया बा मन्ना, हल्डिया बा पारना, दुमरा चौराहा, जोहरी बाजार, जयपुर	श्री मोभागमन गोकुलचंद जलस पुनिया बिल्डिंग न 1 एम एम बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर पो 43030, 41042,
	2	सुमोला	पत्नी	वि	30	मिडिल					
	3	सनिता	पुत्री	अवि	14		शि मत्र		पुन-1		

1270	448/519	श्री शुभकरसिंह बोयरा पुत्र श्री देवराजसिंहजी 2. सुरेन्द्रकुमार 3. राजेन्द्र कुमार 4. सुधीरकुमार 5. सूर्यकांता 6. कनक	प.प. पुत्र पुत्र पुत्र पुत्रवधू पुत्रवधू	वि. वि. वि. प्रधि. वि वि.	69 दर्शन विज्ञान 44 बी एमसी. 36 कामसं (तृ.व.) 28 कला (तृ व) 35 एम.ए 27 हा.सं	कार्यनिवृत्त रत्न व्यापार रत्न व्यापार म्यूजिक एवं बन्ध व्यवसाय			3968, एम एम.वी का रास्ता, कटिहारो के कुएं की गली, जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं. 45875	माहेरवरी स्कूल के सामने, तिनक नगर, जयपुर
1271	206	श्री संधारसिंह बोयरा पुत्र श्री जसवन्तसिंहजी 2. नरेन्द्रसिंह 3. शशि	प.प्र. पुत्र पुत्रवधू	विधुर वि. वि.	60 मिडिल 28 बी.कॉम. 22 बी.ए.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था फतहगढ		बारह गलागौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 61192	
1272	872	श्री सरूपसिंह बोयरा पुत्र श्री किशोरसिंहजी 2. गुलाबदेवी 3. चम्पा	प.प्र. माता पत्नी	वि. विधवा वि.	37 बी.कॉम. 66 36 बी ए.	जवाहरात	जैन		3768, के जी.बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	गोयल भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो.41450
1273	1745	श्री सुशीलकुमार बोयरा पुत्र श्री मानमलजी 2. सुशीलादेवी 3. मंगरीदेवी 4. जयकुमार 5. नितादेवी 6. विजयकुमार	प.प्र. पत्नी माता भ्राता भ्रा.व. भ्राता	वि. वि. विधवा वि. वि. प्रवि.	33 बी.एससी. 25 मैक 62 29 बी.कॉम. 23 संक. 26	एल आई सी. एजेन्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स	श्वे म वीकानेर		मूरजमल बिल्डिंग, 4856, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	एस. कुमार एण्ड कं., हवा सडक, बाईम गोदाम, जयपुर
1924		श्री तोहनलाल बोयरा पुत्र श्री चम्पालालजी 2. निमला 3. राजकुमार 4. पतिमा	प, प्र. पति पुत्र पुत्री	वि. वि. प्रवि प्रवि	48 मिडिल 40 मिडिल 18 सैकेंडरी 15	प्राटे की चक्की जयपुर फ्लोर मिन शि हा मै.	श्वे मं.		56, इन्द्रा कॉलोनी जयपुर	मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जयपुर 7, इन्द्रा कॉलोनी जयपुर
1275	2104	श्री हीराचन्द बोयरा पुत्र स्व. श्री हजारीमलजी 2. अकुन्ता	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	42 मैट्रिक 40	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था		सोतियो का मोहल्ला, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	एम एस.वी का रास्ता, घाटगेट संक. स्कूल के पाम,

पुत्र-1, पुत्री-1

पुत्र-1, पुत्री-1

पुत्र-1

पुत्रिया-2

पुत्र-3, पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 मजीबकुमार	पुत्र	प्रवि	18		शि बी ए (प्रथ)			फोन 44141	जौहरी बाजार, जयपुर फोन 40451, 40713
		4 राजीबकुमार	पुत्र	प्रवि	18		शि ,				
		बोरङ्ग									
1276	9	श्री गजराज बोरङ्ग	प प्र	वि	49	बी राम	मैनेजर (उदयपुर)	श्वेत	लाडनू	डी 38, सुभाष मार्ग, सी स्कीम, जयपुर फोन 62615	
		पुत्र श्री चम्पासासजी									
		2 रतनीदेवी	माता	विषया	70						
		3 तारादेवी	पत्नी	वि	46						
		4 धारपतिमिह	पुत्र	प्रवि	20	बी राम	मैनेजर				डी व गस सर्विस, जयपुर
		5 राजेश	पुत्र	प्रवि	13		शि रक्षा 6				
1277	2315	श्री मोतीलाल बोरङ्ग	प प्र	वि	37	बी एससी	धायकर निरी रर	श्वेत	शेखरी	बरवतनगर, टीन रोड ट्रॉगफार्म के पास, जयपुर फोन 78558	धायकर विनीकर सलाहकार, हृत्विद्यो का मरान, जौहरी बाजार, जयपुर फोन 44983
		पुत्र स्व श्री वरनीदाजी				एलएल बी	सलाहकार				
		2 विमलादेवी	पत्नी	वि	33	बी ए	एल आई सी एचैण्ट				
		3 मनीष	पुत्र	प्रवि	14		शि स				
		बोरविया (चौधरी)									
1278	98	श्री अमरसिंह बोरविया	प प्र	वि	48	एम बीएम	इंजिनियरिंग प्राफीसर	श्वेत	स्था	बोठिया (भीलवाडा) जयपुर, फोन 73121	सेंट्रल रवेन्यूज बिल्डिंग, स्टेप्सू सर्विस, जयपुर फोन 63215
		पुत्र श्री जोयसिंहजी									
		2 कमलादेवी	पत्नी	वि	46	मिडिल					
		3 डॉ राजे ब्रसिंह	पुत्र	॥	25	एम बी बी एस	शि एम डी				
		4 रेणु	पुत्रबधू	वि	21	बी ए					
1279	2150	श्री भोकारसिंह बोरविया	प प्र	वि	50	बी एससी	वायलर मैकर चाजमेा श्व	वदनार	जे/4, गणपति नगर, (भीलवाडा) रोड न 3, जयपुर	धोकारसिंह चौधरी वायलर मैकर चाज मैन लोवो शड, जयपुर रेल्वे स्टेशन	
		पुत्र श्री भोपालसिंहजी					(रेल्वे सेवा)				
		2 मोहनचकर	पत्नी	वि	45						
		3 सुदेद्रकुमार	पुत्र	प्रवि	19		शि बी ए (फा)				
1280	2169	श्री तेजसिंह बोरविया	प प्र	वि	45		आई आई टी मैके	जन	उदयपुर	डी 180, लालकोठी मार्ग, सिवाड एरिया, बापूनगर, जयपुर	
		पुत्र श्री हमीरलालजी									
		2 सरोज	पत्नी	वि	36	बी ए, बी एड	शिधिया				
		3 बबीता	पुत्री	प्रवि	16		शि बी ए (प्रथ)				
		4 मणीता	पुत्री	प्रवि	15		शि हास				
		5 हमीरमान	पिता		70	बी ए	सेवा निवृत्त				

पुत्र-2

पुत्र-1

पुत्र-1, पुत्री 1

	2. प्रेमकुमारी	पत्नी	वि	46	साक्षर]						
	3. महेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	29	एम.काँम	रत्न व्यापार					
	4. निर्मला	पु. व.	वि.	25	मैट्रिक						
	5. सतीशकुमार	पुत्र	अवि.	22	बी काँम	शि एलएल.बी					
	6 इन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	14		शि कक्षा 9					
1294 1710	श्री किशनचन्द बोहरा	प प्र	वि.	44	मैट्रिक	व्यवसाय फिल्म व	जैन	जैसलमेर	81 सी,वली गार्डन,	जे. के. फिल्मस	
	पुत्र श्री विजयचन्दजी					समाज सेवा आदि			महात्मा गाधी	एम आई. रोड, जयपुर	
	2 सुधा	पत्नी	वि.	42	सैकण्डरी				कॉलोनी, जयपुर,	फो. 77907	
	3 राजेश	पुत्र	अवि	17		शि हा. सै.			फो. 76047		
	4 कोमल	पुत्र	अवि	15		शि. कक्षा 9					
1295 1530	श्री चम्पकराज बोहरा	प. प्र.	वि	40	फार्मासिस्ट	दवा व्यवसाय			श्वे.म. सिरौही	जे-28, सुभाप मार्ग,	आरासना ड्रग हाउस,
	पुत्र श्री एम. एम.									सी-स्कीम, जयपुर	फिल्म कॉलोनी, जयपुर
	2 निर्मला	पत्नी	वि.	35						फो 66109	फो. न 63951
1296 1461	श्री जीवनलाल बोहरा	प प्र	वि	60	मिडिल	रत्न व्यवसाय			श्वे. जैन	A/2/3 तिलक मार्ग,	ज्वैलर्स एम्पोरियम
	पुत्र श्री पन्नालालजी									सी-स्कीम, अशोकनगर	एम.आई रोड़, जयपुर
	2. गुलाबदेवी	पत्नी	वि	66	मिडिल					थाने के पास, जयपुर	फो. न. 75767
	3 मनमोहन	पुत्र	वि	45	बी ए	रत्न व्यवसाय				फो न. 75432	
	4. सरलादेवी	पुत्रवधू	वि.	40	मैट्रिक						
	5. अनूपकुमार	पौत्र	अवि	23	बी.काँम.	रत्न व्यवसाय					
	6. अर्चना	पौत्री	अवि	20		शि बी.ए					
	7. साधना	पौत्री	अवि	18		शि. बी.ए.					
1297 1619	श्री जुगराज बोहरा	प. प्र.	वि	34	मिडिल	मैनेजर					
	पुत्र श्री विरदीचन्दजी										
	2 शान्तिदेवी	पत्नी	वि	21	साक्षर						
1298 963	श्री तेजभान बोहरा	प प्र.	वि.	70	साक्षर	लकड़ी का व्यापार	जैन				
	पुत्र श्री टेकचन्दजी										
	2. शोलादेवी	पत्नी	वि	55	साक्षर						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	सरलादेवी	पत्नी	वि	55	मैट्रिड					
	3	संजोगुमार	पुत्र	धवि	21		शि बी वॉम				
	4	सध्या	पुत्री	,	20		शि हा स				
	5	सीमा	पुत्री		17		शि बी ए (प्र थ)				
1309	341	श्री मोहनलाल बोहरा पुत्र स्व श्री जसराजजी	प प्र	वि	39	मैट्रिड	रत्न टलागी	श्वे		1764 गाविन्दराजिया वा रास्ता पुरानी रस्ती जयपुर	
	2	पूरणदेवी	माता	विधवा	60						
	3	पुष्पादेवी	पत्नी	नि	32	मिडिन					
	4	विशालकुमार	पुत्र	धवि	15		शि सं				
1310	598	श्री रामलाल मोहरा पुत्र श्री पुनराजजी	प प्र	वि	52	एम वॉम , एलागल बी	श्रीवरी		पुनिया-2 ज न जालोर	3 द 21, जवाहर नगर, जयपुर, फो 68431	
	2	शांता	पत्नी	वि	46	मिडिल					
	3	मुनील	पुत्र	धवि	26	एम एसजी	श्रीवरी			एसस 282	
	4	सुमीता	पुत्री	धवि	23		शि एम बी बी एस				
	5	नीतू	पुत्री	धवि	21		शि एम वाम				
1311	2208	श्री रिपबचंद बोहरा पुत्र श्री सगत रामजी	प प्र	वि	55	सिधित	व्यापार	श्वे ते	पतहपुर (शैलावाटी)	हॉस्पिटल रोड, 6 सो स्वीम, फो 75311	गोपालजी वा रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर फो 74695, 72937
	2	धम्पादेवी	माता	विधवा	80						
	3	लिछमीदेवी	पत्नी	वि	52						
	4	सूरजमल	पुत्र	वि	38	हा सै					
	5	राजकुमारी	पुत्रवधू	वि	36	म के					
	6	बादिमल	पुत्र	वि	36	हा स					
	7	गोभाग	पुत्रवधू	वि	32	सक्केडरी					
	8	ताराचन्द	पुत्र	वि	33	बी एससी					
	9	सुशीला	पुत्रवधू	वि	26	नकण्डरी					
	10	रामचन्द्र	पुत्र	वि	30	बी वॉम					
	11	शीला	पुत्रवधू	वि	26	सक्केडरी					
	12	राजेंद्र	पुत्र	वि	26	हा स					
	13	मजू	पुत्रवधू	वि	22	हा स					
	14	पवनकुमार	पुत्र	धवि	20		शि बी ए (प्र थ)				
	15	महेन्द्रकुमार	पुत्र	धवि	18		शि सक्				
	16	घनराज	पुत्र	धवि	16		शि सक्के				
									पुत्र-6, पुनिया-5		

1312	1840	श्री रोशनलाल बोहरा पुत्र श्री गुलाबचन्दजी 2. शबेशकुमारी 3. विनीता 4. विजय	प प्र. पत्नी पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	41 38 16 13	एम.ए. बी.ए. शि. बी. ए (प्र.व) शि. मिडिल	बैंक सेवा (अधिकारी) जैन व्यावर	पी-11 तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर फो न. 75106	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जयपुर फो. न 77088
1313	646/ 1977	श्री बिनस बल्द बोहरा पुत्र श्री सिताबचन्द 2. सिताराकुमारी 3. संजयकुमार 4. पकजकुमार 5. संगीता	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	46 45 21 19 16	इन्टर (कॉम) मैट्रिक बी.ए (द्वि.व) शि. कक्षा-10 शि. कक्षा-10	नौकरी श्वे जैन	चन्द्रसूरी भवन, बी342, ज्वैलर्स एसोसिएशन, जनता कॉलोनी, आगरा जीहरी बाजार रोड, जयपुर	जयपुर, फो. 43829 जन-उपयोगी भवन, आगरा रोड, जयपुर-4 फो.नं. 44014
1314	1666	श्री खिमलचन्द बोहरा पुत्र श्री रतनलालजी 2. सन्तोषदेवी	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	55 35	मैट्रिक मैट्रिक	बीमा एजेंट श्वे ते	बोहरा भवन 3997 के.जी बी का रास्ता, जयपुर फो. 42934	भारतीय जीवन बीमा निगम, एम. आई. रोड, जयपुर, फो. 61645
1315	1243	श्री सागरमल बोहरा पुत्र श्री वसीलालजी 2. सुशीला 3. राजेशकुमार	प प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि.	39 36 13	एम.ए., एम.एड. मिडिल मिडिल	उप-प्रधानाचार्य जैन	चित्तौड़गढ़ सागरमल जैन 750 नारनीली भवन, मिनर्वा सिनेमा के पीछे, जयपुर-4	माहेश्वरी हा.सं. स्कूल जयपुर, फो. 61774
1316	2371	श्री सिरहमलजी बोहरा पुत्र श्री गद्वीलालजी 2. शान्तादेवी 3. संजय 4. सबलू	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	42 36 16 14	मिडिल मिडिल शि. कक्षा 9 शि. कक्षा 7	पटसान का कार्य श्वे.ते.	के.जी.बी का रास्ता, जयपुर, फो. 42834	
1317	517	श्री सोहनराजजी बोहरा पुत्र श्री अनराजजी 2. प्रेमवाई 3. निरजनकुमार 4. सम्पत 5. पारसमल 6. मनीष	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र	वि. वि. वि. वि. अवि. अवि.	52 50 34 32 30 13	व्यापार (दुकान) दलाली साक्षर	जैन नाडोल	4539, रामप्रसादजी कामकान, के जी बी. का रास्ता, दूसरा चौराहा, जयपुर	पारस जनरल स्टोर्स के.जी.बी.का रास्ता, पहला चौराहा, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1318	653	श्री मानचन्द बोहरा पुत्र श्री भोतीलालजी 2 मभयतुमारी 3 नगीनादवी 4 मजू 5 राजीवतुमार	प प्र माता पत्नी पुत्री पुत्र	वि विधवा वि प्रवि प्रवि	53 60 49 21 16	इन्टर (कॉम) मैट्रिक (सिल्टाई डि) साक्षर श्री बी ए (द्वि व) सैन	राग सवा श्री बी ए (द्वि व) शि सैन	श्वे ते जयपुर, फो 45603	वी 98, जन मन्दिर भाग, धनु तालासेठी नगर, आगरा रोड, जयपुर, फो 45603	विदभालय समाज कल्याण विभाग राज, जयपुर फो न 45789	
1319	839	श्री मानचन्द बोहरा पुत्र श्री बाबूलालजी 2 सुशीला भडारी (दीपावत)	प प्र पत्नी पत्नी	वि वि वि	35 32	बी ए हा म	उद्योग	जन पत्नी	6/602, गोपीनाथ भाग, एम एल ए बवाटस के पीछे, जयपुर, फो 72212	पुत्र-1, पुत्रियां 3	प्रादिनाथ केवला एण्ड कन्स्ट्रक्शंस, ई 43 ए, न 1 बी, विधवा मर्गा, जयपुर, फो 842678
1320	2092	श्री अरजकुमार भडारी पुत्र श्री प्रेमचन्दजी 2 राजकुमारी 3 मानतुमारी	प प्र पत्नी माता	वि वि विधवा	36 30 68	बी एससी एल एलबी बी ए	एडवोकेट	श्वे म	डी-36, मीरा माग, बनीपाक, जयपुर, फो नं 73583	पुत्री-1	राज हाईकोर्ट, जयपुर
1321	2090	श्री अरजकुमार भडारी पुत्र श्री प्रेमचन्दजी 2 ऊपा श्री आरामचन्द भडारी पुत्र श्री अचलचन्दजी 2 साइबचन्द 3 सुबोधचन्द 4 मजू	प प्र पत्नी प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि वि वि वि वि वि	38 31 73 69 34 31	बी ई विद्युत (इंजी) एम ए मैट्रिक साक्षर एम आई ई (इल) एम ए	निदेशक सहायक प्रवि व्यवसाय	श्वे म जोधपुर जोधपुर	डी 104/1, मीरा माग, बनीपाक, जयपुर	पुत्र 2	दूर संचार, जोधपुर
1322	152	श्री इन्द्रचन्द भडारी पुत्र स्व श्री गोरपालालजी 2 पारसदेवी 3 विमलचन्द 4 पमलेश 5 पदमचन्द 6 पुष्कराज 7 मानचन्द 8 प्रीति	प प्र पत्नी पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्री	वि वि वि वि वि वि प्रवि प्रवि	73 69 34 31 64 55 38 32 33 28 24 14	मैट्रिक साक्षर एम आई ई (इल) एम ए साक्षर इन्टर मिडिल बी काम बी ए हा स	व्यवसाय सहायक प्रवि व्यवसाय	श्वे म जोधपुर	तेरापची स्कूल के सामने, एम एस बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	पुत्र 1, पुत्री 1	श्री एस बी ट्रेडिंग, 42, मोती बाजार, जौहरी बाजार, जयपुर राज राज्य वि म, जयपुर
1323	2074	श्री इन्द्रचन्द भडारी पुत्र स्व श्री गोरपालालजी 2 पारसदेवी 3 विमलचन्द 4 पमलेश 5 पदमचन्द 6 पुष्कराज 7 मानचन्द 8 प्रीति	प प्र पत्नी पत्नी पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्री	वि वि वि वि वि वि प्रवि प्रवि	64 55 38 32 33 28 24 14	साक्षर इन्टर मिडिल बी काम बी ए हा स	व्यवसाय	श्वे म	4488, के जी बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 42182 ,, 41703	पुत्र-3	

1324	315	श्री उगमराज भंडारी पुत्र श्री प्रयागराजजी 2. रमेश 3. उर्मिला 4. विजयराज 5. उर्मिला 6. श्रोमप्रकाश 7. इन्दु 8. कैलाश	प.प्र. पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र	वि. वि. वि. वि. वि. वि. अवि	65 36 31 33 29 31 28 28	एम.ए ,एलएल बी एम.ए ,एम.बी.ए एम.एससी. बी एससी , एलएल बी. एम.ए बी कॉम.,सी ए. एम एससी बी.कॉम.एलएल.बी.	एडवोकेट (सेवा नि. जज) विजनेस एक्जीक्यूटिव विजनेस एक्जीक्यूटिव उद्योग व्यावसायिक सेवा	जैन जैन	जोधपुर जोधपुर	बी-119, मंगल मार्ग, वापू नगर, जयपुर 73, हरीश्रोम हाउस सोसाइटी, वावला, (गुजरात)	नलिनी इंडस्ट्रीज, पोर्ट हर्कोर्ट, नाईजीरिया। II-25, नेहरूनगर, गाजियाबाद, (यू.पी.) इण्डस्ट्रियल एरिया ढोलका, गुजरात दिग्विजय वूलन मिल्स, एरोड्रम रोड़, जामनगर (गुजरात)
1325	218	श्री उम्मेदनाथ भंडारी पुत्र श्री शुभनाथजी 2. कमलकुमारी 3. मुनीश्वरनाथ	प. प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. अवि	57 50 24	एम ए.,एलएल बी साक्षर बी कॉम ,एलएल.बी.	वकालत वकालत	जैन	जोधपुर	एस-7, पीयूष पथ, वापूनगर, जयपुर	29, लायर्स चेंम्बर्स, हार्डिकोर्ट, जयपुर
1326	1045	श्री कमलचन्द भंडारी पुत्र श्री रामराजजी 2. कमलादेवी 3. अशोक 4. अनिता	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि अवि.	41 38 19 15	इण्टर सं. शि. बी कॉम (फा) शि. कक्षा 8	बैंक अधिकारी सेवा निवृत्त	श्वे.जैन	जोधपुर	4840, सौतियो का मौहल्ला, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर
1327	2116	श्री कोमलसिंह भंडारी पुत्र श्री हर्षसिंहजी 2. सोहनवाई 3. सुशीला 4. प्रवीणा 5. रीना	प. प्र माता पत्नी पुत्री ,,	वि विघवा वि. अवि अवि.	58 80 50 23 21	एम.कॉम सं बी ए बी ए	सेवा निवृत्त राज्य कर्म राज्य कर्म.	श्वे.स्था.	बनेडा (भीलवाडा)	बी-127, जनता कॉलोनी, जयपुर, फो नं 41123	कार्या. मु. वन्य जीव प्रतिपालक वनविभाग, जयपुर, फो 74832 खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, फो 74249

पुत्र-2, पुत्रियाँ-2

पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1328	1544	श्री कृष्णराज भण्डारी पुत्र श्री वीजराजजी 2 भक्तकॉबर 3 राजकुमार 4 ऊगा 5 भरणकुमार	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र	वि वि वि वि धवि	56 52 26 23 24	इंटर साक्षर एम काम , एलएल बी बी ए बी कॉम	सीनि डिप्लोमेट लेखा परीक्षक कनि तिथिन	जन श्वे जोधपुर		III 102 बजाजनगर, जयपुर ए जी ऑफिस, जयपुर फो 68431/215 ए जी ऑफिस, जयपुर	निदेशालय, रोजगार विभाग, जयपुर
1329	584	श्री गजरराजचंद भंडारी पुत्र श्री ब्रह्माचदजी 2 पुष्पा 3 अनिल 4 बेला 5 सुनील	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र	वि वि वि धवि	53 50 25 20 23	एम ए बी एससी इंटर बी कॉम	सर्विस - व्यापार	श्वे जन जोधपुर		2/226, जवाहरनगर, सहकारी विभाग, जयपुर जयपुर, फो 64096	
1330	1122	श्री गजेन्द्रसिंह भंडारी पुत्र श्री राजेन्द्रसिंहजी 2 रश्मि	प प्र पत्नी	वि वि	31 26	एम कॉम एम ए ,एलएल बी	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या इंदौर	पुत्री 1	छावडा भवन, दूसरा चौराहा, धोवाला वा रास्ता, जयपुर	
1331	2167	श्री गुलाबचंद भंडारी पुत्र श्री सुनेरचदजी 2 शांता 3 विनीता	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि धवि	48 45 14	बी ई (सिविल) बी ए हा स	नौकरी शि हा स	श्वे ते	पुत्री 1	7 फ-36, जवाहरनगर, जयपुर, फो 45338 फोन 68699	
1332	490	श्री गोपालसिंह भंडारी पुत्र श्री पूनमचदजी 2 चांददेवी 3 गणेशीबाई 4 निर्मल 5 राजेन्द्र 6 प्रेमदेवी 7 सुमनदेवी 8 जितेन्द्र	प प्र पत्नी माता पुत्र पुत्र पुत्रवधू पुत्रवधू पुत्र	वि वि विषया वि धवि धवि धवि	52 45 85 35 28 30 26 15	हा स साक्षर हा स बी ए मिडिल हा स	व्यापार(नमकीन)	श्वे म	पुत्री 2, पुत्रियां3	तापडिया भवन, हृदियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर लाल बटले के सामने, पू पतंग मचेंड, हृदियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	

1333	792	डॉ. चन्द्रसिंह भंडारी पुत्र श्री कालूलालजी	प प्र	वि	48	एम.एससी., पीएच.डी., डिप्लो.जर्मन	एसोशि. प्रोफेसर	जैन	उदयपुर	एल-5-डी, यूनीवर्सिटी क्वार्टर्स, यूनीवर्सिटी ऑफ राज., जयपुर	केमेस्ट्री डिपार्टमेंट, यूनीवर्सिटी ऑफ राज., जयपुर
		2. शाता	पत्नी	वि.	43	हा. स्कूल					
		3. अंजुला	पुत्री	अवि.	22		शि. एम.एससी. (फा.)				
		4. रोमीला	पुत्री	अवि.	17		शि. बी.ए (द्वि.व.)				
		5. दीपिका	पुत्री	अवि.	16		शि. बी.ए. (प्र.व.)				
		6. वीनू	पुत्री	अवि.	14		शि. सै.				
1334	1571	श्री जगजीतचन्द्र भंडारी पुत्र श्री दानचन्दजी	प प्र.	वि	58	मैट्रिक	सेवानिवृत्त दुकानदारी	श्वे.म.	जोधपुर	महावीर भवन एस-14, जोशी कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर, फो. 61946	महावीर जनरल स्टोर, एस-14, जोशी कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर,
		2. मदनकवर	पत्नी	वि.	52	साक्षर					
		3. रमेशचन्द्र	पुत्र	वि.	35	मैट्रिक	सर्विस				
		4. कमलादेवी	पुत्रवधू	वि.	30	मिडिल					
		5. सुरेशचन्द्र	पुत्र	वि.	26	बी.कॉम.	सर्विस				
		6. चन्द्रिका	पुत्रवधू	वि.	22	हा.सै.					
		7. महेशचन्द्र	पुत्र	अवि.	24	हा.स्कूल	दुकानदारी				
		8. नरेशचन्द्र	पुत्र	अवि.	22	बी.कॉम.					
		9. महावीर	पुत्र	अवि.	20		शि.				
		10. शशि	पुत्री	अवि.	16		शि. हा.सै.				
		11. सुभाष	पुत्र	अवि.	14		शि. सै.				
1335	1591	श्री जयन्तीलाल भंडारी पुत्र श्री लादूरामजी 2. ऊपादेवी	प प्र	वि.	30	मैट्रिक	व्यापार	जैन	रोटिडा (राज.)	3/90, मालवीयानगर, जयपुर	मै. क्राफ्ट्स, कटला पुरोहितजी, जयपुर फो.नं. 47286
			पत्नी	वि.	27						
1336	1174	श्री तेजराज भंडारी पुत्र श्री इन्द्रमलजी	प.प्र.	वि.	40	बी ए	उद्योग	श्वे.स्था	पाली	ए-20, मानसरोवर कॉलोनी, टोक फाटक, फो.नं. 64780	भंडारी ज्वैलर्स, एम.आई. रोड, जयपुर
		2. सागरमल	भ्राता	वि.	35	बी ए.	व्यापार				
		3. भरतराज	भ्राता	वि	30	बी.एससी.	"				
		4. कमलेश	भ्राता	वि.	27	एम.कॉम.					
		5. नीरज	पुत्र	अवि.	17		शि. बी ए. (प्र.व.)				
		6. मोहनकवर	माता	विधवा	65	साक्षर					
		7. कचन	पत्नी	वि.	32	हा.सैक.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8 तारा		भा वधू	वि	27	हा स					
	9 शला		भा वधू	वि	24	बी ए					
	10 सुमा		भा वधू	वि	22	बी ए					
1337	1302	श्री देशराज भंडारी	प प्र	रिपुर	92		सवा निवृत्त		श्वे स्था जोधपुर		म न 4840 सातिया
		पुत्र श्री कुशनाराजजी									री गली, के जी बी
		2 भानूद	पुत्र	वि	45	मैट्रिक	राज्य सेवा				ना रारता जयपुर 3
		3 सुशीला	पुत्रवधू	वि	42	मिडिल					प्रभारी स्वागत पक्ष
		4 प्रेरणा	पौत्री	धवि	20		शि बी ए (प्र ष)				
		5 मधु	पौत्री	धवि	18	मैट्रिक	गस चूल्हा मरम्मत				
1338	1672	श्री वैशीषद भंडारी	प प्र	वि	56	गव	सवित		जटा जोधपुर		III/101, बजागागर, ए जी अॉफिस, जयपुर
		पुत्र श्री होशियारचंदजी									जयपुर
		2 चपलचंद	पत्नी	वि	45	साक्षर					
		3 ईश्वरचंद	पुत्र	वि	35	हा स	गवित				नागपुर
		4 मजू	पुत्रवधू	वि	30	बी ए					
		5 महेशचंद	पुत्र	वि	30	एम कॉम	सवित				नागपुर
		6 सन्तोष	पुत्रवधू	वि	28	एम एम					
		7 सुरेशचंद	पुत्र	वि	26	बी कॉम	सवित				
		8 मंजू	पुत्रवधू	वि	22	बी ए					रामबाग पैलेम होटल,
		9 जितेंद्र	पुत्र	धवि	20	बी कॉम (द्वि व)	सवित				जयपुर
		10 रजना	पुत्री	धवि	19		शि बी कॉम				भंडारी ज्यलस,
1339	710	श्री देशचंद्रव भंडारी	प प्र	वि	59	एम कॉम	व्यवसाय		जटा जोधपुर		जयपुर
		पुत्र श्री महाडचंदजी									बी 93, सरस्वतीमार्ग,
		2 विरण	पत्नी	वि	54	साक्षर					बजाजनगर, जयपुर
		3 शलेम	पुत्र	धवि	21	बी कॉम					एस्ट एटरप्राइजेज,
		4 उमेय	पुत्र	धवि	15		शि सी ए				एस 15, माभा मार्ग,
							शि हा स				तिलकनगर, जयपुर
											फो 60589 फो पी
											एस एस भण्डारी
											एतोमिडेट, पीछे
											ए जी अॉफिस, जयपुर
											फोन 67212
1340	2114	श्री दीपतमल भण्डारी	प प्र	वि	76	एम ए ,एलएल बी	सेवानिवृत्त		श्वे म		2, म्यूजियम मार्ग
		पुत्र श्री बुद्धमलजी					(मुख्य यायाधीन)				जयपुर, फो 48409
		2 गुलाबबाई	पत्नी	वि	74						46847

	3	धीरेन्द्रसिंह	पुत्र	वि.	50	एम बी.एस सी	संयुक्त निदेशक (पशुपालन)		पशुपालन विभाग	पशुपालन विभाग,
	4.	सविता	पुत्रवधू	वि.	46	बी.ए.			फो.न. 46847	जयपुर, फो.नं. 63548
	5.	पकज	पौत्र	अवि.	22	बी.कॉम	शि. एलएल. बी.			
	6.	सोनल	पौत्री	अवि.	18		शि. बी ए. (द्वि.व.)			
	7.	राजेन्द्रसिंह	पुत्र	वि	46	बी.ए., आई.एफ.एस.			फो.न. 59819	वन विभाग, जयपुर
	8	ऊषा	पुत्रवधू	वि.	41	बी ए.				फो.नं. 68539
	9.	नीना	पौत्री	अवि.	20	बी.ए.	शि.एलएल बी. (प्र व.)			
	10	ऋतु	पौत्री	अवि.	16		शि हा. सै.			
	11	रुचि	पौत्री	अवि.	15		शि. सै.			
	12.	महेन्द्रसिंह	पुत्र	वि.	44	एम एससी (कृषि)	राज सेवा		फो न. 58409	कृषि प्रसार अघि ,
	13.	मजू	पुत्रवधू	वि.	36					कृषि विभाग, जयपुर
	14	मनीषा	पौत्री	अवि.	14		शि. सैक.			फो. नं. 74090
	15	अभयकुमार	पुत्र	वि.	36	बी ए , एल एल.बी	वकालत (हा.को)		फो.न 49441	
	16.	सयुक्ता	पुत्रवधू	वि	31					
	17	डॉ. सुभाषकुमार	पुत्र	वि	34	एम बी बी.एस.	चिकित्सक		फो.न 48409	प्राइवेट क्लिनिक,
	18	डॉ. प्रकाश	पुत्रवधू	वि.	30	एम बी.बी.एस.	चिकित्सक			फो न. 41977
	19.	अजीत	पुत्र	वि	32	बी एससी., एलएल.बी	वकालत		फो.न 49443	
	20.	मृदुला	पुत्रवधू	वि	28	बी.ए.				
1341	2435	श्री नरेन्द्रकुमार भंडारी	प प्र	अवि	23		शि. सी.ए.	श्वे.म.		एम.बी.एस. का रास्ता,
		पुत्र श्री तेजवहादुरजी								तेरापथी स्कूलके सामने,
										जयपुर, फो. 45235
1342	77	श्री नवरत्नसिंह भंडारी	प प्र.	वि.	40	एम एससी , एम.एड	विद्यालय व्याख्याता	श्वे.स्था. जोधपुर		4/65, मालवीयानगर, एस.एस.जैन सुबोध
		पुत्र स्व. श्री भगवतीदानजी								जयपुर
	2	चन्द्रकान्ता	पत्नी	वि.	36	एम.ए , एम एड.	वरि. अध्यापिका			उ मा विद्यालय,
	3	मन्तु	पुत्री	अवि	16		शि. बी.ए. (प्र व.)			जौहरी बाजार, जयपुर
	4.	वनेन्दु	पुत्र	अवि	14		शि. सैक.			फो न 66706
1343	1376	श्रीमती निर्मला भंडारी	प प्र.	विधवा	37	सैक.		जैन		883, रामनगर
		पुत्र स्व. श्री पारसमलजी								कॉलोनी, शास्त्रीनगर,
	2	दिनेश	पुत्र	अवि	18		शि बी.ए (द्वि.व.)			जयपुर
	3.	राजेश	पुत्र	अवि	16		शि. हा.सै.			फो.नं. 75078 पी पी.
1344	2075	श्री निरंजनचन्द्र भण्डारी	प प्र	वि	65	बी ए ,	सेवानिवृत्त	जैन जोधपुर		बी-113, उदय मार्ग,
		पुत्र स्व श्री वदनचन्द्रजी				एलएल बी.				तिलकनगर, जयपुर
	2.	ज्ञानकंवर	पत्नी	वि	60	साक्षर				फो न. 62571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 रमेशचंद्र	पुत्र	वि	45	बी ई (सिविल)	एनजीएफूटिब इजी				
		4 रमा	पु व	वि	35	मैट्रिक					
		5 नरेशचंद्र	पुत्र	वि	37	बी ई (शैव)	व्याख्याता (इराव)				
		6 रोटा	पुत्रवधू	वि	32	मैट्रिक					
		7 रीना	पौत्री	अवि	16		शि बी ए (प्र व)				
		8 प्रीती	पौत्री	अवि	14		शि सक				
		9 नीलू	पौत्री	अवि	13		शि मिडिल				
1345	154	श्री धीनिवासचंद्र भण्डारी पुत्र श्री ध्यात्माचंद्रजी	प प्र	वि	40	बी ए, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पत्रकारिता	राजकीय सेवा	श्वे म	जोधपुर	तेरापथी स्कूल के सामने, एम एस बी का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर	वरि लि, कपि विभाग, जयपुर
		2 सविता	पत्नी	वि	35	बी ए	व्यवसाय				
1346	2009	श्री पद्मपालचंद्र भण्डारी पुत्र स्व श्री रघुवीरचन्द्रजी	प प्र	वि	51	एम कॉम,	पुलिस सुपरिटेन्डेंट,	श्वे म		14, गगवान पाक, जयपुर	मै एसीबी ट्रेडर्स, 42, मोतीबाजार, जौहरी बाजार, जयपुर राजस्थान पुलिस प्रकादमी, जयपुर
		2 मजू	पत्नी	वि	44	स					
		3 सजय	पुत्र	वि	26	बी टक (इलनिट्रकल) एम एस इलवट्टो (वाशिंगटन), एम बी ए (यूयाफ)	उद्योग (दिल्ली म)				
		4 समीता	पुत्री	अवि	17		शि बी ए				
		5 अचना	पु व	वि	21	बी टक (केमिकल)					
1347	716	श्री फारसमल भण्डारी पुत्र श्री केवलमलजी	प प्र	वि	56	बी ए, एलएलबी	श्रीचो सलाहकार	श्वे म	जोधपुर	एफ-7 रमेश माग, सी-स्कीम, जयपुर फोन 62934	
		2 माएगुनदेवी	पत्नी	वि	50	मैट्रिक					
		3 अशोक	पुत्र	वि	32	केमिकल इंजीनियर	इंजीनियर				
		4 धामा	पुत्रवधू	वि	26	बी एससी					
		5 अरुण	पुत्र	वि	28	एम कॉम	गलीचा उद्योग				
		6 अलका	पुत्रवधू	वि	22	बी एससी	सर्विस				
		7 अनिल	पुत्र	अवि	24		शि सी ए (फा)				

पुत्री-3

पुत्र-1 पुत्रियाँ-2

पुत्री-1

दम्बई

1348	250	श्री पुखराज भंडारी पुत्र श्री मिश्रीलालजी	प.प	वि	52	मैट्रिक	पहाजस्टेट	पे. हा. विचनगर (प्रनमेर)	मादी पाश्रम, गोविन्द राजियो का रास्ता चांरपोल बाजार, जयपुर फो.नं 63495	श्रीचन्द्रजी गोलेछा, पटवो का रास्ता, जयपुर फो.नं. 60163
		2. गुलाबदेवी	माता	विधवा	75					
		3. माणूकदेवी	पत्नी	वि.	48	निकित				
		4. सुशीलकुमार	पुत्र	प्रवि.	20		सि. सी.ए.			
		5. इन्दू	पुत्री	प्रवि.	18		सि. बी.ए. (फा)			
1349	708	श्री पुखराजचन्द भंडारी पुत्र श्री ब्रह्मानन्दजी	प. प्र.	वि.	57	एम हांम., एनएन बी.	राज्य कर्म.	पे. हा. जोषपुर	V-8, बजाजनगर, जयपुर	उपमहालेन्काकार, ए. जी. ऑफिस, जयपुर
		2. सुषा	पत्नी	वि.	52	सिधित				
		3. प्राभा	पुत्री	प्रवि.	22	एम.ए.				
		4. अविनाश	पुत्र	प्रवि.	19		सि. बी.कॉम. (डि.व.)			
		5. अजय	पुत्र	प्रवि.	13		सि. कक्षा 9			
1350	735	श्री पूनम भंडारी पुत्र स्व. श्री रिववराजजी	प प्र.	प्रवि.	29	बी.ए., एनएन.बी.	नोकरी एवं व्यापार	जं	बी-211, मानवीया नगर, जे.बी.ए. कॉलोनी, जयपुर	गीतल जनरल स्टोर, बी-211, मातवीया नगर, जयपुर
		2. कमला	माता	विधवा	55					
		3. अनिता	भाभी	विधवा	25	मैट्रिक				
		4. बेना	बहिन	प्रवि.	21		सि. एम.ए. (वि.)			
		5. गजराज	भाई	प्रवि.	17		सि. बी.ए. (प्र.न.)			
1351	908	डॉ. प्रेमराज भंडारी पुत्र श्री मेघराजजी	प. प्र.	वि.	42	एम.ए.	महावक निदेशक	जं	2-ग-15, जवाहरनगर जयपुर	निकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राज. जयपुर
		2. कानन	पत्नी	वि.	42	विधवा				
		3. कमल	पुत्र	प्रवि.	18		सि. बी.ई. (डि.व.)			
		4. परज	"	"	14		सि. नं.			
		5. रोहित	"	"	13		" "			
		6. राहुन	"	"	13		" "			
1352	672	श्री बनवीरसिंह भंडारी पुत्र श्री मनोहरसिंहजी	प.प्र.	वि	58	एम.ए.	मेसनिजर	जं	पनेडा 17, इंदु बाग, संमार (भीगसाडा) चन्द्र रोड, जयपुर फो न. 66490	
		2. कचन	पत्नी	वि.	46	एम.ए., बी.ए.				
		3. मिन्नी	पुत्री	प्रवि.	24	एम.बी.बी.एम.				
		4. मोनू	पुत्री		22	एम.ए.				
		5. राजू	पुत्री	प्रवि	20		सि. एम.बी.बी.एम			
		6. तनुजा	पुत्री	प्रवि.	18		सि. बी.ए. (प्र.न.)			
		7. प्ररविन्द	पुत्र	प्रवि.	14		सि. डा नं.			

पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1353	1573	श्री बजवल्लभचन्द भड्डारी पुत्र श्री नारायणचन्दजी 2 सुशीला 3 निधि	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि श्वि	42 38 16	एम एससी (इंजि) एम ए शि बी एससी (प्र व)	एग्रोनोमिस्ट	जन	जोधपुर	ई 19, गामी नगर, जयपुर	प्रबन्धक (एग्रोनोमी) रा रा सह भूमि विकास बन्, नेहरू बाजार, जयपुर फोन 75160
1354	2281	श्री भोपासच द भड्डारी पुत्र स्व श्री शोभागचन्दजी 2 मैत्रा 3 महेन्द्रचन्द 4 इन्द्रा 6 राजेशचन्द 5 सुरेशचन्द 7 नरेन्द्रचन्द	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रपु पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि श्वि श्वि श्वि	46 45 26 24 23 20 16	बी काम ,एफ सी ए सी ए (प्रविटस) बी बीएम बी ए शिक्षार्थी शिक्षार्थी शिक्षार्थी	श्वे ते	नागौर	एस 17 भवानीसिंह भाग, जयपुर फोन 62577	एम सी मडारी एण्ड क, सेतान भवन, एम भाई रोड, जयपुर फोन 62631 एस 3, जयन्ती मार्केट, जयपुर	
1355	316	श्री मदनमोहन भड्डारी द पुत्र श्री उममराजजी	प प्र	श्वि	42	बी एससी (इंजि)	उद्योग	जन	उदयपुर	बी 119, मगल माग, बापूनगर, जयपुर फोन 77693	इंडस्ट्रियल एग्जेट डोलका, गुजरात फोन 616
1356	1841	श्री मनमोहनचन्द भड्डारी पुत्र श्री उमरावचन्दजी 2 मनोहरचण्ड 3 सुधा 4 सुनीता 5 मनीता 6 शरद 7 प्रीति	प प्र माता पत्नी पुत्री पुत्री पुत्र पुत्री	वि विषवा वि श्वि श्वि श्वि श्वि	45 65 39 21 19 18 13	एम काम मैट्रिक बी ए (मानग) शि बी ए शि बी ई (द्वि व) शि कक्षा 9	डिप्टी जनरल मैनेजर	जन	जतारण	सी 53, सरोजनी माग, सी स्कीम, जयपुर फोन 65971	नेशनल बक फार एथीक्लचर एण्ड रूरल डेवलपमट, सी 13, सुभाष माग, जयपुर
1357	1170	श्री मनरूपचन्द भड्डारी पुत्र स्व श्री होशियारचन्दजी 2 सन्तोष 3 सुमन 4 सीमा	प प्र पत्नी पुत्री पुत्री	वि वि श्वि श्वि	47 42 20 18	एम बी ए, भाई सी डब्ल्यू ए ह्रा स एम बीएम शि बी ए	कार्यालय मन्त्रि	ज त श्वे	जोधपुर	7 व 8, जवाहरनगर, जयपुर फोन 852265	गुगार वारपारिशन, गुगा डा (मफीका)

पुत्री-1

1358	2343	5. सरिता	पुत्री	अवि	15		शि. हा सै				
		6. नीलू	पुत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 9				
		श्री महावीरचन्द्र भंडारी	प प्र.	वि	32	बी काँम.	रत्न व्यवसाय	श्वे ते.	छोटी खाटू	4459 के.जी बी.	नवीन जैम्स एन्टर
		पुत्र श्री पदमचन्दजी								का रास्ता, जयपुर	प्राईजेज, जयपुर
		2. कुसुम	पत्नी	वि.	30	सैक.				फो. 41038 पी पी.	
		3. मजू	पुत्री	अवि.	14		शि. कक्षा 9				
1359	1224	श्री मारणकमल भंडारी	प प्र.	वि.	70	मैट्रिक	सेवानिवृत्त	जैन	जोधपुर	शास्त्रीजी का बगला,	
		पुत्र श्री चौधमलजी								टोक रोड, जयपुर	
		2. बक्षकँवर	पत्नी	वि.	62						
		3. पारसमल	पुत्र	वि.	46	बी ए, लेबर लॉ	व्यवसाय				वीनस रबड़ इन्डस्ट्रीज,
		4. कमला	पुत्रवधू	वि.	45	मिडिल					ई-279, वासनी,
		5. ज्ञानमल	पुत्र	वि.	38	बी ए.	व्यवसाय				जोधपुर, फो नं 26675
		6. शकुन्तला	पुत्रवधू	वि.	33	मिडिल					
		7. रमेशकुमार	पुत्र	वि	26	एम ए	नौकरी				भूमि एवं भवन कर
		8 ऊषा	पुत्रवधू	वि.	22	एम ए					विभाग, जयपुर
		9. पदमराज	पौत्र	वि	29	एम ए.	नौकरी				आयुक्त कार्यालय,
		10. शशिप्रभा	पौत्रवधू	वि	25	बी.ए					मरुस्थल वि. विभाग,
		11. पुष्पराज	पौत्र	अवि	25	बी काँम	व्यवसाय				जयपुर
		12. सुनीता	पौत्री	अवि	21		शि. बी ए.				
		13. सुनीला	पौत्री	अवि.	20		शि. सैक.				
		14. अनीता	पौत्री	अवि.	18		शि. बी.ए.				
		15. वीणा	पौत्री	अवि	16		शि. सैक				
1360	1579	श्री मारणकराज भंडारी	प. प्र	विधुर	60	मैट्रिक	सेवानिवृत्त	जैन	जोधपुर	एफ-64, गांधीनगर,	
		पुत्र श्री सावन्तराजजी								जयपुर	
		2. सुरेशराज	पुत्र	वि	37	हा सै	राज सेवा				मालवीयानगर, जयपुर
		3. किरण	पुत्रवधू	वि.	33	हा.सै					फो 63521,64476
		4 गुमानराज	पुत्र	वि	30	बी.काँम.	व्यवसाय				मुरडिया रोलिंग मिल,
											बटवा औद्योगिक क्षेत्र,
		5 नरेन्द्रराज	पुत्र	वि	28	बी. काँम	व्यवसाय				अहमदाबाद
		6 महेन्द्रराज	पुत्र	अवि	24	हा सै	व्यवसाय(अहमदाबाद)				कल्पतरु काँन्स्ट्रक्शन,
		7. तरुणराज	पुत्र	अवि	21	एम. काँम	प्रा नौकरी				दुवई (अरब)
		8. उर्मिला	पुत्री	अवि.	23		शि. बी. ए				खण्डेलवाल ट्यूब्स
											प्रा. लि, वम्बई, सहा.
											व्यवस्थापक, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1361	1408	श्री सुवनमल भंडारी पुत्र श्री सुवनमलजी	प प्र	वि	74	मैट्रिक	सवानिद्वत्त	श्वे मं	जोधपुर	5 छ 17, जवाहर नगर जयपुर	
		2 विलमकवर		पत्नी वि	69						
		3 राजेंद्र		पुत्र वि	31	बी एससी					
		4 निर्मला		पुत्रवधु वि	25	एम एससी	शि रिसर्च				
1362	702	श्री रमेशचंद भंडारी पुत्र स्व श्री दरियाचंदजी	प प्र	वि	38	बी ए	मुद्रण एवं प्रकाशन व्यवसाय	जन	जोधपुर	जी 2/263, ए जी कॉलोनी, बजाज नगर, जयपुर	मातसरोवर प्रिंटस, प्रेरणा प्रकाशन, बोधरा हाउस, वाणी नापजी की गली, मोपालजी वा रास्ता, जयपुर-3 ए जी प्रॉफिट, जयपुर
		2 विमला		पत्नी वि	33	एम ए	षकाउ टेड				
1363	463	श्री रणजीतसिंह भंडारी पुत्र श्री धनु नसिंहजी	प प्र	विधुर	69	हा स	सेवानिद्वत्त	श्वे म		महादेवजी की पीपली, एम एस बी वा रास्ता, जयपुर C-116, मडारी भवा, मडारी श्यामह भाट, बजाजनगर, जयपुर	2449, मारुजी का चौक, पीवालो का रास्ता, जयपुर
		2 धनोकडुमार		पुत्र वि	33	सक					
		3 ज्ञानचंद		पुत्र वि	31	„					
		4 सारा		पुत्रवधु वि	32	„					
		5 सुमीना		पुत्रवधु वि	31	„					
		6 हेमलता		पौत्री भवि	13		शि कथा 6				
1364	1729	श्री रणजीतसिंह भंडारी पुत्र स्व श्री रतनलालजी	प प्र	वि	31	बी कॉम	व्यवसाय	श्वे म		महदी का चौक, महदी वालो वा भवान रामगज बाजार, जयपुर	
		2 विजयलता		पत्नी वि	25	बी ए	बैंक सेवा				
1365	2434	श्री राजबहादुर भंडारी पुत्र श्री कल्याणमलजी	प प्र	विधुर	45	हा स		श्वे म		चौबीस महाराज के मंदिर के सामने, एम एस बी वा रास्ता जयपुर, फोन 45235	
		2 नरेंद्र		पुत्र वि	23						
		3 गुणसुंदर		पत्नी वि	20						
1366	1029/ 1202	श्री राजेंद्रसिंह भंडारी पुत्र स्व श्री सरदारसिंहजी	प प्र	वि	37	हा स	राज्य सेवा	श्वे स्या	विधानगढ़	म न 5460, के जी बी का, रास्ता, जयपुर, फो 40835	उद्योग भवन, जयपुर, फोन 78731
		2 धलका		पत्नी वि	34	सक					

पुत्र-1

पुत्र 2

पुत्र 2, पौत्रिया 2

पुत्री 1

1367	952	3. सगीता	पुत्री	अवि	14		शि. सै	पुत्री-1	श्वे मं. सराना 10/930, भंडारी (नसीराबाद) सदन, गली गोरधन नाथजी, चौड़ा रास्ता, जयपुर फो न. 69462	मै. चोरडिया ट्रेडिंग का., चौड़ा रास्ता, जयपुर, फो. 63092			
		4. गजेन्द्र	पुत्र	अवि	13		शि. मिडिल						
		श्री रामदयाल भंडारी पुत्र श्री नोरतनमलजी	प प्र	विधुर	60	मैट्रिक	सर्विस व कृपि						
		2. भागचन्द	पुत्र	वि	35	मैट्रिक	फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स			मै. स्वास्तिका फिल्म्स इण्डियन कॉफी हाउस, एम.आई. रोड, जयपुर फो.नं 69986			
		3. विमला	पुत्रवधू	विधवा	38			मै एल. वी ज्वैलर्स, चाकसू का चौक, घीवालो का रास्ता, जयपुर, फो.न. 44755			
1368	155	4. रमेशचन्द	पुत्र	अवि.	25	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय	पौत्र-1, पौत्रियाँ-3	श्वे ते बोरवड़ म न. 1507, बारह गणगौर का रास्ता, जयपुर-	मै एल. वी ज्वैलर्स, चाकसू का चौक, घीवालो का रास्ता, जयपुर, फो.न. 44755			
		5. गीतमचन्द	पुत्र	अवि.	22	बी.कॉम.	..						
		6. प्रेमलता	पुत्रवधू	वि	30	मैट्रिक							
		7. अनिलकुमार	पौत्र	अवि.	15		शि. कक्षा 9						
		8. अनिता	पौत्री	अवि.	13		शि कक्षा 7						
		श्री रिखवचन्द भंडारी पुत्र श्री रूपचन्दजी	प प्र.	वि.	27	बी कॉम.	व्यवसाय						
		2. कैलाशचन्द	भ्राता	अवि	23		शि बी.कॉम						
		3. श्रीमती रिखवचन्द	पत्नी	वि	24								
		श्री रूपचन्द भंडारी पुत्र स्व. श्री मोतीलालजी	प.प्र	वि.	57	एम.एससी., पीएच.डी	प्रोफेसर				जैन उदयपुर	आर-6, यूनिवर्सिटी केम्पस, जयपुर-4 II/261, वजाजनगर, जयपुर	भौतिक विज्ञान विभाग राज. विश्वविद्यालय, जयपुर
		2. जसकुमारी	पत्नी	वि	52	मैट्रिक							
1370	703	श्री लखपतचन्दजी भण्डारी पुत्र श्री दशरथचन्दजी	प प्र.	वि	38	बी ए	राज्य कर्म.	श्वे मं. जोधपुर	जयपुर	डाक तार विभाग तिलक नगर, जयपुर			
		2. प्रेमलता	पत्नी	वि.	37	सैक.							
		3. सध्या	पुत्री	अवि	15		शि. हा.सै.						
		4. सदीप	पुत्र	अवि.	13		शि. सै						
1371	1256	श्री लखपतचन्द भण्डारी पुत्र स्व. श्री होशियारचन्दजी	प.प्र.	वि.	35	बी.ई (सिविल)	राज.सेवा	श्वे जैन जोधपुर	7-ध-8 जवाहरनगर जयपुर, फो.नं.40343	सिचाई विभाग, जयपुर फो.न -69403			
		2 मधु	पत्नी	वि.	31	बी ए		पुत्र-3					
1372	1941	श्री लक्ष्मणसिंह भण्डारी	प प्र	वि	46	एम.ए , बी.एड.	प्रधानाध्यापक	जैन कपासन (चित्तौड़)	223, सोखियो का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर	रा मा वि. आमेर			

1367	952	3. सगीता 4. गजेन्द्र श्री रामदयाल भंडारी पुत्र श्री नोरतनमलजी	पुत्री पुत्र प.प्र.	अवि. अवि विधुर	14 13 60	मैट्रिक	शि. सै शि. मिडिल सर्विस व कृपि	पुत्री-1	श्वे म. सराना (नसीराबाद) सदन, गली गोरधन नाथजी, चौड़ा रास्ता, जयपुर फो न 69462	मै. चोरडिया ट्रेडिंग का., चौड़ा रास्ता, जयपुर, फो. 63092
		2. भागचन्द्र 3. विमला	पुत्र पुत्रवधू	वि विधवा	35 38	मैट्रिक "	फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स			मै. स्वास्तिका फिल्मस इण्डियन कॉफी हाउस, एम.आई. रोड़, जयपुर फो.नं 69986 मै. एल वी ज्वैलर्स, चाकसू का चौक, धीवालो का रास्ता, जयपुर, फो.न. 44755
		4. रमेशचन्द्र 5. गौतमचन्द्र 6. प्रेमलता 7. अनिलकुमार 8. अनिता	पुत्र पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री	अवि. अवि. वि. अवि. अवि.	25 22 30 15 13	बी.कॉम. बी कॉम. मैट्रिक	रत्न व्यवसाय " "			
1368	155	श्री रिखबचन्द्र भंडारी पुत्र श्री रूपचन्द्रजी	प.प्र.	वि.	27	बी कॉम	व्यवसाय	पौत्र-1, पौत्रियाँ-3	श्वे ते बोरावड म न 1507, वारह गणगौर का रास्ता, जयपुर-	
		2. कैलाशचन्द्र 3. श्रीमती रिखबचन्द्र	भ्राता पत्नी	अवि वि.	23 24		शि बी.कॉम.			
1369	1436	श्री रूपचन्द्र भंडारी पुत्र स्व. श्री मोतीलालजी	प.प्र.	वि	57	एम.एससी., पीएच.डी	प्रोफेसर		जैन उदयपुर आर-6, यूनिवर्सिटी केम्पस, जयपुर-4 II/261, वजाजनगर, जयपुर	भौतिक विज्ञान विभाग राज. विश्वविद्यालय, जयपुर
1370	703	2. जसकुमारी श्री लखपतचन्द्रजी भण्डारी पुत्र श्री दशरथचन्द्रजी	पत्नी प.प्र.	वि वि	52 38	मैट्रिक बी ए	राज्य कर्म.		श्वे म. जोधपुर जयपुर	डाक तार विभाग तिलक नगर, जयपुर
		2. प्रेमलता 3. सध्या 4. सदीप	पत्नी पुत्री पुत्र	वि अवि अवि.	37 15 13	संक. "	शि. हा.सं. शि. सै.			
1371	1256	श्री लखपतचन्द्र भण्डारी पुत्र स्व. श्री होशियारचन्द्रजी	प.प्र.	वि.	35	बी.ई. (सिविल)	राज.सेवा		श्वे जैन जोधपुर जयपुर, फो.नं.40343	7-घ-8 जवाहरनगर सिंचाई विभाग, जयपुर फो.न 69403
		2. मधु श्री लक्ष्मणसिंह भण्डारी	पत्नी प.प्र.	वि वि	31 46	बी ए एम.ए., बी.एड.	प्रधानाध्यापक	पुत्र-3	जैन कपासन (चित्तौड़) 223, सोखियो का रास्ता, किशनपोल वाजार, जयपुर	रा.मा वि. आमेर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1383	1837	श्री सुभकारिचंद भण्डारी पुत्र भवरचन्दजी	प प्र	वि	34	बी ए	एलएल बी उपनिदेश	जन	जाधपुर	ए-532 मानवीया नगर, यू. प्राई टी पॉलोनी, जयपुर	तया डा. तिलकनगर, जयपुर
		2 भवरचन्दजी		वि	65		ग्रिभाम				
		3 सावित्री देवी		वि	60						
		4 मधु		वि	28		बी ए				
		5 महेन्द्र		वि	26		विजयी व्यवसाय				एम एस इलस्ट्रेटड तिलकनगर, जयपुर
		6 मजु		वि	23		हा स				मात इडस्ट्रीज जयपुर
		7 राजेन्द्र		वि	26		"	गोपरी	पुत्र 1, पुत्री 1		
		8 विजयलक्ष्मी		वि	24		"				
1384	1665	श्री एस एस भण्डारी पुत्र श्री जेड एम भण्डारी	प प्र	वि	34	एम एस सी	मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव ज	जोधपुर	बी-10 यजमानगर, जयपुर		टेनीविस्टा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा वि, गोपीनाथ मार्ग 'यू' बसोनी, जयपुर पो 61525
		2 कल्पना		वि	28	एम ए			पुत्र 2		
1385	421	श्री सरवरचंद भंडारी पुत्र स्व श्री बदचंदजी	प प्र	वि	54	बी कॉम	सर नोबरी	धरे म	जाधपुर	ए-39, सेठी पॉलोनी, जयपुर पो 43980पी पी	
		2 गुरज		वि	50	मिडिल					
		3 सुनील		वि	27	बी कॉम	प्रा नोबरी		पो 2		
		4 शांता		वि	24	एम ए					
1386	816	श्री सतीश भंडारी पुत्र स्व श्री सरदारमिहजी	प प्र	वि	32	बी कॉम	राज्य सेवा	श्री स्या	विमानगढ़	म नं 4912, नडारी भवा, मठ वा मु धा, के जी बी का राफा, जोहरी बाजार जयपुर	
		2 निमरा		वि	25	हा म				पुत्र-1, पुत्रियां 2	
1387	671	श्री सत्यप्रसन्नसिंह भंडारी पुत्र श्री मनोहरमिहजी	प प्र	वि	65		सेवा निवृत्त प्राई ए एल	जग	बनडा (नोखाडा)	1 सरदार पटव माग सी स्त्रीम, जयपुर	
		2 उषा		वि	62	गादार					
		3 प्रशांत		वि	40	एम ए	डो प्राई जी				भरतपुर
		4 सुनीता		वि	35	बी ए	प्राई पी एम				
		5 विवेक		वि	14		मि हा स		पुत्री 1		
1388	2209	श्री साधरमल नडारी पुत्र स्व श्री जेटमलजी	प प्र	वि	53	बी कॉम	निजी व्यवसाय	जग	जोधपुर	एम 12, कृष्णा माग, बापूतनगर, जयपुर	इनवेस्टमेंट इण्डिया, 4, महावीर माग सी स्त्रीम, जयपुर
		2 उलय		वि	47	बी ए					

	3. प्रदीप	पुन	वि.	28	मी.ए.	पंक्तिगत			मंडारी इन्वेस्टमेंट, एम.आई. रोड, जयपुर फो.न. 69273
	4. रेखा	पुनवधू	वि.	22	बी.ए.				
1389 1593	श्री सुन्दरलाल भण्डारी पुत्र श्री लादूरामजी	प.प्र.	वि.	33	बी. कॉम	व्यवसाय	जैन रोटीडा (मिरोही)	2/70, मालवीयानगर, जयपुर, फो. 61688	बी. कापटल, कटला पुरोहितजी का, जयपुर
	2. कैलाशदेवी	पत्नी	वि.	30					
	3. मनोजकुमार	भानजा	अवि.	21	मैट्रिक				
1390 1680	श्रीमती सुमन भण्डारी पत्नी स्व. श्री	प.प्र.	विधवा	55	निधिन		जैन जोषपुर	जी-104, बजाजनगर, जयपुर-3	
	2. सुरेन्द्र	पुत्र	वि.	35	बी. कॉम.	वेतन कर्म.			सू. फो. नैक, जयपुर, फो.नं. 44816
	3. नरेन्द्र	पुत्र	वि.	33	मी.ए.	प्रा. नोकरे			
	4. गजेंद्र	पुत्र	वि.	30	बी. कॉम.	प्रॉक्टर			ए.जी. प्रॉफिस, जयपुर
	5. दीपा		वि.	30	मिडिल				
	6. जोजना		वि.	28	बी.ए.				
	7. ऊषा		वि.	26	बी.ए.				
1391 1788	श्री सुरेन्द्रकुमार भण्डारी पुत्र श्री श्रीहरलालजी	प.प्र.	वि.	57	एम.ए. एन.एन.पी.	मेसनिवृत्त	गो.स्था.	मेस्टर-4, न-29, जयपुरनगर, जयपुर, फो नं. 852292	
	2. राजकुमारी	पत्नी	वि.	54	मिडिल				
	3. सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	30	आई.टी.आई (विद्युत्) मृपरभाजनर				
	4. अनु	पुत्रवधू	वि.	28	डा.मं.	सहायिका			
	5. स्नेहकुमार	पुत्र	वि.	28	एम.एम.बी., बी.एड. एडि. प्रशासन				
	6. कनक	पुत्रवधू	वि.	26	एम.ए.				
1392 1730	श्री सुरेन्द्र कुमार भण्डारी पुत्र स्व. श्री रतनलालजी	प.प्र.	वि.	33	मैट्रिक	व्यवसाय	गो.म.	भट्टी जी मती, भंडारी मदन, विधान सभा के मामने, जयपुर-3 फो. नं. 44787	
	2. विमला	पत्नी	वि.	30	मैट्रिक				
	3. अजीतकुमार	भ्राता	वि.	28	डा.मं.				
	4. मैना	भ्रा.न	वि.	23	" "				
1393 2091	श्री सुरेन्द्रसिंह भण्डारी पुत्र श्री प्रेमचन्द्रजी	प.प्र.	वि.	50	बी.ई. (मिडिल)	प्रतिष्ठित मुग्ध प्रभियन्ता	श्वे.मं.	जी-104/2, नीरामार्ग, सिचाई विभाग, बनीपाक, जयपुर	सिचिब लार्डन, कोटा फो.न. 26915 ई.सी.ई. एण्ड फं. ट्रांसफार्मर डिजीन, सोनीपत (हरियाणा) फो. 2400/2215
	2. शिमला	पत्नी	वि.	43					
	3. सुधीर	पुत्र	वि.	25	बी.ई. (विद्युत्)				
	4. सुनीता	पुत्रवधू	वि.	22	एम.ए.				
	5. शुभा	पुत्री	अवि.	21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1394	1659	श्री सुरेशचन्द भंडारी	प प्र	वि	61	मैट्रिक्स	पॉपुलर व्यवसाय	श्वे स्या	जोधपुर	721, राजाजी सदन, बोरडी वा रास्ता, जयपुर	ए ए बी सी, जयपुर
		2 हुनमचंद	पत्नी	वि	54	प्राइमरी					
		3 दिनेशचन्द	पुत्र	वि	35	एम एस सी	सुपरवाइजर				
		4 विद्या	पुत्रपत्नी	वि	30	एम एस सी, बी एड					
		5 जगदीशचन्द	पुत्र	वि	33	बी कॉम	बंकर सेवा				प्रो प्राॅफिटर बंकर प्राॅफ बडोदा, जयपुर
		6 बीना	पुत्रपत्नी	वि	24	मैट्रिक्स					
		7 बेला	पुत्री	प्रवि	24	मैट्रिक्स					
1395	2433	श्री सुशीलकुमार भंडारी	प प्र	प्रवि	22	बी कॉम	रत व्यवसाय	श्वे मं		3786, महावी भवन, एम एस बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	सुराभा भवन, सी स्त्रीम, जयपुर पो नं 72850
		पुत्र श्वे श्री सुपरराजजी									
		2 मोहनीदेवी	माता	विधवा	58	गांधार					
		3 प्रदणा	बहिन	प्रवि	25	बी ए					
		4 शर्मिला	बहिन	प्रवि	20	बी ए					
1396	1151	श्री सुमानचन्द भंडारी	प प्र	वि	52	इंटर	रत काम	ज	जायपुर	III 106 बजाजगर, जयपुर	कार्या मर्यातगांधार, जयपुर, पो 68431
		पुत्र श्री विसारराजजी									
		2 प्रहलकचंद	पत्नी	वि	50	मिडिल					
		3 रमेशचन्द्र	पुत्र	वि	32	इंटर	वरि निविड				
		4 धरिना	पुत्रपत्नी	वि	29	एम ए	बेरोजगार				
		5 ऊषा	पुत्री	प्रवि	25	बी ए	बेरोजगार				
		6 नुरेज	पुत्र	प्रवि	23	बी कॉम	वि गी ए				
1397	153	श्री धीरेशचन्द भंडारी	प प्र	वि	41	बी ई (इवि)	मन्. जोहरी	श्वे मं	जोधपुर	ग 77, राजाजी कॉलोनी जयपुर	परिवारका प्रविनारी रिमिटेड योजना सगठा, जयपुर
		पुत्र श्री प्रारमचन्दजी									
		2 प्रभा	पत्नी	वि	35	बो गगमी					
		भसाती									
1398	1716	श्री प्रमरचन्द भसाती	प प्र	विपुत्र	55	मिडिल	जारत मर्षे ट	श्वे मं	हागा गिच (कैदराबाद)	इन्द्रकुमार गडोरी वाला वा मरान, गणामाता वा गली, गोपालजी वा रास्ता, जयपुर	महाधोर स्टोर, गर तागियों वा रास्ता जयपुर 3
		पुत्र श्री मोहनलालजी									
		2 गुणवती	पुत्री	प्रवि	24						
		4 जयवती	पुत्री	प्रवि	22	बी ए					
		5 म कीर मार		र	21	बी ए	व्यवसाय				

पुत्र-3 पोनी-1

पुत्र 1

पुत्र 1 पुत्री 1

		8. अनिता	पुत्रवधू	वि	25	एम.ए.						
		9. सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	30	बी.ए.	व्यवसाय					न्यूयार्क (अमेरिका)
		10. रीनु	पुत्रवधू	वि.	23	बी एससी.						
		11. सन्तोषकुमार	पुत्र	वि.	27	बी.कॉम	शि.सी ए., उद्योग धन्धा			पुत्र-2, पुत्रियाँ-2		
		12. रेखा	पुत्रवधू	वि	25	बी.ए.						
1408	605	श्री पारस भंसाळी	प. प्र.	वि.	47	जी.डी. पेंटिंग	कॉमर्शियल आर्टिस्ट	जैन	जोधपुर		3/2 जवाहरनगर, जयपुर	पी-33, चौकड़ी मोदी- खाना, चौड़ा रास्ता, जयपुर
		पुत्र श्री सोहनराजजी										
		2 किरण	पत्नी	वि.	42					पुत्र-1		
		3. सगीता	पुत्री	अवि	17		शि. बी ए. (प्र.व.)					
1409	1440	श्री प्रकाशमल भंसाळी	प प्र	वि.	32	बी.एस.सी, एफ.सी ए.	इन्वैस्टमेंट कन्सलटेन्ट		जोधपुर	श्वे. मं.		आशा एण्ड कम्पनी, आजादमार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फोनं. 62464
		पुत्र श्री जौहरीमलजी										
		2. आशा	पत्नी	वि.	31	बी.ए., एलएल.बी.	व्यवसाय			पुत्र-1, पुत्री-1		
1410	1560	श्री प्रसन्नराज भंसाळी	प. प्र.	वि.	32	बी.एससी., एलएल.बी	रीडर		जोधपुर	श्वे. म	49-क-7, ज्योतिनगर, राज उच्च न्यायालय जयपुर	पीठ, जयपुर फो. न 61379 फो. न 67668 63341
		पुत्र श्री हुकमराजजी										
		2 पवन	पत्नी	वि.	30	बी.एससी.				पुत्र-1, पुत्री-1		
1411	766/ 1201	श्री भंवरलाल भंसाळी	प. प्र.	वि	31	एम. कॉम.	सर्विस		अजमेर	श्वे.स्था.	2590 नागौरियो का, शाह इण्डस्ट्रीज, चौक, घी बोलो का राजमन्दिर सिनेमा रास्ता, जौहरीबाजार, के पास, पांचवत्ती, जयपुर	जयपुर, फो.65493
		पुत्र श्री चान्दमलजी										
		2 शाता	पत्नी	वि	26	सं.				पुत्र-1, पुत्रियाँ-3		
1412	75	श्री भंवरलाल भंसाळी	प प्र	वि.	52	मैट्रिक	लेखाकार		जोधपुर	श्वे म	क्वार्टर नं जी-797 गांधी नगर, जयपुर	राज. वाटर रिसार्सेज डवलपमेंट कॉर. लि., ए-33, प्रभुमार्ग, तिलक नगर, जयपुर
		पुत्र श्री पारसमलजी					(प्रतिनियुक्ति)					
		2. उछवकंवर	पत्नी	वि	49	मिडिल						
		3. दिनेशकुमार	पुत्र	वि.	29	बी कॉम.	बैंक सेवा					ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, एम.आई.रोड, जयपुर
		4. नीलम	पुत्रवधू	वि	25	बी ए.						राज बैंक, सुबोध कॉलेज ब्राच, जयपुर फो न. 73753
		5 अशोककुमार	पुत्र	अवि.	26	बी.कॉम., सी ए. (इन्टर)	बैंक कर्म					
		6 सुनीता	पुत्री	अवि	23		शि. एम.बी.बी.एस.					
1413	2200	श्री भीकमचन्द भंसाळी	प प्र	वि	46		दुकानदारी		लाडनू	श्वे ते	चौधरी भवन, पचायत समिति के पास, भोटवाडा, जयपुर	रमेश स्टोर्स, भोट- वाडा, जयपुर फो न. 842741
		पुत्र स्व. श्री जसकरणजी										
		2. कचनदेवी	पत्नी	वि	40							

						पुत्रियां-2			
	5. विनोद	भाई	अवि.	19					
	6. विमल	भाई	अवि.	13					
1419	509	श्री रूपचन्द भंसाली	प.प्र	वि.	47	इटर	लेखाकार	श्वे.मं	म.नं. 125, निदेशक कृपि
		पुत्र स्व श्री वाबूलालजी							आचार वालो की विभाग, राज., जयपुर
	2.	मदनदाई	पत्नी	वि	42	मैट्रिक			गली, गोपालजी का
	3.	पारसचन्द	पुत्र	अवि.	25	चाटर्ड अकाउन्टेन्ट	आन्तरिक अकेक्षक		रास्ता, जौहरी बाजार, चौधरी ग्रुप, नेपाल
	4.	सुरेशचन्द्र	पुत्र	अवि.	23	एम काँम.	लेखाकार		जयपुर
	5.	राजेशचन्द	पुत्र	अवि.	21	वी काँम			"
	6.	मृदुलाकुमारी	पुत्री	अवि.	17		शि. वी.काँम. (प्र.व.)		
1420	1747	श्री रूपचन्द भंसाली	प. प्र	वि.	45	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे मं	म.नं.1189, जोरावर म.न 1996,
		पुत्र श्री मोहनलालजी							भवन, परतानियो का सुमरेचन्दजी कोठारी
	2.	तिलकसुन्दरी	पत्नी	वि	40	मिडिल			रास्ता, जौहरी बाजार, का मकान, जौहरी
	3.	नरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	23	हा सै	रत्न व्यवसाय		जयपुर बाजार, जयपुर
	4.	देवेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	21		शि वी काँम. (द्वि.व.)		फो न. 48898, फो नं. 64905
	5.	नीता	पुत्री	अवि	19		शि वी.काँम. (द्वि व)		64017
1421	5	श्रीमती लक्ष्मी भंसाली	प प्र	विधवा	45	एम.ए	व्यवसाय	श्वे मं. जोधपुर	जी-46, कृष्णा मार्ग,
		पत्नी स्व श्री हुकमराजजी					एडवरटाइजिंग		सी-स्कीम, जयपुर
	2.	संजय	पुत्र	अवि.	23	वी ए (मैनेजमेन्ट)	व्यवसाय		फो. 66955
	3.	शेखर	पुत्र	अवि	19		शि. वी ई (द्वि व.)		
1422	465	श्री लक्ष्मीचन्द भंसाली	प प्र	वि	58	शिक्षित		श्वे जैन	गोकुल मिश्रा का दुकान, गोपालजी
		पुत्र श्री आशानन्दजी							दरवाजा, गोपालजी का रास्ता, जयपुर
	2.	जुगलकिशोर	भ्राता	वि	55	साक्षर			फो 74929, 64190
	3.	धनराज	भ्राता	वि	50	"			
	4.	विमलादेवी	पत्नी	वि.	45	"			
	5.	चमेलीदेवी	भ्रा.वधू	वि.	45	"			
	6.	प्रेमरानी	भ्रा वधू	वि.	42	"			
	7.	राकेशकुमार	भतीजा	अवि	20	वी ए.			
	8.	ज्ञानदेवी	भतीजी	अवि.	22	वी ए.			
	9.	रेनू	भतीजी	अवि.	15				
	10.	तरुणा	पुत्री	अवि	20	वी ए.	शि हा. सै		

1428	522	श्री ज्ञानचन्व भंसाली पुत्र स्व. श्री नोरतनमराजी 2. प्ररणा <u>भड़कतिया</u>	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	35 30	मिडिल मिडिल	दलाली	श्वे. म पुत्र-5	5445, मठ का कुमा, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
1429	1419	श्री फिस्तूरचन्व भड़कतिया पुत्र श्री माधोलालजी 2. उमगकँवर 3. मोतीताल 4. मनोहरदेवी 5. गणेशमल 6. सज्जनकँवर 7. अनितकुमार 8. शशि 9. सुनीलकुमार 10. संजयकुमार	प.प. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. अवि. अवि.	76 74 52 46 38 32 26 23 23 20	साक्षर साक्षर साहित्यरत्न साक्षर सी ए. हा. सै. बी.कॉम. सं. बी.कॉम. बी कॉम.	सेवा निवृत्त वरि. प्रतिवेदक प्रेक्टिस व्यवसाय	श्वे. मं बूंदी पुत्र-1	2335, एम.एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो न. 44224 राज. विधान सभा 40605 फो. 61321/256 भड़कतिया एण्ड कम्पनी, फो.नं. 62436
1430	1690	श्री पारसमल भड़कतिया पुत्र श्री समर्थसिंहजी 2. कमला	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	35 34	हा. सै.	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था. टांटोटी पुत्र 1, पुत्रियाँ-4	3760, गोलेछा भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर, फो.नं. 45712 पी.पी.
1431	1689	श्री समर्थसिंह भड़कतिया पुत्र श्री नाहरसिंह 2. आचुकी 3. इन्द्रसिंह 4. सन्तोष 5. टीकमचंद <u>भांडावत, भंडावत</u>	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र	वि. वि. वि. वि. अवि.	65 63 29 27 22	इन्टर बी.कॉम. बी.ए. बी.कॉम.	नौकरी रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	टांटोटी पुत्र-1, पुत्री-1	3760, गोलेछा भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर फो नं. 45712 पी.पी.
1432	135	श्री अजयकुमार भांडावत पुत्र श्री पूनमचन्दजी 2. अनीता	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	27 25		रत्न व्यवसाय	श्वे. ते. पुत्र-1, पुत्री-1	1802, ऊँचा कुम्रा, हृल्लियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं. 44189
1433	2489	श्री अमृतमल भंडावत पुत्र स्व. श्री केसरीमलजी	प. प्र.	विधुर	61	एम.कॉम., एलएल बी, बी टी	सेवा नि प्रधानाचार्य अब एडवोकेट	श्वे. मं. अजमेर	13, कीर्तिनगर, अजमेर रोड़, सोडाला, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1444	679	श्री राजेंद्र भागावत पुत्र श्री बनीलासजी	प प्र	वि	30	एम एस सी (भौतिकी, गणित) डिप सेक्टर सर्वे एव पसनल मैनेजमेंट एम ए (घरेली)	घर ए एस	श्वे स्था	उदयपुर		डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) श्री टी एस, जयपुर फो न 75556
		2 प्रमिता <u>भाबू (भ्रमकता)</u>	पत्नी	वि	25						
1445	264	श्री बन्नीप्रकाश भाबू पुत्र स्व श्री गतिरवरूपजी	प प्र	वि	50	मैट्रिक	व्यापार (मनिहारी सामान)	श्वे म	सुधियाना (पजाब)	बी-1706, पारस भवन, ऊचा कुर्मा, हृदिये का रास्ता, जयपुर-3	जन स्टोस, बटला पुरोहितजी का जयपुर 3
		2 शिमला	पत्नी	वि	48	मिडिल					
		3 भाशीप	पुत्र	प्रवि	15		शि हा सक				
		<u>भासड</u>									
1446	1765	श्री राजकुमार भासड पुत्र श्री चम्पासाजजी	प प्र	वि	32	बी एस सी	सविस	श्वे स्था		म न 5459, शीया चौराहा, के जी बी का रास्ता, जयपुर	
		2 श्रीला भुगडी	पत्नी	वि	30	एम ए, बी एड	सविस		पुत्र-1		
1447	1834	श्री इन्द्रकुमार जन पुत्र श्री हुलीचंदजी	प प्र	वि	43	बी कॉम	सरकारी सेवा	श्वे म		67, प्रमिता सदन, गगवाल पाक, जयपुर, फो 74247	
		2 प्रमिता	पत्नी	वि	40	हा सक					
		3 सीता <u>भूतेडिया</u>	पुत्री	प्रवि	15		शि हा स		पुत्र 1, पुत्री-1		
1448	2284	श्री निमलकुमार भूतेडिया पुत्र श्री भू मरलासजी	प प्र	वि	36	बी एस सी	उद्योग	श्वे ते	साडनू	ई 37, भम्बाबाड़ी, जयपुर, फो 75907	गोल्डन पेपर इन्डस्ट्रीज जयपुर, फो 75907
		2 मजू	पत्नी	वि	32	हा से					
1449	2285	प्रकाशचंद्र भूतेडिया पुत्र श्री चन्हेयालालजी	प प्र	वि	34	साक्षर	व्यापार	श्वे ते	साडनू	41, गगवाल पाक, जयपुर, फो 62646	158, मिनर्वा नायटलीज स्टोर, जयपुर
		2 पुनराज	पत्नी	वि	30	बी ए			पुत्र-1, पुत्री 1		
1450	2283	श्री राजेंद्र भूतेडिया पुत्र स्व श्री भवरलासजी	प प्र	प्रवि	25	बी कॉम	उद्योग	श्वे ते	साडनू	जी 3, जमुना पच, गगा माग, बनीपाक जयपुर, फो 61740	राज ट्रासफार्मस एण्ड स्विच गियस, जयपुर सी 174, विश्वकर्मा जयपुर, फो 842789
		2 सुरेंद्र	भ्राता	प्रवि	22	बी कॉम	फक्ट्री			67810 इन्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर, फो 842789	

1493 950	श्री धनपतसिंह मेहता पुत्र श्री दौलतसिंहजी 2. सुशीला 3. मधु	प प्र. पत्नी पुत्री	वि. वि. अवि.	42 40 13	मैट्रिक कपडे का व्यवसाय	श्वे.स्था. हरमाड़ा (अजमेर)	कालो का मोहल्ला मोतीसिंह भोमियो का रास्ता,जौहरी बाजार, जयपुर	मेहता क्लॉथ स्टोर, दड़ा कटपीस मार्केट, हल्दियों का रास्ता जयपुर
1494 2387	श्री धर्मचन्द मेहता पुत्र श्री गुलाबचन्दजी 2. विमला 3. कौशल्यादेवी 4. सतीश 5. भारत 6. गुणमाला 7. निर्मल 8. मीना 9. नरेश	प प्र. पत्नी माता भाई भाई भ्रा.व. भाई भ्रा व. भाई	वि. वि. विधवा वि. वि. वि. वि. वि. अवि.	40 35 65 29 32 26 28 26 22	एम.एससी. वी ए नौकरी नौकरी एम.एससी. एम ए.	श्वे.ते शि. कक्षा 6 नौकरी	44-बी एवरेस्ट काँलोनी, लाल कोठी, जयपुर	
1495 420/ 1257	श्री नरपतचन्द मेहता पुत्र श्री पनेचन्दजी 2 नलिनी 3. नन्दिता	प प्र. पत्नी पुत्री	वि. वि अवि.	56 50	वी कॉम.,एल.एल.बी. लेखापरीक्षा अधिकारी मिडिल	श्वे.स्था. जोधपुर शि. कक्षा 10	बी-10, बजाजनगर, ए.जी. काँलोनी, जयपुर	कार्यालय महा- लेखाकार, जयपुर फो 68432/216
1496 1828	श्री नवनीत मेहता पुत्र श्री गणेशलालजी 2. मधु मेहता	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	36 33	हा.सं. हा सं.	व्यापार श्वे म. उदयपुर	ए-22,शास्त्रीनगर जयपुर-6	पवन इलैक्ट्रॉनिक्स, 7, जयन्ती बाजार, जयपुर-1फो.नं 63901
1497 1918	श्री नवलसिंह मेहता पुत्र श्री भूपालसिंह 2 रूपकुमारी 3. आशा 4. अशोक 5. अनिता 6. अरविन्द	प.प्र. पत्नी पुत्री पुत्र पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि. अवि	46 43 21 18 18 15	मैट्रिक शिक्षित वी एससी.	नौकरी स्टोर कोपर श्वे.स्था. आसीन्द (भीलवाडा)	ई-45, जमनानगर, जयपुर-6	गगानगर शुगर मिल, लि., जयपुर
1498 1502	श्री नेमकुमार मेहता पुत्र श्री जोरावरमलजी 2. रतनदेवी 3. अल्पना 4. कल्पना	प प्र पत्नी पुत्री पुत्री	वि. वि अवि. अवि	40 38 19 14	मैट्रिक मिडिल	रत्न व्यवसाय श्वे. म. कोटा शि वी.एससी.(प्र.व.) शि. सैक. शि. सैक.	म.न. 4265, अनाज मण्डी, जौहरी बाजार, जयपुर	कोचर भवन, पुलन्दर जी की गली, रामलला जी का रास्ता, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1499	1348	श्री नेमीचंद मेहता पुत्र स्व श्री गुलाबचंदजी	प प्र	वि	61	शिशित	रत्न व्यवसाय	श्वे जी		2775, मेहता निवास भागरा रोड, पुराना पाट, जयपुर फोन 43542	2154, हल्द्वीयो वा रास्ता, जयपुर फोन 42564
	2	विजयकुमार	पुत्र	वि	31	बी बॉम	पक्की				
	3	अशोक कुमार	पुत्र	वि	34	बी एससी	रत्न व्यवसाय				
	4	अनिल कुमार	पुत्र	वि	25	बी बॉम	रत्न व्यवसाय				
	5	चेतन	पुत्रवधू	वि	30						
	6	मयू	पुत्रवधू	वि	30						
	7	अचना	पुत्रवधू	वि	23						
	8	मयू	पुत्री	अवि	20	एम बॉम					
1500	1896	श्री प्रकाशचंद मेहता पुत्र श्री गणेशलालजी	प प्र	वि	33	हा स	ध्यागार	श्वे म उदयपुर		1965, बाबा हरिचंद्र माग इन्द्रायाजार, जयपुर	अरिहंत जेम्स, 25, सेठ माविनी रोड, पलवत्ता फोन 331817
	2	शशि	पत्नी	वि	30	हा स					
1501	363	श्री प्रतापराज महता पुत्र स्व श्री वलकराजी	प प्र	वि	50	इंजिनियर	कॉन्सल्टिंग इंजी	जन जोधपुर		C 39, ज्योति माग, बापू नगर, जयपुर 15, फोन 77848	
	2	वमला	पत्नी	वि	45						
	3	उषा	पुत्री	अवि	24	एम ए					
	4	भाशा	पुत्री	अवि	22	बी बॉम					
	5	राशि	पुत्री	अवि	13		शि				
1502	1706	श्री प्रकाशमल मेहता पुत्र श्री जीतमलजी	प प्र	वि	48	एम ए	प्रधानाचार्य	श्वे म अजमेर		श्री 10, राजा पाव, जयपुर	
	2	सुशीला	पत्नी	वि	46	मिडिल					
	3	प्रदीप	पुत्र	वि	29	बी एससी	हैडींगपाट व्यवसाय				
	4	मयू	पुत्रवधू	वि	28	बी ए					
	5	दिलीप	पुत्र	अवि	27	हा स	रत्न व्यवसाय				
	6	अनिल	पुत्र	अवि	25	एम बॉम	रत्न व्यवसाय				
1503	658	श्री प्रेमचंद मेहता पुत्र श्री दीपचंदजी	प प्र	अवि	26	बी बॉम	अवाउटे	श्वे स्था विशानगढ़		द्वारा मिलापचंद जैन ताएी बालो वा नरवाजा, एम एस बी वा रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर	राज पत्रिका प्रा लि, जयपुर फोन 74231 पन्ना 16

पुत्र 5 पुत्री 1

पुत्र 1, पुत्रिया 2

पुत्र 1, पुत्री 1

1504	955	श्री प्रेमराज मेहता पुत्र श्री दौलतसिंहजी 2. विमला 3. सजय 4. वनिता	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि. अवि.	40 38 16 14	वी.ए.,एम.एस.सी. व्यापार हा सें	श्वे. म हरमाड़ा	म.न.957,गोधननाथजी की गली, जयपुर फो.नं. 72851
1505	167	श्री पार्श्वकुमार मेहता पुत्र स्व श्री कन्हैयालालजी 2 विमलादेवी 3. नवरतन 4. दिलीप	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	50 42 21 18	मैट्रिक साहित्यरत्न लेखाकार धर्मरत्न मिडिल शि. वी कॉम. (द्वि व.) शि. वी कॉम. (प्र.व.)	श्वे.स्था बडी सादड़ी (चित्तौड़)	म.नं. 2470, यादव चिकित्सा, स्वास्थ्य भवन, पटवो की गली एव परिवार कल्याण चौडा रास्ता, जयपुर-3 निदेशालय जयपुर फो नं. 74294
1506	827	श्री पारसमल मेहता पुत्र श्री शिवराज 2. लीला	प प्र पत्नी	वि. वि.	32 29	एस.एस.सी. व्यापार बी ए	श्वे.स्था. सादडी (पाली)	मेहता प्लाईवुड, A-12, जयन्ती मार्केट, एम.आई.रोड, जयपुर
1507	562	श्री फतहराज मेहता पुत्र स्व श्री रिखवराजजी 2. सुरेन्द्र 3. शशि 4. जैनेन्द्र 5 सुमित्रा 6 रविन्द्र 7. अंशु 8 राजकुमार	प प्र पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र	वि वि. वि. वि. वि. वि. वि. अवि.	55 33 28 30 26 27 25 25	एम कॉम लेखाधिकारी बी ई. (मैकेनिकल) उद्योग बी ए बी.कॉम उद्योग इन्टर डॉक्टर रेजीडेन्ट डॉक्टर इंजीनियर बी.कॉम, सीए नौकरी इन्टर, वि. मैनेज. डिप्लोमा	जैन जोधपुर	1-घ-10, जवाहर ए जी. ऑफिस नगर, फो न 43156 फो. 68431/212 सुरेन्द्र टेक्सटाइल्स, जोधपुर आल इण्डिया ट्यूब्स, कारपोरेशन, बम्बई अमेरिका अमेरिका प्रताप राज कापर फोयल्स एण्ड लि, जयपुर
1508	388	श्री बिरवीचन्द्र मेहता पुत्र श्री इन्दरचन्द्रजी 2. उमरावकंवर 3 सन्तोपचन्द्र 4 कान्ताकुमारी	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि वि. वि. वि	65 55 33 28	साक्षर नौकरी साक्षर साक्षर नौकरी हा सें	श्वे.स्था हरमाड़ा (अजमेर)	1703,श्यामसुन्दरजी की गली, जड़ियो का रास्ता, जयपुर कैलाश एण्ड कं. परतानियो का रास्ता, जयपुर
1509	391	श्री भंवरलाल मेहता पुत्र स्व श्री हरीसिंहजी 2 आनन्द	प प्र पत्नी	वि वि	54 52	बी.कॉम , एलएल वी साक्षर	श्वे किशनगढ़	वी-28, प्रभु मार्ग, तिलकनगर, जयपुर फो नं 65892

पुत्र-1

पुत्र-2, पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 प्रकाश	पुत्र	वि	34	इंटर	व्यापार				
		4 मीनू	पुत्रवधू	वि	32	बी ए					
		5 अनिल	पुत्र	वि	28	बी कॉम	व्यापार				
		6 नविता	पुत्रवधू	वि	24	एम एससी					
		7 सत्यतन्वी	भ्रा बधू	विधवा	38	मैट्रिक					
		8 भलका	भतीजी	भवि	16		शि बी कॉम (ट्रि व)			पुत्र 1, पुत्रियां 2	
		9 सीमा	भतीजी	भवि	14		शि कसा 10				
1510	1020	डॉ एम सी मेहता पुत्र श्री रूपच दजी	प प्र	वि	45	एम बी बी एस , एम एस एक प्रार ए सी एस	डॉक्टर	श्वे म			20, एबरेस्ट बॉलोनी, नरनारी अस्पताल, नाल कोठी जयपुर राजकी घर फोन 68265
		2 डा चंद्रा	पत्नी	वि	38	एम बी बी एस	डॉक्टर			पुत्र 2	
		3 संगीता	पुत्री	भवि	15		शि कसा 9				
1511	1964	श्री महावीर मेहता पुत्र श्री चांदमलजी	प प्र	वि	28	बी काम	फिल्म उद्योग	श्वे श्या			म न 1624 फिल्मयुग चौडा रास्ता, जयपुर फोन 61139
		2 शोला	माता	विधवा	55						
		3 सुशीला	पत्नी	वि	30	बी ए					
		4 जितेंद्र	पुत्र	भवि	15		शि म			पुत्र 1, पुत्री 1	
1512	1352	श्री महावीरचंद्र मेहता पुत्र श्री भीमराजजी	प प्र	वि	36	बी ई (मैने)	व्यवसाय	पानी			बी 138, जनता रॉजोनी, जयपुर मेहता प्लास्ट कारपो डूनी हाउस, फिल्म रॉजोनी, जयपुर फोन 68804
		2 पुष्पलता	पत्नी	वि	34	मिडिल					
		3 बसन्तकुमार	भाणजा	भवि	20	बी कॉम					
		4 प्रतिमा	पुत्री	भवि	13		शि म			पुत्र 1	
1513	295	श्री महावीरचंद्र मेहता पुत्र श्री भोपादचन्द्रजी	प प्र	वि	48	एम ए एलएल बी	भौशासिक सलाहकार	श्वे म	जोधपुर		4, संतिागर मोल्डन होटल के सामने, पोसोबिस्ट्री, जयपुर फोन 66606बी बी ने मेहता एण्ड एसोसियेटेड, सी ए, स्टेशन रोड, जयपुर फोन 65133
		2 वमन	पुत्र	भवि	24	बी कॉम ,ए सी ए	प्रशिक्षक				
		3 सुनीता	पुत्री	भवि	22	एम ए					
		4 सुमन	पुत्री	भवि	19		शि एम ए (ए)				
		5 सञ्जन	पत्नी	वि	46						

1514	712	श्री महेन्द्रसिंह महता पुत्र स्व श्री कानचन्दजी 2 मधु	पत्नी वि.	37	इन्टर	व्यवसाय	श्वे.म पुत्र-1, पुत्रियां-3	2535, महता हाउस, घाटगेट, जयपुर फो न 42101
1515	2467	श्री महेश महता पुत्र स्व. श्री धनपतलालजी 2. प्रसन्न 3. नीरा	पत्नी वि. प. प्र. अवि.	31 23	मैट्रिक बी कॉम., एलएल.बी लिपिक		श्वे म जोधपुर	सी-244, दयानन्द स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मार्ग, तिलकनगर, रीजनल कार्यालय, जयपुर सी-स्कीम, जयपुर
1516	491	श्रीमती मारणक महता पत्नी स्व श्री रूपचन्दजी 2. चित्रा 3 अन्जु 4. निशा	माता विधवा बहिन अवि. प. प्र विधवा	48 17 40	साक्षर शि.वी.एससी.(प्र व.) मिडिल		श्वे.म	के जी.वी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो.न. 42182
1517	205	श्री मिलापचन्द महता पुत्र श्री गुलाबचन्दजी 2. बदामदेवी 3. रतनचन्द 4. मजुलादेवी 5. नरेशकुमार 6. सरितादेवी 7. अशोक 8. शर्मिला 9. वन्दना 10. अनुपमा	पुत्री अवि. पुत्री अवि. पुत्री अवि. प.प्र. वि	20 18 13 59	हा सै. शि.वी.ए. (द्वि.व.) शि.कक्षा 7 कपडा व्यवसाय		श्वे.स्था. किशनगढ पुत्र-1, पुत्री-1	2075, बारह गणगीर मै. महता मेटल का रास्ता, जयपुर इन्डस्ट्रीज, 8/11 फो.64280,65458 इण्डस्ट्रियल एरिया, वगरू, जयपुर फो.न. 56
			पत्नी वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि. पुत्र अवि. पुत्री अवि. पौत्री अवि. पौत्री अवि.	55 40 35 30 27 25 21 17 14	वी.कॉम. रत्न व्यवसाय उद्योग उद्योग		शि. वी.ए. (द्वि व.) शि. कक्षा 9 पुत्र-3	
1518	1130	श्री मोहनलाल मेहता पुत्र श्री मूलचन्दजी 2. लीलावती देवी 3. सज्जनसिंह 4. अशोककुमार 5. जितेन्द्र 6. सम्पत 7. हेमलता 8. शशि	प प्र. वि. पत्नी वि. पुत्र वि. पुत्र वि. पुत्र वि. पुत्रवधू वि. पुत्रवधू वि. पुत्रवधू वि.	62 56 36 30 27 32 26 24	मैट्रिक नौकरी		श्वे.स्था. वडी सादडी चक्रपारी हाउस, बोरडी का रास्ता, जयपुर	जयपुर जिला बुनकर सहकारी सघ, रामगंज बाजार, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1519	1145/918	श्री मोहनसिंह मेहता पुत्र श्री छतरसिंहजी 2 प्रेमदेवी 3 सुयप्रवाणसिंह 4 चन्द्रकाता	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि वि वि वि	57 53 32 28	मैट्रिक एम ए, एल एल बी एम ए	सेवानिवृत्त वकील	जन			1294, तातेर खाना हाउस, बाबा हरिश्चंद्र मार्ग, जयपुर	
										पुत्र-2, पुत्री-1		
1520	1580	श्री यशेन्द्रराज मेहता स्व श्री पुत्र श्री मदनराजजी 2 इंदू	प प्र पत्नी	वि वि	31 28	एम काम	भोपधि विश्लेषक	जन	पत्नी		III6 घाघीनगर जयपुर पिन 302015	राजकीय विश्लेषक स मा सि चिकित्सा महाविद्यालय भवन जयपुर फो 48665
										पुत्र 1, पुत्री 1		
1521	1415	श्री धार एस मेहता पुत्र स्व श्री बल्पाणमलजी 2 दमयंती	प्र व पत्नी	वि वि	35 29	एमबी, एस एफ धार एस एल	डॉक्टर	श्वे म	जोधपुर		फस्ट पलार, कोठारी भवन चौडा रास्ता जयपुर, फोन 76863	
										पुत्रियाँ 2		
1522	103	श्री रमेशकुमार मेहता पुत्र श्री नाराजजी 2 हता	प प्र पत्नी	वि वि	35 33	मैट्रिक बी ए	कमीशन एजेंट कॉपर सप्लायर बैंक सेवा	श्वे म	दिल्ली		श्रीशेखारा हाउस, रामतला जी का रास्ता, जयपुर स्टेट बैंक प्राफ वीकानेर एण्ड जयपुर, किशनपोल भासा, जयपुर	
										पुत्र 1, पुत्री 1		
1523	1693	श्री राजकुमार मेहता पुत्र श्री लहरसिंहजी 2 डॉ कुमुद	प प्र पत्नी	वि वि	30 29	एम बी बी एस, एम डी एम बी बी एस एम एल (स्त्री रोग विशेषज्ञ)	डानटर	जन			एल 4ए बृष्णामार्ग, सी स्त्रीम, जयपुर फोन 69738 एम जी भस्पतान भीलवाडा	सेठी वॉनोनी, भस्पतान, जयपुर
										पुत्र-1		
1524	1963	श्री राजेबकुमार मेहता पुत्र श्री रामरावमलजी 2 हगामदेवी 3 वीरेन्द्रकुमार	प प्र पत्नी पत्नी	धवि विधवा धवि	21 54 19	बी कॉम साक्षर 19	रत्न ध्यवगाय शि बी कॉम (प्र व)	श्वे म			4781, मठ वा कुम्भों, ने जी बी का रास्ता, जयपुर, फो 42486 41191 फी पी	
1525	914	श्री राजेब्रसिंह मेहता पुत्र श्री वानचंदजी 2 विमला	प प्र पत्नी	वि वि	42 35	डिप्लोमा सिविल इंजी हा स	राजकीय सेवा वेरोजगार	श्वे म			बी 27, सेठी वाली रो, जयपुर	नेपाल हाईवे, डिप्लो मा II पी इन्सु डी जयपुर फो 78644
										पुत्र-1		

1526	1154	श्री रोशनलाल मेहता पुत्र श्री नरपतराजजी 2. प्रेम 3. अनिल	प प्र पत्नी भ्राता	वि. वि. अवि	32 28 22	हा.मै. मैट्रिक हा.सै	क लेखाकार राजकीय सेवा	श्वे.जैन पुत्र-1, पुत्रिया-2	पाली जैन	II 279, वजाजनगर, जयपुर-17	कार्यालय, उगनिदेशक डाक लेखा, जयपुर निदेशालय, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
1527	1135	श्री लखपत मेहता पुत्र श्री बालचन्द्रजी 2. शायरकवर	प.प्र. पत्नी	वि. वि	40 35	बी.कॉम, एल.एल.बी. हा.सै	वकील	जैन	ब्यावर	बारह गणगौर का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 44855	
1528	1692	श्री लहरसिंह मेहता पुत्र श्री पृथ्वीसिंहजी 2. शकुन्तला	प प्र. पत्नी	वि. वि.	72 65	एम.ए., एल.एल.बी. बी ए	एक्स. हाईकोर्ट जज चेयरमेन, ला कमीशन	जैन		एल-41-कृष्णमार्ग सी-स्कीम, जयपुर, फो न 67635	सचिवालय, जयपुर
1529	1900	श्री ललित मेहता पुत्र श्री करणसिंहजी 2. सुशीला	प.प्र. पत्नी	वि. वि	37 32	बी ई बी.एससी, बी एड.	राज्य सेवा नौकरी	जैन	उदयपुर पुत्र-1, पुत्रिया-2	डी-12, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	
1530	2179	श्री ललित कुमार मेहता पुत्र श्री बसन्तीलालजी 2. लीलाकुमारी	प प्र पत्नी	वि वि	32 27	हा सै मिडिल		श्वे.जैन	सिंगोली पुत्र-1, पुत्रिया-2	म नं 3977, एम एस बी. का रास्ता, जयपुर फो नं. 44365पीपी	बडेर भवन, नथमल- जी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. नं. 40923
1531	1821	श्री लाभचन्द्र मेहता पुत्र स्व. श्री ज्ञानचन्द्रजी 2. समदरकवर 3. निर्मलकुमार 4. जतन 5. विनोदकुमार 6. वन्दना	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि. वि वि वि वि वि	56 50 34 30 29 25	मैट्रिक मिडिल बी कॉम. मैट्रिक बी एससी.	बैंक मैनेजर रत्न दलाली रत्न व्यवसाय	श्वे म.		सी-184, ज्ञान मार्ग, तिलकनगर, फो न. 68143	यूनाइटेड कार्मशियल बैंक, लाडनू
1532	185	श्री विनयचन्द्र मेहता पुत्र स्व. श्री गुमानचन्द्रजी 2. शिमलेश 3 सजय 4. सगीता 5. सुनील	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्री पुत्र	वि. वि अवि अवि. अवि	41 38 20 18 16	इन्टर इन्टर एम कॉम. शि. बी.कॉम (द्वि व) शि हा. सै	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे म.		गुमान सागर, 51 गंगवाल पार्क, मोती डू गरी रोड, जयपुर फो.63122,77792	पुंगलिया भवन, एम एस बी. का रास्ता, जयपुर फो 41056,42019
1533	967	श्री शिखरचन्द्र मेहता पुत्र श्री प्रभुचन्द्रजी 2. क्रैमकुमारी	प. प्र. माता	वि वि	41 70	बी ए	बैंक सेवा	श्वे म		C-117, शिवाजी मार्ग, तिलकनगर, जयपुर, फो 46596	यू को. बैंक, चांदपोल बाजार, जयपुर फो न 72015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 विमला	पत्नी	वि	38	मैट्रिक					
		4 भजय	पुत्र	अवि	16		शि बी कॉम				
		5 विजय	पुत्र	अवि	15		शि स				
		6 सजय	पुत्र	अवि	14		शि कक्षा 9				
1534	785	श्री शिवकरराव महता पुत्र श्री सागरकरराजजी	प प्र	विपुत्र	62	बी ए	सेनेटरी	श्वे स्या		पीतलियो का चौक, जोहरी बाजार, जयपुर फो न 46938	भार एत पी सी जयपुर 302003
		2 नरेशचंद	पुत्र	वि	37	बी कॉम, सी ए भाई भाई बी	बक सेवा				रीजनल मैनेजर राजस्थान बैंक, जयपुर
		3 प्रमिला	पुत्रवधू	वि	33	हा स					
		4 निधि	पुत्री	अवि	16		शि बी कॉम (डि व)				
		5 दीपनकुमार	पुत्र	अवि	13		शि स				
		6 प्रमोदकुमार	पुत्र	वि	29	एम काम	बक सेवा				इंडियन प्रोवरसीज बैंक, जयपुर
		7 वीना	पुत्रवधू	वि	25	बी ए					
		8 रवींद्रकुमार	पुत्र	वि	27	बी कॉम, सी ए	एनाउटेड				
		9 सरोज	पुत्रवधू	वि	22	बी ए					
1535	1838	श्री शीतलचंद महता पुत्र श्री उगमचंदजी	प प्र	वि	48	इंटर(बाम)	सबिस	जन		296/4 गणपतिनगर, म जयपुर 6	रेल्वे प्रबंधक कार्यालय (नि ल), जयपुर
		2 कृष्णादेवी	पत्नी	वि	45	मैट्रिक					
		3 शेलरचंद	पुत्र	अवि	23	हा स					
		4 निधि	पुत्री	अवि	21	हा स					
		5 चित्रा	पुत्री	अवि	19	स					
		6 शीला	पुत्री	अवि	16		शि कक्षा 9				
		7 प्रीति	पुत्री	अवि	14		शि कक्षा 9				
1536	2490	श्री शीतलराज मेहता पुत्र श्री बी भार मेहता	प प्र	वि	53	एम डी, एम ए एस	प्राफेसर एव हेड	श्वे स्या	जोधपुर	हास्पिटल रोड, जयपुर फो न 60291/320 74498	एस एम एस मेडिकल कॉलेज, फो न 73020 60291 62976
		2 कल्पनादेवी	पत्नी	वि	50	शिक्षित					
		3 शरदकुमार	पुत्र	वि	30	एम ए, एलएल बी	फार्मिस्यूटिकल				
		4 सुनील	पुत्र	वि	27	एम ए	" "				
		5 सुधीर	पुत्र	अवि	22		शि एम बी बी एम				

पुनियर्ग-2

		6. निशा	पुत्रवधू	वि.	26	बी.ए.					
		7. प्रीति	पुत्रवधू	वि.	22	बी.ए.					
1537	320	श्री एस.एम. महता पुत्र श्री जौहरीमलजी	प.प्र.	वि.	36	बी.ई.(कृषि) एम.बी.ए.	बैंक उपप्रबन्धक	श्वे.म.	सोजत	बी-47, हरि निवास, गणेश मार्ग, वापूनगर, जयपुर	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, एम.आई. रोड़, जयपुर फो.न 61808 राजस्थान वि. वि., जयपुर
		2. डॉ. मजु	पत्नी	वि.	32	एम.ए.,पीएच.डी.	व्याख्याता				
		3. जौहरीलाल	पिता	विधुर	60	बी.एससी., एलएल.बी.	वकील				राजस्थान उच्च न्यायालय
1538	109	श्री संग्रामसिंह महता पुत्र श्री जसवन्तसिंहजी	प. प्र.	वि.	62	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था		2065, राजभवन, वारह गणगौर का	
		2. नरेन्द्रसिंह	पुत्र	वि	32	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय			रास्ता, जयपुर	
		3. शशि	पुत्रवधू	वि.	28	बी.ए.				फो.नं. 61192	
1539	176	श्री सुरेन्द्रसिंह महता पुत्र श्री संग्रामसिंहजी	प.प्र.	वि.	32	बी.कॉम.,एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.		राजभवन,वारहगणगौर	
		2 निर्मला	पत्नी	वि	30	बी.ए.				का रास्ता, जयपुर, फो.न. 48427	
1540	2244	श्रीमती सम्पतदेवी महता पत्नी स्व. श्री इन्दरचन्दजी	प.प्र.	विधवा	40	मैट्रिक		श्वे.ते		B-28, प्रभु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर	
		2. अलका	पुत्री	अवि.	17		शि. बी.ए.(प्र.व.)				
		3. अरुणकुमार	पुत्र	अवि	13		शि. कक्षा 7				
		4. सीमा	पुत्री	अवि.	15		शि. कक्षा 9				
1541	461	श्री सम्पतलाल महता पुत्र श्री मनोहरलालजी	प.प्र.	अवि.	36	इन्टर	नौकरी	श्वे.	गगापुर	आत्मानन्द जैन सभा (भीलवाडा) भवन, घी वालो का रास्ता, जयपुर	
1542	951	श्री सम्पतसिंह महता पुत्र श्री दौलतसिंहजी	प. प्र	वि	45	इन्टर	कपडे का व्यवसाय	श्वे.स्था	हरमाडा	म नं 2001 पीतलियो कटपीस मार्केट, का चौक,जौहरी	दुकान न. 45
		2. शान्तिदेवी	पत्नी	वि.	40	मैट्रिक				वाजार, जयपुर	हल्दियो का रास्ता, जयपुर
		3. सुशीला	पुत्री	अवि.	18		शि. बी.ए.(द्वि.व.)			फो. 47108	
		4. सुरेशकुमार	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1543	502	श्री सांजलचंद महता 2 हरीशकुमार 3 हेमलता	प प्र पुत्र पत्नी	वि धवि रि	48 26 35	बी बाम बी ई साक्षर	हाइ रोड रोवा प्रगिस्टेट मैनेजर (ग्रोड)	श्वे म जानोर	रवीन्द्र भवन, भारतगवांगी के सामने एम घाई रोड, जयपुर फो न 65891	राजस्थान टर्मूनिनेशन, रनीगाव, जयपुर
1544	2245	श्री सुंदरलाल महता पुत्र स्व श्री बहेयालालजी 2 सुमन 3 शशिना त 4 शीला 5 शुभा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि वि धवि धवि धवि	50 46 25 20 18	एम कॉम, एलएल बी एम ए बी ए, एलएल बी, सी ए बी कॉम	जिरा एव सत्र पायाधीन	श्वे ने मायली	611, पी डब्ल्यू डी वगला रावाई जयसिंह रोड, बनीपाक, जयपुर फो न 73825	
1545	923	श्री सुभाष महता पुत्र श्री रत्नेशजी 2 गोविला	प प्र पत्नी	वि वि	28 27	एम एससी बी एससी	रत्न व्यवसाय	जा बम्बई	म न 2014, पीतलिया रा चौक, जोहरी बाजार, जयपुर, फो 67042	
1546	102	श्री सुरेशकुमार मेहता पुत्र श्री मनसुखलालजी 2 लीलावती 3 हरीशकुमार	प प्र माता भ्राता	धवि विधवा धवि	28 55 27	बी कॉम (द्वि व) साक्षर मैट्रिक	लेखदार रत्न दलाली	श्वे म राजकोट	322, दिल्ली बालो की बिल्डिंग, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर फो न 78655	एस बी बी जे, सवाईमानसिंह हाईवे, जयपुर फो 60415, 60417 एस-15
1547	821	श्री सुरेशकुमार मेहता पुत्र श्री स्वरूपचंदजी 2 निशा	प प्र पत्नी	वि वि	28 27	एम कॉम एम ए	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या ग्वालियर	चित्रकूट भवन, धी बालो का रास्ता, जयपुर फो 44084	प्लॉट न 2, धूला हाउस, जयपुर
1548	563	श्री सुरेशसिंह मेहता पुत्र श्री नरेन्द्रसिंहजी 2 बाता	प प्र पत्नी	वि वि	34 31	एम एससी हा स	नीचरी एन जी ए	जन प्रजमेर	पुत्र-1 पुत्र 1, पुत्री 1	1 च 24, जवाहरनगर, जयपुर निगम भवानीसिंह माग, जयपुर
1549	1055	श्री सुरेशचंद महता पुत्र श्री दीपचन्द्रजी 2 तारा 3 कलाशचंद 4 मजु 5 प्रवासचंद 6 प्रेमचंद	प प्र पत्नी भ्राता भ्रा भ्राता भ्राता	वि वि वि वि धवि धवि	38 36 30 26 27 25	बी ए बी बाम बी बाम हा स बी कॉम बी कॉम	व्यवसाय	श्वे स्या विशनगढ	3672 तानी बाला का दरवाजा, एम एस बी बा रास्ता, जयपुर	
									पुत्र 1, पुत्री 1	

1550	1947	श्री श्रीचन्द महता पुत्र श्री घीसीलालजी	प प्र	वि.	68	मिडिल	व्यापार	श्वे. सं.	प्लॉट नं. बी-102, उदयमार्ग, तिलक नगर, फो.न. 46008
		2. संतोष	पत्नी	वि.	58			पौत्र-1, पौत्री-1	
		3. धर्मचन्द्र	पुत्र	वि.	34	एम.ए.	रत्न व्यवसाय		
		4. हेमलता	पुत्रवधू	वि.	32	बी.ए			
1551	2469	श्री श्रीपाल महता पुत्र श्री नथमलजी	प प्र	वि	32	हा. सै	नौकरी	जैन फालना	फो.न. 73233
		2 बेबी	पत्नी	वि	28			पुत्र-1, पुत्रियाँ-3	
1552	2136	श्री श्रीपालचन्द महता पुत्र श्री निहालचन्द	प प्र	वि.	36	चाटेंड एकाउन्टे	प्रेक्टिस	श्वे.म जोधपुर	सी-67, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, फो.नं 61001
		2. निर्मला	पत्नी	वि	30	एम.ए	शि. सी.ए.	पुत्रियाँ-2	
1553	36	श्री हंसराज महता पुत्र श्री दौलतचन्दजी	प.प्र.	वि	44	मैट्रिक	दलाली	श्वे. म.	2668, गोयल सदन, धीवालो का रास्ता, जयपुर, फो.न. 44083
		2. मालतीदेवी	माता	विधवा	63	साक्षर			
		3. कान्ता	पत्नी	वि.	39	मैट्रिक			
		4. आलोक	पुत्र	अवि.	19		शि हा. सै	पुत्र-1	
		5. अन्जू	पुत्री	अवि.	17		शि. वीएस.सी.(प्र.व.)		
1554	224	श्री हजारीचन्द महता पुत्र स्व. श्री धेवरचन्दजी	प प्र	वि	68	वी ए.	सेवा निवृत्त (विधानसभा)	श्वे.म. पोकरण जोधपुर	सी-9, मोती मार्ग, वापूनगर, जयपुर
		2. अनोपकवर	पत्नी	वि.	60	साक्षर			
		3. प्रेमचन्द	पुत्र	वि.	38	वी.ई.	नौकरी (दिल्ली)		
		4. विमला	पुत्रवधू	वि.	36	वी ए.			
		5 शेखरचन्द	पुत्र	वि	36	सी.ए	नौकरी (मदुराई)	पुत्र-1 पुत्रियाँ-2	
		6 शिवा	पुत्रवधू	वि	34	एम.ए			
1555	438	श्री हस्तीचन्द महता पुत्र श्री ज्ञानचन्दजी	प प्र.	वि	66	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे म.	बी-33, प्रभु मार्ग, जेम्स ट्रेडिंग कारपो, तिलक नगर, जयपुर, फो न 48349
		2 चन्द्रकंवर	पत्नी	वि	58				
		3 विजयकुमार	पुत्र	वि.	25	वी कॉम.	रत्न व्यवसाय		
		4 प्रेमलता	पुत्रवधू	वि.	24	मैट्रिक			सुपर जेम्स, जौहरी
		5. अरुणकुमार	पुत्र	वि	23	वी.कॉम.	रत्न व्यवसाय		वाजार, जयपुर,
		6. ममता	पुत्रवधू	वि	21	वी ए		पुत्री-1	सुपर डायमण्ड, बम्बई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1556	734	श्री होराचंद महता पुत्र स्व श्री वेमराजजी	प प्र	वि	65	मिडिल	व्यापार	श्वे म	सादबी जोधपुर	म न 1894, भट्टी का रास्ता, हवा महल के सामने, जयपुर	श्री त्यागेश्वर एटर प्राइजेज, 6, मानवाश्रम यॉर्नी टोव रोड, जयपुर
		2 राजबुमारी	पत्नी	वि	50	मिडिल					
		3 विजयकुमार	पुत्र	अवि	24	मिडिल					
		4 विमला	पुत्री	अवि	18	मिडिल					
1557	1770	श्री होराचंद महता पुत्र श्री पांढमलजी	प प्र	वि	34	मिडिल	रत्न व्यवसाय			2028, पीतलिया का चौक, जोहरी बाजार, जयपुर	
		2 माणकदेवी	पत्नी	वि	30	मैट्रिक्स					
		3 ज्ञानचंद	भ्राता		38	मिडिल					
1558	279	श्री हेमचंद महता पुत्र श्री दीपचंदजी	प प्र	वि	40	बी यॉम	व्यापार	श्वे स्वा	स्वातिगर	अजमेरा ग्रेग के नामने, घी वालो का रास्ता, जयपुर	
		2 सुवराज	पत्नी	वि	35	बी ए					
		3 रेणु	पुत्री	अवि	16		वि बी ए (प्र व)				
1559	186	श्री त्रिलोकचंद महता पुत्र स्व श्री गुमानचंदजी	प प्र	वि	45	इण्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे म		गुमान सागर, 51, गमवाल पाक, मोती डू गरी रोड, जयपुर	पु गलिया भवन, एम एस बी का रास्ता, जयपुर, फोन 41056,
		2 विमला	पत्नी	वि	42	मैट्रिक्स					
		3 अनिल	पुत्र	वि	23	बी यॉम	रत्न व्यवसाय				
		4 महिमा	पुत्रवधू	वि	20	ह्या स					
		5 प्रनीता	पुत्री	अवि	19	बी यॉम					
		6 अजय	पुत्र	अवि	16		शि हा मै				
1560	1997	श्री ज्ञानचंद महता पुत्र श्री वल्ल्याणमलजी	प प्र	वि	49	मैट्रिक्स	व्यवसाय	जन		फिल्म कॉलोनी, घोडा रास्ता, जयपुर, फोन 62049, 74991	
		2 निमलादेवी	पत्नी	वि	45	साधर					
		3 दिनेश	पुत्र	वि	28	बी काम ,एलएल बी	व्यापार				
		4 ज्योत्सना	पुत्रवधू	वि	23	इंटर					
		<u>महमवाल</u>									
1561	753	श्री अनिल महमवाल पुत्र श्री ऋषभभुमारजी	प प्र	वि	32		रत्न व्यवसाय	श्वे जन		2042, घी वालो का रास्ता, जयपुर, फोन 42809, 45209	
		2 ज्योति	पत्नी	वि	28						

1562	428/746	श्री अभयचन्द महमवाल पुत्र श्री कन्हैयालालजी	प.प्र.	अवि.	55	साक्षर	राजकीय सेवा	श्वे.म.	एम.एस.बी. का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर
1563	1863	श्री परशुरामकुमार जैन पुत्र श्री मोतीलालजी	प.प्र.	वि.	30	बी.एससी.,एम.ए. बैंक सेवा एलएल बी., सी.ए.,आई.आई.बी.		श्वे म चिडावा	435, हल्दियों का रास्ता, जयपुर
		2 रजनी	पत्नी	वि	25	बी ए		पुत्री-1	एस.बी.बी.जे.,सूरजपोल ब्रांच, जयपुर, फो न. 40821
1564	1036	श्री अशोककुमार महमवाल पुत्र श्री निहालचन्दजी	प.प्र.	वि.	26		रत्न व्यवसाय	श्वे.म.	भूत के कुए की गली, चौथा चौराहा, एम एस.बी. का रास्ता, जयपुर,
		2. सायरदेवी	पत्नी	वि.	23,			पुत्र-1, पुत्री-1	
1565	1551	श्री इन्दरचन्द महमवाल पुत्र स्व. श्री महादेवलालजी	प.प्र.	वि	60	मिडिल		श्वे मं विराटनगर (जयपुर)	बी-106, साकेत कॉलोनी, आदर्शनगर, जयपुर, फो. 41591
		2. प्रभावतीदेवी	पत्नी	वि.	55	मिडिल			ए पी. जैन एण्ड कं., सुकलेचा भवन, एम.एस.बी. का रास्ता, जयपुर. फो. 41210, 41734
		3. जितेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	29	बी.ए., एलएल.बी.	व्यवसाय		लुहाड़िया हाउस, चाकसू का चौक, जयपुर-3
		4 हेमचन्द	पुत्र	वि.	26	सी ए.	व्यवसाय		
		5. उषा	पुत्री	अवि.	21		शि. बी.ए.		
		6. अशोककुमार	पुत्र	अवि.	18		शि. बी.ए.(अं.व.)		
		7. राजेशकुमार	पुत्र	अवि.	20		शि. बी.ए.(अं.व.)		
		8. मन्जु	पुत्रवधू	वि.	26	बी.ए.			
		9 इन्दु	पुत्रवधू	वि	22	बी.कॉम.		पुत्र-1	
1566	2035	श्री उत्तमचन्द महमवाल पुत्र श्री कल्याणमलजी	प.प्र.	वि.	30	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.म. भुंभनू	मठका कुआ, के.जी बी का रास्ता, जयपुर
		2. अशोकलता	पत्नी	वि.	27				
1567	1458	श्रीमती उर्मिला महमवाल पत्नी स्व. श्री पूनमचन्दजी	प.प्र.	विधवा	41	मैट्रिक	जीवन बीमा एजेंट	श्वे मं	सी-253, भाभा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर, फो नं. 48876
		2 अजय	पुत्र	अवि.	13				
1568	1457	श्री गुलाबचन्द महमवाल पुत्र श्री मदनलालजी	प.प्र.	वि	37	मैट्रिक	नोकरी	श्वे जैन भुंभनू	1788, तेलीपाडे का रास्ता, दीवान भागचद फो.नं 63125
		2. चन्द्रकला	पत्नी	वि.	34			पुत्र-3	की गली, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1569	1090	श्री चंद्रप्रकाश महमवाल पुत्र श्री मू गालालजी 2 जयदेवी	प प्र पत्नी	वि वि	35 30	एम कॉम मैट्रिक	रत्न दलानी	जन	भु भन्नु	द्वारा, श्रीरामजीराज चोरसिया, डडडा मार्केट के पीछे, एम एस बी का रास्ता, जयपुर	
1570	2013	श्री छट्टनलाल महमवाल पुत्र श्री विशनलालजी 2 यशवन्त 3 नसिन 4 विजय 5 भजय 6 जय	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि प्रवि प्रवि प्रवि	56 52 27 23 21 19	बी काम ,एलएल बी मैट्रिक बी कॉम ,एलएल बी व्यवसाय बी कॉम , सी ए वि बी एससी (प्र व) शि बी कॉम		जन		62, गगवान पार्क, मोतीबू घरी रोड, जयपुर	वेरी का बास, जीहरी बाजार, जयपुर, फोन 45337 हन्विकरण, रतन भवन, एम फ्राई रोड, जयपुर
1571	1475	श्री बोलतचंद्र महमवाल पुत्र श्री बालचंद्रजी 2 विमला 3 राजेश 4 रेणु 5 नरेज	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि प्रवि प्रवि	55 48 27 23 21 19	एम कॉम ,बी ए, एलएल बी इंटर बी कॉम ,एलएल बी एम ए बी कॉम वि एलएल बी ,सी ए	भतिरिक्त प्राप्त	श्वे म	भु भन्नु	75, गोपालबाड़ी, जयपुर, फोन 74309 दबस बकील 65798	गर भवन, जयपुर, फोन 78453 77291/242
1572	396	श्री धमचंद्र महमवाल पुत्र श्री बालचंद्रजी 2 मनोरमा 3 नीना 4 बीना 5 कविता	प प्र पत्नी पुत्री पुत्री पुत्री	वि वि प्रवि प्रवि प्रवि	47 42 18 17 15	बी कॉम , एलएल बी वि एलएल बी ,सी ए लेखापिचारी		जन		बास भवन, पुराणी बस्ती, जयपुर	नगर परिषद्, जयपुर, फोन 75001, एक्ट 7
1573	390	श्री नरेन्द्रकुमार महमवाल पुत्र स्व श्री नारायणदासजी 2 पदमावती 3 प्रेमचंद 4 रेणु 5 गीमा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि वि प्रवि प्रवि प्रवि	46 41 23 16 18	मैट्रिक साक्षर हा सं वि हा स वि बी ए (प्र व)	रत्न दलानी	श्वे स्वा	धलवर	म न 2397, भोजाडा हाउस, पटवो का रास्ता, जयपुर	

	6. मनोज	पुत्र	„	14		शि. मैट्रिक			
	7. नीरज	पुत्र	„	13		शि. कक्षा 8			
1574	846 श्री नेमीचन्द महमवाल पुत्र श्री नारायणदासजी	प.प्र.	वि.	36	मैट्रिक	व्यापार	श्वे.स्था. अलवर	1565, जडियो का रास्ता, जयपुर	
	2. बीनारानी	पत्नी	वि.	34			पुत्र-2		
1575	298 श्री नेमीचन्द महमवाल पुत्र श्री पूनमचन्दजी	प.प्र.	वि.	31	बी.एससी , एलएल.बी., एम कॉम.	दलाली	श्वे म.	3752, कालो का मौहल्ला, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर	
	2. वनिता	पत्नी	वि.	24	बी ए.		पुत्रियां-2		
1576	1724 श्री प्रदीपकुमार महमवाल पुत्र श्री सी. एल. जैन	प.प्र.	वि	31	मैट्रिक	फोटोग्राफी	श्वे म. कलकत्ता	म न. 4008, मै प्रदीप फोटो स्टूडियो, के जी.बी. का रास्ता, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर जयपुर	
	2. मंजु	पत्नी	वि.	28			पुत्र-1		
1577	1484 श्री पारसचन्द महमवाल पुत्र श्री महादेवलालजी	प.प्र.	वि	32	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म. भु भनू	म.न 4851, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर	
	2. विमलादेवी	पत्नी	वि.	28			पुत्र-1, पुत्री-1		
1578	740 श्री पूनमचन्द महमवाल पुत्र स्व श्री बनारसीलालजी	प.प्र.	वि.	55	मैट्रिक	व्यवसाय	जैन भुंभनू	एस.पी 8, भाभा मार्ग, हेम्स एण्ड थ्रोड्स, तिलकनगर, जयपुर, स्टेशन रोड, जयपुर, फो न 78679 फो.नं 68613	
	2. विदामादेवी	माता	विधवा	70					
	3 शान्तिदेवी	पत्नी	वि	50					
	4. प्रवीणा	पुत्री	अवि.	22	एम ए.				
	5. त्रिशला	पुत्री	अवि.	18		शि. बी.ए			
	6. प्रमिला	पुत्री	अवि	16		शि. बी.ए (प्र.व)			
	7. रूपचन्द	भ्राता	वि	49	मैट्रिक	रत्न दलाली			
	8. उमिला	भ्रा. वधू	वि	43	मिडिल				
	9. रविश	भ्रा पुत्र	अवि	20		शि. वी कॉम.(अ व.)			
	10. राजेश	भ्रा. पुत्र	अवि.	16		शि हा सैक.			
	11. रचना	भ्रा.पुत्री	अवि	18		शि. वी ए (प्र.व.)			
	12. पदमचन्द	भ्राता	वि.	40	बी.ई. (मैकेनिकल)	व्यवसाय			
	13. त्रिलोक	भ्रा.वधू	वि	35					
	14. जयकुमार	भ्राता	वि	37	बी. एससी , सी.एफ.एल	रत्न व्यवसाय			
	15. चन्द्रप्रभा	भ्रा. वधू	वि	32	एम.एससी.		पुत्र-2, पुत्रियां-3	3789,एम.एस.वी का रास्ता, जयपुर फो न 43065	के पी इण्डस्ट्रीज, भोटवाड़ा, जयपुर, फो.न 842274 भारतीय रत्नालय, एम.एस वी. का रास्ता, जयपुर, फो न 44521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1579	181/	श्री बाबूलाल महमवाल	प प्र	वि	43	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे जन	विराटनगर (जयपुर)	4392, नधमलजी का कोव, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन 43190	
1522		पुत्र स्व श्री धीसोलालजी									
	2	भु-नीदेवी	पत्नी	वि	40	मिडिल					
	3	विनयचन्द	पुत्र	प्रवि	19	हा स	शयर व्यापार				
	4	प्रतिमा	पुत्री	प्रवि	16		शि बी ए (प्र व)				
	5	प्रवीण	पुत्र	प्रवि	14		शि कक्षा 8				
1580	1447	श्री बालचन्द महमवाल	प प्र	वि	65	मिडिल	सवानिद्वत्त	श्वे म	भु भन्नु	2042, पीवाला का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, फो 45209	
		पुत्र स्व श्री ताराचन्दजी									
	2	कचनदेवी	पत्नी	वि	50	मिडिल					
	3	पतहृषद	पुत्र	वि	44	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
	4	शरत्	पुत्रवधू	वि	40	मिडिल					
	5	विनोदकुमार	पुत्र	वि	36	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
	6	मजु	पुत्रवधू	वि	35	इ-टर्					
	7	दिनेशकुमार	पुत्र	प्रवि	28	मैट्रिक	व्यवसाय				
	8	गायत्री	पुत्री	प्रवि	24	एम कॉम					
	9	सुनीलकुमार	पुत्र	प्रवि	22		शि बी कॉम (प्र व)				
	10	सुधीरकुमार	पुत्र	प्रवि	20	हा स	व्यवसाय				
	11	सुधीरकुमार	पुत्र	प्रवि	18		शि स				
											पुन 1, पुनियाँ 2
1581	747	श्री बालचन्द महमवाल	प प्र	विपुर	71	मिडिल	व्यापार	जन	भु भन्नु	2546, श्रीमाल सदन, पीवाला का रास्ता, जयपुर	
		पुत्र श्री विहारनालजी									
	2	जितेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	42	बी ए	रत्न व्यवसाय				
	3	नवीनकुमार	पुत्र	वि	18		शि बी कॉम (द्वि व)				
	4	अजयकुमार	पुत्र	वि	15		शि से				
	5	नितिनकुमार	पुत्र	प्रवि	13		शि कक्षा 9				
	6	नोरतनकुमारी	पुत्रवधू	वि	40	बी ए					पुनी 1
1582	2001	श्री भवरत्न महमवाल	प प्र	विपुर	72	मिडिल	व्यापार	श्वे म	चिढावा	62, गणवाल पाक, मोती झररी रोड, जयपुर-4, फो 49822	चन्द्रावत भवन, एम एच बी का रास्ता, जयपुर 5, फो 45518
		पुत्र श्री विश्वनचन्दजी									
	2	राजेन्द्रकुमार	भ्राता	विपुर	55	बी ए	विशारद	व्यापार			
	3	सूर्यार्द्र	माता	विषवा	78						
	4	वीरेंद्रकुमार	भतीजा	वि	30	बी कॉम	एचएम बी व्यापार				

5. आशा	भती.वधू	वि.	28	एम.ए.			
6. नरेन्द्रकुमार	भतीजा	वि.	27	बी.कॉम, सी.ए.	प्रेक्टिस		
7. निर्मला	भती.वधू	वि.	24	बी.ए.			
1583 1456 श्री मालचन्द महमवाल	प. प्र.	वि.	67	बी.ए.	व्यापार	श्वे म. भु भनू	वी-13, ध्रुवमार्ग, प्रदीप एण्ड कम्पनी, तिलकनगर, जयपुर-4, सब्जी मण्डी, फो नं. 63687 जौहरी बाजार, 48816 जयपुर
पुत्र श्री सज्जनलालजी							
2. रतनवाई	पत्नी	वि	65	साक्षर			
3. महेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	46	बी ए	रत्न व्यवसाय		
4. कुशलचन्द	पुत्र	वि.	43	बी.ए.	असि. कलेक्टर		
5. राजेन्द्रप्रसाद	पुत्र	वि.	41	सी.ए.	कस्टम्स		
6. जयकुमार	पुत्र	वि.	39	मैट्रिक	प्राइवेट सेवा		महमवाल जैम्स
7. देवेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	38	सी.ए.	रत्न व्यवसाय		एन्टरप्राइजेज,
8. नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	36		नौकरी		जौहरी बाजार,
9. सुनीलकुमार	पुत्र	वि.	34	बी एससी., एलएल.बी.	शि. सी.ए.(प्र.भा.)		फो.नं. 67010
10. प्रदीपकुमार	पुत्र	वि	32	बी कॉम.	नौकरी		49364
11. मनीष	पौत्र	अवि.	15		रत्न व्यवसाय		
12. नितिन	पौत्र	अवि.	14		शि. सै.		
13. पुष्पा	पुत्रवधू	वि	42	मिडिल	शि. कक्षा 8		
14. मजु	पुत्रवधू	वि	34	मिडिल			
15. आशा	पुत्रवधू	वि.	34	हा सै			
16. कमला	पुत्रवधू	वि.	32	मिडिल			
17. प्रभा	पुत्रवधू	वि	33	बी.ए			
18. इला	पुत्रवधू	वि.	31	बी.ए.			
19. कुसुम	पुत्रवधू	वि	27	हा सै.			
20. मंजुला	पुत्रवधू	वि.	30	एम.ए.			
21. सीमा	पौत्री	अवि.	21		शि. बी ए. (अं.व.)		
22. ममता	पौत्री	अवि	19	शि.	शि बी.ए. (द्वि.व.)		
23. भावना	पौत्री	अवि	13		शि कक्षा 8		
24. रिचा	पौत्री	अवि	15		शि सै		
1584 1699 श्री मदनलाल महमवाल	प्र प.	वि.	74	मिडिल	दुकान	श्वे म भु भनू	म.नं 1549, जडियो का रास्ता, कचोलियो की गली, जयपुर
पुत्र श्री प्यारेलालजी							
2. चतरदेवी	पत्नी	वि	63	साक्षर			

पुत्र-2

पौत्र-6, पौत्रियाँ-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1596	1460	श्री रत्नभक्त महमवाल पुत्र श्री विद्यालानजी	प प्र	वि	34	हाम	रता ध्यवसाय	श्वे म भु भद्र		म न 3648, एम एत बी रा रास्ता, जयपुर	
		2 ज्ञानवती	पत्नी	वि	30				पुत्र 1 पुत्री 1		
1597	2087	श्री रत्नभक्त महमवाल पुत्र स्व श्री ताराचन्दजी	प प्र	वि	62	मिडिल	रत्न ध्यवसाय	श्वे म भु भद्र		2042, पी घालो रा प्रमेरिवा रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
		2 राजकुमारी	पत्नी	वि	55	मिडिल					
		3 भनिल	पुत्र	वि	35	मैट्रिक	ध्यवसाय				
		4 ज्योति	पुत्रवधू	वि	32						
		5 राजकुमार	पुत्र	वि	30	बी ए					
		6 उषा	पुत्र	वि	28				पुत्र-3, पुत्रियां 2		
1598	1448	श्री सातधर महमवाल पुत्र स्व श्री ताराचन्दजी	प प्र	वि	64	मैट्रिक	ध्यवसाय	श्वे म भु भद्र		2042, पी घालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो 45209	
		2 चिरीजीदेवी	पत्नी	वि	60						
		3 महेन्द्र	पुत्र	भवि	24	हाम	गौररी				
		4 सुरेन्द्र	पुत्र	भवि	20	मैट्रिक					
1599	1480	श्री सतितकुमार महमवाल पुत्र श्री विमलचन्द	प प्र	वि	34	मैट्रिक	रत्न ध्यवसाय	श्वे म भु भद्र		म न 4828 सोतिया का मोहल्ला, के जी बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
		2 सुशीला	पत्नी	वि	28						
		3 सुनीता	पुत्री	भवि	14				पुत्र 1		
1600	1779	श्री विजयकुमार महमवाल पुत्र श्री वनूचन्दजी	प प्र	वि	47	मैट्रिक	ध्यवसाय	जग भु भद्र		2001, पीतलियो का मै मोतीचन्द महमवाल घोष, जौहरी बाजार, प्रा सिमिटेड, 7,8,9, जयपुर, फो 67229 प्रप्रवाल कलिज बिल्डिंग, जयपुर 3	
		2 पवनकुमारी	पत्नी	वि	44						
		3 भजयकुमार	पुत्र	भवि	23	हाम	दलाली				
		4 शेरकुमार	पुत्र	भवि	19		शि बी ए (द्वि व)				
		5 नीताकुमारी	पुत्री	भवि	22	बी ए					
1601	1037	श्री विजयकुमार महमवाल पुत्र स्व श्री राजनानजी	प प्र	वि	45	मैट्रिक	गौररी	श्वे म		म न 4006-7, धांधियां जलस, के जी बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
		2 नगीनादेवी	पत्नी	वि	39	मिडिल					
		3 हरीशचन्द	पुत्र	वि	24	हाम	रत्न ध्यवसाय			फो न 43639 पी पी	
		4 दीना	पुत्रवधू	वि	20	"					
		5 प्रवीणकुमार	पुत्र	भवि	20	बी बीएम	केरोजगार				

1602	1087	श्री विजेन्द्रकुमार महमवाल पुत्र श्री महावीरप्रसादजी	प प्र	वि	33	वी कॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे मं. भु भूतू	जे-152, आदर्शनगर, जयपुर
		2. सरोज	पत्नी	वि	25			पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	
1603	2036	श्री विनयकुमार महमवाल पुत्र श्री रतनलालजी	प.प्र.	वि.	38		व्यवसाय	श्वे जैन	द्वारा-जयपुर टिम्बर ट्रेडर्स कम्पनी, नाहरगढ रोड, जयपुर, फो न 73598
		2. राजकुमारी	पत्नी	वि	25				
		3. मनोज	पुत्र	अवि.	16		शिक्षार्थी	पुत्र-1, पुत्री-1	
		4. सरिता	पुत्री	अवि.	14		"		
1604	1483	श्री विनोदकुमार महमवाल पुत्र श्री पूनमचन्दजी	प.प्र.	वि	28	वी.कॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे.म. भु भूतू	म.न. 1979, धीवालो का रास्ता, जयपुर
		2. प्रेमलता	पत्नी	वि.	22				
		3. नरेश	भ्राता	वि.	26			पुत्र-1, पुत्री-1	
		4. अंजु	भ्रा.व.	वि.	20				
1605	1975	श्री सुरेन्द्र महमवाल पुत्र स्व. श्री शिवरामजी	प.प्र.	वि	43	वी कॉम.	पेट्रोल पम्प	श्वे मं	3, शिवसदन, गोविंद मोटर एड्स, फोटो मार्ग, तीनमूर्ति के वाड़ा रोड, जयपुर, पास, जयपुर-4, फो.न 74056
		2. सन्तोपकंवर	माता	विधवा	60	साक्षर			
		3 प्रभा	पत्नी	वि	35	बी.ए.			
		4. वीरेन्द्रकुमार	भ्राता	वि	38	बी.ए.	रत्न व्यवसाय		" 65509
		5. शशि	भ्रा.व.	वि.	33	बी.ए.		पुत्र-2, पुत्री-1	जैन जैम्स, सचेती हाउस, एम एस.बी. का रास्ता, जयपुर, फो नं. 42049
		6. मनीषा	पुत्री	अवि.	14		शि कक्षा 8		
1606	1541	श्री सुरेन्द्रकुमार महमवाल पुत्र श्री सज्जनलालजी	प. प्र	वि.	45	वी.कॉम., एलएल बी.	व्यवसाय	श्वे म. भु भूतू	2088, चाकसू का चौक, धी वाली का रास्ता, जयपुर-3
		2. अजनादेवी	पत्नी	वि	40	एम ए.			186, बापू बाजार, जयपुर, फो. न 64936
		3 वीरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	19				
		4. रविन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	17		शि. वी कॉम (प्र.व.)		
		5. मीनाक्षी	पुत्री	अवि.	15		शि.बी एससी (प्र.व)	पुत्र-1	
1607	1450	श्री हरीशचन्द्र महमवाल पुत्र स्व श्री ताराचन्दजी	प प्र	वि	48	बी ए.	रत्न व्यवसाय	श्वे.म. भु भूतू	19, तख्तेशाही रोड, जयपुर
		2 विमला	पत्नी	वि	42	बी ए.			2042, धी वाली रास्ता, जौहरी बाज जयपुर, फो 41809, 452
		3. राजीव	पुत्र	अवि.	24	बी ए.			
		4. सजीव	पुत्र	अवि.	20		शि. वी ए.		
		5 रोहित	पुत्र	अवि.	15		शि हा सै.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1608	1576	श्री हीरासाह महमवाल पुत्र श्री कल्याणमलजी	प प्र	वि	55	दर (बॉम)	सेवानिपुत्र	श्व म	भु भू	एण/433, नांघीनगर, जयपुर	
		2 विमला	पत्नी	वि	45	विशारद साधार					
		3 प्रमोद	पुत्र	प्रवि	22	एम कॉम					
1609	1315	श्री हेमंतकुमार महमवाल पुत्र स्व श्री निमलकुमारजी	प प्र	प्रवि	19	मैट्रिक	श्वसताय	श्वे म	भु भू	सी 11, दोपट माण, घादस नगर, जयपुर 4	
		2 निमलाकुमारी	माता	विधवा	40						
		3 स देशकुमार	भ्राता	प्रवि	17	मैट्रिक	श्वसताय				
		<u>महरोड</u>									
1610	377	श्री महावीरप्रसाद महरोड पुत्र श्री बालूरामजी	प प्र	वि	50	बी ए	गोबरी			म नं 3775, रे-त्री बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	गीता भवा, जयपुर
		2 धमेलीबाई	माता	विधवा	65						
		3 दिनयकुमारी	पत्नी	वि	45	मिडिल					
		4 मजूकुमारी	पुत्री	प्रवि	20	बी ए					
		5 सजूकुमारी	पुत्री	प्रवि	16	मैट्रिक					
		<u>भांडोत्त</u>									
1611	454/ 2414	श्री हस्तामल भांडोत्त पुत्र श्री पनराजजी	प प्र	वि	63		नरॉप बमोभा एजेट	श्वे म	बराद (उदयपुर)	म नं 237, पुरोहितजी वा बटला, जयपुर, फोन 48035	पुरोहितजी वा बटला, जयपुर, फोन 48497
		2 भीममण्ड	पुत्र	वि	30	बी कॉम					
		3 बिदामदेवी	पत्नी	वि	60	मैट्रिक					
		4 पुपुम	पुत्रपू	वि	25						
		<u>मारू</u>									
1612	409	श्री बरियाबसिंह मारू पुत्र स्व श्री चौजमलजी	प प्र	वि	46	मैट्रिक	लग्नाधिकारी	श्वे स्या बाडा (भीलवाडा)		बी 105, धनु नलान सडी नगर, जयपुर फोन 42027 फी पी	मुख्य लेखाधिकारी, राज, जयपुर फोन 79850
		2 मोरादेवी	पत्नी	वि	41	मिडिल					
		3 राजकुमार	पुत्र	प्रवि	20		मि एम कॉम				
		4 मनीषा	पुत्री	प्रवि	14		मि कला 9				
		5 प्रीति	पुत्र	प्रवि	16		मि बी ए (प्र व)				
1613	769	श्री नरेशकुमार मारू पुत्र स्व श्री मोहनसिंहजी	प प्र	प्रवि	18		मि बी कॉम (प्र व)	श्वे स्या बोडा (भीलवाडा)		251, हलिया वा रास्ता, मीरामजी बी कोठी के पास, जयपुर, फोन 42427 फी पी	
		2 रतनकेसर	माता	विधवा	57	मिडिल					
		3 उमा	बहिा	प्रवि	22	एम ए	बेरीनगर				

पुत्र 1, पुत्री 1

पुत्र 1

1614	1298	श्री मिट्ठलाल मारू पुत्र श्री फतेहलालजी 2 गुलाबदेवी 3. जिनेन्द्रकुमार 4. राजेन्द्रकुमार 5. लताकुमारी	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्री	वि. वि. अवि अवि. अवि.	56 50 22 20 18	बी कॉम, हिन्दी विशारद मिडिल बी.ई. शि. बी.कॉम. (अ व.) शि. बी.ए. (द्वि व.)	सहा आडिट अधिकारी श्वे. स्था. व्यवसाय	डी-45, चौमूँ हाउस, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर	महालेखाकार कार्यालय
1615	479	श्री लक्ष्मणसिंह मारू पुत्र स्व. श्री फौजमलजी 2. विमला 3. जितेन्द्र	प प्र पत्नी पुत्र	वि. वि अवि	38 35 13	हाई स्कूल शि. कक्षा 8	श्वे.स्था. बनेडा (भीलवाड़ा) पुत्र-1, पुत्रियां-3	2198, हल्दियो का रास्ता, जयपुर	
1616	504	श्री गुमानमल मालू पुत्र श्री अनोपचन्दजी 2. माणकदेवी 3. संगीता 4. देवेन्द्रकुमार	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. अवि	50 46 20 17	बी कॉम. मिडिल 20 17	रत्न व्यवसाय श्वे.म. फलोदी (जोधपुर) शि. बी.कॉम (द्वि.व) शि. हा सै.	मालू भवन, के.जी बी का रास्ता, जयपुर फो.न. 43875	
1617	2494	श्री प्रसन्नचन्द मालू पुत्र श्री पूनमचन्दजी 2. पुष्पा	प प्र. पत्नी	वि. वि.	34 32	हा सै हा.सै.	श्वे म. फलोदी (जोधपुर) पुत्रियां-2	गोपीका भवन, के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	C/o जैन बन्धु, पुरोहितजी का कटला, जयपुर फो नं. 48607
1618	2246	श्री निर्मलकुमार मालू पुत्र श्री डालमचन्दजी 2. सुखमाला	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	33 31	बी कॉम, एल एल बी. बी एससी	वकील श्वे ते. सुजानगढ पुत्र-2, पुत्रियां-2	सी-52, बी, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर फो नं. 78134	
1619	966	श्री भंवरलाल मालू पुत्र श्री लक्ष्मणदासजी 2 इन्दु 3 दिलीपकुमार	प. प्र पत्नी भ्राता	वि वि अवि.	33 29 28	बी ए. बी ए. मैट्रिक	नौकरी जैन हालासिध पुत्री-1	वेरी का बास, के जी बी. 1502, पचरत्ना, का रास्ता, जयपुर फो.न. 45837	ओपेरा हाउस, बम्बई
1620	2495	श्री मोतीचन्द मालू पुत्र श्री ज्ञानचन्दजी 2. शशि	प प्र पत्नी	वि वि.	31 28	एम.कॉम., एम फिल व्याख्याता वी ए., एल.एल.बी.	श्वे म फलोदी (जोधपुर) पुत्री-1	अनाज मडी, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, जौहरी बाजार, जयपुर फो न 43875	पोद्दार कालेज, नवलगढ़
1621	1728	श्री शंकरलाल मालू पुत्र स्व. श्री हजारीमलजी 2. सुशीला	प.प्र. पत्नी	वि वि.	41 38	हा सै. व्यापार	श्वे.म वाडमेर पुत्र-1, पुत्रियां-2	म नं 71, भट्टो की गली, विधानसभा के सामने, जयपुर	मालू टैक्सटाइल्स, पुरोहितजी का कटला, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		मुकीम									
1622	1972	श्री बुधोसात मुकीम पुन श्री रिलबदासजी	प प्र	वि	56	सागर	सोने चांदी वा ध्यवसाय	श्वे म	347, महदी बागा वा चौक, रामगज बाजार, जयपुर	सर्राफा बाजार, बडी चौक, जयपुर	
		2 विमलादेवी	पत्नी	वि	48						
		3 प्रदीप	पुत्र	वि	28	मैट्रिक	सोने चांदी वा ध्यवसाय				
		4 दिनीश	पुत्र	धर्मि	20	मिडिल			पुत्र-2, पुत्री 1		
		5 भाशादेवी	पुत्रवधू	वि	25	हा स					
1623	1445	श्री वेताकुमार मुकीम 2 स्नहलता	प प्र	वि	34	हा स	ररा ध्यवसाय	जैन	मुकीम भवन, पागा वा दरीबा, जयपुर फोन 43469	मगापुर हाउस, न्यू मार्केट, घोवाला वा सारता, जयपुर	
			पत्नी	वि	32	मिडिल			पुत्र-1 पुत्रियां-2		
1624	480	पूनमचन्द मुकीम पुन श्री पीदमसजी	प प्र	वि	37	निशित	रल ध्यवसाय	श्वे म	मुकीम हाउस, पागो वा दरीबा, जयपुर		
		2 गुणमा	पत्नी	वि	34	मिडिल			पुत्र 2, पुत्री 1		
1625	1443	श्री बसन्तलाल मुकीम पुन श्री श्योमवरजी	प प्र	वि	67	मैट्रिक	रल दलाली	ज	957, मुकीम भवन, पागा वा दरीबा, जयपुर, फोन 44429	फोन 40468	
		2 गिवेन्द्र	पुत्र	वि	35	बी एससी (डि ग)	ररा ध्यवसाय				
		3 उषा	पुत्रवधू	वि	27	मैट्रिक					
		4 पुष्पद्र	पुत्र	वि	30	बी एससी, गलएन बी	रल ध्यवसाय				
		5 सरोजो	पुत्रवधू	वि	27	बी ए					
		6 भूदेन्द्र	पुत्र	धर्मि	18		मि बी कॉम (डि ग)		पुत्र 1, पुत्रियां-3		
		7 कुमुमबुमारी	पुत्री	धर्मि	23	बी ए					
1626	2144	श्री सन्तोष कुमार मुकीम पुन श्री रिलभगासजी	प प्र	वि	44	साक्षर	सोने चांदी वा ध्यवसाय श्वे म		347, मेहची बागा वा चौक, जयपुर	सर्राफा बाजार, बडी चौक जयपुर	
		2 सुशीला	पत्नी	वि	40	मैट्रिक			पुत्र-1, पुत्रियां-3		
1627	1644/ 2121	श्री समीरकुमार मुकीम पुन श्री सुरेन्द्रसिंह	प प्र	धर्मि	25	बी कॉम		जैन	वत्सलता	4319, जे जी पी वा सारता, जयपुर, फोन 43856	

		3. सूरजसिंह	पुत्र	वि.	42	बी.ए.	नौकरी				हरिहर पोली. फाइवसं हरिपुरा (कर्नाटक)
		4. स्नेहलता	पुत्रवधू	वि.	38	बी.ए.					
		5. मधुसूदन	पुत्र	वि.	35	बी.ए.	इन्डस्ट्री				
		6. विमला	पुत्रवधू	वि.	30	बी.ए.					
		7. राजेन्द्रसिंह	पुत्र	वि.	32	बी.ए.	इन्डस्ट्री				
		8. मीनाक्षी	पुत्रवधू	वि.	26	बी.ए.					
		9. जयसिंह	पुत्र	वि.	29	बी.ए., एल.एल.बी.	नौकरी				जैनथ पेपर मिल्स, रोपड, पंजाब
		10 मंजु	पुत्रवधू	वि.	26	बी.ए.					
1639	823	श्री गौतमचन्द्र मुण्डोत पुत्र स्व. श्री गाढमलजी	प. प्र.	वि.	42	इन्जीनियर	रत्न व्यवसाय				21, गरेश कॉलोनी, मोती डूंगरी रोड, जयपुर-4 फो. 64860
		2. अमित	पुत्र	अवि.	18		शि. बी.कॉम. (द्वि.व.)				2037, भूणोत निवास, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		3. विमला	पत्नी	वि.	40	एम.ए.					
1640	115	श्री गौतमचन्द्र मुण्डोत पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्रजी	प. प्र.	वि.	38	हा.सं.	रत्न व्यवसाय				नथमलजी का चौक, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर
		2 उषा	पत्नी	वि	32	हा.सं					
		3. जिनेन्द्र	पुत्र	अवि	14		शि. कक्षा 9				
1641	2491	श्री गौतमराज महनोत पुत्र श्री अमृतराजजी	प. प्र.	वि.	33	बी.ए., एल.एल.बी.	यू डी.सी.				44-क-5, ज्योतिनगर, जयपुर
		2. अमृतराज	पिता	वि.	55	मैट्रिक	प्राइवेट सेवा				
		3. कचनदेवी	पत्नी	वि	28	बी.ए.					
1642	2530	श्री दयालचन्द्र मुण्डोत पुत्र श्री मोहनलालजी	प. प्र.	वि	43	बी कॉम, ए.सी.ए.	मैनेजर (लेखा)				जीवन बीमा निगम, मडल कार्यालय, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर, फो. 67922
		2. विमलादेवी	पत्नी	वि	38	मिडिल					
		3. सुनीता	पुत्री	अवि.	17		शि. एम.बी.बी.एस.				
		4. निर्मल	पुत्र	अवि.	15		शि. कक्षा 11				
1643	2073	श्री धनपतराज मुण्डोत पुत्र श्री उम्मेदराजजी	प प्र	वि	35	बी एस.सी.	व्यवसाय				रत्न भवन, एम आई रोड, जयपुर
		2. आशा	पत्नी	वि.	31						
1644	1237	श्री नारायणदास मुण्डोत पुत्र श्री छगनसिंहजी	प प्र.	विधुर	75	बी ए, एल.एल.बी	सेवानिवृत्त (आई.ए.एस.)				सी-1, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर फो न 75918
		2. सुकुमारसिंह	पुत्र	वि	52	बी ए	नौकरी				ग्रोरियण्ट पेपर मिल, वृजराज नगर
		3. श्रीमती सु. सिंह	पुत्रवधू	वि.	48	इन्टर					
		4. दिनेश	पुत्र	अवि	23	बी कॉम	शि. सी.ए				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 राजपुरमार	पुत्र	वि	35	बी ई	उद्योग				पो नं 842216
		6 श्रेम	पुत्रवधू	वि	34	एम ए, बी एड					
		7 कुाज	पुत्रवधू	विषया	58	गांधर					
		8 प्रमित	पौत्र	वि	34	एडर	धरगाय				पो नं 77937
		9 रत्नता	पौत्रवधू	वि	30	एम ए					
		10 दीपन	पौत्र	वि	32	बी बीएम	धरगाय				
		11 ममता	पौत्रवधू	वि	30	एम ए					
1645	1026	श्री नारायणसिंह मुण्डोत पुत्र स्व श्री प्रमरसिंह श्री	प प्र	वि	29	बी एमबी	गोस्वी	श्री स्या विनायक	गोत्रवा हाउस	गोत्रवा हाउस के श्री श्री वा रास्ता	पुत्रिन विधि विनाय प्रयोगशाळा, त्रयपुर पो नं 68331
		2 पौत्रवधर	माता	विषया	62	मिडिल					
		3 मधुलता	पत्नी	वि	24	हा म					
1646	676	श्री पवनकुमार मुण्डोत पुत्र श्री मादमनजी	प प्र	वि	34	बी एम	धरगाय	जन	2037 मुण्डोत	श्री राजश्याम टिम्बन, विनाय, रामलताजी	श्री राजश्याम टिम्बन, श्री राजश्याम, त्रयपुर पो 62156
		2 उमिता	पत्नी	वि	30	मिडिल					
		3 मनीष	पुत्र	प्रवि	13						
1647	2492	श्री प्रकाशनारायण महतोत पुत्र श्री बडीनारायणजी	प प्र	विपुर	55	बी बीएम	गमात्र सेवा	गि कक्षा 6 गमात्र सेवा	विनाय-2	पो नं 47491	
		2 नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	33	बी ए (टि व)	रत धरगाय एवं जन पूरिया			4459 के श्री श्री वा रास्ता, त्रयपुर	पो न 41038
		3 सुरधाना	पुत्रवधू	वि	31	बी एमबी					
		4 दिनम	पुत्र	वि	31	बी एमबी	रत धरगाय				
		5 रदगा	पुत्रवधू	वि	27	एम ए					
		6 डॉ राधेश	पुत्र	वि	27	बी बीएम एम डी	रत धरगाय				
		7 वितीता	पुत्रवधू	वि	23	बी ए					
1648	1099	श्री केशूसिंह मुण्डोत पुत्र श्री भोगमसिंहजी	प प्र	वि	40	एडर	रत धरगाय	रत धरगाय	विनायक	श्री स्या विनायक	श्री नरेन्द्रकुमारजी मुण्डावात, एड, हा विनाय वा रास्ता, त्रयपुर
		2 मीनाश्री	पत्नी	वि	35	मिडिल					
		3 प्रदीप	पुत्र	प्रवि	17						
		4 मदीप	पुत्र	प्रवि	15						
		5 जयदीप	पुत्र	प्रवि	13						
1649	1320	श्री बाबूसातजी मुण्डोत पुत्र श्री यस्तीमनजी	प प्र	वि	46	एडर	रत धरगाय	रत धरगाय	विनायक	श्री स्या विनायक	श्री स्या विनायक पो 62163 पो 67668 श्री श्री 67753 श्री श्री
		2 रतनवधर	पत्नी	वि	43	मिडिल					

		3. मंजुलता	पुत्री	अवि	22		शि. बी.ए (अ.व)					
		4. मधु	पुत्री	अवि.	19		शि. बी.ए.(द्वि.व.)					
		5. कमलकुमार	पुत्र	अवि	18		शि. बी.कॉम (द्वि.व)					
		6. दीपककुमार	पुत्र	अवि.	14		शि हा.सं.					
1650	1368	श्री भंवरलाल मुणोत	प. प्र	वि.	38	इण्टर	राजकीय सेवा					
		पुत्र श्री चिमनलालजी										
		2. किरण	पत्नी	वि.	35							
1651	117	श्री भीमराज मुणोत	प. प्र.	वि	45	बी.ए.	ठेकेदार					
		पुत्र स्व. श्री शीतलराजजी										
		2. सुशीला	पत्नी	वि	36							
		3. राजीव	पुत्र	अवि.	17							
		4. सजीव	पुत्र	अवि.	16							
		5. ज्योति	पुत्री	अवि.	14							
1652	257	श्री सदनसिंह महनोत	प प्र	वि	52	एम.ए.	कार्यालय सहायक					
		पुत्र श्री मुकनसिंहजी										
		2 राजुलदेवी	माता	विधवा	70							
		3. पुष्पा	पत्नी	वि	50	शिक्षित						
		4. प्रतापसिंह	पुत्र	वि.	23	बी.एससी.	रत्न व्यवसाय					
		5. सुशीला	पुत्रवधू	वि.	19	बी ए.						
		6 इन्दुवाला	पुत्री	अवि.	20	बी.ए. (अनर्स)						
1653	1205	श्री मनोज महनोत	प प्र.	वि.	25	सी.ए. (इन्टर)	इन्कमटैक्स प्रैक्टिस					
		पुत्र स्व. श्री उगमराजजी										
		2. शुभकवर	माता	विधवा	54	साक्षर						
		3. सगीता	पत्नी	वि	22	बी.कॉम.						
1654	2342	श्री महेशचन्द महनोत	प.प्र.	वि	49	एम.ए.,बी.एड.	शिक्षक					
		पुत्र श्री गुलाबचन्दजी										
		2. सुमन	पत्नी	वि.	44	मिडिल						
1655	2172	श्री मोहनलाल मुणोत	प प्र	वि	51	एम कॉम.,पीएच डी.रीडर व उपाचार्य						
		पुत्र श्री जीहरीलालजी										
		2 मंजुरानी	पत्नी	वि.	45	मिडिल						
		3 शांतिलाल	भ्राता	वि	32	बी ई.						
		4. आभारानी	भ्रा वधू	वि	28	मैट्रिक	क अभियन्ता					

पुत्र-1

पुत्र-2

पुत्र-2, पुत्री-1

म.न. 1853, खजाने
वालो का रास्ता,
जयपुर
फो. नं. 78736

भेड़ ऊन विभाग,
गांधीनगर मोड़ पर,
जयपुर
कनस्ट्रक्शन वर्क,
जयपुर, फो. 69937

गणेश भवन,
परतानियो का रास्ता,
जयपुर, फो. 67937

जैन कोटा
रूपनगढ़
III/464, मालवीया
नगर, जयपुर-17
महाराजा कॉलेज,
जयपुर, फो. 74096

जैन जोधपुर
वी-11, महावीर उद्यान
पथ, बजाजनगर,
जयपुर-17

श्वे ते. अजमेर
केन्द्रीय विद्यालय,
मा.री.कालेज परिक्षेत्र,
जयपुर फो. 75669

श्वे स्था. अजमेर
210, हिम्मतनगर,
टोक रोड, जयपुर
फो न. 62130
वारिणज्य महा वि.,
रा वि वि. जयपुर
फो 73483
जन स्वास्थ्य विभाग,
गांधीनगर, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		मूढा									
1676	1355	श्री विमललाल मूढा पुत्र स्व श्री विश्वनलाल	प प्र	वि	70		नीररी	जन	भरतपुर	म न 275, दईक हाउस बन्धुप माग धामेर रोड, जयपुर	मै केशरीलाल लालचंद भरतपुर वाले, शिवोलिया राजार जयपुर फो 64695 रा राज्य पाठय पुस्तक वितरण केन्द्र, भु-कडू, ना मुख्य अभियन्ता, रा रा रि म, जयपुर उपहार, सी-स्वीम,
		2 रूपकुमारी	पत्नी	वि	60						
		3 धमरचंद	पुत्र	वि	45	इ-टर	राज्य सेवा				
		4 बचन	पुत्रचधू	वि	40	मैट्रिग					
		5 मधुबकुमार	पुत्र	वि	31	बी कॉम	राज्य सेवा				
		6 सुशीला	पुत्रचधू	वि	30	एम ए	नीररी				
		7 मवनेप	पुत्र	प्रवि	22		शि बी कॉम (द्वि व)				
		8 राजेश	पुत्र	प्रवि	19		शि बी कॉम (प्र व)				
		9 जिनेश	पुत्र	प्रवि	15		शि वक्षा 9				
											पुत्र 3, पुत्री 1
1677	1086/ 2085	श्री मोहनलाल मूढा पुत्र श्री गोपीनाथजी	प प्र	वि	39	बी ए	बैंक अधिकारी	श्वे म		14 लालनिवास, नारायणसिंह सजिल, जयपुर	मण्डल कार्यालय स ड्रल बक ऑफ दण्डिया, ससारचन्द्र रोड, जयपुर फो न 64142
		2 बीना	पत्नी	वि	38	बी ए					
											पुत्र 2, पुत्री 1
1678	389	श्री रूपकिसोर मूढा पुत्र श्रीगोपीनाथजी	प प्र	वि	46	बी ए (द्वि व)	डेपरी	ज	व लवा	254, सू टेटो वा रास्ता विश्वनपोल वाजार, जयपुर फो न 75418	जन डेपरी, जयपुर
		2 उपारानी	पत्नी	वि	40	मिडिल					
		3 विजयकुमारी	पुत्री	प्रवि	19		शि एम ए (प्र व)				
		4 मनोजकुमार	पुत्र	प्रवि	17		शि बी कॉम (प्र व)				
		5 मधु	पुत्री	प्रवि	15		शि स				
1679	476	श्री लक्ष्मणसिंह मूढा पुत्र श्री गोपीनाथजी	प प्र	वि	45	इ-टर	नीररी	श्वे स्था		तापडिया भवन, ऊंचा कुषा, हल्दिवी वा रास्ता, जयपुर	डाक सार विभाग जयपुर, फो न 67439
		2 शांता	पत्नी	वि	38	मिडिल					
		3 मनेस	पुत्री	प्रवि	21	हा स					
		4 रजनी	पुत्री	प्रवि	20	स					
		5 बन्नाथ	पुत्र	प्रवि	18		शि बी ए (द्वि व)				
											पुत्र-1

1680	1389	श्री सुरेशचन्द्र मूढा पुत्र श्री मनोहरलालजी	प प्र.	वि.	48	बी एस.सी.	बीमा अधिकारी	जैन	भरतपुर	के 16 ए, केशवपथ, एल.आई.सी ऑफिस, अशोकमार्ग, सी स्कीम, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, फो.न 63646 जयपुर फो.नं. 67343
		2. रामप्यारी	माता	विधवा	75	साक्षर				
		3. राजकुमारी	पत्नी	वि.	40	बी.ए.				
		4. अर्चना	पुत्री	अवि.	18		शि. बी.एससी. (अ.व.)			
		5. तरू	पुत्री	अवि	16		शि बी एससी. (प्र.व.)			
		6. दिवाकर	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 8			
		मूसल								
1681	1084	श्रीमती किरणदेवी मूसल पत्नी स्व. श्री बहादुरसिंहजी	प प्र.	विधवा	45	मैट्रिक			श्वे स्था	4320, नथमलजी का चौक, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर फो न. 41923
		2 सगीता	पुत्री	अवि	20		शि. बी.कॉम. (अ.व.)			
		3. मृदुला	पुत्री	अवि.	15		शि. हा. सै.			
		4 तरुणा	पुत्री	अवि.	13		शि. सै.			
1682	25	श्री चांदमल मूसल पुत्र स्व. श्री पारसीलालजी	प प्र	वि.	74	मिडिल	विश्राम		श्वे स्था.	3804, चौघरियो का दरवाजा, एम.एस.वी. का रास्ता, जयपुर,
		2. अगूरीदेवी	पत्नी	वि	64					
		3 अशोककुमार	पुत्र	वि.	28	मिडिल	रत्न व्यवसाय			
		4. रेखा	पुत्रवधू	वि.	23	मैट्रिक				
1683	806	श्री फतेहचन्द मूसल पुत्र स्व श्री भीरीलालजी	प प्र.	वि.	52	इन्टर	रत्न व्यवसाय		श्वे स्था	म न 4312, के जी.बी का रास्ता, जयपुर फो नं 42239, 42848
		2. सुशीलादेवी	पत्नी	वि	45	मिडिल				
		3 अनीलकुमार	पुत्र	वि.	22	बी.ए.	रत्न व्यवसाय			
		4. प्रेमलता	पुत्रवधू	वि.	21	बी.ए.				
		5. अभयकुमार	पुत्र	अवि.	21		शि. बी.ए. (अ.व.)			
		6. राजकुमार	पुत्र	अवि.	19		शि. हा सै.			
1684	565	श्री वृद्धिचन्द मूसल पुत्र स्व. श्री पारसीलालजी	प. प्र.	वि.	53		रत्न व्यवसाय		जैन	1-ज-1, जवाहरनगर, जयपुर फो न 43194
		2. कचनकुमारी	पत्नी	वि.	46	मिडिल				
		3. उम्मेदकुमार	पुत्र	वि.	29	हा सै.	रत्न व्यवसाय			
		4. कोमलदेवी	पुत्रवधू	वि	25	हा सै.				
		5. सुशीलकुमार	पुत्र	वि	25	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय			
		6. साधना	पुत्रवधू	वि.	21	बी.कॉम				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1685	1082	श्री भूप्रीलाल मूसल पुत्र स्व श्री भौरीलालजी	प प्र	वि	62	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था		म न 4320, नधमल जी का चौक, ने जी वी का रास्ता, जयपुर फां न 45620	
	2	अपूर्वीदेवी	पत्नी	वि	57						
	3	विजयचन्द	पुत्र	वि	34	हा सक्	रत्न व्यवसाय				
	4	सरोज	पुत्रवधू	वि	27	मिडिल					
	5	नमलचन्द	पुत्र	वि	32	हा सक्	रत्न व्यवसाय				
	6	मजु	पुत्रवधू	वि	25	हा सक्					
	7	चेतनकुमार	पुत्र	वि	23	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय				
	8	नीरू	पुत्रवधू	वि	20	वी ए					
	9	चन्द्रकान्ता	पुत्री	श्वि	19		शि वी ए (द्वि व)		पुत्र 5 पुत्री 1		
1686	1083	श्री सरदारमल मूसल पुत्र स्व श्री भौरीलालजी	प प्र	वि	58	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था		4320, नधमलजी का चौक, जोहरी बाजार, जयपुर, फां 42022	
	2	धीरज	पत्नी	वि	52						
	3	भजना	पुत्री	श्वि	22	एम ए					
	4	प्रदीप	पुत्र	श्वि	20	बी कॉम					
भोगरा											
1687	1408	श्री मनोहरसिंह भोगरा पुत्र श्री मवरलालजी	प प्र	वि	56	आई ए एस	आई जी रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टाम्पस	जन	जयपुर	E-11, गोवले माग, सी स्कीम, जयपुर	
	2	दिलसुख	पत्नी	वि	51						
	3	नरेन्द्रसिंह	पुत्र	वि	31	पी ए					वीक ए टरप्राईजेज, एम आई रोड जयपुर फां न 75611
	4	वदनता	पुत्रवधू	वि	26	बी ए			पुत्र 2		
मोदी											
1688	488	श्री इन्द्रचन्द्र मोदी पुत्र श्री वेंसरीचन्दजी	प प्र	वि	42	इंटर	उद्योग		प्रजमर	बी 6, विशोर भवन, 'यू कॉलोनी, जयपुर	सूय भवन, किरम कॉलोनी, जयपुर फां न 78471
	2	निमला'	पत्नी	वि	37	सक्					
	3	वीरेन्द्रकुमार	पुत्र	श्वि	16		शि सक्				
	4	अलेन्द्रकुमार	पुत्र	श्वि	19		शि पी कॉम				

1689	344/	श्री चांदमल मोदी	प. प्र.	वि.	35	मैट्रिक	नौकरी	श्वे. जैन व्यावर	गोविन्द राजियो
	2096	पुत्र श्री रतनलालजी							का रास्ता, बारियो का
		2. शकुन्तला	पत्नी	वि	30	मिडिल			बड, पुरानी बस्ती,
		3. विनोदकुमार	पुत्र	अवि.	16		शि. सैक.		जयपुर
		4. किशोरकुमार	पुत्र	अवि	14		शि. मिडिल	पुत्रियां-2	
1690	349	श्री चांदमल मोदी	प्र प्र.	वि	44	मिडिल	नौकरी	श्वे. जैन	म.न 2483, गोविन्द
		पुत्र स्व. श्री रतनलालजी							राजियो का रास्ता,
		2 नन्दकवर	पत्नी	वि	42	मिडिल			बारियो का बड,
		3. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	23	बी ए.	नौकरी		पुरानी बस्ती, जयपुर
		4. अनीता	पुत्री	अवि.	16		शि. सैक.	पुत्री-1	
1691	797	श्री नवरतन मोदी	प.प्र	वि.	34	हा सै	राज्य सेवा	श्वे.स्था. किशनगढ	म.नं.1603, खवासजी कार्या. फो. 74673
		पुत्र श्री पृथ्वीराजजी							का रास्ता, जयपुर
		2. स्वरूप	पत्नी	वि	30	साक्षर		पुत्र-3	
1692	342	श्री नवरतनमल मोदी	प प्र.	वि	45	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.जैन	जयलाल मुन्शी का
		पुत्र स्व. श्री उदयलालजी							रास्ता, दूसरा चौराहा,
		2. रतनदेवी	पत्नी	वि	40	मिडिल			पुरानी बस्ती, जयपुर
		3. प्रकाशचन्द	पुत्र	अवि.	26	हा.सै.	रत्न व्यवसाय		
		4. अलका	पुत्री	अवि.	18		शि. बी.ए. (अ.व.)		
		5. पिन्दू	पुत्र	अवि	15		शि. सैक		
1693	329	श्री बच्छराज मोदी	प प्र	विधुर	85	मिडिल	रत्न दलाली	श्वे.जैन	म.नं. 2090, नाहरगढ
		पुत्र श्री कुन्दनमलजी							रोड, जयपुर
		2. सुखलाल	पुत्र	वि.	45	मिडिल	रत्न दलाली		
		3. उगमवाई	पुत्रवधू	वि.	40	मिडिल			
		4. हुकमचन्द	पौत्र	वि.	30	मिडिल	नौकरी		
		5. मजुदेवी	पौ वधू	वि.	22	मिडिल			
		6. अनिलकुमार	पौत्र	अवि	22	मिडिल	नौकरी		
		7. पारसकुमार	पौत्र	अवि	17		शि. हा.सै.		
		8. महावीरकुमार	पौत्र	अवि	14		शि. मिडिल		
		9 मजुकुमारी	पौत्री	अवि.	16		शि. सैक	पुत्र-1, पुत्रियां-2	
1694	478/	श्री बाबूलाल मोदी	प प्र	वि	50	एम.कॉम	फिल्म व्यवसाय	व्यावर	वालकृष्ण भवन,
	545	पुत्र स्व. श्री केशरीचन्दजी							चौडा रास्ता, जयपुर, सूर्यभवन, फिल्म
		2. सूरजदेवी	पत्नी	वि.	46	शिक्षित			कॉलोनी, जयपुर, फो 75053 फो.न 78471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1705	1670	3 रविम	पुत्री	प्रवि	28	एम एससी	बायो केमिस्ट	जन	प्रजमेर	1751, जिंदल मवन, रांका एटरप्राइजिज खजाने वाली ना रास्ता जयपुर	मेडिकल कॉलेज, जयपुर रांका एटरप्राइजिज मण्डवावा हाउस, ससार चंद रोड, जयपुर फो न 63628	
		4 नवीन	पुत्र	प्रवि	21	बी एससी	शि एम एससी					
		धो छगनमस रांका	प प्र	वि	45	एम कॉम	ध्यवसाय					
		पुत्र श्री मदनचंदजी										
		2 विमलादेवी	पत्नी	वि	40							
1706	1204	3 लता	पुत्री	प्रवि	22	बी ए		श्वे स्या प्रजमेर	35, सचिवालय कॉलोनी, बरकत नगर, जयपुर			
		4 सुमति	पुत्र	प्रवि	20		शि बी ए (टि व)					
		5 ऋषि	पुत्र	प्रवि	18		शि बी कॉम (प्र व)					
		धो धरमचंद रांका	प प्र	वि	57	मैट्रिक	सेवा निवृत्त					
		पुत्र श्री विस्तूरचंदजी										
1707	1380	2 सम्पत	पत्नी	वि	50	साक्षर		जन	पुत्र 1	2136, लुणावत हाउस, राफारी बानो की दडा बाजार, हल्दिया हावेली झूसरा चौराहा, वा रास्ता, जयपुर फो न 40677 41806पी पी	रांका एटरप्राइजिज मण्डवावा हाउस, ससार चंद रोड, जयपुर फो न 63628	
		3 प्रजीत	पुत्र	प्रवि	15		शि यथा 8					
		4 शशि	पुत्री	प्रवि	13		" , 7					
		धो नरेन्द्रकुमार रांका	प प्र	वि	30	पी यू सी	पलाठी					
		पुत्र श्री मेहताबचंदजी										
1708	1213/ 1043	2 मधु	पत्नी	वि	27	मैट्रिक	बेरोजगार	जन	पुत्र 2	रांका हाउस, जवाहर सात नेहरू माग, जयपुर फो न 62472	मेडिकल कॉलेज, जयपुर रांका एटरप्राइजिज मण्डवावा हाउस, ससार चंद रोड, जयपुर फो न 45830	
		धो नवरत्नमस रांका	प प्र	वि	51	बी कॉम	एलएल बी बनारस					
		पुत्र स्व श्री मोतीलालजी										
		2 उमिता	पत्नी	वि	35	बी ए						
		3 जनेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	30	बी कॉम	एलएल बी बनारस					
1709	530/ 1242	4 रेणु	पुत्रवधू	वि	29	बी एससी, एम कॉम		जन स्या प्रजमेर	पुत्र 2	जो 7, रोड न 2, वेस्टन रेलवे जयपुर मणपति नगर, रेलवे कॉलोनी, जयपुर		
		5 तनू	पुत्री	प्रवि	15		शिक्षार्थी					
		धो पुष्पराज रांका	प प्र	वि	46	इंटर	चौफ ट्रेन एग्जामिनेर					
		पुत्र श्री विशनवासजी										
		2 चंद्रवला	पत्नी	वि	40	एम ए						
1709	530/ 1242	3 सगीता	पुत्री	प्रवि	21	बी ए		जन स्या प्रजमेर	पुत्र-1	जो 7, रोड न 2, वेस्टन रेलवे जयपुर मणपति नगर, रेलवे कॉलोनी, जयपुर		
		4 सुनीता	पुत्री	प्रवि	19	बी ए						
		5 सिम्मी	पुत्री	प्रवि	17		शि बी ए (टि व)					
		6 निधि	पुत्री	प्रवि	15		शि सन					

1710	505	श्री रिलाबचन्व रांका पुत्र श्री मिलापचन्दजी	प.प्र.	वि	63	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं.	2186, हल्दियो का रास्ता, दड़ा, जीहरी वाजार, जयपुर फो.नं. 41806
		2. मदनदेवी	पत्नी	वि.	57			
		3. सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	39	व्यवसाय		
		4. मंजुदेवी	पुत्रवधू	वि.	33			
		5. गीतमचन्द	पुत्र	वि.	26	व्यवसाय		
		6. आशादेवी	पुत्रवधू	वि.	22			
		7. विजयकुमार	पुत्र	अवि.	23	व्यवसाय		
		8. सुमन	पौत्री	अवि	15	शिक्षार्थी	पुत्री-1	
		9. मनीष	पौत्र	अवि	13	शिक्षार्थी		
1711	1237	श्री विमलचन्द रांका पुत्र स्व. श्री किस्तूरीचन्दजी	प.प्र.	वि.	51	मैट्रिक	श्वे.स्था. अजमेर	3825, एम.एस.वी. आर.जी.पी. विभाग, का रास्ता, दूसरा सचिवालय, जयपुर चौराहा, जयपुर फो.न. 74630
		2. पेमकंवर	पत्नी	वि.	46	साक्षर		
		3. आशा	पुत्री	अवि.	21	शि.		
		4. मजु	पुत्री	अवि.	19	शि. एम.कॉम (प्र.व)	पुत्री-1	
		5. अरुणा	पुत्री	अवि	14	शि. कक्षा 9		
1712	1069	श्री सुमति रांका पुत्र श्री छगनमलजी	प.प्र.	अवि.	21	वी.कॉम	व्यवसाय	जैन
		2. छगनमल	पिता	वि.	45	एम कॉम., एलएल वी		1757, जिन्दल भवन, फो.न. 62878
		3. विमलादेवी	माता	वि.	40	संक.		खजाने वालो का रास्ता, जयपुर फो.न. 63628
		4. ऋषी	भ्राता	अवि.	19	शि. वी.ए.(द्वि.व)		
		5. लता	बहिन	अवि.	20	एम ए		
1713	1071	श्री हेमचन्द रांका पुत्र श्री कन्हैयालालजी	प प्र	अवि	22		शि. कक्षा 11	जैन हट्टन्डी (अजमेर)
		2. महावीरचन्द	भ्राता	अवि.	17	सं.	वेरोजगार	डी-78, शान्तिनगर, एन.वी.सी. रोड, जयपुर-6 फो.नं. 77318 पी.पी.
1714	1581	श्री हेमचन्द्र रांका पुत्र श्री लालचन्दजी	प.प्र	वि.	55	वी.कॉम, एलएल.वी.	सेवानिवृत्त	श्वे स्था अजमेर
		2. सरोज	पत्नी	वि.	50	साक्षर		
		3. डॉ. पूनमचन्द	पुत्र	वि	30	एम.डी.(मेडी)	चिकित्सा अधिकारी	राजकीय चिकित्सालय, वरकतनगर, जयपुर
		4. डॉ. वन्दना	पुत्रवधू	वि	28	बी.एस सी ,एम.बी.बी.एस		
		5. राजकुमारी	पुत्री	अवि.	25	एम.ए डिप्लो. टेलरिंग निर्दिग		
		6. सुरेन्द्र	पुत्र	अवि.	24	वी कॉम, एलएल.वी.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1726	361	श्री सुरेश्रुमार रामपुरिया पुत्र श्री रगलानजी 2 सोनल	प प्र पुत्री	वि धवि	38 13	बी ई (मैक) शिक्षण	उद्योग धंधा शिक्षण	जन पुत्रिया 3	बीरानेर बापुनगर जयपुर फोन 72560	एच बी 38, भवानीसिंह माग, बापुनगर जयपुर फोन 72560	सोनाली मोरिया टल कारपेटम जयपुर
रायसुराना											
1727	84	श्री सुबोधचंद रायसुराना पुत्र श्री शिताबचण्डी 2 नीता 3 रचना 4 सिद्धाथ	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र	वि वि धवि धवि	52 46 16 13	भाटोमोवाइल इंजीनियरिंग मैट्रिक शिक्षण	दरी गरीवा व्यवसाय शिक्षण	श्वे जन कनकता शिक्षण	बी 50, गणेश माग बापु नगर, जयपुर, फोन 68240		
रुगलेंचा											
1728	1336	श्री प्रेमसिंह जैन पुत्र श्री मनोहरसिंहजी 2 सुशीलादेवी	प प्र पत्नी	वि वि	27 25	बी कॉम मिडिल	सविम(सेवाकार) मिडिल	श्वे स्था कोटडी (भोलवाडा)	म न 6, ग्यारह मोरी नासा, शिवाजीनगर, ब्रह्मपुरी, जयपुर	जी 9/सी बचौर माग, बनीपाक, जयपुर फोन 62553 68138	
रुणोवाल											
1729	1172	श्री पारसमल रुणवाल पुत्र श्री लालचंदजी 2 स्नेहलता 3 पदमराज	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि धवि	32 30 13	हा स मिडिल शिक्षण	मगालो का व्यवसाय शिक्षण	श्वे स्था नरसिंह बासनी पुत्र 2, पुत्री 1	प्लाट न 35, बसुधरा कॉलोनी टोक फाटन, जयपुर		
1730	411	श्री महावीरचंद जन पुत्र श्री भीमालालजी 2 ताराकुमारी 3 पवज 4 सुमन	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री	वि वि धवि धवि	37 36 15 13	इण्टर सं शिक्षण शिक्षण	द्वारासपाट व्यवसाय शिक्षण	श्वे स्था मरुत (भजमेर)	बी 2, सेठी फॉलोनी, जयपुर फोन 45174		
1731	413	श्री रतनलाल जन पुत्र श्री भीमालालजी 2 वभलावती 3 धमिता	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि धवि	58 54 23	हा स माधर बी ए	व्यवसाय शिक्षण	श्वे स्था मरुत (भजमेर)	बी 94, प्रजुनताल सेठीनगर, जयपुर फोन 42017		

	4. पदमचन्द्र	पुत्र	अवि.	21	सै.	रत्न व्यवसाय			
	5. मञ्जु	पुत्री	अवि.	19		शि वी ए. (तृ.व.)			
	<u>रेड</u>								
1732 1278	श्री मिश्रीमल रेड	प. प्र.	वि.	58	मैट्रिक	कपड़ का व्यवसाय	श्वे. स्था.	ए-17, केसरद्वीप,	ओसवाल वस्त्र भंडार,
	पुत्र स्व. श्री केसरीमलजी							शास्त्रीनगर, जयपुर	पुरोहितजी का कटला,
	2. पुष्पकवर	पत्नी	वि.	53	साक्षर			फो.न. 63173	जयपुर, फो. 63449
	3. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	25	इन्टर	व्यवसाय			
	4. विनोदकुमार	पुत्र	अवि.	23	इन्टर	व्यवसाय			
	5 इन्दु	पुत्री	अवि.	21	बी.कॉम.				
	<u>रेवासणी</u>								
1733 976	श्री डालचन्द रेवासणी	प.प्र.	वि.	42	एम.कॉम.	राज्य सेवा	श्वे.स्था. पीह (नागौर)	3658, मोतीसिंह	आयोजना जनशक्ति
	पुत्र स्व.श्री फतेहचन्द्रजी							भोमियों का रास्ता,	विभाग, सचिवालय,
	2. कमला	पत्नी	वि.	36	हा. सै.			जौहरी बाजार, जयपुर	जयपुर
	3. नीलम	पुत्री	अवि.	16		शि. वी.ए. (प्र.व.)		फो.न. 47747	
	4. सुनीता	पुत्री	अवि.	14		शि. कक्षा. 9			
	<u>रैदानी</u>								
1734 2123	श्री अरुणकुमार रैदानी	प. प्र.	वि.	31	बी.ए.	व्यापार	जैन मिर्जापुर (उ.प्र.)	प्रकाश जेम्स,	मोतीसिंह भोमियों का
	पुत्र श्री प्रकाशचन्द्रजी							रास्ता, जयपुर	
	2. कल्पना	पत्नी	वि.	28	बी.ए.				
	3. अजय	भ्राता	वि.	28	बी.ए.	व्यापार			
	4. सुपमा	भ्रा.व.	वि.	24	बी.ए.				
1735 2124	श्री रविन्दकुमार रैदानी	प. प्र.	वि.	32	बी.ए.	रत्न व्यवसाय	जैन मिर्जापुर (उ.प्र.)	बी-344, जनता	कॉलोनी, जयपुर
	पुत्र श्री आनन्द चन्द्रजी								
	2. पुस्तराज	पत्नी	वि.	28	बी.ए.				
	3. अनिल	भ्राता	अवि.	23	बी कॉम.				
	<u>रोटागण</u>								
1736 2086	श्री नरेन्द्रकुमार रोटागण	प. प्र.	अवि.	24	बी ए (द्वि.व)	बेरोजगार	श्वे. मं. राजमहल (टोक)	2785, C/o	श्री कानाराय चौधरी,
	पुत्र श्री कनकमलजी							श्री कानाराय चौधरी,	तीसरा चौराहा, बगरू
	2 महेन्द्रकुमार	भ्राता	अवि.	21	बी.कॉम	बेरोजगार		वालों का रास्ता,	
	3. राजेन्द्रकुमार	भ्राता	अवि.	18	सैके	बेरोजगार		चांदपोल बाजार, जयपुर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1747	1410	श्री साहित्यसिद्धि पुत्र श्री श्रीवाचस्पती	प प्र	वि	59		व्यवसाय	श्वे म		257, घादम नगर, जयपुर	
		2 स्वयंभूता	पत्नी	वि	56						
		3 रत्न	पुत्र	प्रवि	24	एम कॉम एम ए	व्यवसाय				
1748	1648	श्री मतीसकुमार सिद्धि पुत्र श्री मादीसामजी	प प्र	वि	40			ज		200, घादम नगर, जयपुर	
		2 मुद्देग	पत्नी	वि	34						
		3 बीनू	पुत्री	प्रवि	14						
1749	1647	श्री सुभाषचन्द्र सिद्धि पुत्र श्री मादीसामजी	प प्र	वि	47			जन		200 घादम नगर, जयपुर	
		2 प्रमीलवती	पत्नी	वि	43						
		3 हृदयकुमार	पुत्र	प्रवि	21	बी कॉम					
		4 घदमकुमार	पुत्र	प्रवि	13		शि मटा 8				
1750	1636	श्री हृदयराज सिद्धि पुत्र श्री कागामसजी	प प्र	वि	74	साक्षर	व्यवसाय	श्वे रथा		224, फटियर ग्लोब सजिबल, कालोनी, घादमनगर, 160, बापू बाजार, जयपुर, फो 41920 जयपुर, फो 46073	
		2 रामप्यारी	पत्नी	वि	72	साक्षर					
		3 राजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	47	इंटर	व्यवसाय				
		4 प्रेमदाता	पुत्रसभू	वि	42	बी ए					
		5 धर्मि	पौत्र	प्रवि	21	बी ए	व्यवसाय				
		6 विनाय	पौत्र	प्रवि	20		शि बी कॉम(प्र व)				
		सू कड									
1751	2412	श्री कमलचन्द्र सू कड पुत्र श्री वाहूरामजी	प प्र	वि	51	मेट्रिग	सर्विस			861, लालजी साह जयपुर एमरल्ड कारपो, का रास्ता, मोदीजाना, हल्दियो का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर जोहरी बाजार, जयपुर फो 45003	
		2 जतारवर	पत्नी	वि	46	साक्षर					
		3 ज्ञानचन्द्र	पुत्र	वि	32	सब	पत्रकारिता				
		4 निमसा	पुत्रसभू	वि	27	साक्षर					
1752	1232A	श्री नरहरतनमल सू कड पुत्र श्री बहादुरामजी	प प्र	वि	33	बी एम एण्डभाई ए	उद्योग	श्व रथा जायपुर		36, प्रेम निवाग, मे जयनी प्रिन्टव, यू बालोनी, जयपुर 96, त्रयम्भक भवन, फोन 61938 1, वातीषच रोड,	
		2 विनादवी	पत्नी	वि	31	मिडिल					

1753 1678	3 राजेश	पुत्र	अवि.	15		शि. सैक.	पुत्र-1, पुत्री-1	जैन समदड़ी (वाड़मेर)	III-147, बजाजनगर, महालेखाकार कार्यालय, जयपुर फो.नं. 68431
	4. एकता	पुत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 7			
	श्री लालचन्द लूंकड़	प.प्र.	वि.	51	एम कॉम.	लेखा परीक्षा अधिकारी			
	पुत्र श्री लक्ष्मीचन्दजी								
1754 898	2. सायरकु वर	पत्नी	वि.	47			श्वे स्था. जोधपुर	2266, ब्रजमोहन भवन, दीनानाथ की गली, पुरानी बस्ती जयपुर	माडर्न वेकरीज (एम.ओ जैड) बगरू निरख किराना स्टोर, बगरू वालों का रास्ता, जयपुर रा.रा. सहकारी न्यायाधिकरण, जयपुर सुदर्शनपुरा, जयपुर
	3. जितेन्द्र	पुत्र	अवि.	17		शि. कक्षा 9			
	श्री हंसराज लूंकड़	प.प्र.	वि.	65	मैट्रिक	सेवानिवृत्त			
	पुत्र श्री तेजराजजी								
	2 निरखकु वर	पत्नी	वि.	60	साक्षर				
3 दलपतराज	पुत्र	अवि.	28	मैट्रिक	किराना व्यवसाय				
1755 1056	4 हेमन्तकुमार	पुत्र	अवि	23	मैट्रिक	कनिष्ठ लिपिक	श्वे स्था अजमेर	22 ए, जयकिशन कॉलोनी, टौकफाटक, जयपुर	C/0मैसर्स एन्टीक्वेरियट आमेर रोड, जयपुर, फो न. 44259 मैसर्स रिको इन्डस्ट्रीज, लुधियाना
	5. दिलीपकुमार	पुत्र	अवि	20	मिडिल (गूंगा बहरा)	एसेम्बलर, एशियाटिक			
	श्री गणेशमल लुणावत	प प्र	विधुर	67	मैट्रिक	सेवानिवृत्त (रेलवे)			
1756 1305/ 943	पुत्र स्व श्री चन्दनमलजी						पुत्र-2	श्वे.स्था.	6ए, बरडिया कॉलोनी, मजु पॅलेस, जयपुर, फो न. 48701
	2. ऋषभकुमार	पुत्र	वि.	30	हा.सै.	सर्विस			
	3. उर्मिला	पुत्रवधू	वि.	24	हा सै.				
	श्री देवेन्द्रकुमार लुणावत	प.प्र.	वि	38	मिडिल	रत्न व्यवसाय			
	पुत्र स्व. श्री गुमानमलजी								
2. मजूदेवी	पत्नी	वि.	35	मिडिल				1922, सौथलीवालो का रास्ता, चौडा रास्ता जयपुर, फो न 48801	
3. अनिल	पुत्र	अवि	22		शि. बी ए. (द्वि.व.)				
4 सुनीता	पुत्री	अवि.	16		शि. कक्षा 10				
5. जितेन्द्र	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 9				
1757 472	श्री नोरतमल लुणावत	प. प्र	वि.	57	मैट्रिक	राजकीय सेवा निवृत्त	श्वे.म	1604, सौथलीवालो का रास्ता, सोमीलाल हलवाई के पास, फो नं. 64223 पी.पी.	
	पुत्र स्व श्री केसरीमलजी								
	2. कमलावाई	पत्नी	वि.	45	मिडिल				
	3 पारसकुमार	पुत्र	अवि.	26	मिडिल	वेरोजगार			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>सूनवाल</u>									
1769	844	श्री नेमोच ब जन पुन श्री चौमनजी 2 नवरव 3 मधु	प प्र भ्राता भा व	प्रवि वि वि	25 20 19	मिहिल मिहिल मिहिल	नौबरी नौबरी	श्व स्या दोगा		गातियो वा मोहस्ता, पथमलती बलील वा मदान, कुदीगरा वे भरु जी वा रास्ता, जयपुर	
		<u>सूनिया, सूनिया</u>									
1770	2410	श्री प्रसोक्तुमार सूनिया पुन स्व श्री गवरसनमलजी 2 इचरजदेवी 3 मजय	प प्र माता भ्राता	प्रवि विधवा प्रवि	25 50 21	बी एमसी साक्षर बी गॉम	यवगाय ब्यवसाय	जन ते शेरावाटी		175, वरशी भवन, रामगज, जयपुर	बी/273, जनता नॉनोरी, जयपुर
		<u>श्रीमती कमलादेवी सूनिया</u>									
1771	2308	पुनी स्व श्री पूमचंदजी 2 पुष्पा 3 प्रभा 4 पद्मा 5 पुणेद्र	प प्र पुत्री पुत्री पुत्री पुत्र	विधवा प्रवि प्रवि प्रवि	43 22 20 18 16	शिक्षित एम एससी बी ए श्री एम ए शि कक्षा 11		जन ते		मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जयपुर	
		<u>श्री बेसरीचंदजी सूनिया</u>									
1772	2309	पुन स्व श्री गुलाबचंदजी 2 रेखादेवी 3 विजयकुमार 4 निमलादेवी 5 पुनरा 6 रतनादेवी 7 मागचंद 8 साधरदेवी 9 सुरेशकुमार 10 इंदुदेवी	प प्र पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि वि वि वि वि वि वि वि वि वि	68 64 45 40 40 38 38 32 30 27	मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक बी ए बी ए बी ए मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक बी ए	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	जन ते		सूनिया हाउस मोतीसिंह, भोमियो का रास्ता, जयपुर फोन 44671	
		<u>श्री गुमानचंद सूनिया</u>									
1773	1936	पुन स्व श्री रूपचंदजी 2 विजय	प प्र पत्नी	वि वि	57 47	बी एससी एलएल बी	एडवोकेट सामाज सेविका	श्वे म		विजय निपुणा जे 245, घादम नगर, जयपुर-302004	महारी भवन, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जोहरी

पुत्र-1

पुत्र 2, पुत्री 1

पुत्र-2, पुत्रियां 5

	3 अजीतसिंह	पुत्र	अवि.	29	बी एससी ,एलएल बी एडवोकेट			फो.नं. 41575	वाजार, जयपुर
	4 अरविन्दकुमार	पुत्र	वि	27	बी.ई. (मैके) सेल्स इन्जीनियर	पुत्री-1			M/s. ग्रीवज कोटन
	5 अनीता	पुत्रवध	,,	23	बी.ए. (ऑनर्स)				एण्ड क लि., एम. आई. रोड, जयपुर फो नं. 75883
1774 1152/ 1980	श्री धेवरचन्द लूणिया पुत्र श्री गुलराजजी	प प्र	वि	60	बी ए.	सेवा निवृत्त	जैन श्वे.	पोकरण II 220, बजाज नगर, (जैसलमेर) ए जी कॉलोनी, जयपुर	
	2. धनपतकंवर	पत्नी	वि.	58	साक्षर				डाक तार विभाग, जयपुर फो नं. 62066
	3. किशोरचन्द	पुत्र	वि	39	एम ए	वरिष्ठ लेखाकार			महालेखाकार कार्यालय जयपुर फो नं. 62431
	4. विमला	पुत्रवधू	वि	35	एम.ए.	लेखाकार			रा. रा. विद्युत मण्डल, जयपुर, फो न. 61746
	5. ज्ञानचन्द	पुत्र	वि.	30	एम ए., एलएल.एम.	सगणक			कर भवन, जयपुर, फो.न. 77291
	6. रतना	पुत्रवधू	वि.	23	संक.				उद्योग भवन, जयपुर फो.नं. 78731
	7. कमलचन्द	पुत्र	अवि.	24	बी.ए.	कनिष्ठ लिपिक			
	8. अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	22	बी.कॉम. (द्वि व)	कनिष्ठ लिपिक	जैन		
	9. राजीव	पौत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 8	पुत्र-4		
1775 2310	श्री त्रिलोकचन्द लूणिया पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्दजी	प. प्र.	वि.	70	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे ते.	2481, लूनिया भवन, न्यू मार्केट, जौहरी वाजार, जयपुर फो.न. 41968	
	2. हेतकवर	पत्नी	वि.	62	साक्षर				
	3. विजयकुमार	पुत्र	वि.	24	एम कॉम.	रत्न व्यवसाय			
	4 विमला	पुत्रवधू	वि.	19	बी.ए. (प्र.व.)				
1776 2307	श्री मारणकचन्द लूणिया पुत्र श्री केशरीचन्दजी	प. प्र.		40		रत्न व्यवसाय	श्वे ते.	3, पीलवा गार्डन, मोती डूंगरी रोड, जयपुर	
1777	6 श्री मानिकलाल लूणिया पुत्र स्व. श्री गुलराजजी	प. प्र	वि	60	बी.ए	राजकीय सेवानिवृत्त	श्वे मं.	पोकरण पुंगलिया भवन, (जैसलमेर) मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर फो नं 43678	इण्डियन ओवरसीज बैंक, जयपुर
	2 विलमकंवर	पत्नी	वि	54	मिडिल				
	3. शान्तिचन्द	पुत्र	वि	37	बी.एससी.	एकाउन्टेन्ट			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 इन्दु	पुत्रवधू	वि	35	बी ए, बी एड	परिष्ठ प्रध्यापिका				महाराणी विद्यालय
		5 सुरेश	पुत्र	वि	30	मैट्रिक	परिष्ठ शिक्षिका				दयाल कॉलोनी, पार टो रो
		6 सोनावती	पुत्रवधू	वि	28	मिडिल					श्याम फाट्टी के सामने कार्यालय, जयपुर
		7 मधु	पौत्री	प्रवि	16		शि बी ए (प्र व)				टोन रोड, जयपुर
		8 दीपक	पौत्र	प्रवि	14		शि कक्षा 8				
1778	1029	श्री पारसमल सुणिया पुत्र स्व श्री उमरावमलजी	प प्र	वि	48	बी ए	सवि	श्वे म	विजनगर (प्रजमेर)	5460, अस्तावट एबन, नेगलत इन्जीनियरिंग कुचीगर मरुजी वा कम्पनी मातीपुरा रास्ता, जोहरी बाजार, रोड, जयपुर जयपुर, फोन 40835 फोन 73221	
		2 धाशा	पत्नी	वि	41	मैट्रिक					
		3 रेणु	पुत्री	प्रवि	22		शि एम बी बी एड				
		4 धन्यकुमार	पुत्र	प्रवि	17		शि बी ए (प्र व)				
		5 रवि	पुत्री	प्रवि	14		शि कक्षा 10				
1779	31	श्री पुष्करराजराव सुणिया पुत्र श्री नैसारीचन्दजी	प प्र	वि	40	बी कॉम	रत्न व्यवसाय	श्वे ते		मोतीसिंह भूमियो का 7, वली गार्डन, रास्ता, जोहरी बाजार म्यूजियम रोड, जयपुर जयपुर फोन 47521	
		2 रतना	पत्नी	वि	38	एम ए (पूर्वाह्न) डि ग्राई ग, म्यूजिक					
1780	1894	श्री रताराम सुणिया पुत्र स्व श्री रूपचन्दजी	प प्र	वि	60	बी कॉम	फोटोग्राफी	श्वे म		1450 परताणियो वा बगल फोटो स्टूडियो, रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर जयपुर, फोन 44646 फोन 76363	
		2 कंचा	पत्नी	वि	55						
		3 प्रमोदकुमार	पुत्र	वि	36	आई कॉम	कलर फोटोग्राफी				
		4 प्रमिता	पुत्रवधू	वि	31						
		5 भेषकुमार	पुत्र	प्रवि	31	एम कॉम	रत्न व्यवसाय				
		6 प्रमोदकुमार	पुत्र	प्रवि	28	बी कॉम	फोटोग्राफी				
		7 धन्यकुमार	पुत्र	प्रवि	25	"	"				
		8 राजीव	पौत्र	प्रवि	15	"	शि कक्षा 10				
1781	2242	श्री विनोद सुणिया पुत्र श्री नैमीचन्दजी	प प्र	प्रवि	22	बी कॉम		श्वे ते	धीडू गरमढ़	ए 101, जस्ता कॉलोनी, जयपुर	
		सोडा									
1782	961	श्री प्रवीण सोडा पुत्र श्री सोभाशंकरजी	प प्र	वि	34	हा स	पाठ बनाने का कार्य	श्वे म	घागरा	4343, छाबडा भवन, नयमलजी का चौक, जयपुर 3	
		2 रायराजी	पत्नी	वि	32	इंटर					

1783	656	श्री अमरचन्द लोढ़ा पुत्र श्री इन्दरमलजी 2. ललितादेवी	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	29 25	बी कॉम मिडिल	सर्विस	श्वे रथा टोक	1057, सुनारो का पचायती मकान, भट्टो की गली, चौडा रास्ता, जयपुर, फो.नं. 74231	राज. पत्रिका, जयपुर
1784	610	श्री अभयमल लोढ़ा पुत्र श्री नथमलजी 2. निर्मलादेवी 3. नवीनकुमार 4. सुधीरकुमार 5. सजीवकुमार	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	40 38 18 16 14	पी यू.सी मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	4-ल-37, जवाहर नगर, जयपुर-4 फो न. 852244	3571, गोधा हाउस, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, चौथा चौराहा, जीहरी बाजार, जयपुर फो नं. 45755
1785	667	श्री अशोककुमार लोढ़ा पुत्र स्व. श्री अमरसिंहजी 2. मधु	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	32 27	बी. ई. (धातुकी)	बैंक सेवा	जैन, भीलवाड़ा	बी-100, जनता कालोनी, जयपुर	सिडीकेट बैंक, एम आई. रोड, जयपुर फो.नं. 66295
1786	2301	श्री आनन्दमल लोढ़ा पुत्र श्री मनोहरमलजी 2. चाँद देवी	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	36 32	एम.ई. (पावर सिस्टम)	एकजीक्यूटिव इ जीनियर	श्वे. जोधपुर ते.	949, बरकत कालोनी, किसान मार्ग, जयपुर	टी.एफ. मेम्बर, आर. एस ई. बी., विद्युत भवन, फो.न. 73918
1787	1617	श्री इन्द्रचन्द लोढ़ा पुत्र श्री श्रीचन्दजी 2. मोहनदेवी 3. अमरचन्द 4. ललितादेवी 5. पुनमचन्द 6. निर्मलादेवी	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि. वि. वि. वि.	64 60 28 25 23 21	बी ए.	नौकरी	श्वे. टोंक स्था.	भट्टों की गली, चौडा रास्ता, जयपुर	
1788	288	श्री उम्मेदमल लोढ़ा पुत्र श्री धनपतमल जी 2. सायरकवर 3. तिधि	प.प्र. पत्नी पुत्री	वि. वि. अवि.	60 54 16	बी.एससी.(कृषि)	सेवानिवृत्त	जैन जोधपुर	डी--142, बापूनगर, जयपुर	कृषि अधिकारी लक्ष्मीनारायण मंदिर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बापूनगर, जयपुर
1789	1752/ 1902	श्री कंचलमल लोढ़ा पुत्र श्री किशोरमलजी 2 सुधा	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	63 60	एम.ए ,एलएल बी	व्यवसाय	श्वे स्था. जोधपुर	जे-91, आदर्शनगर, जयपुर-4 फो न 40717	4357, नथमलजी का चौक, जीहरी बाजार, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 वसन्तकुमार	पुत्र	वि	40	एम एससी	सविज्ञ				
		4 सुनीता	पुत्रवधू	वि	32	हा स					
		5 रमेश	पुत्र	,,	30	बी ए	व्यवसाय				
		6 इन्द्रा	पुत्रवधू	वि	29	हा स					
		7 राजेश	पुत्र	अवि	23	बी वाम	व्यवसाय				
1790	2530	श्री केवलमल लोढ़ा	प प्र	वि	65	एम बीएम	सेवानिवृत्त	श्वे स्या	जोधपुर	ए 8, महावीरनगर, टाक रोड, जयपुर पो 78352	
		पुत्र श्री विचोरमलजी									
		2 राजकुंवर	पत्नी	वि	60						
		3 विनोदकुमार	पुत्र	वि	29	एम बीएम	कृषियर				श्री बी सी जयपुर
		4 शृणिमा	पुत्रवधू	वि	26						
		5 प्रमोदकुमार	पुत्र	वि	27	एम बीएम	दलाली				
		6 चन्द्रकाता	पुत्रवधू	वि	25						
1791	604	श्री कपोबीमल लोढ़ा	प प्र	वि	60	बी वाम सी ए	सवानिवृत्त	श्वे स्या	जोधपुर	3/1, जवाहरनगर जयपुर	
		पुत्र श्री विचोरमलजी					बन अधिनारी				
		2 महेन्द्र	पुत्र	वि	30	बी एससी	गहायत प्रब धर				पजाव नगनल बन, पा बागस न 44, जयपुर फो न 72147
						एल एल बी					
		3 धारा	पुत्रवधू	वि	25	हा स					
1792	767	श्री कहेयालाल लोढ़ा	प प्र	विपुत्र	61	एम ए	अध्यापन	श्वे स्या	धनोप	2811, धी वाला न (भीलवाड़ा)	रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 3 फो न 42283
		पुत्र श्री नाहरमलजी									
		2 लालचन्द	पुत्र	वि	35	सी ए	प्रेजिटस				
		3 गुणीलादेवी	पुत्रवधू	वि	33	हा स					
		4 पद्मिनी	पौत्री	अवि	13		शि वधा 10				
		5 धर्मचन्द	भतीजा	अवि	19		शि बी ए (न य)				
		6 राजेन्द्रकुमार	भतीजा	अवि	16		शि वधा 11				
1793	799	श्री कहेयालाल लोढ़ा	प प्र	वि	48	बी ए	सेवा परीक्षा अधिकारी	जय	देववाहा (उदयपुर)	84, जयपुरी प्रथम ज्योतिनगर क पीछे, महालेश्वर	कार्यालय महालेश्वर
		पुत्र श्री रूपचन्दजी									
		2 धान्तापुमारी	पत्नी	वि	44	मिडिल					
		3 हेम लक्ष्मी	पुत्र	अवि	26	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				दमली वाली फाटर, (सेला परीक्षा) जयपुर
		4 धर्मानन्द	पुत्र	अवि	24	बी ए	रत्न व्यवसाय				जयपुर-5 फो न 68431/287
		5 प्रदीपकुमार	पुत्र	अवि	22	बी ए	नेताहार (बन)				एल बी बी जे, जयपुर

1794	2471	6 सरिता 7. विनीता श्री कल्याणमल लोढ़ा पुत्र श्री किशोरमलजी	पुत्री पुत्री प. प्र	अवि. वि. वि.	19 15 60	शि बी ए (अ व) शि. कक्षा 11 डाक्टर (नेत्र विशेषज्ञ) श्वे.स्था. जोधपुर	पुत्र-1, पुत्री-1	बनीपार्क, जयपुर
		2. मदनलाल 3. प्रेम 4. मनीष 5. जलज	पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्र	वि. वि अवि. अवि.	45 39 16 14	इन्टर(काँम) मैट्रिक	उद्योग धन्धा	तिवाड़ी बिल्डिंग, एम. आई. रोड, जयपुर फो न 77144
1795	575	श्री कल्याणमल लोढ़ा पुत्र श्री गुलाबचन्दजी 2 शकुन्तला 3. महेन्द्र 4. रेखा 5. सीमा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री "	वि. वि. अवि " "	43 40 18 15 13	बी.काँम , एल.एलबी. इन्टर	नौकरी जैन	2-च-5, जवाहरनगर, जयपुर रा वि. विद्यालय, फो न. 60271 एक्सटे. 219
1796	1188	श्री किशनमल लोढ़ा पुत्र श्री किरतमलजी 2 विमला 3. मनीष	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि. अवि.	38 35 13	हा सै. हा.सै	नौकरी शि. कक्षा 8	जैन सी-184, ज्ञान मार्ग, तिलकनगर, जयपुर-4
1797	272	श्री कैलाशचन्द लोढ़ा पुत्र स्व. श्री प्रेमसुखजी 2. कोकिला	प.प्र. पत्नी	वि. वि	34 30	बी काँम. बी ए	इलैक्ट्रिक तार का व्यापार श्वे स्था अजमेर	पुत्री-1 1565, जडियो का रास्ता, परतानियो का रास्ता, जयपुर अलसीसर हाउस, ससार चन्द्र रोड, जयपुर
1798	1799	श्री गगामल लोढ़ा पुत्र श्री सुपारसमलजी 2. जबरकवर 3. नरेन्द्रसिंह	प.प्र. पत्नी पुत्र	वि. वि. वि	70 65 36	बी.काँम. बी काँम , सी.ए (इन्टर)	नौकरी व्यवसाय	जैन नागीर 4-ग-6, जवाहरनगर, जयपुर, फो न 852782 अपोप फास्टनर्स, ससार चन्द्र रोड, जयपुर के.जी.बी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
1799	2528	श्री गुमानमल लोढ़ा पुत्र श्री हिम्मतमलजी 2. प्रेमकंवर 3. मंगल प्रभात	प प्र पत्नी पुत्र	वि. वि. "	57 52 30	बी काँम , एलएल बी.,विशारद राज हाईकोर्ट शिक्षित बी काँम , एलएल बी	न्यायाधिपति हाईकोर्ट बिल्डर	जैन जोधपुर ए-4, गाधीनगर मार्ग, जयपुर, फो 74947 हाईकोर्ट चेम्बर नं. 2, जयपुर, फो. 67972 1302, शत्रु जय दर्शन, लोढा बिल्डर्स, वर्द्धमान जैन मन्दिर के सामने, चेम्बर्स, कोवासजी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 मजुला	पुनवध्	वि	25	बी ए				भातीग्राह लेन, बम्बई फोर्ट स्ट्रीट बम्बई 1 फोन 863920	
		5 महेद्र	पुन	,	28	बी कॉम, एलएल बी, सी ए	चाटड एफाउण्डट				गेरना लोडा एण्ड व, 19, 1 पत्तोर
		6 चिन्ना	पुनवध्	"	25	एम ए					रत्नाय वामशिवल सेंटर
		7 चंद्रेश	पुन	"	25	बी ए, एलएल बी	श्ववगाय				गावर बाजार, ग्रहमदा बाण, फो 336758
		8 सुमित्रा	पुनवध्	"	24	बी ए					
1800	2000	श्री गुलाबचंद लोडा पुन श्री लक्ष्मणमलती	प प्र	विधुर	74	इंटर	राजकीय संवानिवृत्त	श्वे म		4377 नयमलजी वा चौब, जोहरी बाजार,	
		2 बल्पासुमत	पुन	वि	43	एम ए, एलएन बी	अनुभाग अधिकारी			जयपुर	राज विश्वविद्यालय, जयपुर
		3 शकुन्तला	पुनवध्	"	40	इंटर					
		4 महेद्र	पौत्र	अवि	18	बीएससी	शि सी ए				
		5 रेखा	पौत्री	"	15		शि कक्षा 11				
		6 सीमा	"	"	13		शि कक्षा 10				
1801	649	श्रीमती गुलाबदेवी लोडा पत्नी श्री भागवतदेवी	प प्र	विधवा	75			श्वे स्या		4794, प्रेमचन्दी दुपिया वा मनान,	
		2 विजयचंद	पुन	वि	45	बी ए	रत्न श्ववगाय				परतानियो वा बाग,
		3 हरिचन्द	"	"	43	बी ए	" "			जयपुर	जोहरी बाजार, जयपुर
		4 निमलानंद	"	"	36	बी एम	" "			फोन 41483	फोन 61144
		5 प्रेमकवर	पुनवध्	"	41	इंटर					
		6 बल्पा	"	"	35	बी ए				41567	
		7 मीरा	"	"	34	"					
1802	887	श्री गीतमचंद लोडा पुन श्री मनमाहाचल्लनी	प प्र	वि	35	बी कॉम	रत्न दलानी, व्यापार	श्वे स्या	नागोर	1788 पातायत हाउस, रत्नियो वा रास्ता, जयपुर 3	C/o श्रीमचंद सोरी बाहर गणगौर वा रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर 3
		2 कचनदेवी	पत्नी	वि	29					फोन 40807	
1803	685	श्री घेवरचंद लोडा पुन श्री भवरनाथजी	प प्र	वि	48	मै	रदेशा मास्टर (प रेल्वे)	जा	अजमेर	डी 11, पानी नो टर्न ने नीचे, ज्योतिनगर जयपुर	
		2 लक्ष्मणदेवी	पत्नी	वि	46	मिडिन					
		3 गोतम	पुन	अवि	23	बी एमपी					

पुत्री 1

पुत्र 3 पुत्रिया 5

पुत्र 1 पुत्री 1

1804	1540/526	श्री चन्द्रप्रकाश लोढ़ा पुत्र स्व. श्री फतेहचन्दजी	पुत्र पुत्री पुत्री प.प्र.	अवि. अवि. अवि. वि.	17 21 19 40	इन्टर एम.कॉम. बी.कॉम.	शि. एम कॉम (प्री) कपड़े के थोक व्यापारी	श्वे म.	सी-26, राजापार्क, जयपुर-4 फो.न. 40197	हरकचन्द फतेहचन्द, खन्दा पुरोहितजी, जयपुर, फो. 62656 पीतलियो का रास्ता, जयपुर, फो. 67127
		2. शान्तादेवी 3. प्रकाशचन्द 4. विमलादेवी 5 अरुनीश 6 मैमा 7 विजय	पत्नी भ्राता भ्रा.वधू पुत्र पुत्री भतीजा	वि. वि. वि. अवि. अवि. अवि.	38 36 34 21 20 15	हा. सै. बी ए. हा सै एम.कॉम	रत्न व्यवसाय कपड़े का व्यवसाय शि बी ए. शि कक्षा 10			
1805	592	श्री जयकुमार लोढ़ा पुत्र श्री नथमलजी 2 लाड़कुमारी 3. नीलू	प. प्र. पत्नी पुत्री	वि. वि. अवि.	37 35 13	इन्टर इन्टर	रत्न व्यवसाय शि कक्षा 8	जैन	3-त-8, जवाहरनगर. जयपुर-4 फो नं. 40109	3571, गोधा हाउस, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जोहरी वाजार, जयपुर-2 फो न. 45755
1806	236	श्री तेजमल लोढ़ा पुत्र श्री छुट्टनलालजी 2. सन्तोषदेवी 3. आशुतोष 4. शशि	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि. वि	62 61 27 22	मिडिल साक्षर बी.कॉम एम.ए.	व्यापार पुस्तक व्यवसाय	श्वे.स्था. अलवर	19, गहलोत कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर	बुक एम्पोरियम, चुरूकों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर
1807	494	श्री दोलतमल लोढ़ा पुत्र श्री सरदारमलजी 2. प्रकाशवाई	प प्र. पत्नी	वि. वि.	37 35	बी ए हा सै.	व्यवसाय	श्वे स्था. किसानगढ (अजमेर)	570, ठाकुर पचेवर का रास्ता, रामगज वाजार, जयपुर	
1808	662	श्री धीरेन्द्रकुमार लोढ़ा पुत्र स्व. श्री ज्ञानमलजी 2. सगीता	प प्र पत्नी	वि वि.	29 25	बी एससी, डी सी.डब्ल्यू ए. मैट्रिक	स्टोर्स ऑफिसर	जैन जोधपुर	53, गंगवाल पार्क, जयपुर	राजस्थान पत्रिका प्रा लि., केसरगढ जयपुर-4
1809	2122/ 1939	श्री नथमल लोढ़ा पुत्र स्व श्री धनरूपमलजी	प प्र विधुर	वि. वि.	65	हा सै	व्यवसाय	जैन	3571, गोधा हाउस, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता,जोहरी वाजार, जयपुर-3 फो.45755	C/o वीकानेर स्टोर, धी वालों का रास्ता, जोहरी वाजार, जयपुर-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1810	274	श्री नवीनचन्द्र सोझा पुत्र स्व श्री प्रेमसुखजी 2 विमलादेवी 3 पुष्पा	प प्र माता पत्नी	वि विपवा वि	31 58 30	इंटर साक्षर मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या प्रायेर		2020, पीतलियो बा चोक, जोहरी बाजार जयपुर	3847, सोतिया बा मोहस्ता, के जी वी वा रास्ता, जयपुर
1811	1550	श्री निहालचन्द्र सोझा पुत्र श्री हुवमचन्द्रजी 2 हेमलता	प प्र पत्नी	वि वि	35 32	मैट्रिक बी ए	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या तागोर	पुत्र-2	अजमरा भवन, एम एस बी वा रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर	
1812	1426	श्री नीरत्नमल सोझा पुत्र स्व श्री कीरतम चर्जी 2 कमलादेवी 3 नरेन्द्र 4 मंजू 5 महेन्द्र 6 मीनाक्षी 7 प्रणय	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि वि वि वि धवि	30 45 30 28 28 26 22	हा स बी नॉम हा स बी नॉम बी ए	गरवारी नौचरी दस्ताना वा व्यवसाय प्राइवेट नौचरी	श्व स्या जोधपुर	पुत्रिया 3	पदमावती स्कूल ने गामने पी वाला वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो नं 42733	
1813	659/ 1816/ 1377	श्री धी एस सोझा पुत्र स्व श्री सोहनलालजी 2 वमना 3 सुनील	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि धवि	50 46 26	बी नॉम, बी एम इंटर बी एससी, एसएस बी	नेसाधिकारी एडवोकेट टेसत वागलटेंट	श्वे मं उज्यपुर		लक्ष्मीभवन, मोतीगह भूमियो वा रास्ता, जयपुर, फोन 43815	राजस्थान पब्लिका, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर फो नं 74231/12
1814	1548	श्री पदमचन्द्र सोझा पुत्र श्री मुलाबचन्द्रजी 2 पचलकुमारी	प प्र पत्नी	वि वि	36 32	हा स बी ए	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या जिल्दी	पुत्र 2	बी 2, पीलवा गाडन, मोती ड गरी रोड जयपुर फो नं 44049	सागर जवनम, 255 256, जोहरी बाजार, जयपुर 3 फो 44402, 45511
1815	1814	श्री प्रताप सोझा पुत्र श्री रतानाचर्जी 2 प्रमिला	प प्र पत्नी	वि वि	36 32	बी नॉम मैट्रिक	सबजी वे पनीचर बाने वा वाग	श्व स्या बीरापेर		41, देवीपय बानोता वाग, जयपुर फोन 77777	सुवर डेकोर प्रा लि, 6A, कृपसानी मार्ग, सादर्न गडर, जयपुर 4 फो नं 44411

1817	2531B	श्री प्रतीक्षानन्द लोढ़ा पुत्र श्री केतनमनजी	प. प्र.	नि.	31	बी.ए.	व्यवसाय	श्वे. स्या. जोधपुर पुत्रिया-2	A-7, महावीर नगर, डीक रोड़, जयपुर फो.न. 78352	श्री. जितेन्द्र जैस्त, म.नं., 1479, बारह गणगौर का रास्ता, जयपुर
1818	2300	श्री प्रसन्नमल लोढ़ा पुत्र श्री मोरतमनजी	प. प्र.	नि.	55	बी.कॉम.	सर्विस	श्वे. तं. जोधपुर	3783, मोतीमिह भोमिया का रास्ता, जयपुर	
		2. कमलदेवी	पत्नी	वि.	50	साक्षर				
		3. पनिलकुमार	पुत्र	वि.	25	बी.कॉम.	सर्विस			
		4. मंगु	पुत्रवधू	वि.	21	बी.ए.				
1819	800	श्री प्रेमचन्द लोढ़ा पुत्र स. श्री नीलमनजी	प. प्र.	विद्युद	75	मैट्रिक, विशारद	प्रा. नोकरी	श्वे. स्या. मंदसौर	जोरास्टर हवेली, मोती मिह भोमिया का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर-3 फो नं. 43478 पी.पी.	मोनेछा प्रतिष्ठान, जोरास्टर हवेली, जयपुर
1820	932	श्री पारसमत लोढ़ा पुत्र श्री उम्मेदमनजी	प. प्र.	वि.	62		सेवा निवृत्त	श्वे. म.	7, बली गार्डन, म्यूजियम रोड, जयपुर फो.नं. 46462	78-बी, एफ-6, सन-शाउन विल्डिंग, उं.ए.बी. रोड़, चोरली बम्बई-400018
		2. नमन्तकुमारी	पत्नी	वि.	40					
		3. प्रतीपकुमार	पुत्र	वि.	28	बी.एससी., एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय	पुत्र-1		
		4. निशि	पुत्रवधू	वि.	26	एम.ए.				
		5. डॉ. प्रमिता	पुत्री	वि.	30	एम.एससी., पीएच डी.	व्याख्याता			
1821	127	श्री पुनराज लोढ़ा पुत्र श्री निरहमनजी	प. प्र.	नि.	35	हा. सै.	रत्न दलाली	श्वे. स्या. किसानगढ़ (अजमेर)	चौधरियों का दरवाजा, तीनरा चौराहा, मोती- सिंह भोमियो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो न. 43590	
		2. इन्द्रा	पत्नी	वि.	30	हा. सै.		पुत्र-2, पुत्री-1		
		3. रितनचन्द	भाई	अवि.	19		श्री. बी.ए. (द्वि.व.) एवं रत्न दलाली			
1822	1150	श्री पुष्पमल लोढ़ा पुत्र स. श्री सनरुपमनजी	प. प्र.	नि.	58	हा.सै.		जैन	III-170, ब्रह्मावनगर, जयपुर	
		2. पुष्पा	पत्नी	नि.	54	मिडिल				
		3. दिनीप	पुत्र	वि.	30	बी कॉम.				
		4. इन्द्रा	पुत्रवधू	वि.	27	एम.ए.				
		5. भीमान	पुत्र	वि.	27	बी कॉम.				
		6. नीना	पुत्रवधू	नि.	20	हा.सै.		पुत्री-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1823	475	श्री फतेहचंद सोझा पुत्र श्री वृद्धिचंदजी	प	प्र	वि	67	मिडिल	रावा निवत्त	श्वे म	प्रागरा	राठी भवन, 2115, श्री बालो वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	1 विद्युत् वायर वकस, 2 स्वास्तिर दलकट्टो प्लेटस, जयपुर
		2 शांतिदेवी	पत्नी	वि	54	बी ए						
		3 प्रभातकुमार	पुत्र	वि	32	बी ए	व्यवसाय			मद्रास	फोन नं 42455	मद्रास रेडियम प्लेटस
		4 चंद्रकला	पुत्रवधू	वि	30	एम ए						
		5 राकेशकुमार	पुत्र	वि	30	बी ए	व्यवसाय					
		6 गीता	पुत्रवधू	वि	26	बी ए						
		7 नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	28	बी ए	व्यवसाय					
		8 सुनीता	पुत्रवधू	वि	21	मैट्रिक						
									पीन 1, पीनो 1			
1824	609	श्री फतेहमल सोझा पुत्र श्री नथमलजी	प	प्र	वि	48	सब	रत्न पॉलिश व्यवसाय	जन		4 ल 24, जवाहर गर, जयपुर 4 फोन नं 852244	टीन हाउस, मोती मिह भोगिमो व रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर-3
		2 माणवदेवी	पत्नी	वि	45	मिडिल						(2) 3571, भोधा हाउस, एम एस बी वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फोन नं 45755
		3 प्रवीणकुमार	पुत्र	धवि	22	एम नाम	रत्न व्यवसाय					
1825	890	श्री बुद्धिमकर सोझा पुत्र श्री रतनलालजी	प	प्र	वि	22	हा स	मुगल	श्वे स्या	घनाप	2679 श्री बाबा वा (नीरनाडा) रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर 3	द्वारा मै हीरावाल छत्रालाल टॉप, जोहरी बाजार, जयपुर, फोन नं 41621 43671
		2 मजु	पत्नी	वि	19	मिडिल						
1826	1783	श्री भोपालचंद सोझा पुत्र श्री घनपतमलजी	प	प्र	वि	47	एम एस सी, पीएच डी	घनुसघान वाय	श्वे ते	जाधपुर	27, बक पॉलोनी, टाप फाटा, जयपुर	द्विप घनुसघान वेदर, दुर्गापुरा जयपुर, फोन नं 82391
		2 कृष्णकुंवर	माता	विधवा	78							
		3 मीनाक्षी	पत्नी	वि	42	मैट्रिक						
		4 सुबोध	पुत्र	धवि	20							
		5 राजश्री	पत्नी	„	14							

1827	1822	श्री मनोहर लोढ़ा पुत्र श्री हेमचन्दजी	प प्र	वि	48	एम एससी.(कृषि) सयुक्त निदेशक डिप्लोमा, प्लानिंग इवेल्यूएशन व मानीटोरिंग	जैन	किसानगढ (अजमेर)	654, भ्रादर्शनगर, जयपुर, फो न 40264	कृषि विस्तार, कृषि निदेशालय, जयपुर फो.न. 74365, 66	
		2. राजकुमारी	पत्नी	वि	43	हा.सै					
		3. पंकज	पुत्र	अवि.	23	एम कॉम.	व्यवसाय		हल्दियो का रास्ता, जयपुर, फो न. 44706		
		4. विवेक	"	"	18		शि. बी.कॉम. (द्वि व)				
1828	2472	श्री मारणक लोढ़ा पुत्र डॉ. कल्याणमलजी	प प्र.	वि.	46	एम ए	उद्योग	श्वे.स्था	जोधपुर	हैन्डीक्राफ्ट्स पैराडाइज तिवाडी बिल्डिंग, एम.आई रोड, जयपुर फो नं. 77944	
		2. शान्ता	पत्नी	वि	40						
		3. रीना	पुत्री	अवि.	16		शि. हा सै.				
		4. आशीष	पुत्र	"	13		शि कक्षा 8				
1829	613	श्री मारणकचन्द लोढ़ा पुत्र श्री ताराचन्दजी	प.प्र	वि	47	बी.कॉम.	लेखाकार	श्वे.ते.	जावला (नागौर)	5-ख-29, जवाहर नगर,जयपुर-4	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
		2 कंचनदेवी	पत्नी	वि	44	मिडिल					
		3 विमलचन्द	पुत्र	"	25	बी कॉम.	केन्द्र सरकार में सेवारत				
		4. चेतनकुमार	पुत्र	अवि.	22	मैट्रिक	सग. पत्थर का व्यवसाय				
		5. रजनीदेवी	पुत्री	"	20	मिडिल					
		6. अजीतराज	पुत्र	"	18						
1830	1754	श्री मारणकचन्द लोढ़ा पुत्र स्व. श्री वख्तावरमलजी	प प्र	वि.	62	साक्षर	सेवानिवृत्त	श्वे.स्था	ब्यावर (अजमेर)	1164, संघीजी की गली, व्यासजी का मकान, चौडा रास्ता, जयपुर फो न. 77412	
		2 इचरजकंवर	पत्नी	"	58	साक्षर					
		3. तिलोकचन्द	पुत्र	"	41	हा सै.	रत्न व्यवसाय				
		4. प्रकाशदेवी	पुत्रवधू	"	35	मिडिल					
		5. सुरेशचन्द	पुत्र	"	37	हा.सै.	रत्न व्यवसाय				
		6. सुशीलादेवी	पुत्रवधू	"	33	"					
		7. प्रकाशचन्द	पुत्र	"	34	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		8 सुशीलादेवी	पुत्रवधू	"	28	हा सै.					
		9. रजनबाला	पुत्री	अवि.	18		शि. हा सै.				
		10. प्रीति	पुत्री	"	13		शि. कक्षा 8				
1831	763	श्री मिलापचन्द लोढ़ा पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्दजी	प.प्र.	विधुर	62	मैट्रिक	विश्राम	श्वे.स्था.		3767, के.जी वी का रास्ता, मठ का कुआरा, जोहरी बाजार, जयपुर फो न. 41191	
		2. कैलाशचन्द	पुत्र	वि.	34	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		3. विमला	पुत्रवधू	वि.	34	बी ए.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 गमलचन्द	पुत्र	वि	32	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		5 मुशीला	पुत्रवधू	"	30	"					
		6 रामी	पौत्री	प्रवि	13		शि कक्षा 8				
1832	1140	श्री मुक्ता लोढ़ा	प प्र	प्रवि	25	बी बीएम	विकारात अधिपारी	जन		2625, तेजीपाडा,	नेशनल इन्धोरस क
		पुत्र स्व श्री ममरचन्दजी				एलएल बी				चोडा रास्ता, जयपुर	जयपुर, फो न 77177
		2 उपारानी	माता	विधवा	45					फो न 69156	
		3 रादेश	भाई		22	हा स	रत्न व्यवसाय				
		4 सजीव	भाई	प्रवि	20	मैट्रिक	पुस्तक व्यवसाय				
		5 मनिता	बहिन	प्रवि	17		शि बी ए (फा)				
1833	450	श्री ममयसिंह लोढ़ा	प प्र	वि	40	एम ए	इन्धोरस म ब्रांच मैनेजर			C/मुगलमलजी लोढ़ा,	
		पुत्र श्री रतनकुमारीजी								म न 220, रुईवालो बा	
		2 रतनकुमारी	माता	विधवा	65	साक्षर				मोहलवा, रामगज	
		3 हेमवता	पत्नी	वि	39	बी ए				बाजार, जयपुर	
		4 जितेन्द्रकुमार	भ्राता	वि	29	मिडिल	ए बी सी म नौकरी				
		5 मधुवता	भा वधू	वि	23	मैट्रिक					
		6 सतीशकुमार	भ्राता	वि	26	हा स	डिप्टी मैनेजर				
		7 मज	भा वधू	वि	24	मैट्रिक					
		8 रविकुमार	भ्राता	प्रवि	21		शि बी ए (द्वि व)				
		9 प्रल्हा	पुत्री	प्रवि	15		शि कक्षा 9				
1834	1968	श्री रतनचन्द लोढ़ा	प प्र	वि	42	इटर	व्यवसाय	श्वे स्या		सी 25, भगवानदास	परतानियो का बाग,
		पुत्र स्व श्री रूपचन्दजी								रोड़, 'सी' स्कीम,	जौहरी बाजार, जयपुर
		2 गन्तोपदेवी	माता	विधवा	57					जयपुर-1 फो 61431	फो न 48396
		3 विमलाकुमारी	पत्नी	वि	37	मैट्रिक					
		4 पद्मचन्द	भ्राता	वि	36	मैट्रिक	व्यवसाय				
		5 चन्द्रबान्ता	भा वधू	वि	32	मैट्रिक					
		6 प्रकाशचन्द	भ्राता	वि	34	मैट्रिक	व्यवसाय				
		7 मुशीलाकुमारी	भा वधू	वि	31	मैट्रिक					
		8 प्रीति	पुत्री	प्रवि	13		शि कक्षा 7				
1835	308	श्री राजेंद्रसिंह लोढ़ा	प प्र	वि	64	मिडिल	व्यापार	श्वे म	घागरा	2686, प हरि	सजय जनरल स्टोर,
		पुत्र श्री जवाहरलालजी								नारायणस घट्ट हा	एम एस बी वा रास्ता,
		2 वेमबाई	पत्नी	पि	59					मवान, एम एस बी	जयपुर 3

	3. संजयकुमार	पुत्र	वि.	25	संक.	व्यापार		का रास्ता, जयपुर-3	(2) महावीर स्टेशनरी
	4 सुशीलाकुमारी	पुत्रवधू	वि.	24	मिडिल				एण्ड जनरल मर्चेन्ट,
	5 वहादुरसिंह	पुत्र	अवि.	23	मिडिल				एम.एस.वी. का रास्ता,
	6 शांतिकुमार	पुत्र	अवि	20	मिडिल	नौकरी	पुत्री-1		जयपुर
	7. दिनेशकुमार	पुत्र	अवि.	17		"			
1836 2055	श्री विजयचन्द लोढ़ा	प. प्र	वि	47	बी एससी	रत्न व्यवसाय	श्वे स्था.	4794, के.जी बी.	
	पुत्र श्री भागचन्दजी							का रास्ता, जौहरी	गद्दी फो. 47348
	2. गुलाबदेवी	माता	विधवा	75				बाजार, जयपुर	फो.न 41483
	3. उमरावदेवी	भाभी	विधवा	56				43567	46166
	4 हरीश	भ्राता	वि.	44	इन्टर	रत्न व्यवसाय		77787	
	5. प्रेमकुमारी	पत्नी	वि	44	बी.ए				
	6 कल्पना	भ्रा. व	वि	32	एम.ए.				
	7. निर्मलचन्द	भ्राता	वि.	35	इन्टर	रत्न व्यवसाय			
	8. मीरा	भ्रा. व.	वि.	32	बी ए.				
	9. सुभाषचन्द	भतीजा	वि.	32	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय	पुत्र-4, पुत्रियाँ-4		
	10. आरती	भती.व.	वि.	29	बी ए				
1837 2153	श्री शंखेश्वरमल लोढ़ा	प.प्र.	वि	64	मैट्रिक		जैन जोधपुर	4-ग, जवाहर नगर,	
	पुत्र श्री सनरूपमलजी							जयपुर	फो.न 852458
	2. अचलकॉवर	पत्नी	वि.	60					
	3. पुरुषोत्तम	पुत्र	वि.	38	बी.ई. (मैके.)	मुख्य अभियन्ता	पौत्र-2		रोशन ग्रॉयल मिल्स
	4 निर्मला	पुत्रवधू	वि.	34	बी.ए				भटिण्डा
1838 1124	श्री एस एम. लोढ़ा	प प्र	वि	35	डिप्लोमा, इलेक्ट्री.	इलेक्ट्रीकल	जैन जोधपुर	14, पुरोहितजी का	
	पुत्र श्री कुन्दनमलजी				इन्जीनियरिंग	कान्ट्रेक्टर	पुत्र-1 पुत्री-1	बाग, न्यू कॉलोनी	
	2. सुशीला	पत्नी	वि.	32	बी ए.			जयपुरफो.नं. 79245	
1839 883	श्री सरदारसिंह लोढ़ा	प.प्र.	वि.	43	हा सै.	नौकरी	श्वे.स्था. कोटडी	1683, अघेरा दरवाजा,	
	पुत्र श्री भूरालालजी						(भीलवाडा)	हरिश्चन्द्र मार्ग,	
	2. उत्सवकुमारी	पत्नी	वि.	40	साक्षर			चांदपोल बाजार,	
							पुत्री-1	जयपुर	
1840 2442	श्री सतीशकुमार लोढ़ा	प.प्र.	वि.	28	मैट्रिक	नौकरी	श्वे स्था दिल्ली	नथमलजी का चौक,	286, टोक फाटक
	पुत्र श्री रतनलालजी						पुत्र-3	जौहरी बाजार,	जयपुर
	2. आशा	पत्नी	वि.	25	बी.ए.			जयपुर, फो 74289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1841	1097	श्री सम्पतसिंह लोढ़ा पुत्र श्री सोहनलाला नजी 2 शांता	प प्र पत्नी	वि वि	30 28	हा स मैट्रिक्	राज-सेवा	श्वे स्या वेवसियाल (भीलवाडा)	श्री 35, रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर फोन 43705		
								पुत्र 1, पुत्री 1			
1842	2056	श्री सिण्णारमल लोढ़ा पुत्र स्व श्री मोहनमराजी 2 मोहिनीदेवी 3 गजेन्द्रमल 4 उमरावदेवी 6 महेन्द्रमल	प प्र पत्नी	वि वि वि वि	55 50 23 19 20	मैट्रिक् बी कॉम हा स बी कॉम	टी बी रेडियो फिज या व्यवसाय	श्वे ते जुजातगढ	बम्बई भवन, 'यू कातोनी जयपुर फोन 64778	प्रशोचन नेहरू बाजार, जयपुर फोन 63125	
1843	2154A	श्री सुधीरकुमार लोढ़ा पुत्र स्व श्री उत्तमचन्दजी 2 सरदारवार्दी 3 चन्द्रप्रभा 4 अनुपम 5 निपम 6 कामिनी	प प्र माता पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि विषया वि प्रवि प्रवि	42 58 36 17 15 13	इंटर (नॉम) हा स	रत्न व्यापार	श्वे स्या लि बी कॉम (प्र व) नि कशा 10 नि कशा 7	श्वे स्या पुत्र 1	37, श्याम भवन एस एम एस हारिपटल के पाम, रामसिंह रोड, जयपुर फोन 63169	
1844	1601	श्री सुनील लोढ़ा पुत्र श्री किरणभलजी 2 सुनीता	प प्र पत्नी	वि वि	28 21	एम कॉम, गी ए (इंटर) बी कॉम	व्यवसाय	श्वे स्या	प्लॉट न 3, मीरामजी बी कोठी, हल्लिया का रास्ता, जयपुर		
1845	1829	श्री सुभारसराज लोढ़ा पुत्र श्री सुकलराजजी 2 प्रेमलता	प प्र पत्नी	वि वि	29 26	बी कॉम हा स	प्लानिटर दण्डस्ट्री	श्वे म जोषपुर पुत्रियां 2	37, पान्तिनगर जयपुर		
1846	273	श्री सुभाषचन्द लोढ़ा पुत्र श्री प्रेमसुलजी 2 राजकुमारी 3 विनीता	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि प्रवि	38 13 13	इंटर मैट्रिक् मैट्रिक्	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या धनमेर नि कशा 9	श्वे स्या धनमेर पुत्रियां 2	2020 पीतनियो का पीरु, जोहरी गजार, जयपुर	
1847	2475	श्री सुभाषचन्द लोढ़ा पुत्र स्व श्री लामचन्द्रजी 2 उमरावकु थर 3 धारणी	प प्र माता पत्नी	वि विषया वि	27 52 25	बी ए निर्दिष्ट गी ए	व्यापार	श्वे स्या	पुत्र 1, पुत्री-1	1, लम्बेगाही रोड, जयपुर, फोन 77797	परतानिया गा बाग, जोहरी यात्रार, जयपुर

1848	1255	श्री सूरजमल लोढ़ा पुत्र स्व. श्री सहस्रमलजी 2 लीला	प प्र पत्नी	वि. वि	31 29	वी.कॉम. मैट्रिक	ट्रान्सपोर्ट सर्विस	श्वे स्था. पुत्र-1, पुत्रियां-2	1412, लड्डा भवन, ताराचन्द नायब का रास्ता, जौहरी बाजार जयपुर फो.न. 48302 ,, 64208	कटारिया रोड लाइन्स, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर फो नं. 45134 ,, 44122
1849	1850/ 1680	सुरेश लोढ़ा पुत्र श्री मानमलजी 2. सुनीता	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	31 28	एम.कॉम हा.सं.	बैंक सेवा	जंन जोधपुर	बी-57, प्रगति पथ, बजाज नगर, जयपुर	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जौहरी बाजार, जयपुर, फो नं. 46906
1850	962	श्री सौभाग्यचन्द लोढ़ा पुत्र श्री विरधीचन्दजी 2. शांति देवी	प. प्र. पत्नी	वि. वि	72 64	मिडिल मिडिल		श्वे म. आगरा पुत्र-1	छाजेड़ हाउस, कालो का मोहल्ला, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर-3	
1851	1549	श्री हुकमचन्द लोढ़ा पुत्र श्री केवलचन्दजी 2. लालकवर 3. जयप्रकाशचन्द 4. मंजुकुमारी 5. धर्मोन्द्रकुमार 6. शशिकुमारी	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि. वि. वि. वि.	58 53 29 25 27 23	मिडिल साक्षर बी.एससी., एम ए. मैट्रिक मैट्रिक मिडिल	नौकरी रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	श्वे स्था नागौर पोती-2	1940, कसेरो की गली, घी वालो का रास्ता जौहरी बाजार, जयपुर	मै. सागरमल डागा एण्ड क, हल्दियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो. 43411
1852	1628	श्री श्रीचन्द लोढ़ा पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्दजी 2. सूरजकंवर 3. कुशलचन्द 4. लीला	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि. वि.	74 54 39 33	इन्टर हा.सं. हा.सं.	सेवा निवृत्त, चीफ एकाउन्ट्स ऑफिसर रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. किशनगढ (अजमेर) पुत्रियां-3	जैतपुरिया हाउस, ठाकुर पचेवर का रास्ता, हल्दियों का रास्ता, जयपुर फो.न. 44706	मै. एमरेल्डियन, गगापुर हाउस, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-3
1853	969	श्री ज्ञानचन्द लोढ़ा पुत्र श्री हीराचन्दजी 2. सौभागकंवर 3 पदमादेवी 4. इन्द्रा 5. सुनीता 6. चित्रा	प.प्र. माता पत्नी पुत्री पुत्री पुत्री	वि. वि. वि. अवि. अवि. अवि.	37 52 33 18 15 13	हा सं. मैट्रिक मैट्रिक	व्यवसाय शि.बी.ए. (द्वि.व.) शि बी.ए (प्र.व.) शि. कक्षा 9	श्वे मं पुत्र-2	सी-111, शिवाजी मार्ग तिलक नगर, जयपुर फो.न. 63831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
वगचार											
1854	1763	श्री कालूराम वगचार पुत्र स्व श्री दामोदरराजसजी	प प्र	अवि	68	साक्षर	व्यवसाय	जन		2091 लाल हाथियों के मंदिर के सामने, नाहरगढ़ रोड, जयपुर फोन 62522	हेमंत ट्रेडम, 342 नाहरगढ़ रोड, जयपुर फोन 69902
		2. निमलदास		भाई वि	50	मैट्रिक	नौबरी				
		3 आनदेवी		भ्रा बंधू वि	46						
		4 हेमंतकुमार		भतीजा अवि	25	हा स	व्यवसाय				
		5 राजू		भतीजा अवि	23	हा स	व्यवसाय				
		6 प्रदीपकुमार		भतीजा अवि	21		शि बी कॉम				
		7 नरेणकुमार		भतीजा अवि	19		शि बी ए				
वया											
1855	354	श्री नानासाहब वया पुत्र स्व श्री गोटीलालजी	प प्र	वि	67	बी ए, एलएल बी	सरकारी सेवानिवृत्त वकालत (वर्तमान म)	श्वे जन	उदयपुर	वया निवास, एवरेट कालोनी, लालकोठी टोल रोड, जयपुर	आफिस गलताड़ी का मंदिर, छोटी चौपड, जयपुर फोन 79285
		2 पानीबाई		पत्नी वि	60	साक्षर					
		3 दलपतकुमार		पुत्र वि	39	बी ए, एलएल बी	वकालत				
		4 स्नेहलता		पुत्र व वि	32	बी ए					
		5 यशवंतकुमार		पुत्र वि	29	एम कॉम	राजकीय सेवा				
		6 स्नेहलता		पुत्रवधू वि	23	एम ए					
		7 डॉ मधु		पुत्री अवि	24	एम सी बी एस	निर्गिरता				
वेलायत											
1856	1594	श्री सहरसिंह वेलायत पुत्र श्री रोशन नालजी	प प्र	वि	44	बी कॉम	राज्य सेवा, 'सहायत'	श्वे म	उदयपुर	एच 31, गांधीनगर, जयपुर	शासन सचिवालय फोन 62011/274
		2 सीजादेवी		पत्नी वि	40	मैट्रिक	सिलाई उद्योग				
		3 राजकुमार		पुत्र अवि	16		शि कक्षा 9				
		4 पविता		पुत्री वि	13		शि कक्षा 8				
साहू											
1857	579	श्री अमृतलाल साहू पुत्र श्री मूलचंदजी	प प्र	वि	48	एम ए एलएल बी	व्याख्याता	जन	मिरोही	2 ज 12, जवाहर नगर, जयपुर	यूनियर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर
		2 कमला		पत्नी वि	47	मिह्रित					
		3 भानी		पुत्री अवि	19		शि बी ए (अथ)				

पौत्र 3, पौत्री 1

पुत्र-1

पुत्री 1

1858	929	श्री ममृतलाल शाह पुत्र श्री मोहनलालजी	प. प्र.	वि	59	मैट्रिक	रतन व्यवसाय	श्वे.स्था	प्लाट न 1, बरडिया काँलोनी, म्यूजियम रोड, रामनिवास वाग, जयपुर-4	वम्बई वाला विल्डिंग, हनुमान का रास्ता, पहली मंजिल, जयपुर-3 फो न. 61995	
		2 मजुलादेवी	पत्नी	वि.	55	साक्षर					
		3. प्रदीपकुमार	पुत्र	वि	30	एम.कॉम.					
		4. कल्पना	पुत्रवधू	वि.	28	बी.ए.					
1859	1382	श्री उपेन्द्र शाह पुत्र श्री वाडीलालजी	प. प्र.	वि	33		कमीशन एजेन्ट	जैन	बी-16, साकेत काँलोनी, आदर्शनगर, जयपुर-4		
		2. चन्द्रा	पत्नी	वि	28						
1860	720	श्री कान्तिराल शाह पुत्र श्री हीराचन्दजी	प.प्र.	वि.	52	एस.एस.सी.	सर्विस	जैन	रानपुर (अहमदा- वाद)	मनोहर विल्डिंग, एम.आई. रोड, चौधरी होटल के सामने, जयपुर	जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि., रेल्वे स्टेशन के पास जयपुर, फो. 74251
		2. प्रभावती	पत्नी	वि	48	एस एस.सी.					
		3. आरती	पुत्री	अवि.	22	बी.ए (ग्रान्स)					
		4. आशा	पुत्री	अवि	18		शि. बी.एससी.(द्वि.व.)				
		5. आशीष	पुत्र	अवि	16		शि. बी.कॉम.(प्र.व.)				
1861	1373	श्री कपिलभाई शाह पुत्र श्री केशवलालजी	प. प्र	वि.	70	मैट्रिक	गलीचा उद्योग	श्वे.मं.	887, दरीवा पान, जयपुर-2 फो.न 45033	कारपेट फैक्ट्री, दरीवा पान, जयपुर-2	
		2. पुष्पादेवी	पत्नी	वि.	60						
		3. गिरीश	पुत्र	वि.	32	सं.	गलीचा उद्योग				
		4. मीना	पुत्री	वि.	28	एम.ए.					
		5. विक्रम	पुत्र	वि.	26	बी.ए.	गलीचा उद्योग				
		6. गौरी	पुत्री	अवि.	24	बी.ए.					
		7. किशोर	पुत्र	अवि.	22	एम कॉम.	गलीचा उद्योग				
		8 उमा	पुत्रवधू	वि.	30	बी.ए.					
		9 आशा	पुत्रवधू	वि.	24	बी.ए.					
1862	1937	श्री गिरीशचन्द शाह पुत्र श्री नन्दलालजी	प. प्र.	वि	40	बी.एससी.	नोकरी	श्वे.मं.	ए-15, सुभाष नगर, जयपुर, फो. 73968		
		2. जसुमती	पत्नी	वि.	35	मैट्रिक					
		3. संगीता	पुत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 9				
1863	737	श्री चन्द्रकान्त शाह पुत्र श्री हरगोविन्दजी	प. प्र.	वि.	30	एम.कॉम.	व्याख्याता	जैन	व्यावर	एफ-25, मधुवन काँलोनी, टोंक रोड, जयपुर	कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
		2 रीता	पत्नी	वि.	25	एम.ए.					
		3. महेशकुमार	भाई	अवि.	24	बी.कॉम.	व्यापार				
		4. नीता	वहिन	अवि.	18	बी.कॉम					

1869	2180	श्री बाबूलाल शाह पुत्र श्री मणिलालजी 2 सरोज 3. हेमन्तकुमार 4. मधु	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि ,, ,, ,,	53 49 24 23	साक्षर साक्षर बी कॉम (प्र.व.) हा सै.	कपडा व्यवसाय, कमीशन एजेन्ट	जैन	अहमदाबाद	3978, एम.एस.बी. का रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर	गीतम टैक्सटाइल्स, पुरोहितजी का कटला, जयपुर
1870	2305	श्री मगनराज शाह पुत्र श्री जीवराजजी 2. सतोकदेवी 3. महावीरकुमार 4. सुशीला	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि. वि.	56 50 35 30	मिडिल साक्षर वि वि.	सर्विस	श्वे.ते		सोतियो का मोहल्ला, के जी बी का रास्ता, जयपुर	
1871	1845	श्री रंगराज शाह पुत्र श्री समरथराजजी 2. सुरजकुंवर 3 जतनकुंवर 4. विनोदकुमार 5. मधु 6 मधु 7. मनोज	प. प्र. माता पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्री पुत्र	वि. वि. वि. वि. अवि. अवि.	52 65 48 26 22 21 18	बी कॉम., एलएल बी. मैट्रिक बी ई. (सिविल) एम ए. एम.ए. शि. बी.एससी (अ.व.)	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी सहायक इंजीनियर	जैन	जोधपुर	सी-181-डी, बजाजनगर, जयपुर फो.न. 78984	कार्यालय, एकाउन्टेड जनरल (ऑडिट), जयपुर चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग, कार्यालय, जयपुर
1872	1499	श्री रमणीकलाल शाह पुत्र श्री चिमनलालजी 2. विद्यावहिन 3 शिल्पाकुमारी 4. रूपलकुमारी 5 प्रीतेशकुमार	प. प्र. पत्नी पुत्री पुत्री पुत्र	वि वि अवि. अवि. अवि	50 47 18 16 13	बी कॉम. साक्षर शि. बी.ए. (द्वि.व) शि. कक्षा 10 शि. कक्षा 8	सर्विस	श्वे. मं. सुरेन्द्रनगर (गुजरात)	39461, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो.न 41318 पी.पी.		
1873	1711	श्री रमेशभाई शाह पुत्र श्री भगवानजी भाई 2. सुरेखा 3. सतीश 4. प्रगना 5. संगीता 6. सुनीता 7. अमीन	प. प्र. पत्नी भाई भ्रा.व. पुत्री पुत्री पुत्र	वि वि. वि वि अवि. अवि. अवि.	45 42 40 35 21 20 16	बी एससी., बी ई, इजीनियरिंग एम.आई ई., (सिवि., मेके) इन्टर वी.एससी., एलएल.बी. व्यवसाय मैट्रिक शि. बी.ए. शि. बी.एससी. शि. कक्षा 10	इजीनियरिंग वेल्यूअर मकान एव फैक्ट्री	जैन	जोरावरनगर (गुजरात)	भुखमारिया भवन, गोविन्दरायजी का रास्ता, चादपोल बाजार, जयपुर फो.नं. 68628 61109 65592	सुनीत कारपोरेशन अमर भवन, चीडा रास्ता, जयपुर फो.नं 61109 75592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1874	933	श्री शांतिसागर शाह पुत्र श्री भच्छापन्धी	प प्र	विपुत्र	62	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म		12 बरडिया वॉलोनी, म्यूजियम रोड, जयपुर	हनुमानजी वा रास्ता, जयपुर फो 72796 फो 75571
		2 बलबन्त		पुत्र वि	34	एम ए	व्यवसाय		पुत्र 1, पुत्रिया 2		
		3 उषा		पुत्रवधू वि	34	बी ए					
1875	1280	श्री सुभाष शाह पुत्र श्री भोगीलालजी	प प्र	वि	30	बी ई मेटर्नर्जी	रत्न व्यवसाय	जन धानेर (गुजरात)		ए 75, भाभा मार्ग, तिलकनगर, जयपुर	1309, गोपालजी वा रास्ता, जयपुर फो 77168
		2 कमलाबेन		माता विधवा	50	बी ए			पुत्र 1, पुत्री 1	फो 51342	
		3 प्रमीला		पत्नी वि	26	बी ए					
1876	1664	श्री सुरेश शाह पुत्र श्री वधमानजी	प प्र	वि	47	मैट्रिक	वपशा व्यवसाय	श्वे म पूता (महाराष्ट्र)		1/442, वधमान, मालवीया नगर, जयपुर-17	43, ४३, हल्दियों वा रास्ता, बडे मंदिर के नीचे, जयपुर 3
		2 जयता		पुत्री धवि	14		शि वक्षा 10		पुत्रिया 2		
1877	493/ 12	श्री हरेद्रकुमार शाह पुत्र श्री भद्रलालजी	प प्र	धवि	30	मैट्रिक	मुनीम	जन	महमदाबाद	दादाकाठो, मोतीडू गरी रोड, जयपुर	
		2 बुमुमबहा		माता विधवा	64	मैट्रिक					
		<u>शिरोविया</u>									
1878	1435	श्री मनोहरलाल शिरोविया पुत्र श्री जतनसिंहजी	प प्र	वि	51	एम एससी, एम टेक, पीएच डी, एफ आई ई टीई, एम ए, बी एड एजू	एसोशियेट प्रोफेसर	श्वे स्या उदयपुर		एल 2 सी, विश्व विद्यालय प्रांगण, जयपुर	भौतिकशास्त्र विभाग, राज विश्वविद्यालय, जयपुर
		2 माता		पत्नी वि	45						
		3 रविम		पुत्री धवि	24	एम एससी	जे एम एफ				
		4 भनुला		पुत्री धवि	22		शि एम बी बी एस (डि व)				
		5 राजीव		पुत्र धवि	20		शि बी ए (म व)				
1879	268	श्री रघुबीरसिंह शिरोविया पुत्र श्री लालसिंहजी	प प्र	वि	70	मैट्रिक	सेवानिवृत्त एस आई सी	श्वे स्या वेगू (चित्तौड़)		3467, पासीवाल भवन, बोलसरी की दूटी, नाहरगढ़ रोड, जयपुर	
		2 मूलबचर		पत्नी वि	68						
		3 ठाकुरदास		पुत्र वि	35	हा स	व्यवसाय				
		4 सलितकुमार		पुत्र वि	32	हा स	एल डी सी				
		5 शानरता		पुत्रवधू वि	29	हा स			पुत्र-1, पुत्रिया-2		घार एस ई बी जयपुर

		<u>समवरिया</u>								
1880	1351	श्री रमेशचन्द्र समवरिया पुत्र श्री हीराचन्द्रजी 2. सुमन	प.प्र. पत्नी	वि. वि	36 34	बी कॉम. एम.ए.	रत्न व्यवसाय	जैन पुत्र-1, पुत्रियां-2	ग्वालियर 1802, ऊँचा कुआ, हल्दियो का रास्ता, जयपुर, फो. 43894	176, हल्दियो का रास्ता, जयपुर फो. 40006
1881	1252	श्री हस्तीमल समवरिया पुत्र श्री तेजराजजी 2. मधुबाला 3. सुभापचन्द्र	प.प्र. पत्नी साला	वि. वि. अवि.	36 32 20	बी.ई. बी.ए. बी.कॉम.	व्यवसाय व्यवसाय	ब्यावर पुत्र-2	इ-91, अम्बावाड़ी जयपुर फो.न. 79693	प्रोपकोन्ड (इण्डिया), D-82, रोड-7, विश्वकर्मा औ. क्षेत्र, जयपुर, फो. 832296
		<u>सरूपरिया</u>								
1881	1235	श्री तेजसिंह सरूपरिया पुत्र श्री मनोहरसिंहजी 2. मनोहर 3. कमलप्रकाश 4. रेखा 5. रेखा	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्री	वि. वि. वि वि. अवि.	50 45 25 21 21	बी.कॉम. बी ए. बी ई. (मैके) एम.ए. एम.एससी.	राज्यसेवा शिक्षक इन्जीनियर वैक सेवा	श्वे स्था. उदयपुर	F-127, गांधी नगर, जयपुर	शासन सचिवालय, चिकित्सालय विभाग, जयपुर फो. 60211 एक्सटे. 668 हिन्दुस्तान जिक लि. उदयपुर एस बी बी. जे, जयपुर
		<u>सांखला</u>								
1882	100	श्री बीरेन्द्रकुमार सांखला पुत्र श्री राजमलजी 2. शान्ता 3. सजय 4. राजीव 5. सजीव	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	43 42 24 19 18	बी ए. बी ए. बी.ए. बी.ए. बी.ए.	व्यापार रेफ्रीजरेटर एयरकण्डीशनर व्यापार शि. बी.ए. (द्वि.व.) शि. बी.ए. (प्र.व.)	इन्दौर	बी. 40, सूरजनगर, सिविल लाइन्स, जयपुर फो.नं 67643	मै टैम्परेचर कण्ट्रोल आर्गोनाइजेशन जी.पी.ओ. के सामने, एम आई. रोड, जयपुर फो. न. 72057
		<u>सांड</u>								
1883	1022	श्री गोकुलचन्द्र सांड पुत्र स्व. श्री बीजराजजी 2. कमलादेवी 3. सुशीलकुमार 4. सरलाकुमारी 5. वसन्तीकुमारी	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	50 44 25 16 14	मैट्रिक साक्षर इण्टर 16 14	व्यापार काँच की खाली शीशियाँ होम्यो. दवा विक्रेता शि. सै. शि. कक्षा 9	श्वे स्था. देशनोक (बीकानेर)	राजस्थान ट्रेडिंग क., 5-7, बडोदिया बस्ती, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर फो.न 44010 गद्दी 72566 निवास	

1887	1677	श्री नेमीचन्द्र साँड पुत्र स्व. श्री अमोलकचन्द्रजी	प.प्र.	वि.	56	मैट्रिक	लेखाधिकारी	श्वे.स्था.	व्यावर	62 गणेशनगर, कुमावत स्कूल के पीछे, ई-51, अस्पताल के पास, अजमेर रोड, जयपुर	राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) 613, सवाई जयसिंह मार्ग, बनीपार्क, जयपुर फो न. 79164 65632
		2 सुन्दर	पत्नी	वि.	48						
		3. आनन्दकुमार	पुत्र	वि	22	हा सँक.	दलाली R.T.O. आफिस				
		4 अमिता	पुत्रवधू	वि.	19	मिडिल					
		5. अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	19	सै.	दुकान परचूनी				
		6 अरुणकुमार	पुत्र	अवि.	17		शि. सै.				
1888	76	श्री प्रेमराज साँड पुत्र स्व. श्री लालचन्द्रजी	प.प्र.	वि	59	मिडिल	व्यापार	श्वे.म	आडवा(पाली)	2115, राठी भवन, धी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	राजस्थान प्लास्टिक वर्क्स, चौड़ा रास्ता, जयपुर
		2 पुष्पा	पत्नी	वि	52						
		3. सीमा	पुत्री	अवि.	23		शि. बी ए (द्वि.व)				
		4 राजीव	पुत्र	अवि	21	एम.कॉम. (प्री.)	व्यापार				
		5. सजीव	पुत्र	„	19	बी ए (द्वि.व)	„				
1889	718	श्री बलवन्तमल साँड पुत्र श्री जसवन्तमलजी	प.प्र.	वि.	43	बी ए (प्र.व)	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं		2446, धी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	म. न.-2452 मारूजी का चौक, धी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2. उषा	पत्नी	वि	36	मैट्रिक					
		3 मोहित	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 8				
1890	1021	श्री सम्पतकुमार साड पुत्र श्री बीजराजजी	प.प्र.	वि	44	इण्टर	होमियोपैथिक दवा विक्रेता	श्वे.स्था.	देशनोक (बीकानेर)	प्लॉट नं.8, हाथीवाबू का बाग, कातिचन्द्र रोड, जयपुर फो. 72560	राजस्थान होमियो स्टोर्स, ढड्डा मार्केट, जौहरी बाजार, जयपुर फो. 44010
		2. रामीदेवी	माता		68						
		3. धन्नादेवी	पत्नी	वि.	38	मिडिल					
		4. तारकेश्वर	पुत्र	अवि.	16		शि. कक्षा 11वी.				
		5. रविन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 7वी				
1891	2007	श्री सुरेन्द्रकुमार साँड पुत्र श्री सुगनमलजी	प. प्र.	वि.	39	बी.कॉम.एफ.सी.ए.	चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट	जैन	किशनगढ (अजमेर)	4/10, डबल स्टोरीड फ्लेट्स, जवाहर नगर जयपुर फो. 852351	एन.सी. ढड्डा एण्ड क. ढड्डा मार्केट, जौहरी बाजार, जयपुर-3 फो. 44169
		2. मजू	पत्नी	वि.	34	हा सै.					
		3. सरदारवाई	माता	विधवा	78						
		4. मीनू	पुत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 8				
		<u>सामर</u>									
1892	700	श्री प्रकाशचन्द्र सामर पुत्र श्री हीरालालजी	प.प्र.	वि.	27	एम.ए.	सर्विस		मावली	823, बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग, रामचन्द्र जी की गली, जयपुर	रोड, जयपुर 65162 फो. न. 77118 65150
		2. श्रीमती प्रकाशचन्द्र	पत्नी	वि.	25	बी ए					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1893	687/1578	श्री सुरेन्द्रसिंह सावर पुत्र श्री भवसावजी	प प्र	वि	48	एम ए	राजबीर सेवा	जन	जयपुर	एक 167 गाधीनगर, जयपुर	रा सचिवालय जयपुर
		2 आवरतन	पत्नी	वि	41	बी ए					
		3 राजेश	पुत्र	प्रवि	21	बी एमसी					
		4 सुरेश	पुत्र	प्रवि	16		शि हा म			पुत्र 1	
		<u>श्यामसुला</u>									
1894	2261	श्री चम्पासाल श्यामसुला	प प्र	वि	50		धनसाय		श्वे ते	9-ए, भानू द लम्प, इण्डरिडुयल एरिया, भोटवाडा, फोन 842444	डी-62, 'सू भनाज मण्डी, चांदपोल बाजार, जयपुर फोन 72487
		2 धनपतिदेवी	पत्नी	वि	45						
		3 शकुन्तला	पुत्री	प्रवि	20						
		4 सुलोचना	पुत्री	प्रवि	18		शिक्षार्थी				
		5 इन्दु	पुत्री	प्रवि	16		शि हा सं				
		6 पद्मा	पुत्री	प्रवि	14		शि स			पुत्रिया-2	
1895	1148	श्री जेठमल श्यामसुला पुत्र श्री गुलाबचन्दजी	प प्र	वि	45	मैट्रिन	धनाज पी दुकात		श्वे स्या	श्रीभाजी का बाग, गांधीनगर मोड, जयपुर	जन बद्रपोस सेटर, बनोजनगर, जयपुर फोन 73359पी पी
		2 मिलापकवर	पत्नी	वि	40						
		3 माणपचन्द	भ्राता	वि	26	बी कॉम	कपड़े की दुकान				
		4 जया	भ्रा व	वि	22						
		5 मीना	पुत्री	प्रवि	20	मिडिल					
		6 हेमलता	पुत्री	प्रवि	18	सबण्डरी					
		7 भारती	पुत्री	प्रवि	16		शि बी ए (द्वि व)				
		8 दीपक	पुत्र	प्रवि	15		शि कला 10				
		9 दिनेश	पुत्र	प्रवि	13		शि कला 8			पुत्र-1	
1896	33	श्री रूपचन्द श्यामसुला पुत्र श्री सित्थमीचन्दजी	प प्र	वि	29	बी कॉम (प्र व)	व्यापार		श्वे ते	श्री 270, जनता कार्पोनी, जयपुर	सुरधि, 42, न्यू मार्केट, एम एस बी का रास्ता जयपुर
		2 राजूदेवी	पत्नी	वि	26	मिडिल				पुत्र-1, पुत्रिया 2	
1897	2074	श्री हीरासाहब श्यामसुला पुत्र श्री अरुणानती	प प्र	वि	47	बी ए	रत्न व्यवसाय		श्वे स्या	बीगोर	बम्ब, सदन, न 1 म न 1473, बारह राखीगोर का रास्ता जयपुर-3
		2 विरग	पत्नी	वि	38						
		3 महेन्द्रुमार	पुत्र	प्रवि	21	बी कॉम					
		4 मंगेश	पुत्री		15		शिक्षार्थी म				

क्र.सं.	पं.सं.	नाम	प्रा.सं.	वि.	व.सं.	शिक्षा	व्यवसाय	पते.स्थ.	पते.सं.	व्यवसाय	फोन.सं.
1898	1031	<u>सामोता</u> श्री किशनलाल सामोता पुत्र स्व. श्री लालचंदजी 2. जयरानी	प प्र	वि.	40	मैट्रिक	नौकरी	श्वे.स्था	पुत्र-2, पुत्री-1	किशनलाल अरुणकुमार जैन, दुकान नं 100 के. जी बी. का रास्ता, जयपुर	
1899	1033/ 1162	श्री देवेन्द्रकुमार सामोता पुत्र स्व. श्री लालचन्दजी 2. अर्चना	प प्र	वि.	36	बी.ए.	सविस	श्वे.स्था. कांकरोली	पुत्र-1, पुत्री-1	2498, खजाने वालों का रास्ता, चांदपोल वाजार, जयपुर	आर. एस. ई. बी. जयपुर फो.नं. 76515
1900	1633	<u>सालेचा (बोहरा)</u> श्री दुलीचन्द सालेचा पुत्र स्व. श्री उदयचन्दजी 2. विमलादेवी 3. अशोककुमार 4. प्रेमलता 5. राजेन्द्रकुमार 6. उर्मिला	प प्र.	वि.	55	साक्षर	पन्ने की पालिश	जैन श्वे.		1941/42, उदय भवन, कसेरो की गली, दडा, घी वालो का रास्ता, जयपुर	चाकसू का चौक, नल के सामने, हृदियों का रास्ता, जयपुर-3 फोन 45873
1901	284	श्री पुसराज सालेचा पुत्र श्री मुलतानमराजी 2. प्यारीदेवी 3. रामेश्वरी 4. सुलोचना 5. नरेश 6. अनिल 7. वीणा	प प्र	वि	45	एम.कॉम., एम.बी.ए.	रत्न व्यवसाय	श्वे.ते. वालोतरा	पुत्रियां-3	एम.ए. 6, गाधीनगर, जयपुर फो.नं 75317	डिप्टी कमिश्नर, कामशियल टैक्सेज कार्यालय, सांगानेरी रोड, जयपुर फो.न. 61791
1902	2229	श्री प्रकाश सालेचा पुत्र स्व. श्री मिश्रीमलजी 2. विद्या 3. रिता <u>सिंघवी, सिंघी, सिंगवी</u>	प प्र.	वि.	39	बी.कॉम (प्री)	व्यवसाय	श्वे.ते. जोधपुर		पटोलिया हाउस, न्यू कॉलोनी, जयपुर, फो.न. 72131	जे. एस इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, न्यू कॉलोनी, जयपुर
1903	1453	श्री अजयकुमार सिंघवी पुत्र स्व. श्री दानमलजी 2. निर्मला	प प्र.	वि.	36	इन्टर	व्यवसाय	श्वे.म.	पुत्र-1, पुत्रियां-2	मुकीम भवन, दरीवा पान, जयपुर फो.न 43469/43293	
					68						
			माता	विधवा	68						
			पत्नी	वि.	43	साक्षर					
			पुत्री	अवि.	25						
			पुत्र	अवि.	23	एम.बी.ए.	आर.ए.एस.(प्रशि.)				
			पुत्र	अवि.	19		शि. बी.ई.				
			पुत्री	अवि.	15		शि. कक्षा 9				
			प प्र.	वि.	39	बी.कॉम (प्री)	व्यवसाय	श्वे.ते. जोधपुर			
			पत्नी	वि.	35	मैट्रिक			पुत्र-1, पुत्री-1		
			पुत्री	अवि	13		शि कक्षा 7				
			प प्र.	वि.	36	इन्टर	व्यवसाय	श्वे.म.			
			पत्नी	वि.	35	मैट्रिक			पुत्र-1, पुत्रियां-2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1904	2388	श्री धर्मलाल कच ब सिधो पुत्र स्व श्री प्रेमच दजी 2 मनीदेवी 3 रवि ब्रकुमार	प प्र पत्नी पुत्र	वि वि धवि	53 48 28	बी कॉम बी काम एलएल बी	बीमा एजे सी भाइसक्रीम फवट्री भाइसक्रीम फवट्री	श्वे ते		घाई-143, घादणनगर, जयपुर, फो न 45170	
1905	466	श्री धर्मलाल सिधो पुत्र श्री सोहनमलजी 2 कमला 3 घशोककुमार 4 रमेशकुमार 5 महेद्रकुमार	प प्र पत्नी पुत्र " पुत्र	वि वि वि " धवि	51 48 32 28 26	हा स शिक्षित बी ई (मै) हा स एम डी (स्किन)	राजवीप सेवा इ सपक्टर (गुलिस) इ जीनियर एल धो	जन	सिरोही	बी 342, जनता नालोनी, जयपुर	ई एस घाई कारपो पानी, एस एम एस हास्पिटल, जयपुर
1906	1948/ 1886	श्री धर्मदल सिधो पुत्र श्री उमरावमलजी 2 शुभकर	प प्र पत्नी	वि वि	79 70	मैट्रिक शिक्षित	सवानिचूत	श्वे म		म न 1458, हरी नारायणजी राठी का मकान, परतानिया का रास्ता, जयपुर	
1907	319	श्री घशोककुमार सिधो पुत्र श्री धर्मलालजी 2 सतोप	प प्र पत्नी	वि वि	32 26	बी ई (मै) पी जी डिप्लोमा विज मैनेज बी ए (मॉन)	सीनियर इजी एव सिस्टम डिजाइनर	जन	सिरोही	बी-47, मण्डेरा माग, बाबूनगर, जयपुर फो न 68162बी पी	एन ई घाई लि जयपुर फो न 73221 एक्टेंट 23
1908	1478	श्री धान बकुमार सिधो पुत्र स्व श्री मानमलजी 2 कान्ता 3 प्रदीपकुमार 4 सदीपकुमार 5 पकज	प प्र पत्नी पुत्र " "	वि वि धवि " "	48 41 21 19 16	बी ए बी ए शि बी कॉम शि बी एससी (टि व) शि कक्षा 9	सचिव, एम पी टाइम मॉनिगर शि बी कॉम शि बी एससी (टि व) शि कक्षा 9	जा	मिर्जापुर	मुकीम हाउस, पानो का दरीबा, जयपुर	द्विस्तुतल भल व रेनूकट, मिर्जापुर (3 पी)
1909	1839	श्रीमती धामा सिधो पत्नी स्व श्री पदमच दजी 2 प्रगति	प प्र पुत्री	विधवा धवि	35 13	बी ए		श्व म		एच 2/59, मासवीया माग, सी-स्त्रीम जयपुर	
1910	1793	श्री इन्द्रसिंह सिधो	प प्र	वि	48	बी कॉम	शि कक्षा 7 बी मेवा	जा	उज्जपुर	एच 2/59, मासवीया (कोटा) फो न 62361	गुरो वैक, मडल कार्या- लय, 28ए, बनीपाव,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1916	1519	श्री कबीरद्वारा सिधो पुत्र श्री केवलरामजी 2 मधु	प्र व पत्नी	वि वि	36 29	मैट्रिक इंटर	व्यापार	जन	जे 230, भोमियो की छतरी, प्रादम नगर, जयपुर फोन 45412	टी के जलस गोपालजी का रास्ता, जयपुर फा 63400	
1917	460	श्री किशोरचंद सिधो पुत्र श्री प्रभूतचंदजी 2 गुलाब 3 स्नेहलता 4 प्रकाशकर 5 प्रमिल 6 सजय	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि भवि भवि भवि	51 45 25 23 20 17	इंटर मैट्रिक बी ए बी कॉम मैट्रिक	व्यापार व्यापार व्यापार वि बी कॉम (प्र व)	जन	जायपुर	2504, एम एन बी का रास्ता, जयपुर, फोन 44235	हिंदुस्तान एंजिनीयर्स 59, मोती बाजार जयपुर
1918	455/ 573	श्री कृष्णलाल सिधो पुत्र श्री मिथीलालजी 2 चांदकवर 3 विमलकुमार 4 मोना 5 निर्मलकुमार 6 सरला 7 कमलकुमार 8 सुनीता 9 सुनीलकुमार 10 रेखा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्री	वि वि वि भवि वि वि वि भवि भवि	55 50 32 30 30 28 27 23 21 19	एम ए बी एससी, बी ए बी कॉम मैट्रिक एम कॉम मैट्रिक मैट्रिक	सेवानिवृत्त चीफ एक्जीक्यूटिव सहा फील्ड ऑफिसर गरीबा उद्योग राज्य सेवा लेखाकार गरीबा उद्योग वि बी कॉम (प्र व)	जन	सोजत सिटी 2 प 7, जवाहरनगर, जयपुर, फो 40142	फा न 76300	रा न उ निगम, जयपुर
1919	721	श्री बंसरोचंद सिधो पुत्र स्व श्री सागरमलजी 2 मदनबाई 3 शांतकुमार 4 सानादेवी 5 शांतकुमार	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि वि वि	60 54 34 33 30	मैट्रिक बी ए बी ए बी कॉम, एलएल बी एम बी ए	फिल्म वितरण	स्व म	1722, जहिया का रास्ता, चौहा रास्ता, जयपुर, फो 49414	सिधो फिल्म, खेतान भवन, एम भाई रोड, जयपुर सिधो एटर्नल इन्जि हनुमानजी का रास्ता जोहरी बाजार, जयपुर वीनस इण्ड प्रोडक्ट, नाहरगढ़ रोड, जयपुर	

पुत्रियाँ-3

पौत्र 2, पुत्रियाँ 2

	6. अनीता	पुत्रवधू	वि.	25	बी.ए.				
	7. अशोककुमार	पुत्र	अवि.	24	बी.कॉम., एलएल.बी.	फिल्म वितरक		पुत्र-2, पुत्री-1	
1920	1559 श्री गजेन्द्र सिंघवी	प.प्र.	वि.	30	बी.कॉम.	राज्य सेवा	श्वे.म. जोधपुर	46-क-1, ज्योतिनगर, जयपुर	राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर
	पुत्र श्री रूपराजजी							पुत्र-3	
	2. कान्ता	पत्नी	वि.	26	बी.ए.				
1921	1240 श्री गणपतराज सिंघवी	प. प्र.	वि.	33	एम.ए., एम.कॉम., सी.ए. आई.आई.बी.	बैंक मैनेजर	श्वे स्था जोधपुर	7, गेहलोत भवन, न्यू कॉलोनी, जयपुर	बैंक ऑफ राजस्थान लि., जयपुर
	पुत्र श्री गणेशराजजी							पुत्र-3	
	2. पुष्पा	पत्नी	वि.	32	बी.ए.				फो न. 77150
1922	86 श्री गणपतिसिंह सिंघवी	प प्र	वि	35	बी.एससी., एलएल.बी.	एडवोकेट	जैन जोधपुर	बी-84, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर	फो नं 78766
	पुत्र श्री मखतूरमलजी								
	2. रजना	पत्नी	वि	30	बी ए.एलएल.बी , (एकेडेमिक)				
1923	412 श्री गुलाबचन्द सिंघी	प. प्र.	वि	52	हा.सै.	लेखाकार	श्वे म.	बी-23, सेठी कॉलोनी, जयपुर	पुलिस वायरलेस ऑफिस, जयपुर फो नं. 45202
	पुत्र स्व. श्री सिरहमलजी								
	2. कमलाबाई	माता	वि.	70	शिक्षित				
	3. प्रेमबाई	पत्नी	वि.	45	"				
	4. विजयकुमार	पुत्र	वि.	30	हा सै.	व्यवसाय			
	5. बीना	पुत्रवधू	"	24	"				
	6. अजनाकुमारी	पुत्री	अवि.	26	एम ए.				
	7. मधुला	"	"	24	हा.सै.				
	8. सुनीलकुमार	पुत्र	"	21	सै.	व्यवसाय			
1924	414 श्री गोपीचन्द सिंघवी	प. प्र.	वि.	57	साक्षर	व्यवसाय	जैन मुलतान	बी-29, सेठी कॉलोनी, जयपुर	C/o न्यू फैंसी जनरल स्टोर, कटला पुरोहितजी, जयपुर फो. 49281
	पुत्र स्व. श्री लूणकरराजजी								
	2. सीतादेवी	पत्नी	"	51	मिडिल				
	3. राजकुमार	पुत्र	"	35	मैट्रिक				
	4. त्रिशला	पुत्रवधू	"	32	बी.ए.			पुत्र-2, पुत्री-1	
1925	220 श्री गौतमराज सिंघवी	प प्र.	वि.	45	एम बी.बी.एस., एम डी.	फिजीशियन	श्वे स्था जोधपुर	बापूनगर, फो. 72184	एस डी.एम. हॉस्पिटल फो. 68251
	पुत्र श्री मदनराजजी								
	2 चन्द्रप्रभा	पत्नी	वि.	41	एम एससी (बोटनी)	व्याख्याता			
	3. राहुल	पुत्र	अवि.	19		शि. बी.ए			
	4. शिल्पा	पुत्री	अवि	15		शि हा सै.		पुत्र-1 पुत्रियां-2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1926	234	श्री धनश्यामदास सिधवी पुत्र श्री तीरथदासजी 2 इन्द्रादेवी	प प्र	वि	36	बी ग	व्यवसाय	श्वे म		487, धान्ना नगर, जयपुर	दुकान फो 49077
									पुत्र-3		
1927	326	श्री घोसीलाल सिधवी पुत्र स्व श्री जेठमलजी 2 मधुदेवी 3 किरणबाबा 4 सुनीता 5 राकेशकुमार	प प्र	वि	55	मिडिल	सविम	श्वे		2039, तोलाराम पालीवाल की गली, मिस्त्रीखाने के पास, पुरानी बस्ती, जयपुर	
									पुत्र 1 पुत्री 1		
1928	1015	श्री चन्द्रप्रकाश सिंधी पुत्र श्री पोपरदासजी 2 बीना	प प्र	वि	35	एम एसटी, बी एड	अध्यापक	जन		1088 बीका जय धन की गली, चौडा रास्ता जयपुर फो न 62419पी पी	
									पुत्र 1 पुत्री 2		
1929	830	श्री छगनलाल सिंधी पुत्र श्री मन्नालालजी 2 शान्ताबाई 3 पुखराज 4 विमलादेवी	प प्र	वि	60	मैट्रिक	टाइप का धपा	श्वे स्या	हेदराबाद		जन टाइप फाउण्ड्री, चौडा रास्ता, जयपुर
									पुत्री 1		
1930	1570	श्री जितेंद्रकुमार सिंधी पुत्र श्री सम्पतराजजी 2 भागा	प प्र	वि	38	बी ए , एलएल बी	गडबोकैट	श्वे स्या	सिरोही	25-न 1 ज्यातिनगर, जयपुर 5 फो न 74503	राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर
									पुत्र 1, पुत्री 1		
1931	1422	श्री जी सी सिधवी पुत्र श्री रतनचन्दजी 2 सरला 3 प्रदीप 4 ललिता	प प्र	वि	35	एम ए	प्राइवशन मैनेजर वम रवर टैरनी नॉजिस्ट	श्व म	जायपुर	4/566, जगहर नगर, जयपुर	महाधीर पालीमर्च, मारवावीया इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर 17 फो न 63684 2 इस्ट्रु मे टेशन लि , कोटा
									पुत्र 1, पुत्री 1		
1932	1169	श्री जीतमल सिंधी पुत्र श्री नाथूलालजी	प प्र	प्रवि	74	साक्षर	निस्सहाय	श्वे स्या		एम एस बी ना रास्ता, पहला चौराहा, जयपुर	
1933	638	श्री जी एस सिधवी पुत्र श्री हीरालालजी 2 कमला	प प्र	वि	42	हा म	रोयानियुक्त एनाउटेड	जैन श्वे	जयपुर	7 इ 15 जवाहरनगर, जयपुर 4	पत्रा अघ्य सस्थान, राज विश्वविद्यालय, जयपुर, फो 65702

Year	Serial No.	Name	Relationship	Age	Education	Profession	Religion	Address	Contact No.
		3. राजेश	पुत्र	18	अवि.	शि. बी.ए. (प्र.व)			फो.न 65702/200
		4. रेखा	पुत्री	15	"	शि कक्षा 10			
1934	1512	श्री जोगेन्द्रकुमार सिंघी	प.प्र.	39	वि.	हा.सै.	व्यवसाय	जैन मुलतान	के-9, आदर्शनगर, जयपुर
		पुत्र स्व. श्री केवलरामजी							टी.के. ज्वैलर्स, गोपालजी का रास्ता, जयपुर
		2 नीरा	पत्नी	33	वि				फो.नं 42420
		3. अतुल	पुत्र	14	अवि.				फो.नं. 46400
1935	1921	श्री एल आर. सिंघवी	प. प्र.	39	वि.	बी.ई (सिविल)	सरकारी सेवा	जैन जोधपुर	वी-27, सूरजनगर, सिविल लाइन्स, जयपुर
		पुत्र श्री उगमराजजी					असिस्टेंट इंजी.		वी डब्ल्यू. डी. कार्यालय, जयपुर
		2. चन्द्रा	पत्नी	34	वि	बी.ए.			फो नं. 79344
		3. राहुल	पुत्र	16	अवि.		शि. कक्षा 11		
1936	606	श्री टी.आर. सिंघवी	प.प्र.	34	वि.	इजीनियरिंग	इन्जीनियर	जैन जोधपुर	3/8 जवाहरनगर, जयपुर
		पुत्र श्री उगमराजजी							
		2 लक्ष्मी	पत्नी	29	वि	एम ए.			
1937	1825	श्री त्रिलोकचन्द्र सिंघवी	प प्र.	58	वि	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे मं. मुलतान (पाकिस्तान)	के-9वी, आदर्शनगर, जयपुर, फो न 45292
		पुत्र श्री केवलरामजी							ठाकुरदास केवलराम जैन, हनुमानजी का रास्ता, जौहरीबाजार, जयपुर, फो. 76071
		2 शान्तिदेवी	पत्नी	55	वि	साक्षर			टी के. हास्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर
		3. डॉ कमलकुमार	पुत्र	30	वि.	एम.डी.	डॉक्टर		परनामी चिकित्सालय, राजापार्क, जयपुर
		4. डॉ. सुनीता	पुत्रवधू	28	वि.	एम.डी.	डॉक्टर		ठाकुरदास केवलराम जैन, हनुमानजी का रास्ता, जयपुर
		5. ताराचन्द्र	पुत्र	26	वि	हा.सै	रत्न व्यवसाय		
		6. नीता	पुत्रवधू	21	वि	हा.सै.			
		7. अनिल	पुत्र	21	अवि		शि. बी.कॉम. (अ.व.)		
1938	1409	श्री तेजकुमार सिंघवी	प प्र.	37	वि.	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	961, मुकीम हाउस, पानो का दरीवा, जयपुर
		पुत्र स्व. श्री मानमलजी							फो.न. 44007
		2. दीपकेश्वर	माता	50	विधवा				
		3. मधुकान्ता	पत्नी	36	वि.				
		4 कमलकुमार	भ्राता	31	वि	हा सै.	रत्न व्यवसाय		
		5. लता	भ्रातावधू	29	वि.	बी.ए.			मुकीम जैम्स, गगापुर हाउस, न्यू मार्केट दडा जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1939	570	श्री बलपतचव सिधवी पुत्र स्व श्री विचोरपदजी	प प्र	वि	56	बी कॉम	व्यवसाय	जन		1 न 6, जवाहरनगर जयपुर	
		2 चाँदकॉवर	पत्नी	वि	50	मिडिल					
		3 नरेन्द्र	पुत्र	वि	26	बी ई (सिविल)	नौकरी				
		4 रजनी	पुत्रवधू	वि	22	बी कॉम					
		5 वीला	पुत्री	भवि	18		वि बी ए (घ व)				
1940	2389	श्री बोलसतकुमार सिधवी पुत्र स्व श्री फतहलालजी	प प्र	वि	40	एम ए	व्याख्याता	श्वे ने		1 घ 44, द्वारकापुरी शास्त्रीनगर वे पास, जयपुर	
		2 बसलदेवी	पत्नी	वि	38	हा स					
		3 रेणु	पुत्री	भवि	18		वि बी ए (द्वि व)				
		4 सजय	पुत्र	भवि	16		वि मसा 10		पुन-1		
1941	1925	श्री धनरूपमल सिधवी पुत्र श्री मानमलजी	प प्र	वि	65	हा ग	तेजानियुक्त	श्वे मं	परपतसर	बी 55, शांतिनगर, जयपुर	
		2 पारसकुमारी	पत्नी	वि	56						
		3 बीरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	35	हा स	व्यवसाय				झार बी इ इस्ट्री, 23 ए नेताजी मुभाप रोड, पलनस्ता
		4 मनीला	पुत्रवधू	वि	32	हा स					
1942	470	श्री नरेन्द्रकुमार सिधवी पुत्र स्व श्री हीरापदजी	प प्र	वि	28	हा स	रत व्यवसाय	श्वे म		1585, सिपी भवन जडियो पा रास्ता जयपुर	
		2 जलनबाई	माता	विधवा	50	मिडिल					
		3 रजनी	पत्नी	वि	26	बी कॉम					
		4 रात्रन्द्रकुमार	भाई	भवि	22	बी कॉम	बेरोजगार				
1943	1446	श्री नवरत्नमल सिधवी पुत्र स्व श्री दागमलजी	प प्र	वि	38	मिडिल	व्यवसाय	श्वे जैन		मुनीम भवन, दरी रा पान, जयपुर फो 43469, 43293	
		2. प्रेमकुमारी	पत्नी	वि	33	मैट्रिक					
1944	1796	श्री नवीनचन्द्र सिधवी पुत्र श्री भोगीलालजी	प प्र	वि	48	मैट्रिक	व्यापार	जा श्वे	मोरबी (गुजरात)	4/297, जवाहर नगर, जयपुर फो 852687	पट्टोवियम एजेसीज, बाईस गोडाम रोड, जयपुर, फो 78807
		2 दमयन्ती	पत्नी	वि	44	मैट्रिक					
		3 भारती	पुत्री	भवि	24	बी ए					
		4 दीपवकुमार	पुत्र	भवि	22		वि बी कॉम (द्वि व)				

1945	323	5. मीना 6. धर्मेश श्री पद्मलाल सिंघवी पुत्र श्री इन्दरमलजी	पुत्री पुत्र प.प्र	अवि. अवि. वि.	17 14 42	हा सं.	शि. बी.ए. (प्र.व) शि कक्षा 9 मोटर पार्ट्स व्यवसाय श्वे		2039, तोलाराम पालीवाल की गली, मिस्त्रीखाने के पास, पुरानी बस्ती, जयपुर	गणेशलाल एन्ड सन्स ट्रासपोर्ट नगर, जयपुर फो नं. 41980
1946	1454	श्री प्यारेलाल सिंघवी पुत्र स्व. श्री सुजानमलजी	माता चाची पत्नी पुत्री प.प्र.	विधवा विधवा वि. अवि. विधुर	78 75 38 15 80	हा.सं.	शि. कक्षा 11 व्यवसाय	पुत्र-1, पुत्रियाँ-2 श्वे.जैन	मुकीम भवन, दरीबा-पान, जयपुर फो नं. 45638	
1947	1996	श्री पारसमल सिंघवी पुत्र श्री नोरतनमलजी	भ्रा.प. भतीजा भती.वधू पौत्री पौत्र पौत्री प.प्र.	विधवा वि. वि. अवि. अवि. अवि. वि.	60 43 37 17 15 13 52	मैट्रिक मिडिल	शि. बी.ए. शि. कक्षा 9 शि. कक्षा 6 नौकरी	पुत्र-1 जैन	हल्दियो का रास्ता, बैराठी भवन, जयपुर फो न. 41746	
1948	810	श्री पारसमल सिंघवी पुत्र स्व. श्री राजमलजी	पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू प. प्र.	वि. वि. वि. वि. वि. वि.	48 32 29 29 24 28	शिक्षित मैट्रिक मैट्रिक मिडिल मैट्रिक बी.ए.	रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय नौकरी	पुत्र-2, पुत्रियाँ-2 श्वे.स्था.	3823, विष्णु मार्ग, गणगौरी बाजार, जयपुर	
1949	2496	श्री पूनमचन्द सिंघी पुत्र श्री दुलीचन्दजी	पत्नी प. प्र	वि. वि.	25 31	संक. बी.कॉम., एल.एल.बी.	रत्न व्यवसाय	पुत्री-1 श्वे.ते. बीदासर	1390, कोठारी हाउस, एल.एम.बी. के पीछे, जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं. 78074 पी.पी.	
1950	1513	श्री प्रेमचन्द सिंघवी पुत्र श्री केवलरामजी	पत्नी प. प्र.	वि. वि.	29 47	शिक्षित इन्टर	रत्न व्यवसाय	पुत्र-1, पुत्री-1 जैन मुलतान	6, वली गार्डन, जयपुर फो न. 48686	गोपालजी का रास्ता, जयपुर, फो. 76071
		2. मधुवाला श्री पूनमचन्द सिंघी पुत्र श्री दुलीचन्दजी	पत्नी प. प्र	वि. वि.	25 31	संक. बी.कॉम., एल.एल.बी.	रत्न व्यवसाय	पुत्री-1 श्वे.ते. बीदासर	1390, कोठारी हाउस, एल.एम.बी. के पीछे, जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं. 78074 पी.पी.	
		2. रेश्मादेवी	पत्नी	वि.	29	शिक्षित		पुत्र-1, पुत्री-1		
		2. राजकुमारी	पत्नी	वि.	42	मैट्रिक				
		3. संजयकुमार	पुत्र	अवि.	18	बी कॉम		पुत्र-2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1959	469	श्री मोतीचन्द सिधो पुत्र श्री सागरमलजी	प प्र	वि	35		सरकारी सेवा	श्वे म		सिंधी भवन, 1588, जडिया का रास्ता, जयपुर	हवा महल त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
		2 कमलादेवी	पत्नी	वि	33	साक्षर					
		3 रमेशकुमार महता	पुत्र	भवि	19	बी एम	प्राइवेट सवा		पुत्र 1, पुत्री 1		
		4 प्रकाशचन्द	पुत्र	भवि	18		शि बी ए (प्र व)				
1960	330	श्री मोहनलाल सिधो पुत्र श्री इन्दरमलजी	प प्र	वि	50	मिडिल	साइक्ली की दुकान	श्वे		2039, तोताराम पालीवाल की गली, मिस्त्री खाना, पुरानी बस्ती, जयपुर	नाहरगढ़ रोड, जयपुर
		2 मदनकवर	पत्नी	वि	45						
		3 साहनलाल	पुत्र	भवि	30	मिडिल	सबिल				
		4 सुनीलकुमार	पुत्र	भवि	22	हा स	बिजली की दुकान				
		5 विजयकुमार	पुत्र	भवि	19	हा स	बिजली की दुकान				
1961	1567	श्री रतनचन्द सिधो पुत्र स्व श्री इन्दरचन्दजी	प प्र	वि	52	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म		4629 के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	4634, के जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर
		2 साहदेवी	पत्नी	वि	48	मैट्रिक					
		3 राजीवकुमार	पुत्र	वि	32	बी एम	रत्न व्यवसाय			फोन 41175	फोन 40918, 44314
		4 उर्मिया	पुत्रवधू	वि	28	बी ए					
		5 नवीनकुमार	पुत्र	वि	29	बी ए	रत्न व्यवसाय				
		6 राजबाला	पुत्रवधू	वि	28	एम ए					
		7 अशोककुमार	पुत्र	भवि	27	बी एम	रत्न व्यवसाय		पुत्र 1, पुत्रियाँ 2		
		8 इन्दर	प प्र	वि	66	इंटर	सेवाविद्वत्त	श्वे म			
1962	1501	श्री रतनराज सिधो पुत्र स्व श्री उम्मेदराजजी	प प्र	वि	66	इंटर	सेवाविद्वत्त	श्वे म	ब्यावर	1396, पडित शिव- दीनजी की हथेली, मनिहारो का रास्ता, नेहरू बाजार, जयपुर	बोहिनूर वारपेट्स, जयपुर
		2 सायरदेवी	पत्नी	वि	62	साक्षर					
		3 प्रकाशकुमार	पुत्र	वि	39	इंटर	व्यवसाय				
		4 लक्ष्मी	पुत्रवधू	,	36	बी ए					
		5 विनोदकुमार	पुत्र	,	29	मैट्रिक	व्यवसाय				
		6 स्नेहलता	पुत्र	,	28	,					
		7 सतीशकुमार	पुत्र	भवि	27	हा स	व्यवसाय				
		8 मजु	पुत्री	,	21	मैट्रिक			पुत्र 1, पुत्री-1		
1963	1786	श्री रतनसिंह सिधो पुत्र श्री तेजराजजी	प प्र	वि	50	एम ए, एलएल बी	उपसचिव (भाई ए एम)	श्वे म	सिरोही	4 ब 1, जवाहरनगर जयपुर 4	मुक्यमनी सचिवालय, जयपुर फोन 65128
		2 नरना	पत्नी	वि	46	एम ए				फोन 852265	

		3. राजेश	पुत्र	वि.	25	बी.ई. (आनर्स)	मेक. इन्जीनियर						
		4. बेला	पुत्रवधू	वि.	21	बी.ए., एलएल.बी.							
1964	322	श्री रमेशकुमार सिंघवी	प.प्र.	वि.	29	मैट्रिक	रत्न दलाली	जैन श्वे.					हिन्दुस्तान जिक लि., देवारी (उदयपुर)
		पुत्र श्री धीसीलालजी.											
		2. प्रेमलता	पत्नी	वि.	25	मिडिल							
1965	1510	श्री राजकुमार सिंघवी	प.प्र.	वि.	56	मिडिल	व्यापार	जैन	डेरागाजीखा	त-239, आचार्य कृप-			मै. कुमार जनरल स्टोर
		पुत्र श्री गोपालदासजी							(पाकिस्तान)	लानी मार्ग, आदर्श-			कटला पुरोहितजी,
		2. कमला	पत्नी	वि.	52	शिक्षित				नगर, जयपुर			जयपुर
		3. राकेश	पुत्र	वि.	28	बी.कॉम.	व्यापार			फो न, 41727			फो.न. 61738
		4. पिकी	पुत्रवधू	वि.	25	बी.ए.							
1966	407	श्री राजमल सिंघी	प.प्र.	वि.	69	बी.ए., एलएल.बी.,	सेवानिवृत्त,	श्वे.म	सिरोही	बी-61, सेठीनगर,			राष्ट्रीय यूनी एजे.,
		पुत्र श्री मूलचन्दजी				एल.एस.जी.	अव मैनेजर			जयपुर			5,नारायणसिंह मार्ग,
		2. सुन्दरदेवी	पत्नी	वि.	64	शिक्षित	(डिप्लोमा)			फो.न. 45005			पुलिस मेमोरियल के
		3. विनोदकुमार	पुत्र	वि.	42	एम.ए.	बैंक मैनेजर						पास, फो 64327
		4. मृदुला	पुत्रवधू	„	38	इन्टर							बैंक ऑफ राजस्थान,
		5. डा. प्रकाशकुमार	पुत्र	वि.	38	एम.बी.बी.एस.	डॉक्टर						कंवरनगर, जयपुर
		6. मधु	पुत्रवधू	वि.	34	इन्टर							फो.न. 68419
		7. धीरज	पौत्र	अवि.	13								सी.ए.एस. रेवदर
1967	1250	श्री राजेन्द्रकुमार सिंघवी	प. प्र	वि.	32	बी.कॉम.,एम.ए.	नौकरी	जैन	जोधपुर	421,खजान्ची सदन,			(जिला-सिरोही)
		पुत्र स्व. श्री छोटमलजी											आर.एस.ई.बी.कार्या,
		2. रतनकंवर	माता	विधवा	72	शिक्षित							जयपुर, फो.न. 61683
		3. मधु	पत्नी	वि.	27	एम.ए.							
1968	801	डॉ. विजयकुमार सिंघवी	प प्र.	वि.	34	एम.बी.बी.एस.	रत्न व्यवसाय	स्था.जैन	मेड़ता	जोरास्टर हवेली			
		पुत्र श्री चपालालजी											मो. भो. का रास्ता,
		2. सरिताबाई	पत्नी	वि.	30	सीनियर कैम्ब्रिज				जयपुर-3			फो न. 43478
		3. बसंतकुमार	भ्राता	वि	28	बी.एससी.							
		4. शर्मिला	भ्रा.व.	वि	21	बी.ए.							
		5. विमलकुमार	भ्राता	अवि.	21	बी कॉम.							
		6. विजयश्री	बहिन	अवि.	19								
							बी. ए. (अ.व.)						

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
										फोन 66108
1979	619	3 जगदी श्री सुलक्ष्मणमल सिधवी पुत्र श्री पारममलजी	पुत्री प प्र	प्रवि वि	14	शि सवेण्डरी हॉ (सीनियर एम बी बी एम, एम बी (रेनियो लोजी) एमएलिट्ट)	पुत्र 1 जोधपुर	5 ज 4	रासहरनगर जयपुर फोन 852787	एम बी एम हास्पीटल, एनगर डिपार्टमेंट फोन 68251/ एनगट्टे
		2 सरलादेवी	पत्नी	वि	40	बी ए				
		3 मुनता	पुत्री	प्रवि	21	वि एम ए				
		4 उषसी	पुत्र	प्रवि	19	शि बी ए				
		5 सवेंग	पुत्र	प्रवि	17	शि कक्षा 11				
1980	346	श्री सुभाषचन्द्र सिधवी पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	28	मैट्रिग	पुत्र 1	पवे	2039, तोलाराम पालीवाल की गली, मिस्त्रीलाना, पुरानी बस्ती, जयपुर	फोन 7 जे डी ए पलटम, सानकोठी, जयपुर
		2 मुन्नीदेवी	पत्नी	वि	24	मिडिल	पुत्र-1			
1981	422	श्री सुरेन्द्रकुमार सिधवी पुत्र श्री पुष्पचन्दजी	प प्र	वि	31	बी ई (मिडिल)	पुत्र 1, पुत्री 1	जय जोधपुर		
		2 मजु	पत्नी	वि	26	बी एलसी				
1982	331	श्री सुरेन्द्रकुमार सिधवी पुत्र श्री भीसीलालजी	प प्र	वि	33	हा ग	पुत्र 2, पुत्री 1	जय जोधपुर	2039, तोलाराम पालीवाल की गली, मिस्त्रीलाना के पास, पुरानी बस्ती, जयपुर	
		2 निमलादेवी	पत्नी	वि	29	हा ग				
1983	231	श्री सुरेश सिधवी पुत्र श्री पन्नालालजी	प प्र	वि	31	बी कॉम, ए सी ए	पुत्री 1	श्वे स्वा	ए 15, विाय गण, तिलननगर जयपुर फोन 69538	एच एम सिधवी एण्ड व, जोहरी बाजार, जयपुर
		2 मजु	पत्नी	वि	26	बी ए				
1984	580	श्री सुरीलचन्द्र सिधवी पुत्र श्री तेजराजजी	प प्र	विपुत्र	58	बी कॉम, एलएल बी	पुत्री 1	जय जोधपुर	2 ज 13, जवाहर- नगर, जयपुर फोन 40343	पे एण्ड एंजाइन्स प्रॉफिटर, गाल्ट घॉरलोपाइजेना, जयपुर, फोन 61728
		2 रामादेवी	माता	विपवा	70					ए जी राज, जयपुर, फोन 68431
		3 रावेन्द्र	पुत्र	वि	36	बी एनसी एलएल बी, बी एलएल				भीनासी टचमटाइल मिल, मधुराई फोन 23211
		4 सुधीर	पुत्र	वि	30	बी कॉम, ए सी ए डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस)				

	5 सरोज	बहिन	अवि.	30	एम ए ,वी एड.	अध्यापिका		मानव विद्यापीठ, बनीपार्क, जयपुर
	6. सरोज	पुत्रवधू	वि	30	एम ए.		पुत्र-1, पुत्रियां-2	
	7. वीणा	पुत्रवधू	वि.	26	बी ए			
1985 1272	श्री सोहनचन्द सिंघवी	प प्र	वि.	48	बी ए	पर्सनल ऑफिसर	श्वे.स्था. जोधपुर	डी-46, नन्द भवन, सुभापनगर, सी-स्कीम, जयपुर, फो. 67609
	पुत्र श्री सवाईचन्दजी							आर.एस.ई.बी राममन्दिर के पास, रेलवे स्टेशन, जयपुर
	2. कमला	पत्नी	वि	48	पी यू.सी			
	3. राजीव	पुत्र	अवि	21	बी कॉम.	शि. आई.सी.डब्ल्यू.ए.	पुत्री-1	
	4. राजुल	पुत्री	अवि	16		शि. बी.ए.(प्र व.)		
1986 1509	श्री श्रीपाल सिंघवी	प प्र.	वि	42	इन्टर	व्यवसाय	जैन डेरागाजीखां	जे-239, आदर्शनगर, आचार्य कृपलानीमार्ग, जयपुर
	पुत्र श्री गोपालदासजी							पाल स्टेशनरी स्टोर, कटला पुरोहितजी, जयपुर, फो. 48288
	2. सरोज	पत्नी	वि.	38	मैट्रिक			
1987 394	श्री हरकचन्द सिंघवी	प प्र	वि			प्राइवेट सेवा	श्वे.स्था. किशनगढ	वी-71, आनन्दपुरी, मोती डू गरी रोड, जयपुर
	पुत्र स्व. श्री पन्नालालजी							उद्योग मन्दिर, खादी भण्डार, ग्रामोद्योग, बापू बाजार, जयपुर फो.न. 72496
	2. भवरदेवी	पत्नी	वि.	44	मैट्रिक			
	3. हर्षवर्द्धन	पुत्र	अवि.	24	बी ए.	सर्विस		
	4. राज्यवर्द्धन	पुत्र	अवि.	22	मैट्रिक	वेरोजगार		
	5 राज्यश्री	पुत्री	अवि	15		शि. सैक.		
1988 1175	हस्तीमल सिंघवी	प.प्र	वि.	45	बी कॉम.,, एलएल बी.,सी.ए.	प्रैक्टिस	जैन अजमेर	ए-15, बी विजय पथ, जोहरी बाजार, जयपुर तिलक नगर, जयपुर फो न. 45230
	पुत्र श्री पन्नालालजी							फो 69538
	2 रविन्द्रा	पत्नी	वि.	36	एम ए.		पुत्र-1	
	3. भारती	भतीजी	अवि.	20		शि. बी.ए.(प्र व.)		
1989 711	श्री होशियारमल सिंघवी	प प्र.	वि.	58	बी ए ,एलएल बी.	सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकार	श्वे.स्था जोधपुर	III 127,बजाजनगर, जयपुर
	पुत्र श्री छोटमलजी							
	2. विमला	पत्नी	वि	52	मैट्रिक			
	3. रमेश	पुत्र	वि.	32	एम.कॉम.	कनि. लेखाकार		आ.एस.आर.टी. सी., जयपुर
	4 किरण	पुत्रवधू	वि.	30	एम.ए.			आर.एस.ई बी ,जयपुर
	5 कमलेशचन्द्र	पुत्र	वि	28	बी ई. (सिविल)	कनि. अभियन्ता		आर.एस.ई बी ,जयपुर
	6 अरुणा	पुत्रवधू	वि.	27	एम ए.	वरिष्ठ लिपिक		जल प्रदूषण मडल, जयपुर
	7. नरेशचन्द्र	पुत्र	अवि.	24	बी कॉम.	कनि. लेखाकार	पुत्र-1, पुत्रियां-2	डेयरी फेडरेशन जयपुर
1990 201	श्री ज्ञानचन्द सिंघवी	प प्र	वि	47	बी.ए.	सहायक लेखाधिकारी	श्वे म सोजत सिटी (पाली)	1479,बारह गणगीर का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर
	पुत्र श्री सोमचन्दजी							राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर फो. 73022
	2. विमला	पत्नी	वि.	43	इन्टर			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1991	607	3 धरविन्द	पुत्र	ध्रुवि	22	एम ए	शि रत्न व्यवसाय			को 66703वी पी	61231 एक्ट 50	
		4 धरण	पुत्र	ध्रुवि	19		शि बी ए (प्र व)					
		धो शानचन्द सिपयो	प प्र	वि	42	बी ए				किशनगढ (भजनभर)	3/56, जवाहर नगर जयपुर	भारत विडिग मटेरियल स्टोस, नाटानियो का रास्ता, जयपुर, को 77515
		पुत्र स्व श्री हीराचन्दजी										
		2 नरूरवाई	माता	विषवा	65							
		3 चन्दा	पत्नी	वि	38							
1992	1317	4 नलिनी	पुत्री	ध्रुवि	18		शि बी ए (प्र व)					
		5 निलिख	पुत्र	ध्रुवि	16		शि हा सं					
		6 त्रिपिया	पुत्री	ध्रुवि	14		शि वक्षा 9					
		सौपडू										
		धो उत्तमचन्द सौपडू	प प्र	वि	36	मैट्रिक	विजली के सामान की दुकान	जन श्वे माकडी (बुल दगहर)	एस 45, कुमावत बालोनी, खालीपुरा रोड, भोटवाडा, जयपुर	पे उपा ३ क, 14 चमेली मार्केट, एम झाई रोड, जयपुर को न 72334		
		पुत्र श्री पूनमचन्दजी										
1993	2493	2 उमरावचन्दर	माता	विषवा	75							
		3 उपा	पत्नी	वि	34	मैट्रिक		पुत्र 2, पुत्री 1				
		धो गुलाबचन्द सौपडू	प प्र	वि	49	मैट्रिक	दृषि	श्वे म माकडी (बुल दगहर)	2303 चन्द्रवता का घेर, रामलवाजी का रास्ता, जयपुर			
1994	2319	पुत्र स्व श्री धमचन्दजी										
		2 पमलादेवी	माता	विषवा	74	साक्षर						
		3 कलाशदेवी	पत्नी	वि	46	मैट्रिक						
		धो धनपतसाध सौपडू	प प्र	वि	70							
		पुत्र श्री गणेशीलालजी										
		2 पम्रादेवी	पत्नी	वि	60							
1955	1472	3 सम्पललाल	पुत्र	वि	50	मैट्रिक	नौकरी					
		4 तिताचन्दरी	पुत्रवधू	वि	49							
		5 चन्दा	पौत्री	ध्रुवि	19	बी काम						
		6 दानमल	पौत्र	ध्रुवि	18							
		7 युवराज	पौत्र	ध्रुवि	16							
		धो पमालाल सौपडू	प प्र	विपुत्र	65	मैट्रिक	रुपि	जन श्वे माकडी (बुल दगहर)	भण्डारी भवन, चौपा चौराहा, एम एस बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर			
पुत्र श्री श्यामलालजी												
1995	1472	2 राजदुमार	पुत्र	वि	36	मिडिल	रत्न व्यवसाय					
		3 गुनीना	पुत्रवधू	वि	31	मिडिल						
		4 रश्मि	पुत्री	ध्रुवि	13							
		धो पमालाल सौपडू	प प्र	विपुत्र	65	मैट्रिक	रुपि	जन श्वे माकडी (बुल दगहर)	भण्डारी भवन, चौपा चौराहा, एम एस बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर			

1996	1737	श्री प्रदीपकुमार सौंघड़ पुत्र स्व. श्री महाराजसिंहजी	प. प्र.	अवि.	23	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे. जैन	डीडवाना	म न 5458, के जी बी. का रास्ता, जोहरी वाजार, जयपुर
		2. केसरदेवी	माता	विधवा	48					
		3. अजयकुमार	भ्राता	अवि.	20	मैट्रिक	व्यवसाय			
		4. सुनीता	वहिन	अवि.	24	मैट्रिक				
1997	2093	श्री फरजनलाल सौंघड़ पुत्र श्री चम्पालालजी	प. प्र.	वि.	79	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्वे ते		एम.एस बी. का रास्ता फो न 42983 579955
		2. पन्नालाल	पुत्र	वि.	59	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		3 रोशनलाल	पुत्र	वि.	46	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		4 जवाहरलाल	पौत्र	वि.	39	इन्टर	रत्न व्यवसाय			
		5. राजकमल	पौत्र	वि.	36	एम.बी.बी.एस	डॉक्टर			यू. एस ए., बम्बई
		6. कमलकुमार	पौत्र	वि.	28	बी कॉम.	जवाहरात			
		7. राकेश	पौत्र	अवि.	26	बी.एससी.	सर्विस			
		8. रविकुमार	पौत्र	,,	18		शि. कक्षा 11			
		9 राशू	पौत्र	,,	16		शि. कक्षा 10			
		10. मोहनलाल	पौत्र	,,	15		शि. कक्षा 8			
		11. उमरावदेवी	पत्नी	वि.	75	साक्षर				
		12. उमरावदेवी	पुत्रवधू	वि.	54	मैट्रिक				
		13. चित्रादेवी	पुत्रवधू	वि.	37	मैट्रिक				
		14. आशादेवी	पुत्रवधू	वि.	38	बी ए.				
		15. मीनादेवी	पौत्रवधू	वि.	33	एम ए.				
		16. सुषमादेवी	पौत्रवधू	वि.	24	बी.ए.				
		17. रूबी	पौत्री	अवि.	19		शि. बी ए. (प्र.व.)			
		18. मोहिनी	पौत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 7			
1998	59	श्री मानसिंह सौंघड़ पुत्र स्व. श्री माणकचन्दजी	प.प्र.	वि.	55	साक्षर	रत्न दलाली	श्वे.मं.	डीडवाना	41/बी प्रताप निकुंज, आदर्शनगर मार्ग, जयपुर फो.नं 45551
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	50					
		3. अनिल कुमार	पुत्र	वि.	30	बी.ए. (द्वि.व)	रत्न व्यवसाय			
		4 संजूपारानी	पुत्रवधू	वि.	24	मैट्रिक				
		5. अशोक	पुत्र	अवि.	25	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		6. विनोद	पुत्र	अवि.	23	बी.कॉम., एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय			
		सियाल								
1999	1263	श्री मोहनलाल सियाल पुत्र श्री कन्हैयालालजी	प. प्र.	अवि.	23	बी कॉम एलएल.बी	कार्या. सहायक	जैन	उदयपुर	47, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर भारतीय जीवन बीमा निगम मण्डल कार्यालय भवानीसिंह रोड, जयपुर फो.नं 69817

पौत्र-1, प्रपौत्री-2

पौत्र-1

2005	2117	श्री किस्तूरचन्व सुकलेचा पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्दजी	प.प्र.	वि.	50	मैट्रिक	दवा-व्यवसाय	श्वे.स्था.	583, काशीनाथजी की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर फो नं. 46915	राष्ट्रीय मेडिकल स्टोर, लाल भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर फो.न. 74775
		2. बसन्तकंवर	माता	वि.	72	मिडिल				
		3 सरला	पत्नी	वि.	47	मैट्रिक				
		4. कमलचन्द	भ्राता	वि.	45	बी कॉम.	व्यापार			राष्ट्रीय युनी एजेसी, 5, नारायणसिंह मार्ग, पुलिस भेमोरियल, जयपुर फो. 64327
		5. करुणा	भ्रा.वधू	वि.	38	मिडिल				
		6. सुनीलकुमार	पुत्र	अवि.	21	बी.एस.सी.	व्यापार			
		7. सुनीता	पुत्री	अवि.	22		शि. बी.ए.(अ.व.)			
		8. सगीता	पुत्री	अवि.	19		शि. बी.ए.(द्वि.व.)			
2006	2117	श्री किशोरमल सुकलेचा पुत्र श्री इन्द्रमलजी	प.प्र.	वि.	43	एम.बी.बी.एस., एम.डी.	डाक्टर	जैन जोधपुर	बी-338, जनता कालोनी, जयपुर	
		2. मीना	पत्नी	वि.	32	हा.सै.				
		3. मनीषा	पुत्री	अवि.	15		शि. सैक.	पुत्रियाँ-3		
2007	1200	श्री कुशलचन्व सुखलेचा पुत्र श्री महादेवलालजी	प.प्र.	वि.	43		रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	सुखलेचा भवन, गोपालजी का रास्ता, जयपुर, फो.79669	नवरम जैम्स, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर
		2. पदमा	पत्नी	वि.	39					
		3. राजकुमार	पुत्र	अवि.	18		शि. बी.ए. (द्वि.व.)			
		4. संजय	पुत्र	अवि.	16		शि. हा.सै.			
		5. शालिनी	पुत्री	अवि	13		शि. कक्षा 8			
2008	175	श्री घीसीलाल सुखलेचा पुत्र स्व. श्री फूलचन्दजी	प.प्र.	वि.	45	हा.सै.	नौकरी	श्वे.स्था.	3977, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता; जौहरी बाजार, जयपुर	पी. डब्लू. डी., जयपुर
		2. तारा	पत्नी	वि	40	साक्षर				
		3. कमलचन्द	पुत्र	अवि.	18	हा.सै.	वेरोजगार			
		4 प्रकाशचन्द	पुत्र	अवि.	16	हा.सै.	"			
2009	818/ 875/ 174	श्री वीपचन्व सुखलेचा पुत्र स्व. श्री इन्द्रचन्दजी	प.प्र.	वि.	55	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	3977, एस एम.बी. का रास्ता, जयपुर, फो.न. 42830	
		2. लक्ष्मीदेवी	माता	विधवा	85	साक्षर				
		3. विमराचन्द	पुत्र	वि.	32	हा.सै.	रत्न दलाली			
		4. पवनदेवी	पुत्रवधू	वि.	27	"				
		5. हीराचन्द	पुत्र	अवि	25	"	रत्न दलाली			
		6. रिखचन्द	पुत्र	"	23	बी.कॉम.	"	पुत्र-2, पुत्री-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2010	1128	श्री धनपतसिंह सुलतेचा पुत्र स्व श्री सुधीनालजी	प प्र	वि	55	इंटर	रत्न व्यवसाय	श्व स्या		1995 पीतिया वा पीर, जोहरी बाजार जयपुर	
		2 हीराकवर	पत्नी	वि	52						
		3 राजेद्रकुमार	पुत्र	वि	31	बी कॉम					
		4 दीपा	पुत्रवधू	वि	27	हा स					
		5 नरेद्रकुमार	पुत्र	धवि	26	बी काम					
		6 महेद्रकुमार	पुत्र	धवि	24	इंटर					
										गोत्र-2, पीत्री 1	
2011	2108	श्री पद्मचंद् सुलतेचा पुत्र स्व श्री नपरत्तनमलजी	प प्र	वि	63		रत्न व्यवसाय	श्व स्या		569, बाभीगावजी बी पत्नी, मापावजी वा रास्ता जयपुर, पो नं 49091	
		2 राजकवर	पत्नी	वि	58						
		3 प्रेमचन्द	पुत्र	वि	38		रत्न व्यवसाय				
		4 रतनदेवी	पुत्रवधू	वि	34						
		5 धर्मोत्त कुमार	पुत्र	वि	30		रत्न व्यवसाय				
		6 मजु	पुत्रवधू	वि	28						
		7 विनोद	पुत्र	वि	25		रत्न व्यवसाय				
		8 ममता	पुत्रवधू	वि	22						
										गोत्र 1, पीतिया 2	
2012	1013/794	श्री प्रकाशचंद् सुलतेचा पुत्र स्व श्री पूनमचंद्जी	प प्र	वि	40		व्यवसाय	श्व स्या		गोवावजी का रास्ता बाभीगावजी बी पत्नी, जयपुर, पो 64042	
		2 मायराकवर	पत्नी	वि	35						
		3 धनित्र	पुत्र	धवि	18		मि बी कॉम				
		4 सुनीता	पुत्रा	धवि	16		मि मुद्र				
		5 सुनीत्र	पुत्र	धवि	15		मि मिडिल				
2013	558	श्री क्लेशचंद् सुलतेचा पुत्र स्व श्री माणुचंद्जी	प प्र	वि	55	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्व स्या		2304, रामचंद्जी वा रास्ता जोहरी बाजार जयपुर	
		2 ज्ञानकुमारी	पत्नी	वि	50	मिडिल					
		3 जयत्रिनेद्रकुमार	पुत्र	वि	35	इंटर	रत्न व्यवसाय				
		4 प्रेम	पुत्रवधू	वि	30	बी ए					
		5 प्रवीणकुमार	पुत्र	धवि	25	मिडिल	रत्न व्यवसाय				
										पुत्र 2	
2014	2306	श्री बहादुरसिंह सुलतेचा पुत्र श्री बनवीरसिंहजी	प प्र	वि	42	श्र म	रत्न व्यवसाय	श्व स्या	घागरा	4377 उदमचंद्जी वा पीर जोहरी बाजार, जयपुर	
		2 मतोपचाई	माता	विधवा	62						

2015	1542	3. सुलोचना 4. शशि 5. मनीष श्री महेन्द्रकुमार सुखलेचा पुत्र श्री पन्नालालजी	पत्नी पुत्री पुत्र प.प्र.	वि. अवि. अवि. वि.	34 16 13 36	सैके. बी ए.	शि. कक्षा 11 शि. कक्षा 9 रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. आगरा पुत्र-1, पुत्रियां-2 श्वे.स्था.	कल्याण पथ, पुलिस मेमोरियल के पास, जयपुर, फो 64330 काशीनाथजी की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर, फो. 64042	3966 के.जी.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, फो नं. 40123	
2016	1010	2. सुधारानी श्री महेन्द्रकुमार सुखलेचा पुत्र स्व. श्री पूनमचन्दजी	पत्नी प.प्र.	वि वि.	32 32	बी.ए. मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे.स्था.	583, काशीनाथजी की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर फो.न. 46317	(1) एम. सुखलेचा एण्ड कम्पनी (2) जनरल साइन्टि- फिक कम्पनी, किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर फो.न. 72448	
2017	2170	2. चन्द्रकवर 3. कान्ता श्री मिलापचन्द सुखलेचा पुत्र स्व. श्री उमरावमलजी	माता पत्नी प. प्र	विधवा वि. वि	60 30 64	हा सै. मिडिल बी.एससी	व्यापार	श्वे.स्था.	583, काशीनाथजी की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर फो.न. 46317	(1) एम. सुखलेचा एण्ड कम्पनी (2) जनरल साइन्टि- फिक कम्पनी, किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर फो.न. 72448	
2018	804	2. कचनकवर 3. हरीशचन्द्र 4. मीना 5. चरित्रकुमार 6. लीला 7. पलक श्री मोतीचन्द सुखलेचा पुत्र स्व. श्री धरमचन्दजी	पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्री प.प्र.	वि. वि. वि. वि. वि. अवि. वि.	60 37 34 32 28 13 44	साक्षर बी.एससी. बी.ए इन्टर मैट्रिक बी ए.	व्यापार व्यापार व्यापार	शि कक्षा 8 मोटर वर्कशाप	पौत्र-2, पौत्री-1 श्वे. स्था	568, काशीनाथजी की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर फो. 72627	मै. वर्धमान मोटर कं. एम.आई. रोड, जयपुर फो. 73994
		2. शान्तीदेवी 3. पुष्पा 4. अन्जु 5. अरुण 6. अतुल 7. हीराचन्द 8. विमला 9. अजय 10. इन्द्रचन्द 11. विनोद 12. कमलचन्द 13. मजु 14. मनोज	माता पत्नी पुत्री पुत्र पुत्र भ्राता भ्रा व भतीजा भ्राता भ्रा व भ्राता भ्रा. व भ्राता	विधवा वि. अवि अवि. अवि वि वि. अवि वि. वि. वि. वि. अवि	61 37 17 18 13 40 36 14 38 33 25 18 23	सैके. मैट्रिक बी.एससी. मैट्रिक सैके. हा सै. मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक	शि. हा. सै शि. सै. शि. कक्षा 6 रत्न व्यवसाय शि कक्षा 8 रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय	पुत्र-2, पुत्री-1	मै. स्वरूप ट्रेडिंग कारपो. आलूदा हाउस चौडा रास्ता, जयपुर फो. 68276		

2026 1047	श्री सन्तोषचन्द्र सुकलेचा पुत्र स्व श्री रतनलालजी	प प्र.	वि	55	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था	1218, आचारवालो की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर फो. 67235
	2. सिरहकंवर	भूआ	विधवा	74	शिक्षित			
	3. शशिकला	माता	विधवा	55	मिडिल			
	4. सोहनकवर	पत्नी	वि	50	शिक्षित			
	5. गजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	30	मैट्रिक	व्यवसाय		
	6. अनीता	पुत्रवधू	वि	24	मैट्रिक			
	7. सुरेश	पुत्र	अवि	26	हा.सं.	व्यवसाय	पुत्र-2, पुत्रियां-2	
	8. उषा	पुत्री	अवि.	23	हा.सं.			
2027 1000	श्री सम्पतसिंह सुकलेचा पुत्र स्व. श्री मुन्नीलालजी	प.प्र	वि	52	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था	1995, सुखलेचा भवन, पीतलियो का चौक, जयपुर
	2. विजयलक्ष्मी	पत्नी	वि	47	मैट्रिक			
	3. सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	26	हा सं			
	4. निर्मला	पुत्री	अवि	24	बी ए.			
	5. देवेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	22		शि. बी.कॉम. (द्वि.व.)		
	6. शशि	पुत्री	अवि.	20		शि. बी ए (द्वि.व.)		
	7. नवीनकुमार	पुत्र	अवि.	16		शि. हा.सं.		
2028 1011	श्री सुरेन्द्रकुमार सुकलेचा पुत्र स्व. श्री पूनमचन्द्रजी	प प्र.	वि.	38	बी.कॉम	व्यवसाय	श्वे.स्था.	काशीनाथजी की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर, फो. 64042
	2 सुधा	पत्नी	वि.	38	हा सं.			
	3. सुधीर	पुत्र	अवि	15		शि. कक्षा 7		
	4. ममता	पुत्री	अवि	14		शि. कक्षा 6		
	5. प्रवीन	पुत्र	अवि	13		शि कक्षा 5		
2029 1543	श्री हरीशचन्द्र सकलेचा पुत्र श्री प्रेमचन्द्रजी	प प्र	वि	30	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. आगरा	4326, नथमलजी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर, फो.नं. 41523
	2. मधु	पत्नी	वि.	26	बी.ए.		पुत्री-1	
	<u>सचेंती, संचेती, सुजन्ती</u>							
2030 1714	श्री अजीतकुमार संचेती पुत्र श्री रतनलालजी	प. प्र.	वि	32	हाई स्कूल	दलाली	श्वे.स्था अलवर	एम.एस बी. का रास्ता, जयपुर फो.नं. 41928
	2. सुधा	पत्नी	वि	29	हाई स्कूल		पुत्र-1, पुत्रियां-2	
2031 160	श्री अर्जुनकुमार सचेंती पुत्र श्री मंवरसिंहजी	प प्र	वि	32		रत्न व्यवसाय		1477, बारह गरागोर का रास्ता, जयपुर
	2. पुष्पा	पत्नी	वि.	30			पुत्री 1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8	प्रमित	पौन	प्रति	16		शि हा ए			
		9	मृणाल	पौत्री	प्रति	14		शि रक्षा 9			
		10	मलद्व	पुत्र	नि	31	बी ई	ध्वजगाय			
		11	प्रभा	पुत्रपत्नी	नि	25	बी ए				
2043	1872	धी चम्पासाल पुत्रती	प	प्र	नि	71	निशित	टोपिया का ध्यापार			
		पुत्र स्व धी सुमीलासजी									
		2	रतनबाई	पत्नी	नि	56	गाधार				
		3	उषा	पुत्री	प्रति	23	बी ए				
2044	348	धी चम्पासाल सचेती	प	प्र	नि	34	एम ए	गौरी			
		पुत्र धी रतनवासजी									
		2	तारा	पत्नी	नि	32	हा म				
2045	959	धी जयचंभरसाल सचेती	प	प्र	नि	58	मैट्रिक	जगरस स्टोर			
		पुत्र स्व धी बसोभरसालजी									
		2	स तापदेवी	पत्नी	नि	53	निशित				
		3	विजयकुमार	पुत्र	नि	35	मैट्रिक	ध्वजगाय			
		4	धरजदेवी	पुत्रपत्नी	नि	32	मैट्रिक				
		5	उम्मेकुमार	पुत्र	प्रति	25	बी बीएम , एनएस बी	ध्वजगाय			
2046	863	धी जयसिंह सचेती	प	प्र	नि	36	बी बीएम	गौरी			
		पुत्र धी मंगलचंदजी									
		2	कमला	पत्नी	नि	33	निशित				
2047	673	धी शबाहरसाल सचेती	प्र	प	नि	42	बी बीएम , एनएस बी	रेक रोया			
		पुत्र धी एम सी मधेगी									
		2	बृजदेवी	पत्नी	नि	39	निशित				
		3	एम एम सचेती	भ्राता	प्रति	20		नि बी बीएम (प्र प)			
		4	सी एम सचेती	भ्राता	प्रति	18		नि बी ए (प्रि य)			
		5	हेमचंदि	पुत्र	प्रति	18		नि बी ए (प्र प)			
		6	मरिता	पुत्री	प्रति	17		नि हा मी			

पुत्र 1, पुत्री 1

पुत्र 3

पुत्र 2, पुत्री 1

पुत्र-1, पुत्री-1

2048	137	श्री जैतचन्द सचेंती पुत्र श्री छोटेलालजी	प प्र.	वि.	58	साक्षर		श्वे.स्था. अलवर	मंडावत भवन, ऊँचाकु आ, हृदियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो. 45725
		2. सन्तोपकंवर	पत्नी	वि.	56	साक्षर			
		3. प्रेमचन्द	पुत्र	वि.	40	पी यू.सी	रत्न व्यवसाय		
		4. सुशीला	पुत्रवधू	वि.	32	साक्षर			
		5. निर्मलचन्द	पुत्र	वि.	36	हा.सँ	रत्न व्यवसाय		
		6. सायरवाई	पुत्रवधू	वि.	30	साक्षर			
		7. प्रकाशचन्द	पुत्र	वि.	32	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय		
		8. सुशीलाबाई	पुत्रवधू	वि.	28	साक्षर			
2049	910	श्री ताराचन्द सचेंती पुत्र स्व श्री चांदमलजी	प प्र.	वि	35	बी.कॉम	व्यवसाय	श्वे.स्था. अलवर	1-घ-16, जवाहरनगर, जयपुर
		2. नीलकमल	पत्नी	वि	29	बी.ए.			
2050	1995	श्री ताराचन्द सचेंती पुत्र स्व. श्री सागरमलजी	प प्र.	विधुर	60	मैट्रिक	बधेज साडियो का व्यापार	श्वे जैन.	3946, सचेती हाउस, 263-64, मालीराम एम एस.बी.का रास्ता, फकीरचन्द, जयपुर, फो. 43494 जौहरी बाजार, जयपुर फो. नं. 42004
		2. विजयकुमार	पुत्र	वि.	32	बी कॉम	रत्न व्यवसाय		
		3. उमा	पुत्रवधू	वि.	30	बी ए.			
		4. अशोककुमार	पुत्र	वि.	27	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय		
		5. निर्मला	पुत्रवधू	वि.	25	हा सँ.			
		6. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	21	बी ए. (द्वि. व.)	रत्न व्यवसाय		
		7. रूपा	पौत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 7		
2051	2361	श्री निहालचन्द सचेंती पुत्र श्री केदारमलजी	प. प्र.	वि.	55		रत्न व्यवसाय	श्वे ते.	हृदियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2. जतनदेवी	पत्नी	वि.	42				
		3. श्रीमप्रकाश	पुत्र	वि.	33				
		4. शान्तीलाल	पुत्र	वि	28				
		5. हसराम	पुत्र	वि.	22				
		6. भूमरमल	पुत्र	वि.	39				
		7. सरोज	पुत्रवधू	वि.	22				
		8. मजु	पुत्रवधू	वि.	19				
		9. सन्तोष	पुत्रवधू	वि.	25				
2052	762	श्री निहालचन्द सचेंती पुत्र श्री इन्द्रचन्दजी	प. प्र.	वि.	36	बी कॉम	दलाली	श्वे.स्था. अलवर	ए-32, जनता कॉलोनी, फो. 62656 जयपुर-4 फो. 45142 पी.पी
		2 चंदादेवी	पत्नी	वि	33	हा.सँ.			

पुत्र-1, पुत्रियाँ-3

पुत्र-1, पुत्री-1

पुत्र-1

पुत्री-1

पुत्र-1, पुत्रियाँ-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2053	1942	श्री मोरतनमल सचेती पुत्र स्व श्री शिन्धीलालजी	प प्र	वि	50	मैट्रिक	व्यापार	श्वे म		3939, सोगानी भवन, मोतीसिंह भोमिया का रास्ता जोहरी बाजार जयपुर फोन 43493	
		2 ललिता	पत्नी	वि	40						
		3 मधु	पुत्री	श्रवि	22	एम ए					
		4 अशाक	पुत्र	श्रवि	20		शि हा स				
		5 राजेन्द्र	पुत्र	श्रवि	18		शि कक्षा 10				
		6 विनाय	पुत्री	श्रवि	15		शि कक्षा 9				
2054	1727/ 1741	श्री यदमचंद सुजती पुत्र स्व श्री मुन्शीलालजी	प प्र	वि	60	मिडिल	विश्राम	श्वे म	घागरा	नाटाणो भवन, मठ का कुष्ठा, के जी बी का रास्ता, जयपुर फोन 40383पी पी	कोष्ठापरेटिव सोसायटी
		2 मीनादेवी	पत्नी	वि	55	मिडिल					
		3 निमलकुमार	पुत्र	वि	34	मैट्रिक	नौकरी				
		4 चंद्रकान्ता	पुत्रवधू	वि	30	मिडिल					
		5 नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	32	बी काम	व्यवसाय				
		6 दीपकला	पुत्रवधू	वि	28	बी ए (ग्रानस)					
		7 नरेशकुमार	पुत्र	वि	30	मैट्रिक	व्यवसाय				
		8 उमिता	पुत्रवधू	वि	27	मैट्रिक					
2055	1983	श्री पद्मलाल सचेती पुत्र श्री सागरमलजी	प प्र	विपुत्र	80			जन		म न 5200, रेगरा की काठी घाटगेट जयपुर स्टोर, तेलीघाटा, पटको का रास्ता, जयपुर	एम एम जनरन
		2 मानमल	पुत्र	वि	45	मिडिल	दुकान				
		3 सतीपकुमार	पुत्र	वि	38	मिडिल					
		4 चंद्रकान्ता	पुत्रवधू	वि	35						
		5 जनाबाई	पुत्रवधू	वि	30	शिक्षित					
		6 कुशलचन्द्र	पुत्र	श्रवि	16		शि कक्षा 9				
2056	2043/ 1696	श्री पूनमचंद सुजती पुत्र स्व श्री इंदरचंदजी	प प्र	वि	43	इंटर	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		2454, माहूजी का चौर, पी वालो का रास्ता, जयपुर फोन 45498	
		2 विमला	पत्नी	वि	38	मैट्रिक					
		3 अमितकुमार	पुत्र	श्रवि	17		शि हा सं				
2057	853	श्री प्रकाशचंद सचेती पुत्र श्री रतनलालजी	प प्र	वि	38	बी एससी (द्वि व)	व्यवसाय	श्वे स्या		19 ए.वरडिया कालोनी म्यूजियम रोड, जयपुर फोन 77641	
		2 चम्पादेवी	माता	विधवा	60	मिडिल					
		3 शशि	पत्नी	वि	34	हा सं					

2058	1772	श्री प्रकाशवीर संचेती पुत्र श्री जयचन्दजी 2. मधु 3. सुनीलकुमार 4 अनिलकुमार	प प्र पत्नी भ्राता भ्राता	वि. वि अवि. अवि.	29 25 20 17	हा. सै वी एससी हा. सै	व्यवसाय वेरोजगार वेरोजगार	श्वे.स्था. टोडाभीम पुत्र-2	4354, नथमलजी का चौक, के.जी बी. का रास्ता, जयपुर	श्री महावीर मैटल वर्क्स, 4828 सोतियो का मौहल्ला, के.जी बी. का रास्ता, जयपुर-3
2059	228	श्री बालचन्द संचेती पुत्र श्री हरकचन्दजी 2 जोरावरवाई 3 ललित 4 अनिल 5. प्रदीप <u>संचेती</u>	प. प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	49 47 23 19 16	मैट्रिक साक्षर एम कॉम शि. वी ए. (अं.व) शि. सै.	एकाउन्टेन्ट वेरोजगार शि. वी ए. (अं.व) शि. सै.	जैन रायपुर (भालावाड)	सी-8, मोतीमार्ग, वापूनगर, जयपुर फो.न. 68265	इण्डियन ट्रेडिंग कारपो., मनीरामजी की-कोठी, हल्दियो का रास्ता, जयपुर फो न. 44981
2060	1820	श्री भंवरमल संचेती पुत्र स्व. श्री सिरहमलजी 2 किस्तूरदेवी 3 श्री पालकुमार 4 सुमन 5. सुनैना	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्री पुत्री	वि. वि अवि. वि. अवि.	57 52 20 24 21	वी कॉम. साक्षर वी.कॉम वि. अवि.	व्येज वस्त्र व्यवसाय व्यवसायरत शि. एम बी वी.एस. (फाइनल) शि. एम.ए. (अ.व.)	श्वे मं. श्वे म	ए-5 विजय पथ, तिलकनगर, जयपुर फो.नं 46167	सिरहमल भंवरमल जैन, 247. जौहरी बाजार, जयपुर श्री साडिया 248 जयपुर
2061	1944	श्री भागचन्द संचेती पुत्र श्री गिन्नीलालजी 2 मधु	प.प्र. पत्नी	वि. वि	35 26	मैट्रिक मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म पुत्र-1, पुत्री-1	सेठी भवन, घी वालो का रास्ता, जौहरी वाजार, जयपुर	
2062	2139	श्री माणकचन्द संचेती पुत्र स्व. श्री कल्याणमलजी 2. विमला 3. अनिल 4. सुनील	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि अवि. अवि.	48 42 20 18	वी.कॉम. मैट्रिक शि. वी.ए. (द्वि व) शि. वी ए. (द्वि.व.)	कार्यालय सहायक शि. वी.ए. (द्वि व) शि. वी ए. (द्वि.व.)	श्वे.जैन	नथमलजी का कटला आगरा रोड, जयपुर	जनाना अस्पताल, जयपुर, फो. 78721
2063	437	श्री मोतीचन्द संचेती पुत्र स्व. श्री सुगनचन्दजी 2. डब्लूवाई 3. मधु	प प्र. माता पत्नी	वि विधवा वि.	48 70 45	वि विधवा साक्षर	नौकरी	श्वे म. पुत्र-1, पुत्री-1	महादेव की पीपली, एम एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	मं. अम्बर प्राइडिंग मिल्स, 3962, के.जी.बी का रास्ता जयपुर फो. 40911, ,, 44859

		6. निरंजना	भ्रा.व.	वि.	36	मैट्रिक				
		7 निर्मला	भ्रा.व.	वि.	30	मैट्रिक				
		8. निधि	पुत्री	अवि.	22	बी.ए.				
		9. अन्नजली	भतीजी	अवि.	14		शि. कक्षा 7			
2070	983	श्री विनयचन्द सचेंती	पुत्र	अवि	20	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		पुत्र श्री ताराचन्दजी	प. प्र.	वि.	39	बी एससी.	मोटर वर्कशाप			
		2. कान्ता	माता	विधवा	61	मिडिल				
		3. पुष्पा	पत्नी	वि	37	इन्टर				
		4. शैलेष	पुत्र	अवि	16		शि.बी.ए.(प्र.व.)			
		5. राजेश	पुत्र	अवि.	15		शि. हा सै			
2071	200	श्री विमलचंद संचेती	प. प्र.	वि.	42	डिप्लोमा	रत्न व्यवसाय			
		पुत्र श्री पदमचन्दजी				(मैकेनिकल)				
		2. विमला	पत्नी	वि.	41	बी.ए.				
		3. पंकज	पुत्र	अवि.	18		शि. बी.कॉम.			
		4 नीरज	पुत्र	अवि.	16		शि. हा.सै.			
2072	123/	श्री शान्तीचन्द संचेती	प. प्र.	वि.	41	बी एससी.	रत्न व्यवसाय			
	1931	पुत्र स्व. श्री सौभाग्यचन्दजी								
		2. पुष्पादेवी	पत्नी	वि.	37	मैट्रिक				
		3. संदीप	पुत्र	अवि.	16		शि. सैक.			
		4. शिरीष	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 9			
2073	986	श्री शुभकररा सचेंती	प. प्र.	वि	47	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय			
		पुत्र श्री प्यारेलालजी								
		2 प्यारेलाल	पिता	विधुर	80	शिक्षित				
		3. कान्तादेवी	पत्नी	वि.	39	मैट्रिक				
		4. देवेन्द्रकुमार	पुत्र	वि.	24	बी कॉम.	रत्न दलाली			
		5. इन्द्रा	पुत्रवधू	वि.	22	बी कॉम.				
		6. दिलीपकुमार	पुत्र	अवि.	22	एम कॉम.	रत्न दलाली			
		7 शरदकुमार	पुत्र	अवि.	21	बी.कॉम.	रत्न दलाली			
		8. राजेशकुमार	पुत्र	अवि.	18		शि. बी ए.			
2074	1575/	श्री संतोषचन्द सचेंती	प प्र.	वि.	47	बी.कॉम.	नौकरी			
	1238	पुत्र श्री कल्याणमलजी								
		2. पारसकंवर	पत्नी	वि.	38	सैक.				

पुत्र-1 पुत्रियां-5

श्वे.जैन. अलवर

म. 4778, सोतियो
का मोहल्ला, के.जी.बी.
का रास्ता, जयपुर
फो न 43413

अजन्ता ऑटोमोवाइल्स
कारपोरेशन, एम.आई.
रोड, जयपुर

श्वे.स्था. अलवर

121, संचेती मार्केट,
बापू बाजार, जयपुर

श्वे.स्था. अलवर

34-अ, तस्तेशाही रोड, 3985, सीधड हाउस,
कानोता बाग, जवाहर एम.एस.बी. का
लाल नेहरू मार्ग,
फो.नं. 64925 रास्ता, जयपुर
फो.नं. 43412

जैन नवलगढ़

3707, कालो का
मोहल्ला, के.जी.बी का
रास्ता, जयपुर
फो नं. 45154

श्वे.स्था. किशनगढ़

एफ-409, गाधीनगर, पी.ए. टू. चैयरमैन,
जयपुर, फो. 68346 सर्विस ट्रिब्यूनल,
राज. हाई कोर्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 विनयकुमार	पुत्र	भवि	24	बी एससी डि इतवट्टो इजी	नीकरी				विल्डिंग, जयपुर
		4 मधु	पुत्री	भवि	22	एम ए					
2075	1970	धो सतोषचन्द सचेंती पुत्र श्री धर्मचन्दजी	प प्र	विधुर	67	बी ए	सेवा निवृत्त	श्व म		भवानीसिंह माग, घाबू स्टोरेज के सामने, जयपुर, फो 69397	
		2 शलजा	पुत्री	भवि	27		शि एम ए (प्र व)				
		3 नीरजा	पुत्री	भवि	22		शि बी ए (प्र व)				
		4 अनूजा	पुत्री	भवि	20		शि बी ए (प्र व)				
		5 डा चंद्रकुमार	पुत्र	वि	39	एम डी	डानटर				
		6 डा वन्दना	पुत्रवधू	वि	32	एम डी	डॉक्टर			पुत्र 1, पुत्रियाँ 2	
2076	922	श्रीमती सरलादेवी सचेंती पत्नी स्व श्री के सी सचेंती	प प	विधवा	40					7ए वरडिया नॉनोनी, जयपुर, फो 61714	
		2 रेणु	पुत्री	भवि	16		शि हा स				
		3 मधु	पुत्री	भवि	18		शि बी ए (प्र व)				
		4 अशोक	पुत्र	भवि	19		शि बी ए (प्र व)				
2077	532	श्री सुधारसनाथ सचेंती पुत्र स्व श्री हाजियारमलजी	प प्र	वि	43	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे म	दिल्ली	667, प्रादश नगर, सेवा सदन के सामने, जयपुर	
		2 रेखा	पत्नी	वि	34	एम ए					
		3 कुशलचन्द	भ्राता	भवि	25	बी कॉम	रत्न व्यवसाय			पुत्र 2 पुत्री 1	
2078	425/ 691	श्री एच एम सचेंती पुत्र श्री सीमाधरसिंहजी	प प्र	वि	31	मास्टर फ्रां रीजनल धेरिग	नहा नगर नियोजक	श्वे स्था	भीलवाडा	जयपुर डवलपमेंट प्रॉथारिटी जयपुर	फो 63234/35
		2 सरोज	पत्नी	वि	28	बी एससी, एम ए, एम कॉम	शिक्षक			पुत्र-1	शिक्षा सदन, उदयपुर
		3 लहरसिंह	भ्राता	भवि	29	बी ए	व्यवसाय				
2079	2372	श्री हरीचन्द सचेंती पुत्र श्री प्यारेखालजी	प प्र	वि	41	मैट्रिक	नीकरी			148, पाथिया हाउस जयपुर, फो 43296	
		2 मोहनदेवी	पत्नी	वि	40	साधार					
		3 मगनराज	पुत्र	वि	30					पुत्र 1, पुत्री 1	
		4 विजयलक्ष्मी	पुत्रवधू	वि	28						

2080 2044	श्री हीराचन्द सच्चेंती पुत्र श्री सुगनचन्दजी 2. डबलूबाई 3. लीलादेवी	प.प्र. माता पत्नी	वि. विधवा वि.	38 70 32	मैट्रिक रत्न व्यवसाय	श्वे स्था. पुत्र-2, पुत्रियाँ-2	सोतियो का मोहल्ला, बारह गणगीर का के.जी.बी का रास्ता, रास्ता, जयपुर जयपुर फो.नं. 47061
2081 2177	<u>सुराणा</u> श्री अनिलसिंह सुराणा पुत्र श्री पर्वतसिंहजी 2. नीलम	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	29 24	इन्टर बी.ए.	रत्न व्यवसाय श्वे. स्था आगरा	3978, एम.एस बी का एलाइड जेम्स कारपो., रास्ता, जौहरी बाजार, भाडिया भवन, जयपुर, जौहरी बाजार, फो.न. 42018 पी.पी. जयपुर 40747
2082 1219/ 796	श्री अमोलकचन्द सुराणा पुत्र श्री रतनलालजी 2. मुष्तादेवी 3. प्रमोद 4. अनिल	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	48 45 25 22	मैट्रिक मिडिल	राज्य सरकार सेवा श्वे. स्था. शि. बी.ए. (द्वि.व.) शि. बी कॉम.	फैन्सी हाउस, हल्दियों रा. राज्य वि मडल, का रास्ता, मुल्तान पावर हाउस, फोटो स्टूडियो, जयपुर जयपुर
2083 2409	श्री कन्हैयालाल सुराणा पुत्र श्री इन्दरचन्दजी 2. सुन्दरदेवी 3. मानरूप 4. राजेश	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	50 45 22 16	मैट्रिक मिडिल	व्यापार श्वे ते चुरू पुत्र 1	1040, सिधी जी का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर
2084 1990	श्री कन्हैयालाल सुराणा पुत्र श्री मोतीलालजी 2. बसन्तकला 3. जगतसिंह 4. पुष्पा 5. महेन्द्र 6. सावित्री 7. बसन्तकुमार 8. मंजु 9. सुशील 10. अनीता 11. मजु	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्रवधू पुत्री	वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. वि. अवि	70 65 48 44 46 44 36 33 34 31 21	बी एससी., एलएल.बी टैक्सटाइल्स ऐंजी. एम ए. बी.ई. (सिविल) बी.ए., बी.एड. बी.ई (इलं.) एम.ए. बी.ई (मैके.) एस ए.	सेवा निवृत्त मौजा फंक्ट्री नौकरी शिक्षक पचायत स्कूल फंक्ट्री (कट्रोल पेनल्स) इन्जीनियर शि. एम.एससी	श्वे मं डी-182, जगराज मार्ग, वापूनगर, जयपुर-2 फो न 75659 जवाहर नगर कॉलोनी टोंक रोड, जयपुर राजस्थान स्टेट सा. सिंचाई विभाग, मालवीया नगर, जयपुर चण्डीगढ

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
		12 दीपक	पौत्र	अवि	17		शि वक्षा 11					
		13 अजय	पौत्र	अवि	15		शि वक्षा 10					
2085	2365	श्री कमलचन्द सुरारणा पुत्र श्री हुल्लासमलजी	प प्र	वि	32	पी यू सी	रत्न व्यवसाय		पुत्र 2, पुत्रियां 2	श्वेत	वाडिया बिल्डिंग हृदियो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर का 40302	
		2 भवरदेवी	माता	वि	68							
		3 जया	पत्नी	वि	28	बी ए			पुत्रियां 2			
2086	2145	श्री कुवासचन्द सुरारणा पुत्र स्व श्री राजमनजी	प प्र	वि	51	निशित	रत्न व्यवसाय			श्वेत	ताल कटला, हृदियो का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फो 42628	गद्दी फो 41607 64345
		2 विमलचन्द	भ्राता	वि	49		"					
		3 प्रकाशचन्द	"	"	47		"					
		4 कमलचन्द	"	"	45		"					
		5 पारसचन्द	"	"	43		"					
		6 निमलचन्द	"	अवि	35							
		7 पदमाकुमारी	पत्नी	वि	42	हा स						
		8 अमरकुमारी	भ्रा पत्नी	"	43	"						
		9 शोभाकुमारी	"	"	35	"						
		10 प्रेमकुमारी	"	"	34	"						
		11 माणककुमारी	"	"	33	"						
		12 देवेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	30	बी कॉम	रत्न व्यवसाय					सूयाक
		13 केयेन्द्रकुमार	"	"	26	"	"					
		14 पुष्पेन्द्रकुमार	भतीजा	"	28	"	"					
		15 चन्द्रकुमार	"	"	22	"	"					
		16 प्राचीरकुमार	"	"	20	"	निशार्थी					
		17 सलिलाकुमारी	पुत्रवधू	"	26	"	"					
		18 भीताकुमारी	भती वधू	"	24	"	"					
		19 दीपाकुमारी	पुत्रवधू	"	22	"	"					
		20 मधु	भतीजी	अवि	17	"	"					
		21 कविता	पुत्री	अवि	17	"	"					
		22 सुनीता	भतीजी	अवि	19	"	"					
		23 चन्पा	भतीजी	अवि	19	"	"					सूयाक

	24.	प.रुजकुमार	भतीजा	अवि.	16		शिक्षार्थी		न्युयार्क	
	25.	प्रजयकुमार	भतीजा	अवि.	13		"		न्युयार्क	
	26.	मिनीता	भतीजी	अवि.	17		"		अगरतला, (आसाम)	
	27.	नमिता	भतीजी	अवि.	14		"		अगरतला, (आसाम)	
2087	2497	श्री केमरीचन्द्र सुराणा	प.प्र.	वि.	56	मिडिल	राज्य सेवानिवृत्त नौकरी	श्वे.म.	909, नाटानियों का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर	श्री वीर बालिका सचालक मंडल, जयपुर
		पुत्र स्व. श्री कानकमलजी								
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	53	मिडिल				
		3. शान्ति	पुत्री	अवि.	19		शि. वी.ए. (प्र.व.)			
2088	184	श्री गुमानमल सुराणा	प.प्र.	वि.	77	शिक्षित	रत्न व्यवसाय	श्वे.ते.	वी-121, गणेशनगर, मोतीडूंगरी, जयपुर	
		पुत्र स्व. श्री सूरजमलजी								
		2. मनोहरदेवी	पत्नी	वि.	55	शिक्षित				
		3. दानमता	पुत्र	वि.	35	मिडिल	रत्न व्यवसाय			
		4. विमलादेवी	पुत्रवधू	वि.	33	हा.सं.				2014, पीतलिया भवन, पीतलियों का चौक, जयपुर-3
2089	855	श्री जगमोहनलाल सुराणा	प.प्र.	वि.	59	हाई स्कूल	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	2413, घोवालो का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर, फो.नं. 44588 40008	
		पुत्र स्व. श्री जमनीसहायजी								
		2. धनकवर	माता	विधवा	74					
		3. कंचनदेवी	पत्नी	वि.	55		रत्न व्यवसाय			
		4. अशयकुमार	पुत्र	वि.	31					
		5. सुपमा	पुत्रवधू	वि.	28					
		6. सपना	पुत्रवधू	अवि.	22		शिक्षार्थी			
		7. विनीत	पौत्र	"	15		"			
2090	1870/1771	श्री जतनमल सुराणा	प.प्र.	वि.	46	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे.मं.	2237, हल्दियों का रास्ता, विजयलाल जीहरी की गली, जयपुर-3	
		पुत्र स्व. श्री चांदमलजी								
		2. कान्तादेवी	पत्नी	वि.	44	मिडिल				
		3. देवेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	20		शि. वी.कॉम., (द्वि.व.)			
		4. चेतन	"	"	17		शि. हा.सं.			
2091	1831	श्री जसवन्तसिंह सुराणा	प्र.प्र.	वि.	50	वी.ए.	सहायक लेखाधिकारी	श्वे.म.	पी-12, मधुवन वेस्ट, टोक फाटक, जयपुर	डेयरी फंडरेशन, जयपुर फो.नं. 78791
		पुत्र श्री मूरेलालजी								
		2. सुन्दरदेवी	पत्नी	वि.	45	साक्षर				
		3. कमल	पुत्र	अवि.	15		शि. हा.सं.			
		4. त्रिशाल	पुत्र	"	13		शि. कक्षा 9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2092	2530	श्री जिते ब्रसिंह सुराणा पुत्र श्री समथसिंहजी	प प्र	वि	43	बी ई	मैनजर	जन	झाताबाड	ए 2, बापूतगर, जयपुर	51/IV/5A, भेल टाउनशिप रानीपुर हरिद्वार (पू.पी.) रोजबुड पब्लिक स्कूल, जयपुर, फो 66365
		2 कल्पना	पत्नी	वि	39	एम ए डि इन फ्रीच	प्रध्यापिका				
		3 सपना	पुत्री	प्रवि	15		शि सक				
2093	26/ 1275	श्री जीवराज सुराणा पुत्र स्व श्री जेठमलजी	प प्र	वि	53	साक्षर	दलानी	श्वे स्या		सुराणा सदन, इ 36, धानदपुरी, पीलवा गार्डन के पीछे, मोती डू गरी रोड, जयपुर	
		2 कचनदेवी	पत्नी	वि	48	साक्षर					
		3 पारसकुमार	पुत्र	वि	27	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		4 सरिता	पुत्रवधू	"	25	"					
		5 हेमचंद	पुत्र	प्रवि	22	बी गॉम	रत्न व्यवसाय				
2094	2447	श्री नरेशचंद सुराणा पुत्र श्री प्रसन्नचंदजी	प प्र	वि	31	बी गॉम	व्यापार	पोत्र-1			
		2 मदनबाई	माता	विधवा	55	साक्षर					
		3 चम्पा	पत्नी	वि	28	हा स					
2095	2049	श्री निमल कुमार सुराणा पुत्र श्री नयमलजी	प प्र	वि	55	मैट्रिक	पत्रकारिता	पोत्र-1			
		2 राजकुमारी	पत्नी	वि	50	शिक्षित					
2096	1874	श्री नैमचंद सुराणा पुत्र श्री विशानचन्दजी	प प्र	वि	72		विश्राम	जा	बीकानेर		
		2 भवरीदेवी	पत्नी	वि	55						
		3 सुशो नकुमार	पुत्र	वि	27	मैट्रिक	व्यवसाय				
		4 सरनादेवी	पुत्रवधू	वि	25	मैट्रिक					
											पोत्र-1, पुत्रिया 2
2097	1504	श्री पद्मचंद सुराणा पुत्र स्व श्री नानकचंदजी	प प्र	विधुर	61	शिक्षित	व्यवसाय	श्वे स्या	नारनोल	2413, सुराणा हाउस, पीचाली नारास्ता, जयपुर	
		2 रिसवचंद	पुत्र	वि	42	बी एरसी	शेयर बम्पनी				
		3 शान्तिदेवी	पुत्रवधू	वि	38	मैट्रिक					
		4 रमाबाई	पौत्री	प्रवि	17		शि बी ए (डि व)				

		5. मनुवाई	पौत्री	अवि	16	शि. हा सै.				
		6 प्रीति	,,	अवि.	14	शि. कक्षा 9				
2098	564	श्री पारसमल सुराणा	प.प्र.	वि.	56	वी कॉम ,	सहायक लेखा	जैन	जोधपुर	सेक्टर 1-च-24,
		पुत्र श्री कवलमलजी				एलएल.बी.	परीक्षाधिकारी			जवाहरनगर, जयपुर,
		2 जगदीशकु वर	पत्नी	वि	50	विशारद				फो.नं. 45016
		3. डा. अशोक	पुत्र	वि	29	एम.एस.	डाक्टर			
		4. मजू	पुत्रवधू	वि	26	एम.एससी.	शि. पीएच.डी.			
2099	1592	श्री पूरनमल सुराणा	प. प्र.	वि	30	एम.कॉम	कम्प्यूटर विभाग मे	श्वे.म.	अजमेर	24-क-7, ज्योतिनगर
		पुत्र श्री हमीरमलजी					सेवारत			जयपुर-5
		2. जयन्ती	पत्नी	वि	28	बी ए.	बैंक सेवा			
						एल.एल.बी.				बैंक ऑफ बड़ौदा,
2100	2004	श्री प्रकाशचन्द्र सुराणा	प. प्र.	वि	27	हा.सै.	रत्न दलाली	श्वे.स्था.	अलवर	"गुमान सागर"
		पुत्र स्व श्री दीपचन्द्रजी								51, गगवाल पार्क,
		2. ज्योति	पत्नी	वि.	21	हा सै.				मोती डू गरी रोड,
										जयपुर
2101	106	श्री प्रकाशचन्द्र सुराणा	प.प्र.	वि.	41	बी ई. (सिविल)	सहायक अभियन्ता	जैन	चूरू	372, हनुमान का
		पुत्र स्व श्री मोहनलालजी								रास्ता, जयपुर
		2. मोहनदेवी	माता	विधवा	57					फो नं. 64448
		3 विमला	पत्नी	वि.	34	मैट्रिक				जयपुर विकास
		4 सुभाप	भ्राता	वि.	29	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय			प्राधिकरण, जयपुर
		5 मैना	भ्रा.वधू.	वि.	23	मैट्रिक				फो.नं. 63238
		6 कुशलचन्द्र	भ्राता	वि.	25	बी.कॉम.	व्यवसाय			
		7. राजेन्द्र	पुत्र	अवि.	15		शिक्षार्थी			
		8. देवेन्द्र	पुत्र	अवि.	13		शिक्षार्थी			
2102	1657	श्रीप्रफुल्लकुमार सुराणा	प प्र	वि.	35	बी ए ,एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय	श्वे म.		मुशरफ भवन
		2. मंजू	पत्नी	वि.	32	शिक्षित				हल्दियो का रास्ता,
2103	2048	श्री प्रेम सुराणा	प प्र	वि.	29	बी.कॉम एलएल बी. एडवोकेट		जैन	राजगढ	पहला चौराहा, जयपुर
		पुत्र श्री निर्मलकुमारजी							(चूरू)	44, न्यू कॉलोनी
		2 मीनाक्षी	पत्नी	वि	23	बी ए				जयपुर-1
										फो.न. 63188
										69335

2108	1337	श्री महाधीरचन्द्र सुराणा पुत्र श्री रतननालजी	प.प्र.	वि	45	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	4376, नथमलजी का चौक, जौहरी बाजार, जयपुर
		2. राजकुमारी	पत्नी	वि.	37	मिडिल			
		3. दिनेश	पुत्र	अवि	18		शि कक्षा 11	पुत्र-3	
		4. सुरेन्द्र	पुत्र	अवि.	16		शि. कक्षा 10		
2109	1574	श्री महेन्द्रकुमार सुराणा पुत्र श्री उगमराजजी	प प्र.	वि.	35	बी.एससी एलएल.बी., एम.बी.ए., डी.सी.एल एल.	आर.ए.एस.	श्वे.स्था. जोधपुर	ई-9, गांधी नगर, जयपुर, फो न.72116
		2 प्रमिला	पत्नी	वि.	30	एम.ए. एलएल.बी. एम.बी.ए.,	आर.ए.एस उपायुक्त	पुत्रियां-2	आर.टी ओ., जलेवीचौक, जयपुर, फो 48688 खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग सचिवालय, जयपुर फो नं. 76611
2110	1260	श्री महेन्द्रकुमार सुराणा पुत्र श्री दीपचन्द्रजी	प प्र	वि.	34	बी ए	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. अलवर	625, विद्याधर का रास्ता, जयपुर
		2. रतन	पत्नी	वि.	31	हा.सै.		पुत्र-2	
2111	669	श्री महेन्द्रकुमार सुराणा पुत्र श्री हरिश्चन्द्रजी	प.प्र.	वि.	31	एम.ए., एलएल.बी.	सर्विस	जैन नागौर	दूगड विल्डिंग, एम आई.रोड़, जयपुर फो.न. 66037
		2. चन्द्रकला	पत्नी	वि.	25	हा सै.		पुत्री-1	वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
		3. मनीष	पुत्र	अवि.	17		शि बी कॉम.(द्वि.व.)		
1293/		श्री महेन्द्रसिंह सुराणा	प.प्र.	वि.	36	हा.सै.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. आगरा	3978, एम एस.बी. का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर-3
2176		पुत्र श्री पर्वतसिंहजी							फो.नं 42973, 42018 पी पी.
		2. पुष्पा	पत्नी	वि.	35	हा सै			
		3. अनिलसिंह	भ्राता	वि.	30	मैट्रिक	रत्न दलाली	पुत्र-1, पुत्री-1	
		4. नीलम	भ्रा वधू	वि.	29	बी.ए.			
8		श्री मांगीलाल सुराणा पुत्र स्व. श्री नगराजजी	प प्र	वि.	42			श्वे ते	बी-207, नेहरू नगर, जयपुर फो नं. 68459
		2. सौभागदेवी	पत्नी	वि.	40				
		3. अनिलकुमार	पुत्र	अवि.	20	बी कॉम.	शि एलएल बी.		
		4. अनिता	पुत्री	अवि.	18		शि बी ए. (द्वि.व.)		
		5. वनिता	पुत्री	अवि.	16		शि कक्षा 9		
2114	1338	श्री मारणकचन्द्र सुराणा पुत्र श्री रतनलालजी	प प्र.	वि	37	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था	2679, चौथा चौराहा, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर
		2 कान्ता	पत्नी	वि.	30	मैट्रिक		पुत्र-1	डी-146, सावित्री पथ, बापूनगर, जयपुर फो न 65658
2262		श्री मारणकचन्द्र सुराणा	प.प्र	वि	54	बी ए, एलएल.बी.	वकालत	श्वे ते वीकानेर	
		2. दीपादेवी	माता	विधवा	72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 विमला	पत्नी	वि	50	मिडिल					
		4 राजे द्रकुमार	पुत्र	वि	32	बी एस सी	ध्यापार				
		5 गिरे द्रकुमार	पुत्र	प्रवि	26	एम ए					
		6 सतीश	पुत्रवधू	वि	26	हा स					
		7 वृष्णिमा	पुत्री	प्रवि	23	एम एस सी					
2116	2408	श्री मोतीशचंद्र सुराणा पुत्र श्री गोरतनमलजी	प प्र	वि	38	पी यू सी	रत्न ध्यवसाय	श्वेते		3987, जे जी बी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	
		2 चेतन	पत्नी	वि	32	मैट्रिक					
		3 कमलचंद	भ्राता	प्रवि	27	मैट्रिक	रत्न ध्यवसाय				
2117	2014	श्री यशवंत सुराणा पुत्र श्री जीतमनजी	प प्र	वि	35	बी ई (मैके)	डेवेदारो	श्वेत्या गेटा		श्री 87, रामदास मार्ग, तिलहनगर, जयपुर फो न 46390 गोपी	
		2 शोना	पत्नी	वि	30	बी एस सी					
2118	1656	श्री लक्ष्मीराम सुराणा पुत्र श्री सोभाशचंद्रजी	प प्र	वि	52	बी एम सी	लाठी वा ध्यापार			750, भाषायी का रास्ता, निपातापान बाजार, जयपुर	दुरान न 235 239 श्री फ टिगर टिम्बर ट्रडिंग फ, निमापोन बाजार, जयपुर
		2 सुधा	पत्नी	वि	45						
		3 सदीप	पुत्र	प्रवि	20	बी एम					
		4 प्रनय	पुत्र	प्रवि	18	इंटर					
		5 सगीता	पुत्री	,	17	इंटर					
2119	1901/ 895	श्री सनितकुमार सुराणा पुत्र श्री लालकरगजी	प प्र	प्रवि	26	बी एस सी	नोररी	जय जोधपुर		54, मयवाज पार्क, माफी बूथरी रोड, जयपुर	सहितकुमार सुराणा द्वारा, श्री ए टालिस्ट बी 83, रमना मार्ग, तिनार गड, जयपुर
		2 लूगनरस	पिता	वि	52	मैट्रिक					
		3 गणपतिदेवी	माता	,	50	मिडिल					
		4 प्रमोद	भ्राता	प्रवि	23	बी एम	बराजगार				
		5 निमन	भ्राता	,	19		वि बी एम (धं य)				
		6 मधु	बहिन	,	21	बी ए					
		7 इन्द्रा	,	,	19	बी ए					
		8 शशि	,	,	15		वि कसा 10				
		9 रेखा	,	,	13		वि कसा 9				
2120	2057/ 1218	श्री बल्लभराज सुराणा पुत्र श्री जुगराजजी	प प्र	वि	39	हा ग	रनिष्ठ तिमिन	श्वे, रमना जोधपुर		द्विगोवासा का नोहरा, कवि विभाग, जयपुर जोहरी बाजार जयपुर फो 49590, 67292	
		2 राजकुमारी	पत्नी	वि	36	मैट्रिक	रटीन गॉर्नर कवटी				

2121	2360	श्री विनयचन्द सुराणा पुत्र श्री नीरतनमनजी	प. प्र	त्रि	49	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे. ते.	3997, के.जी.बी. का रास्ता, जयपुर	सुराणा जेम्स, के.जी.बी. का रास्ता, फो.नं. 42940
		2. सायरदेवी	पत्नी	वि.	44	मिडिल				
		3. हीराचन्द	भ्राता	वि.	40	हा. सै				
		4. विमलादेवी	भ्रा. व.	वि.	39	मैट्रिक				
		5. मोतीचन्द	भ्राता	वि.	37					
		6. चेतनदेवी	भ्रा. व.	वि.	30					
		7. कमल	भ्राता		27					
		8. शकुन्तला	पुत्री	अवि.	20	मैट्रिक				
		9. अजय	पुत्र	अवि.	17		शि. हा. सै.			
		10. साधना	पुत्री	अवि.	15		शि. कक्षा 10			
		11. अरुणकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 8			
पुत्र-2, पुत्रियाँ-2										
2122	2097	श्री विरजलाल सुराणा पुत्र स्व. श्री छोदूलालजी	प. प्र.	वि	30	बी.ए.	सचिव	जैन चूहू	2454, मारुजी का चौक, एम.एस.बी. का रास्ता, जयपुर	कोठारिज स्टेनरोज फोब्रिक्स, चौडा रास्ता, जयपुर फो.नं. 61267
		2. दुर्गादेवी	पत्नी	वि.	27	मिडिल				
पुत्र-1, पुत्रियाँ-3										
2123	362	श्री विरवराज सुराणा पुत्र श्री धनराजजी	प. प्र.	वि	51	बी.ए.	लाइजन्स कार्य	श्वे.स्था. जोधपुर	डी-38, ज्योति मार्ग, वापू नगर, जयपुर-15 फो 66504	दूगड़ भवन, एम.आई रोड, जयपुर फो नं. 69994 एस.आर. कन्सट्रक्शन मेकर, चेम्बर IV, नरीमन पार्इन्ट, बम्बई
		2. निर्मला	पत्नी	वि.	48	हा. सै.				
		3. निलेश	पुत्र	अवि.	23	बी कॉम	अ परचेस ऑफिसर			
		4. श्रुति	पुत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 8			
		5. द्विती	पुत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 8			
2124	2366	शुभकरण सुराणा पुत्र श्री विरधीचन्द्रजी	प. प्र.	वि.	39		कमीशन एजेन्ट	श्वे. ते	2490, एम.एम.बी. का रास्ता, जयपुर फो 842299 843724	कार्यालय फो. 64069 68682
		2. सुशीलादेवी	पत्नी	वि.	30					
		3. देवसु	पुत्र	अवि.	16		शि. हा.सै.			
		4. संजय	पुत्र	अवि.	14		शि. मिडिल			
पुत्र-1, पुत्री-1										
2125	222	श्री शुभकरण सुराणा पुत्र श्री लालचन्द्रजी	प. प्र.	वि.	35	बी.ए.	प्राइवेट सेवा	जैन श्वे भालावाड	डी-130-ए, माथुर कॉलोनी, वापूनगर, जयपुर फो 41383	
		2. उर्मिला	पत्नी	वि	32	हा सै				
		3. विमल	भतीजा	अवि.	21	बी कॉम				
		4. ममता	भतीजी	अवि	16		शि. कक्षा 11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2126	1126	श्री एम के सुराणा पुत्र श्री एम एम सुराणा 2 उमिता	प प्र पत्नी	वि वि	33 28	बी ई सिविल एम ए	राज हाउसिंग बोर्ड म सवा	जन	पुत्र-1 पुत्री 1	4427 के जी बी का रास्ता, जयपुर फो न 72112 41503 फो बी	
2127	219	श्री सग्ननराज सुराणा पुत्र श्री सुकनराजजी 2 पवन 3 विभा 4 राजीव	प प्र पत्नी पुत्री पुत्र	वि वि श्रवि श्रवि	43 42 16 14	बी कॉम, एलएल बी एम ए, एल डी (म्युनिच) पी एच डी (प जमनी)	एडवोकेट अध्यक्ष एच एसोशियेटेड प्रोफेसर शि बी ए (प्र व) शि कक्षा 9	जन	सुमेरपुर (पाली)	एस 6 ज्योति माग बापू नगर, जयपुर फो 79014	रहीम मजिल, अजमेरी नेट, जयपुर फो 66718 विदेशी भाषा विभाग राज विश्वविद्यालय, जयपुर
2128	2181	श्री सत्येन्द्र सुराणा पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह जी 2 इन्दु	प प्र पत्नी	वि वि	31 28	बी एस सी बी ए	रत्न दलाली	जन	भागरा पुत्र 1, पुत्री 1	3977, एम एस बी का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर 3 फो न 42973	
2129	1815	श्री सम्पतराज सुराणा पुत्र श्री जुगराज जी 2 मोहनी 3 सदीप 4 सीमा	प प्र पत्नी पुत्र पुत्री	वि वि श्रवि श्रवि	40 38 16 13	सी ए मैट्रिक शिक्षार्थी कक्षा 10 शिक्षार्थी कक्षा 9	प्रेक्टिस	श्वे स्या		46 बी, देवी पथ कानोला बाग, जयपुर फो न 67079	बगठी भवन हृदियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फो 44305
2130	698	श्री सम्पतलाल सुराणा पुत्र श्री यजमल जी 2 पुष्पा 3 नीलम	प प्र पत्नी पुत्री	वि वि श्रवि	37 33 13	बी काम हा सक शिक्षार्थी कक्षा 9	व्यवसाय	जन स्या भीलवाडा	पुत्र 2	4396, अनाज मंडी जौहरी बाजार जयपुर	इण्डियन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म कॉलोनी, जयपुर
2131	985	श्री सुधीर सुराणा पुत्र स्व श्री शानचन्द जी 2 राधा 3 भाणकबाई 4 शैलबाला 5 विपिन	प प्र दादी माता यहिन भाई	श्रवि विषया विषया श्रवि श्रवि	21 65 45 23 16	बी कॉम मिडिल बी ए	शिक्षार्थी	जन		कालूराम नाई का मकान, नथमलजी का चौक, जयपुर	
							शिक्षार्थी कक्षा 11				

2132	1050	श्री सुब्रह्मिण्य सुराणा पुत्र श्री मन्नामुग्मन 'ती 2 मुनीया	प.प पत्नी	वि. वि.	31 27	वी. काम. हा. सैक.	वैक पधिकारी	श्वे. जन जोनपुर पुत्र-2	515, चोरपी ता रास्ता, हिजनपोल वाजार, जयपुर	श्री वैक प्रां. राज. वि, नैम्बर भवन एम.ग्राई रोड, जयपुर फो. नं. 74709
2133	856	श्री सुरजकररा सुराणा पुत्र श्री गामन जी 2. निमना देवी 3. गमता	प. प पत्नी पुत्री	वि. वि. प्रवि.	47 42 16	वी काम. एलएन वी. निमित्त	दवाइयां का व्यापार	श्वे स्या. भीनवाडा जैन भीनवाडा पुत्र-1, पुत्री-1	ए-111, जनता कांभोनी, जयपुर फो नं. 41153	इण्डियन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म कांभोनी चौड़ा रास्ता, जयपुर ज्योति नगर, जयपुर
2134	1881	श्री सुबेन्द्रकुमार सुराणा पुत्र श्री मनोहरनाथ जी 2 श्रीमती उमिता	प. प्र. पत्नी	वि. वि	33 27	वी. ई. एम. ए.	नोकरी हाउसिंग बोर्ड	जैन भीनवाडा पुत्र-1, पुत्री-1	के.जी.वी का रास्ता म.न 4427 जयपुर-3	
2135	150/ 2050	श्री सोहननाथ सुराणा पुत्र श्री गभीरमन जी 2. पेम 3. गुमन 4. रज्ज्या 5 रवि	प. प्र. पत्नी पुत्री पुत्री पुत्र	वि. वि. प्रवि. प्रवि. प्रवि.	44 40 20 18 15	वी.ए. वी.ए. वी.ए. वी.ए.	प्रसिस्टेन्ट मैनेजर (वैक)	श्वे. मं. भीतवाड़ा पुत्री-1	भटारी भवन तेरापंगी स्कूल के सामने, एम.एस वी. का रास्ता, जयपुर फो.न. 45235	राजस्थान स्टेट को प्रां. वैक वि. नेहरू बाजार, जयपुर फो न. 72457
2136	118	श्री हीराकर सुराणा पुत्र श्री मोरतनमतजी 2. निमना 3. राजीव 4. संजीव	प. प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. प्रवि. प्रवि.	44 40 16 14	इन्टर हा.सै.	इन्टर रत्न व्यवसाय	जैन पुत्री-1	म.नं. 1450, परतानियो का रास्ता, जयपुर	
2137	1596	श्री हेमेश सुराणा पुत्र श्री सोमनाथमतजी 2. नीना	प. प. पत्नी	वि. वि.	37 33	एम.बी.वी.एम. एम.प्रार.एस एच. (इंग्लैण्ड) वी.ए.	इंटर व्यवसाय	जैन पुत्रियां-2	162एस वी वापूनगर, जयपुर	सुराना नर्सिंग होम एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, 1, मुन्दर मार्केट, एन.एम.एम. हॉस्पिटल के पास, जयपुर-4 फो.न. 67849
सूरिया										
2138	1108	श्री पारसमन सूरिया पुत्र ए. श्री कुशीबानजी 2. पंचवी	प. प. पत्नी	वि. वि.	29 29	एम.डी. एम.ए.	इंटर एन ग्राई वी एजेंट	श्वे स्या भीनवाडा पुत्र-1	भी-33ए, कमला मार्ग नी-स्कीम, जयपुर फो न. 73248	मवाई माननिह अस्थान, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		सेठिया, सेठी, सेठ									
2139	644	श्री प्राणुलाल सेठिया पुत्र श्री राणामलजी	प प्र	वि	41	मैट्रिन	रत्न व्यवसाय	जन	रोहटन (बाइमेर)	A 54, इच्छनगर II लाल बोठी, जयपुर फोन 60151	2433, धी वालो का रास्ता, टूकडी ना दरवाजा जयपुर
		2 गजीदेवी	पत्नी	वि	36	साक्षर					
		3 धनयजुमार	पुत्र	प्रवि	22	एम कॉम	रत्न व्यवसाय				
		4 चंद्रकुमार	पुत्र	प्रवि	19	मैट्रिन					
		5 उपा	पुत्री	प्रवि	17	हा स					
		6 प्रनागचंद	पुत्र	प्रवि	15		शि सवे		पुत्र 1		
2140	506	श्री इंदरचंद सेठ पुत्र श्री मिलापचंदजी	प प्र	वि	70	मैट्रिन		श्वे म		पु गलिया भवन, एम एस बी ना रास्ता, जयपुर, फो 43005	
		2 हसा	पत्नी	वि	68	साक्षर					
		3 मोतीचंद	पुत्र	वि	44	मैट्रिन	दलाली				
		4 गानचंद	पुत्र	वि	37	बी काम	रत्न व्यवसाय				2037, रामललाजी का रास्ता, जयपुर फोन 48101
		5 भासा	पुत्रवधू	वि	32	हा स					
		6 धीमती गानचंद	पुत्रवधू	वि	43	मैट्रिन					
		7 विनीतकुमार	पौत्र	प्रवि	22		शि सवे				
		8, विशाल	पौत्र	प्रवि	13		शि वधा 6				
		9 सुधीर	पौत्र	प्रवि	13		शि वधा 6		पुत्र 1, पुत्री 1		
2141	2274	श्री उत्तमचंद सेठिया पुत्र श्री जयचन्दलालजी	प प्र	वि	62		ट्रांसपोर्ट वाय	श्वे ते	भोमासर	पो 13, सहदेवमाग, सी स्त्रीम, जयपुर	वालुरघाट ट्रांसपोर्ट कम्पनी, जयपुर फोन 74319
		2 मनोहरदेवी	माता	विधवा	78						
		3 मासुसीदेवी	पत्नी	वि	57						
		4 मनोजकुमार	पुत्र	वि	20	इंटर					
		5 प्रभा	पुत्रवधू	वि	19	मैट्रिन					
		6 प्रशोककुमार	पुत्र	प्रवि	15		शि सक्				
2142	111	श्री उमरावमल सेठ पुत्र श्री मोहनलालजी	प प्र	विपुत्र	71		विश्याम	श्वे स्था		रामललाजी ना रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर फोन 75214	
		2 प्रशोककुमार	पुत्र	वि	29	बी कॉम एलएल टी	रत्न व्यवसाय				
		3 मजू	पुत्रवधू	वि	24	बी ए			पुत्र 1, पुत्री 1		

2143	586	श्री कांतीलाल सेठ पुत्र स्व. श्री माणकचन्दजी 2. पुष्पा	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	29 26	बी कॉम. बी.ए	राज्य सेवा	श्वे.जन श्वे.मं.	जालोर बीकानेर	2/484, जवाहरनगर, राज. हाउसिंग बोर्ड, जयपुर फो. 43576 जयपुर
2144	2446	श्री केसररीचन्द सेठी पुत्र श्री त्रिलोकचन्दजी 2. कमलादेवी 3. सुनील 4. सजय	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र	वि. वि. अवि. अवि.	54 49 21 17	मैट्रिक मिडिल	व्यापार			लूनिया भवन, एम.एस.बी. का रास्ता, जयपुर
2145	874	श्री गोपीचन्द सेठ पुत्र श्री जवाहरमलजी 2. रतनदेवी 3. ज्ञानचन्द 4 गुलाबदेवी 5. पुष्पेन्द्रकुमार 6. राजेन्द्रकुमार 7. देवेन्द्रकुमार	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्र पौत्र	वि. वि. वि. वि. अवि. अवि. अवि.	75 70 44 40 21 19 17		रत्न व्यवसाय	श्वे स्था.		रामललाजी का रास्ता, शीशा वालो की गली, जयपुर, फो. 46723
146	608	श्री चन्दनमल सेठिया पुत्र स्व. श्री भीमराजजी 2. राजूदेवी 3. तेजकरण 4. जयसिंह 5. सरोज 6 मञ्जुलता	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्रवधू पुत्रवधू	वि. वि वि. वि वि. वि.	51 47 32 30 27 23		व्यवसाय व्यवसाय	जैन	सरदारशहर	3/99, जवाहरनगर, जयपुर, फो 41069
2147	1879	श्री टोकमचन्द सेठी पुत्र स्व. श्री नथमलजी 2 शकुन्तलादेवी 3 सुरेन्द्र 4 अजू 5 नरेन्द्र 6. प्रवीण	प प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्र पुत्र	वि. वि. वि. वि. अवि. अवि.	70 42 30 28 25 23	मिडिल बी ए. बी ए. हा सै. हा.सै				ताणी वालो का चौक, मोतीसिंह भोमियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर हल्दियों का रास्ता फो.न 41130 पी.पी जयपुर
148	429	श्री नथमल सेठिया पुत्र स्व. श्री बालचन्दजी	प.प्र	वि.	47	मेटलोजिस्ट	टा फाउ. व्यापार	श्वे स्था	बीकानेर	म न. 2207, मान कायस्थ काचौक, खजाने

पुत्र-1, पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 सोहनकवर	माता	विधवा	70					वागो का रास्ता	
		3 विमला	पत्नी	वि	30					जयपुर	
		4 राजेन्द्र	पुत्र	श्रवि	20		शिक्षार्थी				
		5 इन्द्रा	पुत्री	श्रवि	18		शिक्षार्थी				
		6 सजय	पुत्र	श्रवि	16		शिक्षार्थी				
2149	223	श्री प्रकाशचन्द सेठिया	प प्र	वि	30	एम वाम, सी ए	बैंक सेवा				
		पुत्र श्री मरुदानजी				आई आई बी					
		2 मरुदान	पिता	वि	71	साक्षर				विजय चौधरी भवन,	एस बी वी जे, केन्द्रीय
		3 मनोहरदेवी	माता	वि	65	साक्षर				एम-51 कृष्णा माग,	सेलाविभाग चोडा
		4 तारामणी	पत्नी	वि	26	मिडिल				वापूनगर जयपुर	रास्ता जयपुर
		5 राजबुमारी	भतीजी	श्रवि	16		शि सक्			फोन 61346	फोन 61119
2150	159	श्री भागचन्द सेठ	प प्र	वि	40	मट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		पुत्र श्री गोपीचन्दजी									
		2 राजदुलारी	पत्नी	वि	36	मट्रिक				5 घूला हाउस वापू	
		3 हेमेश	पुत्र	श्रवि	18		शि बी ए (प्र व)			वाजार, जयपुर 3	
		4 अनंतकुमार	पुत्र	श्रवि	16		शि बी ए (प्र व)				
		5 उपनीलकुमार	पुत्र	श्रवि	14		शि कक्षा 9				
2151	2265	श्री मूलचन्द सेठिया	प प्र	वि	55	एम ए पी एच डी	रीडर (हिन्दी)				
		पुत्र श्री चतररामजी									
		2 केसर	पत्नी	वि	50					सरदारगहर	ए-7, मालवीया माग
		3 कमल	पुत्र	वि	28	बी कॉम, एम बी ए	नौकरी			सी स्कीम, जयपुर	राजस्थान विश्व
		4 कल्पना	पुत्रवधू	वि	24	इंटर					विद्यालय, जयपुर
2152	1381	श्री महात्माचन्द सेठ	प प्र	वि	65	जूनीयरकेम्ब्रिज	रत्न व्यवसाय				
		पुत्र श्री मिलापचन्दजी									
		2 सजजनदेवी	पत्नी	वि	61	मिडिल				एम एस बी वा रास्ता,	
		3 महेंद्रकुमार	पुत्र	वि	45	हा स				जौहरी बाजार जयपुर,	
		4 शकुंतला	पुत्रवधू	वि	40	हा स				फोन 47623	
		5 माता	पौत्री	श्रवि	18		शिक्षार्थी				
		6 प्रीति	,	"	15		शि स				

पुत्र 2 पुत्रियाँ 4

पुत्र-1, पुत्रियाँ 2

पुत्र-2

पुत्री 1

2153	187	श्री मोतीचन्द सेठ पुत्र श्री इन्दरचन्दजी 2. विमलाबाई 3. विनीत	प प्र. पत्नी पुत्र प प्र.	वि. वि. अवि. वि.	43 43 21 47	मैट्रिक रत्न व्यवसाय रत्न व्यवसाय लोहे के पाइपों का व्यवसाय	श्वे जैन श्वे.स्था. कलोल (अहमदाबाद)	बोहरा हाउस, 22/23 एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी, जयपुर, फो.नं. 65342 पी पी. शारदा कुन्ज, 12, पाइप ट्रेडर्स, वी-22, गोपीनाथ मार्ग, पुरो- एम जी डी. मार्केट, हितजी का वाग, जयपुर, जयपुर, फो न.61188 फो न. 74795 64306 63373	
2154	1046	श्री रमेशचन्द सेठ पुत्र श्री चन्द्रलालजी 2. मरोज 3. अमरीश 4. जीमिस	पत्नी पुत्र पुत्र प प्र.	वि. अवि. अवि. वि.	44 22 18 37	एम ए. वी कॉम वी.कॉम.	जैन मद्रास	4540, के जी.वी. का रास्ता, जयपुर	
2155	722	श्री राजेन्द्रकुमार सेठ पुत्र श्री महतावचन्दजी 2. पुष्पा 3. राजेश	पत्नी पुत्र प.प्र.	वि. अवि. वि.	32 14 34	मैट्रिक	श्वे.स्था. अजमेर	2831, गोधा भवन, सिंचाई उपखण्ड I, एम एस वी का रास्ता जलेवी चौक, जयपुर जयपुर राजकीय गोविन्द वा.मा. विद्यालय, रायपुर (पाली)	
2156	1978	श्री रिलखचन्द सेठी पुत्र श्री किस्तूरचन्दजी 2. सन्तोष	पत्नी	वि.	30	वी.ए, वी.एड	राज्यसेवा	श्वे.मं भभू (वीकानेर)	3946, सचेती भवन, एम एस वी का रास्ता, जयपुर
2157	1366	श्री विजयकुमार सेठी पुत्र श्री घेवरचन्दजी 2. पानादेवी 3. जीवनमल	प प्र. पत्नी भ्राता	वि. ,, अवि.	31 26 25	हा सै.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था. वीकानेर	भण्डारी सदन, गोरधन नाथजी की गली, चूरको का रास्ता, चौडा रास्ता जयपुर, फो.नं. 78487
2158	957	श्री विजयचन्द सेठिया पुत्र श्री केसरीचन्दजी 2. पुष्पा 3. अंजु 4. कविता 5. अजय	प प्र. पत्नी पुत्री पुत्री पुत्र	वि. वि. अवि. अवि. अवि.	40 38 17 16 13	इन्टर	फिल्म वितरक शिक्षार्थी शिक्षार्थी शिक्षार्थी	श्वे.स्था. वीकानेर	
2159	124/ 1138	श्री विनयचन्द सेठ पुत्र श्री गोपीचन्दजी 2 चन्द्रकला 3. विनीता	प प्र. पत्नी पुत्री	अवि. वि. अवि.	39 35 14	मैट्रिक मैट्रिक	रत्न व्यवसाय प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज शि कक्षा 9	श्वे.स्था. श्वे.स्था.	म.न. 1392, ईमर जेम्स, 3947, एल एम वी होटल के एम.एस.वी. का पीछे, जयपुर रास्ता, जयपुर फो न. 78026 फो. 42093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2173	141	श्री रतनलाल सोनी पुत्र श्री चाँदमलजी 2 माँदादेवी 3 कचनदेवी 4 पदमकुमार	प प्र	वि	47	इटर	रत्न व्यवसाय एव प्रायुर्वेद	श्वे म	जाबरा (म प्र)	193 भगवती नगर, करतारपुरा, जयपुर	4471, सोनी हाउस जोहरी बाजार, जयपुर
		5 राजेशकुमार	पुत्र	प्रवि	13		शि बी कॉम एव रत्न व्यवसाय शि कक्षा 7		पुनो-1		
2174	202	श्री विजयकुमार सोनी पुत्र श्री ताराचं दजी 2 सुषीता	प प्र	वि	29	एम ए	बस्टम एण्ड सेंट्रल एमसाइज इस्पेक्टर	श्वे स्वा	विज्ञानगढ़	वारह गणगौर का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर	सू सट्टल रेव्यू बिल्डिंग, म्स्टेच्यू सकिल जयपुर
2175	770	श्री शांतिलाल सोनी पुत्र श्री हरकचं दजी 2 सरोज	प प्र	वि	28	एम ए बी ए	राज्य सेवा कनिष्ठ लिपि	श्वे स्वा	विज्ञानगढ़	4346 तोपनीवार भवन, गधमलजी या चौक, जोहरी बाजार	कार्यालय मुख्य प्रभियंता सिंचाई, राजस्थान, जयपुर फो 62031/51
			पत्नी	वि	23	मैट्रिक,			पुन-1		
2176	248	श्री सुरेशकुमार सोनी पुत्र स्व श्री नंदलालजी 2 चंद्रवाम्ता	प प्र	वि	32	हा स	रत्न व्यवसाय	श्वे स्वा	विज्ञानगढ़	1801 रावत भवन गोविंदाजिया रा रास्ता, चाँदपोन बाजार जयपुर	
			पत्नी	वि	29	हा स			पुन-2		
		<u>सोसकी</u>									
2177	467	श्री श्रीमलाल सोसकी पुत्र श्री मूलचं दजी 2 सुन्दरदेवी 3 माण्यचं द 4 समीता 5 सुनीता	प प्र	वि	52	मैट्रिक	व्यवसाय	श्वे म	पाली	सी 45, धम्वावाडी, जयपुर फो न 61887	श्री भूमोलचं प्रायन एण्ड टडील मेसू रम्पनी, जयपुर फो न 75478 73900
2178	558	श्री पुष्करराज सोसकी पुत्र श्री सम्पतराजजी 2 सुनीता	प प्र	वि	26	बी कॉम ,ए सी ए	व्यवसाय	श्वे म	जातोरे	1 ग20, जवाहरनगर, जयपुर	35 धामाणी मार्केट, चौडा रास्ता, जयपुर फो 77854
		<u>श्रीमाल</u>									
2179A	2537	श्री बनक श्रीमाल पुत्र श्री राजेशकुमारजी	प प्र	वि	34	बी एमबी (प्रॉनस) रत्न व्यवसाय		ज		प्लाट 'ए' पीलवा गाहन, मोतीदू गरी रोड या चौक,	1356, पीतलियो

	2. पारस	पत्नी	वि.	29	हा सै.			पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	जयपुर फो. 44109	जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं. 48709
2179	2060 श्री कृष्णकुमार श्रीमाल पुत्र श्री मदनसिंहजी 2. ऊषा 3 प्रीति	प प्र.	वि.	44	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे म.	छोटारावला रिंगनोघ	51, गुमानसागर, गंगवाल पार्क, मोतीडूंगरी रोड़, जयपुर	गंगामाता की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर, फो.72611
2180	2156 श्री गोवर्धनसिंह श्रीमाल पुत्र श्री मदनसिंहजी 2 हेमलता 3. रेखा	पत्नी पुत्री	वि. अवि.	38 15	हा.सै.	शि. मिडिल		पुत्र-1	जैन भीलवाडा	म.नं. 1913, समराय भवन, धाभाई जी का खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर
2181	418 श्री टीकमचन्द श्रीमाल पुत्र श्री मिश्रीलालजी 2. शान्ति 3. अशोक 4. रजनी 5 कुसुम	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू पुत्री	वि. वि वि वि विधवा	60 57 25 24 40	मैट्रिक बी एससी. बी.ए	सेवानिवृत्त नौकरी यू.डी.सी. शिक्षक	श्वे म.			हजारीलाल नाई का मकान, घी वालो का रास्ता, जयपुर चौथा चौराहा
2182	2338 श्री ताराचन्द श्रीमाल पुत्र स्व श्री जेठमलजी 2. विजयदेवी	प प्र. पत्नी	वि. वि	33 29	इन्टर मिडिल	नौकरी	श्वे.ते	पुत्री-1		1514, लक्ष्मी भवन, कार्या.फो.69748 सोथली वालो का रास्ता, जयपुर फो.नं. 74779.
2183	15 श्री दुर्गाप्रसाद श्रीमाल पुत्र श्री कुन्दनलालजी 2. तारा	प प्र. पत्नी	वि. वि.	63 55	बी.एससी. सी ई. बी.ए	सेवानिवृत्त चीफ इन्जी.	जैन भरतपुर	पुत्र-2		श्रो-21, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर फो न. 60175
2184	552 श्री दिनेशकुमार श्रीमाल पुत्र श्री फतेहसिंहजी 2. लता 3. रवि 4. अनिल	प प पत्नी भाई भाई	वि. वि. अवि. अवि.	38 32 23 21	बी एस.सी (ए.जी) बी ए एम काँम बी.ए	गार्डन इन्सपेक्टर एकाउन्टेन्ट सेल्स असिस्टेन्ट	श्वे स्था. भरतपुर	पुत्र-1, पुत्रियाँ-2		1-ख-18, जवाहर नगर, जयपुर सुपरिन्टेन्डेन्ट राज. उद्यान, जयपुर फो.नं. 76244 डायरेक्टर एम्प्लायमेंट जयपुर जनरल इन्जीनियरिंग वर्क, बीटी ई, जयपुर
2185	1565 श्री नाथूलाल श्रीमाल पुत्र श्री भवरलालजी 2 रुक्मणीदेवी	प. प्र. पत्नी	वि. वि.	72 68	मैट्रिक साक्षर	सेवानिवृत्त	श्वे.स्था. करौली			50-क-4, ज्योति नगर, जयपुर-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2196	517	श्री गोपीचंद श्रीभीमाल पुत्र स्व श्री मोहनलालजी	प प्र	वि	65		नौररी	श्वे म		म न 3840, नाईयो की गली, के ती बी वा रास्ता, जयपुर	
		2 रूपादेवी	पत्नी	वि	60						
		3 भानन्वकुमार	पुत्र	प्रवि	19	हा स	नौररी				
		4 साधना	पुत्री	प्रवि	15		शि वधा 8				
2197	376/ 148	श्री जे एस श्रीभीमाल पुत्र मू एस महता	प प्र	वि	24	एम वॉम	बकतावा	जम	प्रानेय	3777, सक्सेना भवन, एम एस बी वा रास्ता, जयपुर	स्टेट बक ऑफ वीचानेर एण्ड जयपुर इन्वैस्टिगल एरिया, भोटवाडा, जयपुर फोन 842363, 41887 फोन 76234
		2 पानदेवी	माता	विधवा	55	मिडिन					
		3 चंद्रबाता	पत्नी	वि	22	हा स					
		4 दिलकुश	बहिन	प्रवि	15		शि वधा 9		पुनियां 3		
2198	2010	श्री नवरतनमल श्रीभीमाल पुत्र स्व श्री हस्तीमलजी	प प्र	वि	40	हा स	व्यवसाय	श्वे म	जोधपुर	3ए, गगवालपार फोन 61920	
		2 लाडकवर	पत्नी	वि	35						
		3 सुनीता	पुत्री	प्रवि	16		शि बी ए (प्र व)		पुत्र-1		
		4 घनीता	पुत्री	प्रवि	14		शि वधा 9				
2199	616	श्री निमीचंद श्रीभीमाल पुत्र श्री मिथीलालजी	प प्र	वि	50	बी कॉम	महायक सेव्याधिकारी	श्वे स्या	मन्तौर	5 ए 36, जवाहरनगर, जयपुर फोन 852683फी फी	राजस्थान राज्य बुनरु सहकारी सप नि, पोलीसिक्ट्री, जयपुर फो 76636
		2 मिथीलाल	पिता	विधुर	78	मट्टिन	विध्याम				
		3 उगमदेवी	पत्नी	वि	45	मिडिल					
		4 ब्रह्मचंभार	पुत्र	प्रवि	23		शि बी कॉम (प्र व)				
		5 प्रदीपकुमार	पुत्र	प्रवि	20		शि बी कॉम (प्र व)				
		6 श्वबलकुमार	पुत्र	प्रवि	17		शि हा स				
		7 प्रदवा	पुत्री	प्रवि	14		शि वधा 9				
2200	513	श्री प्रेमचंद श्रीभीमाल पुत्र श्री गोपीचंदजी	प प्र	वि	30	मैट्रिक	रत्न पानिय	श्वे म		म 73840 नाइयो की गली, के जी बी वा रास्ता, जयपुर	
		2 बीनादेवी	पत्नी	वि	28	मैट्रिक					
2201	1935	श्री पारसमल श्रीभीमाल पुत्र स्व श्री हस्तीमल जी	प प्र	वि	38	हा स	रत्न व्यवसाय	श्वे म		8, बरबिया बाँरोरी, पापालिय जयपुर फोन 63360	फोन 76234
		2 विमला	पत्नी	वि	35	हा स					
		3 नीता	पुत्री	प्रवि	14		शि वधा 8				
		4 प्रमित	पुत्र	प्रवि	13		शि वधा 7		पुत्र-1		

2202	520/	श्री भागचन्द श्रीश्रीमाल	प. प्र.	वि	35	मिडिल	नौकरी	श्वे म	कालो का मौहल्ला,	फिल्म कॉलोनी
	977	पुत्र श्री गोपीचन्दजी						पुत्र-1	के.जी वी का रास्ता,	पसारी मेडीकल स्टोर,
		2. जतनदेवी	पत्नी	वि.	32	साक्षर			जयपुर	चौड़ा रास्ता, जयपुर
2203	242	श्री मदनसिंह श्रीश्रीमाल	प. प्र.	विधुर	71	मैट्रिक	विश्राम	श्वे स्था. हरमाडा	1590/91, महता	सिधीजी का रास्ता,
		पुत्र श्री मोतीलालजी						(अजमेर)	भवन, एस एम.एस.	जयपुर
		2 निर्मलसिंह	पुत्र	वि	44	बी कॉम	वैक सेवा		हाइवे, जयपुर	चीफ कैशियर
		3 विदामकॉवर	पुत्रवधू	वि.	39	हा सै				एस बी.वी जे., जयपुर
		4. अनिलकुमार	पौत्र	अवि.	19	हा सै.	व्यवसाय			अनिल जनरल स्टोर्स
		5. राजकुमार	पौत्र	अवि.	16		शि. वी.ए (प्र.व.)			जयपुर
		6. सुरेन्द्रकुमार	पौत्र	अवि.	14		शि. सैक.			
4	1835	श्री मनोहरलाल श्रीश्रीमाल	प. प्र.	वि	38	मैट्रिक	सर्विस	जैन जोधपुर	3-A, गगवाल पार्क,	
		पुत्र श्री मोतीलालजी							एम.डी रोड, जयपुर	
		2. किरण	पत्नी	वि.	31	मिडिल		पुत्र-1, पुत्री-1	फो न 61920	
		सरोज	पुत्री	अवि.	14		शि. कक्षा 9			
				वि.	56	मिडिल	सीमेट पाईप फॅक्ट्री	श्वे.जैन व्यावर	म.नं 2031, तोला-	के. जी. कोठारी,
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	50				राम पालीवाल की	लाल हाथी का मन्दिर,
		3. अरविन्दकुमार	पुत्र	वि	30	बी.कॉम	नौकरी	पुत्र-1	गली, मिस्त्रीखाना,	जयपुर
		4. प्रभादेवी	पुत्रवधू	वि.	27	मैट्रिक			पुरानी बस्ती, जयपुर	
34		श्री राजेन्द्रकुमार श्रीश्रीमाल	प. प्र.	वि.	31	एम.ए.	रत्न व्यवसाय	श्वे मं	5, वरडिया कॉलोनी,	फो.नं. 76234
		पुत्र श्री मोतीलालजी							जयपुर	
		कॉवर	माता	विधवा	55				फो. नं. 66293	
		नील	भ्राता	वि	28	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय			
		सुनीता	पत्नी	वि.	26	बी ए.		पुत्र-2, पुत्री-1		
		कल्पना	भ्रा.व.	वि	25	बी कॉम.				
		श्री राकेशकुमार श्रीश्रीमाल	प. प्र.	वि.	39	बी ए.	लेखक	जैन	म. नं. 4750,	फो.नं. 74299
		पुत्र श्रीमती सतोपदेवी							मठ का कुआ,	
		2. नवरत्न देवी	पत्नी	वि	38	मैट्रिक			जौहरी बाजार, जयपुर	
		3. सन्तोपदेवी	माता	विधवा	55	साक्षर				
		4. मनोजकुमार	पुत्र	अवि	17		शि. वी ए.(प्र.व.)			
		5. राजकुमार	पुत्र	अवि.	15		शि कक्षा 9			
		6 नवीनकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि कक्षा 6			

2221	1345	श्री आर.सी. हरकावत पुत्र श्री नथमलजी 2. नथमल 3. चन्द्रकला 4. सजय 5. अजय	प. प्र. पिता पत्नी पुत्र पुत्र	वि. विधुर वि. अवि. अवि.	42 82 36 14 13	बी.कॉम, एलएल.बी.	एडवोकेट शि. सं. शि. मिडिल विज्ञापन एजेन्सी	श्वे. स्था. श्वे. मं. पुत्रियाँ-2	धूला हाउस, वापू वाजार, जयपुर फो.न. 47245	4054,जौहरी बाजार, जयपुर फो नं. 45424
2222	1344	श्री शीतल हरकावत पुत्र श्री नथमलजी 2. नीलू	प. प्र. पत्नी	वि. वि	31 26	बी.ए.		श्वे. मं. पुत्रियाँ-2	धूला हाउस, वापू वाजार, जयपुर फो.नं. 47245	4054,जौहरी बाजार, जयपुर फो.नं. 45424
2223	728	श्री सीभाग्यमल हरकावत पुत्र श्री तेजमलजी 2. जोरावरकंवर 3. विमला 4. रवि 5. राजीव 6. पवित्र	प. प्र. माता पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि. विधवा वि. अवि. अवि. अवि.	46 65 42 24 19 16	इन्टर	व्यापार मैट्रिक बी.कॉम व्यापार शि. हा.सं शि. कक्षा 10	श्वे. म. श्वे. स्था. उदयपुर	शाह विल्डिगस, चीड़ा रास्ता, जयपुर फो.न. 75574	
2224	88	श्री हीरालाल हरकावत पुत्र श्री जोधराजजी 2. अनोखादेवी 3. जीवनसिंह 4. प्रेम	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्रवधू	वि. वि. वि. वि.	61 56 34 32	बी.कॉम	डि. सैक्रेट्री राज. सेवानिवृत्त रीजनल मैनेजर एम.एससी.	श्वे. स्था. उदयपुर पुत्र-1, पुत्रियाँ-2	एस.सी 2,गोवर्धन पथ, गणेशमार्ग, बापूनगर, जयपुर,फो.न.65218	राज स्टेट., इन्वेस्टमेन्ट एण्ड इंडस्ट्रीयल डवलपमेन्ट कॉर.उद्योग भवन, जयपुर
2225	686	<u>हरपावत</u> श्री सी एल. हरपावत पुत्र श्री डी.सी. हरपावत 2 शशि 3. सजय 4. अजय 5. विजय	प.प्र. पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र	वि. वि अवि. अवि. अवि.	37 34 17 16 14		नौकरी शि. कक्षा 10+2 शि. कक्षा 10+2 शि. कक्षा 10	जैन उदयपुर	C-78A,सिवाड एरिया बापूनगर, जयपुर	जी एस.आई टी.आई. 5-घ-7 जवाहरनगर, जयपुर फो न. 852647
2226	1587	<u>हिरण</u> श्री बीपक हिरण पुत्र श्री संगामसिंहजी 2. मञ्जु	प.प्र. पत्नी	वि. वि.	35 34	एम एससी.,सी.ए. आईआईवी. बी ए.	अधिकारी बैंक बी ए.	श्वे. स्था. उदयपुर पुत्र-2	तिलकमार्ग, जयपुर	राजस्थान बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, भगवानदास मार्ग, 'मी' स्कीम, जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2227	2235	श्री राजेन्द्रकुमार हिरण पुत्र श्री भगवतीलालजी	प प्र	श्रवि	30		व्यापार	श्रव ते	गगापुर	568	काशीनाथजी की गली, गोपालजी वा रास्ता जयपुर
2228	1068	श्री शिवराज हिरण पुत्र श्री चम्पालालजी	प प्र	वि	40	एम ए	शि भाई टी भाई वेक सेवा	श्रव स्था	पाली	की 99 सरस्वती माग वजाजनगर, जयपुर फोन न 61842	सेटल वैं ब्राँफ इण्डिया, सतारचन्द्र रोड, जयपुर फोन न 64144
2229	1181	श्री लक्ष्मीचन्द होंगड पुत्र श्री रतनलालजी	प प्र	वि	55	मिडिल	किराना मचेंट	श्रवे स्था	श्रजमेर	म न 438	भट्टा की गली, विधानमभा ने सामने, जयपुर
		2 सुगनकर		पत्नी वि	50		रत्न व्यवसाय				
		3 धर्मचन्द		पुत्र श्रवि	21	इंटर	शि बी ए (द्वि व)			पुत्र 1	
		4 लाभचन्द		पुत्र श्रवि	17		शि कक्षा 10				
		5 मजू		पुत्री श्रवि	13		देशी वहीखाता मुनीम	श्रवे स्था	श्रजमेर	म न 586,	नायक भवन, हृदियो वा रास्ता, जयपुर
2230	2164	श्री हेमचन्द होंगड पुत्र श्री सुगनचन्द जी	प प्र	वि	65	मिडिल					
		2 इचरजकुमारी		पत्नी वि	60	साक्षर					
		3 हुलासचन्द		पुत्र वि	40	मिडिल	प्राईवेट सवित				
		4 रेखाकुमारी		पुत्रवधू वि	30	मिडिल					
		5 विजयकुमार		पुत्र वि	32	हा सक	रत्न व्यवसाय				पच नववार जेम्स, नायक हाउस, हृदिया का रास्ता, जयपुर
		6 प्रानातुमारी		पुत्रवधू वि	27	हा सन					
		7 सुभाषचन्द		पुत्र श्रवि	25	बी ए (द्वि व)	रत्न व्यवसाय				
		<u>हीरावत</u>									
2231	1507	श्री इचरचन्द हीरावत पुत्र स्व श्री कन्हैयालालजी	प प्र	वि	73	साक्षर	रत्न व्यवसाय	श्रवे स्था		डी 41, सुभाष माग सी स्कीम जयपुर फोन न 64698	1178, परतानिया वा रास्ता जीहरी बाजार, जयपुर फोन न 72479
		2 रतादेवी		पत्नी वि	62	साक्षर					
		3 धमचन्द		पुत्र वि	41	बी कॉम	रत्न व्यवसाय				
		4 शकुन्तला		पुत्रवधू वि	36	हा स					
		5 पारसचन्द		पुत्र वि	38	बी एससी	रत्न व्यवसाय				
		6 शकुन्तला		पुत्रवधू वि	35	मैट्रिक					

	7. रायचन्द्र	पुत्र	वि.	32	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय		
	8. शशि	पुत्रवधू	वि.	29	बी.ए.			
	9. सेफीला	पौत्री	अवि	16		शि. कक्षा 10		
	10. नीलू	पौत्री	अवि.	14		शि कक्षा 8		
	11. स्मिता	पौत्री	अवि.	13		शि. कक्षा 7		
2232 2440	श्री उत्तमचन्द हीरावत	प प्र.	वि	59	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	जैन	72, हवामहल रोड, परतानियो का रास्ता,
	पुत्र स्व श्री पन्नालालजी							विधानसभा के सामने, जौहरी बाजार, जयपुर
	2. सरदारकुमारी	पत्नी	वि.	57	मिडिल			फो.नं. 46338
	3 अशोककुमार	पुत्र	वि.	32	बी कॉम	रत्न व्यवसाय		पोद्दार बाग, परतानियो
	4 अनिता	पुत्रवधू	वि.	27	बी ए. (द्वि.व.)			का रास्ता, जयपुर
	5 विजयकुमार	पुत्र	वि	30	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय		
	6 सुशीला	पुत्रवधू	वि.	24	एम.ए			
2233 214	कुशलचन्द हीरावत	प प्र	वि	42	सैक.	रत्न व्यवसाय	श्वे. स्था	म नं. 1876, बारह
	पुत्र स्व श्री सरदारमलजी							गणगौर का रास्ता,
	2. रतनबाई	माता	विधवा	76	साक्षर			जौहरी बाजार,
	3 प्रवेशबाई	पत्नी	वि	36	मैट्रिक			फो नं 65524
	4 राकेश	पुत्र	अवि	18		शि. बी ए. (द्वि.व)		
	5. नवीन	पुत्र	अवि.	15		शि. कक्षा 10		
	6. मनीष	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 8		
2234 1052	श्री कैलाशचन्द हीरावत	प प्र	वि	44	सैक.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	नारायणसिंह रोड, जौहरी बाजार,
	पुत्र स्व श्री केवलचन्द्रजी							पुलिस मेमोरियल, जयपुर, फो. 64685
	2. विमला	पत्नी	वि.	42	सैक			
	3 धर्मेन्द्र	पुत्र	अवि	22	जी आई.ए (यू एस.ए.)	रत्न व्यवसाय		
	4 धीरेन्द्र	पुत्र	अवि	18		शि. कक्षा 10		
2235 1495/	श्री गण्पूलाल हीरावत	प प्र.	वि.	62	मिडिल	रत्न दलाली	श्वे.स्था.	म.नं. 1493, बारह
199	पुत्र स्व श्री सागरमलजी							गणगौर का रास्ता,
	2 जतनदेवी	पत्नी	वि.	55				शिवसिंह कप्तान की
	3. रमेशचन्द्र	पुत्र	वि	26	सैक.	रत्न दलाली		गली, जौहरी बाजार,
	4 पुखराजदेवी	पुत्रवधू	वि.	21	सैक.			जयपुर, फो 78207
	5 अनिल	पुत्र	अवि.	18		शि. कक्षा 9		
	6. अभय	पुत्र	अवि.	16		शि. कक्षा 10		

पौत्र-3, पौत्रियां-2

पुत्रियां-3

पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2236	1312	श्री भगवत्पुत्र श्री हीरावत पुत्र स्व श्री गोपीचन्द्रजी	प प्र	वि	60	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		परतानिया वा रास्ता, जोहरी बाजार जयपुर फोन 76756	
	2	प्रभुदेवी	पत्नी	वि	58	साक्षर					
	3	महेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	35	बी एम	रत्न व्यवसाय				
	4	पद्मलदेवी	पुत्रवधू	वि	33	हा स					
	5	धरनिन्द	पुत्र	वि	25	बी एम	रत्न व्यवसाय				
	6	मित्तु	पुत्रवधू	वि	20	बी ए					
2237	2236	श्री बीपलचन्द्र हीरावत पुत्र श्री मंगलचन्द्रजी	प प्र	वि	45	मैट्रिक	उद्योग	श्वे ते	रतनागर	सी 47, प्रियदर्शनी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर	राजपल्लव इण्डस्ट्रीज, भाभा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर फोन 69179
	2	भूमरदेवी	पत्नी	वि	40	शिक्षित					
	3	शान्तिदास	पुत्र	धवि	20	बी ए	मि एलएल बी (प्र व)				
	4	धारोचकुमार	पुत्र	धवि	18		मि बी एम (वृ य)				
2238	1269	श्री भगवत्पुत्र श्री हीरावत पुत्र स्व श्री गोपीचन्द्रजी	प प्र	वि	55	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		परतानिया वा रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर फोन 64490	
	2	शान्तिदेवी	पत्नी	वि	50	साक्षर					
	3	पुनमचन्द	पुत्र	वि	32	हा स	रत्न व्यवसाय				
	4	कुमुददेवी	पुत्रवधू	वि	27	हा स					
	5	वीरेन्द्र	पुत्र	वि	27	हा स	रत्न व्यवसाय				
	6	मणी	पुत्रवधू	वि	25	एम ए					
	7	सुरेश	पुत्र	वि	27	बी ए	रत्न व्यवसाय				
	8	रेणु	पुत्रवधू	वि	25	बी ए					
	9	राजकुमार	पुत्र	वि	23	बी ए	रत्न व्यवसाय				
	10	प्रमोदा	पुत्रवधू	वि	21	एम ए					
	11	नचलाल	पुत्र	धवि	22	बी एम	रत्न व्यवसाय				
2238	2548	श्री मंगलचन्द्र हीरावत पुत्र स्व श्री मोतीचन्द्रजी	प प्र	वि	55	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		2070, बारहू गणगाँव वा रास्ता, जयपुर	
	2	मिश्रीदेवी	माता	विधवा	74	साक्षर					
	3	पद्मदेवी	पत्नी	वि	45	मिडिल					
	4	धर्मिताम	पुत्र	वि	28	एम ए, एलएल बी	रत्न व्यवसाय				
	5	पारती	पुत्रवधू	वि	24	बी ए					

पुत्र 3

पुत्र 2, पुत्री 1

	6	टीकमचन्द	भ्राता	वि.	50	इन्टर	रत्न व्यवसाय		
	7	सुधादेवी	भ्रा.व.	वि.	42	मैट्रिक			
	8.	राजीव	भ्रा.पु.	अवि.	24	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
	9.	संजय	भ्रा.पुत्र	अवि.	23	साक्षर	रत्न व्यवसाय		
	10.	नीता	भ्रा.पुत्री	अवि.	22	बी कॉम.			
	11.	काजल	भ्रा.पुत्री	अवि.	20	बी ए.			
	12.	विनयचंद	भ्राता	वि.	39	मिडिल	रत्न व्यवसाय		
	13.	विद्यादेवी	भ्रा.व.	वि	37	इन्टर			
	14.	अरुण	भ्रा पुत्र	वि.	16		शि. सैकण्डरी		
	15.	अतुल	भ्रा.पुत्र	अवि.	14		शि कक्षा 9		
2239	1506	श्री पदमचन्द हीरावत पुत्र स्व. श्री सागरमलजी	प प्र.	वि.	91	साक्षर		श्वे.स्था.	1179, परतानियों का रास्ता, जीहरी वाजार, जयपुर फो.न 77665
	2.	प्रेमचंद	पुत्र	वि.	35	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
	3.	निर्मला	पुत्रवधू	वि.	30	मैट्रिक			
	4.	घनरूपमल	पुत्र	वि.	32	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
	5.	पारस	पुत्रवधू	वि	28	मैट्रिक			
	6.	सुरेन्द्र	पुत्र	वि.	30	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय		
	7	सुमन	पुत्रवधू	वि.	26	मैट्रिक			
	8.	नरेन्द्र	पुत्र	वि.	28	बी ए.	फिल्म व्यवसाय		
	9.	सुजाता	पुत्रवधू	वि.	24				
2040	1496	श्री वसन्तकुमार हीरावत पुत्र श्री गण्पूलालजी	प प्र	वि	29	बी कॉम.	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था	म.न. 1493, वारह गणगौर का रास्ता, शिवसिंह कप्तान की गली, जीहरी बाजार, जयपुर, फो 78207
	2.	राजकुमारी	पत्नी	वि	27	हा.मं.			
2241	210	श्री भंवरलाल हीरावत पुत्र स्व. श्री सरदारमलजी	प प्र.	विधुर	57	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्वे.स्था.	म.नं. 1876, वारह गणगौर का रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर
	2.	राजेन्द्र	पुत्र	अवि.	30	साक्षर			
	3.	कुमुम	पुत्री	अवि.	28	साक्षर			
2242	1494	श्री भागचन्द हीरावत पुत्र श्री गण्पूलालजी	प.प्र	वि	40	मैट्रिक	जमीन, जायदाद की दलाली	श्वे.स्था.	म.नं. 1493, वारह गणगौर का रास्ता, शिवसिंह कप्तान की
	2.	कान्तादेवी	पत्नी	वि.	35	मैट्रिक			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 रानी	पुत्री	श्रवि	16		शि कक्षा 9			गली, जौहरी बाजार	
		4 सुयमा	पुत्री	श्रवि	15		शि कक्षा 7			जयपुर को 78207	
		5 बोबी	पुत्री	श्रवि	14		शि कक्षा 5				
2243	547	श्री महाशयचंद हीरायत पुत्र स्व श्री चम्पालालजी	प प्र	वि	52	मैट्रिक	व्यापार	जन		2020, पीतलियो का चोक, जौहरी बाजार, जयपुर	फोन 48873 48887
		2 केलादेवी	माता	विधवा	70						
		3 लाडदेवी	पत्नी	वि	47	मैट्रिक					
		4 शान्तिचंद	भ्राता	वि	47	मैट्रिक	व्यापार				
		5 निमना	भा बधू	वि	42	मिडिल					
		6 अनिलकुमार	पुत्र	वि	30	बी ई (इल)	व्यापार				
		7 ललिता	पुत्रबधू	वि	26	बी ए					
		8 सुनीलकुमार	पुत्र	श्रवि	27	ए सी ए	प्रबिडत				
		9 सुधीरकुमार	भतीजा	श्रवि	20	बी काम					
		10 समीत	भतीजा	श्रवि	15						
2244	211	श्री भानचंद हीरायत पुत्र स्व श्री सरदारमलजी	प प्र	वि	55	मिडिल	रत्न व्यवसाय	श्व स्या		म न 1876, बारह गणपौर का रास्ता, जयपुर	
		2 सागर	पत्नी	वि	50	साधार					
		3 नरेद्र	पुत्र	श्रवि	28	बी काम	रत्न व्यवसाय			फोन 65369	
		4 शशी	पुत्री	श्रवि	22	बी ए					
2245	842	श्री राजकुमार हीरायत पुत्र श्री धीसीलालजी	प प्र	वि	28	हा सक	रत्न व्यवसाय	श्वे		परतानियो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	
		2 प्रेमदेवी	माता	विधवा	53						
		3 रीना	पत्नी	वि	23	हा सब					
2246	1457	श्री विनयचंद हीरायत पुत्र श्री गणूलातजी	प प्र	वि	33	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय	श्वे स्या		1493, बारह गणपौर का रास्ता, शिवसिंह कप्तान की गली, जौहरी बाजार जयपुर	
		2 सुयमा	पत्नी	वि	29	मैट्रिक				फोन 78207	
2247	546	श्री सरपचंद हीरायत पुत्र श्री गोपीचंदजी	प प्र	वि	55	बी ए	व्यापार	श्वे स्या		1177, परतानिया का रास्ता, जयपुर	
		2 प्रेमदेवी	पत्नी	वि	50					फोन 47723	

पुत्र-1, पुत्रिया-2

पुत्र-1

पुत्र-1, पुत्री 1

		3. रोशनलाल	पुत्र	वि.	26	बी काँम.	
		4. चन्द्रा	पुत्रवधू	वि.	24	एम.ए	
2248	213	श्री हरिचन्द्र हीरावत	प. प्र.	वि.	49	बी ए (द्वि.व)	फिल्म व्यवसाय
		पुत्र स्व. श्री सरदारमलजी					
		2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	42	मिडिल	
		3. सुनीता	पुत्री	अवि.	23	एम ए.	
		4. अनीता	पुत्री	अवि.	22	बी.ए	
		5. अनिल	पुत्र	अवि	21	बी काँम	
		6. सुनील	पुत्र	अवि.	19	बी काँम	शि
2249	212	श्री हीराचन्द्र हीरावत	प.प्र	वि	52	बी.काँम	रत्न व्यवसाय
		पुत्र स्व. श्री सरदारमलजी					
		2. लाडकंवर	पत्नी	वि.	45	मिडिल	
		3. प्रदीप	पुत्र	वि	25	बी.काँम.	
		4. प्रमोद	पुत्र	अवि.	21	एम.एससी.	

पौत्री-1

श्वे स्था

1876, बारह गण-
गौर का रास्ता,
जौहरी बाजार,
जयपुर
फो न. 76264

त्रिपची फिल्म,
दूनी हाउस, फिल्म
कालोनी, जयपुर
फो.नं. 78852

1876, बारह गणगौर
का रास्ता, जयपुर
फो.न. 62868

पूरक सूची

2250	2533	श्री दुल्हेसिंह कोठारी	प प्र	वि	61	बी.काँम (ग्रॉनर्स)	व्यवसाय
		पुत्र श्री गिरधारीसिंहजी					
		2. गिरिराजकुमारी	पत्नी	वि	57		
2251	2535	श्री प्रेमचन्द्र कोठारी	प.प्र	वि	56	मैट्रिक	रत्न व्यवसाय
		पुत्र स्व. श्री केसरीचन्द्रजी					
		2. चन्द्रकुमारी	माता	विधवा	77		
		3. सुशीला	पत्नी	वि.	55		
		4. विनय	पुत्र	वि.	31	बी.काँम.	रत्न व्यवसाय
		5. विनीता	पुत्रवधू	वि.	28		
		6. आलोक	पुत्र	वि.	29		रत्न व्यवसाय
		7. नीलू	पुत्रवधू	वि.	27		
		8 उदयचन्द्र	भ्राता	वि.	50	बी.ए.	रत्न व्यवसाय
		9. सायररानी	भ्रा वधू	वि.	45	मिडिल	
		10. नवीन	भतीजा	वि.	26	बी काँम	रत्न व्यवसाय
		11 अजली	भती.वधू	वि.	26	बी.ए.	

उदयपुर

5/95, भवानीसिंह
रोड, जयपुर
फो नं. 76997

श्वे.स्था

2005, प्रेमप्रकाश फो.न. 47553
भवन, कोठारियो का
रास्ता, जौहरी बाजार,
जयपुर, फो. 48763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12	अर्चना	भतीजी	अवि	21		शि बी ए			
		13	प्रवीण	भतीजा	अवि	14		शि कक्षा 9			
		14	प्रवासबाद	भ्राता	वि	42	बी एससी	रत्न व्यवसाय			
		15	कुसुमलता	भ्रा वधू	वि	38	मैट्रिक				
		16	बादना	भतीजी	अवि	16		शि हा स			
		17	विनीता	भतीजी	अवि	14		शि कक्षा 7			
2252A	2534		श्री सांतिशाल कोंठारी	प प्र	वि	39	बी एससी,	उद्योग	जन पूरू	3, सुदशनपुरा,	मै कोंठारी बायर
			पुत्र स्व श्री एस के कोंठारी				एम बी ए			इण्डस्ट्रियल एरिया,	इण्डस्ट्रीज, जयपुर
			2 रश्मि	पत्नी	वि	35	हा स			जयपुर	फोन 62215
			बाडिया								
2252B	2535		श्री फतेहमल बाडिया	प प्र	वि	49	एम ए,बी नॉम	चेयरमैन बैंक	श्व म धर्मर	मगतमाग, 20 दुवागा	जयपुर नागौर बैंक
			पुत्र स्व श्री माणिकबादजी							क पीछे, जयपुर	जयपुर
			2 शांती	पत्नी	वि	46	एम ए				
			3 राजय	पुत्र	अवि	22	बी वाम	शि सी ए			
			4 धर्मा	पुत्री	अवि	19		शि बी नॉम			
2252C	2536		डा विवेक बाडिया	प प्र	वि	26	एम बी बी एस,	सगा	श्वे म धर्मर	सतोन रा दुनभजी	एस डी एम अस्पताल,
			पुत्र श्री सरदारमलजी				एम एस			अस्पताल कम्पस,	बापूनगर, जयपुर
			2 धगराजिता	पत्नी	वि	24	बी ए			बापूनगर, जयपुर	
			श्रीसवाल								
2364	2549		श्री ललितकुमार श्रीसवाल	प प्र	वि	33	हा स	रत्न परमान	घोहटन	4855, मूरज बिल्डिंग,	वाकूराम मुंदरलाल
			पुत्र श्री वंशीधरजी							सांतिपो का मोहल्ला,	का मजान, पीपनी
			2 वंशीधर	पिता	वि	53				के जो बी वा रास्ता,	महादेव, एम एस बी
			3 कमलादेवी	माता	वि	50				वा रास्ता, जोहरी	बाजार, जयपुर
			शोथरा								
2365	2550		श्री सुन्दरलाल शोथरा	प प्र	वि	45	मैट्रिक		जन बीकानेर	जन टॉन घमसाना,	पी बाला वा रास्ता,
			2 कमलादेवी	पत्नी	वि	40				जोहरी बाजार, जयपुर	

पुत्र 1 पुत्रिया 4

पुत्र 1, पुत्री 1

पुत्र 2, पुत्रिया 2

	3. राज्यश्री	पुत्री	अवि.	17		शि. हा सै	पुत्री-1	
	4. महेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 7		
	भंडारी							
2366 2551	श्री प्रेमकुमार भंडारी	प प्र.	वि	38	मैट्रिक	कपड़े का व्यवसाय	श्वे.	जोधपुर
	पुत्र स्व श्री हरनामचन्दजी							1745, अजमेरा भवन, घी वालो का रास्ता, जयपुर, फो. 41287पी.पी.
	2 कुसुम	पत्नी	वि	35				
	3. मजू	पुत्री	अवि	15		शि कक्षा 10		
	4. अमित	पुत्र	अवि	13		शि. कक्षा 7		
	महमवाल							
2367 2552	श्री जितेन्द्रकुमार महमवाल	प प्र	वि.	42	सी ए.	व्यापार		म.न. 2546, जैन वीर दवाखाने के पास, घी वालो का रास्ता, जयपुर
	पुत्र श्री बालचन्दजी							
	2. नोरतनकुमारी	पत्नी	वि.	39	बी.ए.			
	3. नवीनकुमार	पुत्र	अवि.	18		शि. बी.ए. (द्वि.व.)		
	4. अजयकुमार	पुत्र	"	15		शि सैके.	पुत्री-1	
	5. नितिनकुमार	पुत्र	"	13		शि. कक्षा 9		
	खींसरा							
368 2553	श्री करणसिंह खींसरा	प. प्र	वि.	42	बी कॉम., एलएल.बी. सी ए.	कसलटेंसी	श्वे.स्था.	भीलवाडा
	पुत्र श्री अमरसिंह							इन्द्रसदन, गोविन्द राजियो का रास्ता, चाँदपोल बाजार, जयपुर फो नं. 65348
	2 मोहनी	पत्नी	वि.	40				
	3 अमिता	पुत्री	अवि.	20	बी.ए. होमसाइन्स		पुत्री-1, पुत्री-1	
	4. प्रिया	पुत्री	"	17		शि. बी कॉम. (प्र.व)		
	5. पूजा	पुत्री	"	14		शि. कक्षा 8		
	महता							
2369 2554	श्री अमरसिंह महता	प प्र	वि.	53	एम.कॉम., विशारद डिप्लो. आर्थि. प्रशासन	राजकीय सेवा विशेषाधिकारी	श्वे. म.	उदयपुर
	पुत्र श्रीवलवन्तसिंहजी							महता मेन्शनस,स्टेशन रोड, जयपुर फो.नं 61964
	2. कुसुम	पत्नी	वि	47	हाई स्कूल	स्वतंत्र-पत्रकारिता		
	3. अशोक	पुत्र	वि.	28	एम.ए.	शोधछात्र एव अध्ययन, अध्यापन		न्यूयार्क
	4 अभिलाषा	पुत्रवधू	वि.	26	बी ए. पत्रकारिता का डिप्लोमा	स्वतन्त्र पत्रकारिता		
	5. अनिल	पुत्र	अवि	27	एम कॉम , एम.फिल	शि. पी एच डी , प्रवक्ता राज यूनि. जयपुर		

विविध

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2253	2470	<u>अप्रवाल</u> श्री छपनलाल अप्रवाल पुत्र श्री गंगावनसजी	प	प्र	वि	47	शिक्षित	व्यवसाय	श्वे ते	3640	बाना टा मोहल्ला, जयपुर	छपनलाल भानुप्रवाश सरीप, जोहरी बाजार जयपुर फो 42492
	2	फुलादेवी	माता	विधवा	90							
	3	प्रेमदेवी	पत्नी	वि	45							
	4	भानुप्रवाश	पुत्र	अवि	15							
	5	उमिला	पुत्री	अवि	20							
	6	शकुन्तला	पुत्री	अवि	20							
	7	गंगादेवी	भाभी		40							
	8	मधु	भतीजी	अवि	18							
2254	2287	<u>श्री जतनदास अप्रवाल</u> पुत्र श्री वृजमोहन नाल जी	प	प्र	वि	51		बपरे वा स्यापार	श्वे ते	A 110,	जनता वाचोनी, जयपुर	श्री जतनदास अजीत कुमार, साना मानव गौक, जयपुर
	2	रतनदेवी	पत्नी	वि	50							
	3	अजीतकुमार	पुत्र		20	हा म						
	4	शकुन्तला			18	मैट्रिक						
2255	2421	<u>श्री सुरलीधर अप्रवाल</u> पुत्र श्री शीतचन्द जी	प	प्र	वि	45	मैट्रिक	नौकरी	श्वे ते	3990	लहमी भवन, एम एम बी वा रास्ता जयपुर	
	2	शीलादेवी	पत्नी		40							
	3	राजेशकुमार	पुत्र		18			मि बी कॉम (म व)				
	4	सुनीता	पुत्री		16			मि हा स				
2256	2472	<u>श्री रामदास अप्रवाल</u> पुत्र श्री ताहूरामजी	प	प्र	वि	55	शिक्षित	व्यवसाय	श्वे ते		मोनी हाउस के जी बी टा रास्ता, जयपुर	
	2	सूरजदेवी	पत्नी	वि	45							
	3	सतीश	पुत्र	वि	30							
	4	उषा	पुत्रवधू	वि	25							
		<u>कुमावत</u>										
2257	2429	<u>श्री गोपाललाल कुमावत</u>	प	प्र	वि	30	एम ए सी एस	नौकरी	श्वे ते	लायट	IV द्विबीजन पारिग, हाउसिंग बोर्ड, मालवीय नगर, जयपुर	
2258	2428	<u>श्री रणजीतसिंह कुमावत</u> पुत्र श्री नन्दलालजी	प	प्र	वि	41	मैट्रिक	नौकरी	श्वे ते	2090,	चावसू वा गौक, जयपुर	जयपुर मेटल एण्ड इलस्ट्रिक्लस लि जयपुर
	2	रेवड़ी	पत्नी	वि	38							

	3. महताववाई	माता	विधवा	90						
	4. रणजीतसिंह	पुत्र	अवि.	16	शिक्षार्थी					
	5. महावीर	पुत्र	अवि.	14	”					
2259 2289	श्री रतनलाल कुमावत	प. प्र	वि	36	मैट्रिक	व्यापारे	श्वे ते	बीकानेर	डी-77ए, सिवाड़	रतन एण्ड सन्स,
	पुत्र स्व श्री भवरलालजी								एरिया, बापूनगर,	एस.बी. 109,
	2. सज्जनदेवी	पत्नी	वि	33					जयपुर	लालकोठी, जयपुर
	3. महेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	16	शि. सै.					
	<u>गुप्ता-अग्रवाल</u>									
2260 2286	श्री गोपीनाथ गुप्ता	प. प्र	विधुर	64	बी.एससी.	सेवानिवृत्त	श्वे ते.		आर-11, सहदेव मार्ग,	
	पुत्र स्व. श्री जयदयालजी					(आर.ए.एस)			अशोक नगर, जयपुर	
	2. विमलकुमार	पुत्र	वि.	40	एम.ए.	राज्य सेवा			फो.नं. 74166	
	3. सुशीलकुमार	पुत्रवधू	वि.	36	बी.ए.					
	4. पवनकुमार	पुत्र	वि	35	बी.ए.	राज्य सेवा				
	5. रमा	पुत्रवधू	वि.	30	बी.ए					
	6. मनोज	पौत्र	अवि.	16		शि. सै.				
	7. अनुज	पौत्र	अवि	14		शि. मिडिल				
	<u>गोयल-अग्रवाल</u>									
2261 1926	श्री भूपेन्द्रकुमार जैन	प प्र.	वि.	40	सिविल इन्जी	सर्विस जे ई.एन.	श्वे.ते.	कान्धला	अ-21, अशोक मार्ग,	फो. 60175
	पुत्र श्री दीपचन्दजी							जि मुजफ्फर नगर	सी-स्कीम, जयपुर	
	2. सन्तोष	पत्नी	वि	35	बी ए	पी.डब्ल्यू डी				
2262 1129	श्री शीलकुमार गोयल	प प्र.	वि.	75	बी ए	पुस्तक व्यवसाय				
	पुत्र श्री उग्रसेनजी									
	2. जिनेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	47	एम.कॉम., एल.एलबी	बैंक सेवा			डी-37, शकुन विलास, यूनिवर्सिटी बुक	
	3. नरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	43	बी ए				सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, हाउस, चौडा रास्ता,	जयपुर
	4. राजेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	35	बी ए.	पुस्तक व्यवसाय			अहिंसा सर्किल, जयपुर	जयपुर
	5. मधूरानी	पुत्रवधू	वि.	30	बी.ए				फो. 74227,78828,	
	6. सरोज	पुत्रवधू	वि.	30	बी.ए.				74525, 63420	
									3-त-32, जवाहरनगर, यू.को.बैंक, जीहरी	
									जयपुर, फो. 43802	बाजार, जयपुर
									रामबाग पैलेस होटल	
									काउन्टर	
									क्लार्क आमेर होटल,	
									जयपुर	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7 मधुवाला	पुत्रवधू	वि	40	बी ए					
		8 पुष्पा	पुत्रवधू	वि	45	बी ए					
		9 चैतनकुमार	पुत्र	वि	30	बी कॉम	पुस्तक व्यवसाय				
2263	595	श्री शानचंद गोयल	प प्र	वि	45	बी कॉम	राज्य सेवा	श्वे स्था		3 घ2, जवाहरनगर, जयपुर	राज स्टेट सीडर तारपो जयपुर, फो 60514
		पुत्र स्व श्री बंहेयालालजी									
		2 गीतादेवी	पत्नी	वि	44						
		3 प्रभाशचंद	पुत्र	वि	23	हा स	रत्न व्यवसाय				
		4 शकुंतलादेवी	प प	वि	19	हा स					
		5 रमेशचंद्र	पुत्र	वि	20	बी कॉम	रत्न व्यवसाय				
		6 सुरेशचंद	पुत्र	अवि	17		शि य				
		डोवटीवाल-अप्रयाल									
2264	2424	श्री गणेशनारायण डोवटीवाल	प प्र	वि	47		राज्यसेवा	श्वे त		डोवटीवाल भवा, ते जी बी वा रास्ता, जयपुर	
		पुत्र स्व श्री फतेहलालजी									
		2 लक्ष्मीदेवी	पत्नी	वि	37	हा स					
		3 राजकुमार	पुत्र	अवि	21	हा म			पुत्र 2, पुत्रिया 2		
2265	2473	श्री छट्टनलाल डोवटीवाल	प प्र	वि	45					श्वे त	ते जी बी वा रास्ता, जयपुर
		पुत्र श्री फतेहलालजी									
		2 गीता	पत्नी	वि	40	शिक्षित					
		3 महेंद्रकुमार	पुत्र	अवि	18		शि बी कॉम (द्वि व)			पुत्री 1	
		4 राधेशकुमार	पुत्र	अवि	16		शि हा स				
2266	2425	श्री रामबास डोवटीवाल	प प्र	वि	55		रत्न व्यवसाय	श्वे ते		64, मगवाल पाव, जयपुर	
		पुत्र श्री नाहरामजी									
		2 सूरजदेवी	पत्नी	वि	50						
		3 सतीशचण्ड	पुत्र	वि	24	बी कॉम					
		4 उषा	पुत्रवधू	वि	22	बी ए					
		5 अनीता	पुत्री	अवि	21	बी ए (मॉर्नर)					
		डू डिया, खडेलवाल जन									
2267	2288	श्री अरुणकुमार डू डिया	प प्र	वि	32	बी एमसी (एजी)	वी त सेवा	श्वे ते		डो 23-अ, मणेशपाग बापूतगर जयपुर	अन अवि बडोवा, फोन 62974
		पुत्र स्व श्री गोरीलालजी									
		2 भाशादेवी	पत्नी	वि	26	बी ए					
		3 अन्नपदेवी	माता	विधवा	70	साक्षर					

नागौरी-अग्रवाल

2268 2417	श्री बाबूलाल नागौरी पुत्र श्री श्यामलालजी	प. प्र	वि	49	इन्टर	रत्न व्यवसाय	श्वे. ते.	2589, नागौरी हाउस, नागौरियो का चौक, फो.न. 43610
	2. गेंदीदेवी	दादी	विधवा	80				घी वालो का रास्ता, जयपुर
	3. महताबदेवी	माता	विधवा	62	शिक्षित			फो नं 42782
	4. सरोज	पत्नी	वि	42	मिडिल			
	5. लक्ष्मीनारायण	भ्राता	वि.	42	बी.ए., एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय		
	6. कान्तादेवी	भ्रा.व.	वि.	36	मिडिल			
	7. राजेश	भतीजा	अवि.	22	बी.कॉम	रत्न व्यवसाय		
	8. सगीता	भतीजी	अवि.	20	वी ए			
	9. वनिता	„	अवि.	19	बी.ए.			
	10. विनेश	पुत्र	अवि.	13		शि. कक्षा 8		
	11. कविता	पुत्री	अवि.	18		शि. बी.ए. (द्वि व.)		
	12. कैलाशचन्द	भ्राता	वि	33	इन्टर	सोने-चाँदी का व्यवसाय		
	13. विमलादेवी	भ्रा.व.	वि.	29	इन्टर			
	14. उत्तमचन्द	भ्राता	वि.	30	बी.एससी., एलएल.बी.	रत्न व्यवसाय		पुत्र-2, पुत्रियाँ-4
	15. सुमनदेवी	भ्रा.व.	वि.	27	बी.ए.			
	16. सुभाषचन्द	भ्राता	वि.	27	इन्टर	रत्न व्यवसाय		
	17. मंजुदेवी	भ्रा.व.	वि	26	बी ए.			
	18. सुरेन्द्रकुमार	भ्राता	वि.	24	बी.कॉम.	सोने-चाँदी का व्यवसाय		
	19. मजुदेवी	भ्रा.व.	वि.	21	मैट्रिक			
2269 2418	श्री मारणकचन्द नागौरी (अग्रवाल)	प.प्र.	वि.	56	मैट्रिक	व्यापार	श्वे.ते.	नागौरी भवन, नागौरियो का चौक, घी वालो का रास्ता, जयपुर
	पुत्र श्री किस्तूरचन्दजी							
	2. धनपतचन्द	पुत्र	वि.	39	मैट्रिक	व्यापार		
	3. ज्ञानचन्द	पुत्र	वि.	35	मैट्रिक	व्यापार		
	4. रमेशचन्द	पुत्र	वि	30	शिक्षित	व्यापार		
	5. अशोककुमार	पुत्र	वि.	29	बी.कॉम	व्यापार		
	6. मुन्नीदेवी	पुत्रवधू	वि.	35	मैट्रिक			
	7. शकुन्तला	पुत्रवधू	वि.	30	मिडिल			
	8. गोविन्दीदेवी	पुत्रवधू	वि.	29	शिक्षित			
	9. मंजुदेवी	पुत्रवधू	वि.	24	मैट्रिक			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10	दिलीप	पौत्र	प्रवि	19	इंटर					
	11	दिनेश	पौत्र	प्रवि	15		शिक्षार्थी				
	12	मधु	पौत्रो	प्रवि	13		शिक्षार्थी				
	13	सुधीर	पौत्र	प्रवि	13		शिक्षार्थी				
	14	मजु	पौत्री	प्रवि	15		शिक्षार्थी				
2270	2415	श्री मोहनलाल नागौरी पुत्र श्री चौधमलजी	प प्र	वि	36	बी वॉम	कपड़े का व्यापार	श्वे ते		2487, एम एस बी का रास्ता, जयपुर	फो न 42214
	2	प्रेमदेवी	माता	विधवा	67						
	3	विमला	पत्नी	वि	34						
	4	राजेश	पौत्र	प्रवि	16						
2271	2416	श्री सागरभल नागौरी पुत्र श्री मुलाबचन्दजी	प प्र	वि	65		कपड़े का व्यापार	श्वे ते		2487, एम एस बी का रास्ता, जयपुर	फो न 42214
	2	नारसीदेवी	पत्नी	वि	62						
	3	अनिलकुमार	पुत्र	वि	25	एम काम	व्यापार				
	4	मधु	पुत्रवधू	वि	23	एम ए	व्यापार				
		<u>बसल-भ्रमप्रयाल</u>									
2272	2419	श्री राधेश्याम बसल पुत्र श्री मदनलालजी	प प्र	वि	45	मिडिल	व्यापार	श्वे ते		3740, के जी बी का रास्ता, जयपुर फो न 40388	पुराहितजी का बटला, जयपुर फो न 64674
	2	हरमणीत्री	पत्नी	वि	42						
	3	सुनीता	पुत्री	प्रवि	20						
	4	रमेशकुमार	पुत्र	प्रवि	19						
	5	रामनागयग	भ्राता	वि	40						
	6	मधु	भ्रा व	वि	30						
	7	मजू	पुत्री	प्रवि	17						
	8	रतनलाल	भ्राता	वि	37						
	9	मुन्नादेवी	भ्रा व	वि	34						
	10	श्रीमप्रकाश	भ्राता	वि	30						
	11	वान्ता	भ्रा व	वि	27						
		<u>बाणवाला</u>									
2273	2427	श्री सादुलरायण बाणवाला पुत्र श्री चौधमलजी	प प्र	वि	65	गाक्षर	बाग मू न क व्यापारी श्वे ते			बाग चवरी के पास, घाट दराना चौकी,	

पुत्र 4, पुत्रियां 3

पुत्री 1

पुत्र 4, पुत्रियां 4

								जयपुर	
	2. गोगतीदेवी	पत्नी	वि.	60					
	3. रतनलाल	पुत्र	"	32	शिक्षित	दुकानदारी			
	4. उमादेवी	पुत्रवधू	"	29					
	5. हरिनारायण	पुत्र	"	28	शिक्षित	दुकानदारी			
	6. ऊपादेवी	पुत्रवधू	"	24					
	7. भवरलाल	पुत्र	"	45	शिक्षित	व्यापार			
	8. शिमलादेवी	पुत्रवधू	"	40					
	9. सुनीतादेवी	पौत्री	अवि.	23					
	10. राजकुमारी	पौत्री	अवि.	20					
	11. मनोजकुमार	पौत्र	अवि.	15	शिक्षार्थी				
2274	1928	श्री जिनेन्द्रकुमार जैन	प प्र.	वि.	38	एम ए	डिपार्टमेंटल स्टोर	जैन	वनारसीदास भवन, एस. एम.एस. हाईवे, जयपुर फो न. 74136
		पुत्र श्री मदनलाल							
		2. स्वर्णलता	पत्नी	वि.	35	एम.ए.			
		<u>मित्तल-अग्रवाल</u>							
2275	1217	श्री नरेशचन्द्र मित्तल	प प्र.	वि.	41	एम.एसमी, बी एड.	शिक्षक (व्याख्याता)	श्वे. ते	म नं 365, खवासजी का रास्ता, जयपुर
		(अग्रवाल)							
		पुत्र श्री जगनलाल							
		2. राजरानी	पत्नी	वि.	35	बी.ए बी.एड.	शिक्षक		व्याख्याता राज. हेण्डीक्राफ्ट स्कूल, जयपुर
		3. राजकुमार	पुत्र	अवि.	13		शि नं.		
2276	1927	श्री पवनकुमार मित्तल	प प्र.	वि.	34	बी कॉम.	व्यापार	जैन	वनारसीदास भवन, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर
		(अग्रवाल)							
		पुत्र श्री मदनलालजी					डिपार्टमेंटल स्टोर		
		2. पवनकुमारी	पत्नी	वि.	30	बी.ए.			
2277	1929	श्री प्रदुमनकुमार मित्तल	प प्र.	वि.	45	एम कॉम.	वनारसीदाम	जैन	वनारसीदास भवन, चौडा रास्ता, जयपुर फो.नं. 74136
		(अग्रवाल)					डिपार्टमेंटल स्टोर		वनारसीदास डिपार्टमेंटल स्टोर, जयपुर
		पुत्र श्री मदनलालजी							
		2. कुसुमलता	पत्नी	वि.	38	बी.ए.			
		3. अजयकुमार	पुत्र	अवि.	18				
		4. शरदकुमार	पुत्र	अवि	15				
		5. नीरजकुमार	पुत्र	अवि.	14				
		6. रजनीवाला	पुत्री	अवि.	16				
2278	1930	श्री महेन्द्रकुमार मित्तल	प प्र.	वि.	44	एम.ए.	व्यापार	जैन	वनारसीदास भवन, एस. एम एस. हाईवे, जयपुर, फो 74136
		(अग्रवाल)							वनारसीदास डिपार्ट. स्टोर, चौडा रास्ता, जयपुर
		पुत्र श्री मदनलालजी							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	जयबाला	पत्नी	वि	38	एम ए					
	3	सुमितकुमार	पुत्र	धवि	14		शि सक				
		<u>राजपुरोहित—जैन</u>									
2279	2465	श्री प्रेमराज राजपुरोहित पुत्र श्री रघुनाथसिंहजी	प प्र	वि	63	ब्याकरण शास्त्री, याय विशारद मैट्रिक	सेवानिवृत्त (वि सभा) स्टेनोग्राफर	जोधपुर		सी 7, प्रेम सदन, मोती माग, बापूनगर, जयपुर	
	2	श्रीमवती	पत्नी	वि	56	मिडिल					
	3	विमलेशकुमार	पुत्र	धवि	30	इंटर	रत्न दलासी				
	4	ज्योतिप्रकाश	पुत्र	धवि	26	बी एससी	बक सेवा				सेन्ट्रल बैंक धाक इण्डिया, जयपुर
	5	चन्द्रप्रकाश	पुत्र	धवि	25	बी काम	स्टेनोग्राफर				सचिवालय, जयपुर
		<u>सर्राफ-धप्रवाल</u>									
2280	2462	श्री धनराज सर्राफ (धप्रवाल) पुत्र श्री भूरामलजी	प प्र	वि	48	इंटर	डेकेदारी	श्वे ते		2668, गोयल सदन, फो न 42618 के जी बी का रास्ता, जयपुर	
	2	दुर्गादेवी	पत्नी	वि	37	इंटर					
	3	मीना	पुत्री	धवि	26	बी एससी					
	4	राजेश	पुत्र	धवि	24	बी कॉम	डेकेदारी				
	5	मीना	पुत्री	धवि	22	एम काम					
	6	दिनेश	पुत्र	धवि	24	बी कॉम	डेकेदारी				
2281	2463	श्री मदनलाल सर्राफ (धप्रवाल) पुत्र श्री भूरामलजी	प प्र	वि	60	मैट्रिक		श्वे ते		4491, गोयल सदन, मै भूरामल मदनलाल, के जी बी का रास्ता, सर्राफ, जयपुर जयपुर, फो 45368 फो 7 41969	
	2	राजदेवी	पत्नी	वि	55						
	3	सधमीनारामण	पुत्र	धि	44	हा स					
	4	पुष्पा	पुत्रवधू	वि	35	सक					
	5	प्रभुचंद	पुत्र	धि	35	गा					
	6	निमला	पुत्रवधू	वि	30	बी ए					
	7	ताराचन्द	पुत्र	धि	32	बी ए					
	8	मुमनदेवी	पुत्रवधू	वि	25	बी ए					

	9 महावीरप्रसाद	पुत्र	वि.	30	संक.			
	10. आशा	पुत्रवधू	वि.	25	संक.			
	11. श्यामसुन्दर	पुत्र	वि	26	वी.कॉम.			
	12. स्नेहलता	पुत्रवधू	वि	21	वी.ए.			
2282 2464	श्री राधेश्याम सराफ (अग्रवाल)	प.प्र.	वि.	64	मैट्रिक	सोने चादी का व्यापार	श्वे.ते.	म.नं. 2092, फीतलियों का चौक, जीहरी बाजार, जयपुर फो.नं. 66615
	पुत्र स्व. श्री भगवतीलालजी							
	2. कमलादेवी	पत्नी	वि.	60				
	3. नवलकिशोर	पुत्र	वि.	33	बी.ए.			
	4. श्यामसुन्दर	पुत्र	वि	25	बी.कॉम., एलएल बी.			
	5. चन्द्रकान्ता	पुत्रवधू	वि.	28	इन्टर			
	6. सुधादेवी	पुत्रवधू	वि	22	इन्टर			
	सोनी (सुनार)							
2283 2476	श्री बद्रीनारायण सोनी	प.प्र.	वि	55		सुनार (सोने चादी की गढाई)	श्वे.ते.	कठियारो का कुआ, के.जी बी.का रास्ता, जयपुर
	पुत्र श्री हरनाथजी							
	2. अशोककुमार	पुत्र	वि.	38				
	3. तारादेवी	पुत्रवधू	वि.	35				
	पल्लीवाल							
2284 2500	श्री सतीशकुमार पल्लीवाल	प प्र	वि	25	हा.सै.	स्टेनोग्राफर	श्वे.जैन अलीपुर(वंर)	158, सचिवालय कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर
	पुत्र श्री हजारीलाल जी							जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, जयपुर
	2. मुन्नीदेवी	पत्नी	वि.	21	हा.सै.			
2285 2501	श्री अमरचन्द पल्लीवाल	प प्र	वि.	30	एम.ए.	निरीक्षक	श्वे.स्था. अलवर	जी-79, मेजर शैतान सिंह कॉलोनी, शास्त्रीनगर, जयपुर
	पुत्र श्री कन्हैयालाल जी							रोडवेज कारपोरेशन, सिंधी कैम्प, जयपुर
	2. नवीनप्रभा	पत्नी	वि.	28	एम.ए., बी.एड.	अध्यापिका		प्रा. स्कूल हाउसिंग बोर्ड, नाहरी का नाका, जयपुर
	3. मुन्शीलाल	भ्राता	वि.	26	एम.ए.	सुपरवाइजर		प्रीठ शिक्षा केन्द्र, चाकसू
	4. मन्नुवाई	भ्रा.व	वि	22	हा सै.			
	5. रमेश	भ्राता	अवि	22	एम.ए., बी.एससी.	लेखा लिपिक प्रशिक्षण		
2286 1192	श्री अमीरचन्द पल्लीवाल	प प्र	वि	76	बी ए	लेखा लिपिक प्रशिक्षण सरकारी सेवानिवृत्त	जैन	प्लॉट नं. डी-114, पावर हाउस रोड, राम मन्दिर के सामने,
	पुत्र स्व. श्री चन्द्रभानजी							
	2. अण्णादेवी	पत्नी	वि.	70	साक्षर			

पुत्रियां-3

पुत्र-3, पुत्रियां-2

पुत्रियां-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	आनि कुमार	पुत्र	वि	53	बी एमसी (एपी)	राजकीय सेवा		बना पाक, जयपुर 6	सयुक्त निदेशक, दुर्गा
		4	रमनेश	पुत्रवधू	वि	50	एम ए	सरकारी सेवा निवृत्त		पा 63778	पुरा पाम, जयपुर
		5	वीशंकरकुमार	पुत्र	वि	49	बी एमसी	सरकारी सेवा			सयुक्त मुख्य बन
		6	गायत्रीदेवी	पुत्रवधू	वि	47	शास्त्र				मरक्षक, जाधपुर
		7	तपण	पौत्र	अवि	23	पी एससी	वरुण उद्योग व्यवसाय			
		8	शशीकुमार	पुत्र	अवि	42	एम एससी				
		9	विधाविनास	पुत्र	वि	41	बी एससी	राज सेवा			उपवन मरक्षक, बीकानेर
		10	मायारानी	पुत्रवधू	वि	35	इण्टर	स्टाफ होम स्वीडन			
2287	2502		श्री श्रीमती पत्नीवास जन पुत्र श्री मनोहरलाल	प प्र	अवि	22	हा स	पान की दुकान	श्व म	कजीबी टाडाभीम	गगन स्टोर, बाइस गोदाम, डू डलोद हाउस, जयपुर
		2	चंद्रानता	वहिन	अवि	17	डिप जू इंजीनियरिंग				
2288	144		श्री कल्याणलाल पत्नीवास जन पुत्र श्री सूरजमत	प प्र	अवि	75	मिडिल	प्राइसग्रीम फक्ट्री	जा	गसाई माधोपुर	जन प्राइसग्रीम फक्ट्री, 12 गणधीर ता रास्ता जयपुर फो 69565 पी पी
		2	रामकिशोर	भ्राता	वि	53	मिडिल	"			
		3	जयतीथी	भ्रा प	वि	48	मिडिल				
		4	सुभाषचंद्र	भतीजा	अवि	27	बी वाम	फाइनेंस प्रोक्टर			
		5	मजू	भतीजी	अवि	23	मैट्रिक				
		6	रिलवचंद्र	भतीजा	अवि	21	मैट्रिक				
		7	कलाशचंद्र	भतीजा	अवि	19	मैट्रिक				
		8	महावीर प्रसाद	भतीजा	अवि	18	मैट्रिक				
		9	रवींद्रकुमार	भतीजा	अवि	14		वि कथा 8			
2289	146		श्री किस्तूरचंद्र पत्नीवास जन पुत्र श्री मवाईमलजी	प प्र	वि	45	शास्त्र	सर्विस	जन	पुत्र 1 चंद्रजी वा मुक्ता (सवाई माधोपुर)	जन प्राइसग्रीम, 12 गणधीर वा रास्ता पौनजी विशेषकरजी, जयपुर
		2	मुसीलादेवी	पत्नी	वि	42	शास्त्र				
		3	सतीशचंद्र	पुत्र	अवि	18		शि गन			
		4	दिनेश	पुत्र	अवि	15		शि गन			
2290	2503		श्री कुबनलाल पत्नीवास पुत्र श्री गीपचंद्रजी	प प्र	वि	65	मैट्रिक	गैरनिवृत्त		पुत्र-1, पुत्री-1 श्वे स्या नदवई (भगतपुर)	जी 79, मे शताननिह कॉलोनी, शास्त्रीनगर, जयपुर
		2	कानाशवाई	पत्नी	वि	56					
		3	पतिंद्रकुमार	पुत्र	अवि	19		वि बी ए (प्र र)			

2291	2504	श्री कैलाशचन्द पल्लीवाल पुत्र श्री उम्मेदीलालजी	प प्र.	वि.	40	इन्टर साहित्य सुधाकर	सर्विस स. ऑफिस कानूगो	जैन	बड़ीदाकान	1141, किसान मार्ग, तहसील आमेर वरकत नगर, टोक फाटक, जयपुर
		2. तारादेवी	पत्नी	वि	36	मिडिल				
		3. सुशीलकुमार	पुत्र	अवि.	18	बी कॉम.	शि. एफ. आई.			
		4. मजु	पुत्री	अवि	13		शि. सै.			पुत्र-1
2292	2505	श्री कैलाशचन्द पल्लीवाल पुत्र श्री छगनलालजी	प प्र.	वि.	37	बी कॉम.	सर्विस, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	श्वे.स्था. वरगवा (हिण्डौन)	175, मालवीयनगर, जयपुर	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर फो 63234
		2. शीला	पत्नी	वि	33	मैट्रिक				
		3. गिरीश	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 9			पुत्र-1, पुत्री-1
2293	2506	श्री चिमनलाल पल्लीवाल पुत्र श्री दीपचन्द जी	प. प्र.	वि.	75	मिडिल	मुनीम	श्वे.स्था. नदवई	टोक फाटक, जयपुर	
		2 सुरेशचन्द	पुत्र	वि.	23	बी.ए.	सर्विस			
		3 कमलेशवाई	पुत्रवधू	वि.	20	बी.ए.				पुत्री-1
2294	2507	श्री दीनदयाल पल्लीवाल पुत्र स्व. श्री फूलचन्दजी	प.प्र.	वि.	40	मैट्रिक	व्यवसाय	जैन	डी. डी. जैन एण्ड कं., प्लॉट न. 7, नृसिंहनगर, भोटवाड़ा, जयपुर-12, फो न. 842779	
		2. गोमतीदेवी	माता	विधवा	60					
		3. उर्मिलादेवी	पत्नी	वि	35					
		4. अशोककुमार	भ्राता	अवि.	22	मैट्रिक				
		5. अनिलकुमार	"	"	20	बी कॉम				पुत्र-2, पुत्रियाँ-2
2295	2508	श्री दुर्गाप्रसाद पल्लीवाल पुत्र स्व. श्री सूत्रालालजी	प प्र.	वि.	43	इन्टर	सरकारी कार्य	श्वे.म साँथा	58, गोविन्दनगर, आमेर रोड, जयपुर,	फो.न. 61610
		2. सरस्वतीदेवी	माता	विधवा	65					
		3. गिन्नोदेवी	पत्नी	वि	40	साक्षर				
		4. सुरेशचन्द्र	भ्राता	वि	23	डिप्लोमा (विद्युत्)	सरकारी कार्य			
		5. विनोदकुमार	पुत्र	अवि	19		शि. बी.कॉम			
		6. प्रमोदकुमार	"	अवि.	14		शि. कक्षा 9			
		7. मजु	भ्रा व	वि	20	मैट्रिक	शिक्षार्थी			
		8. मधुकला	पुत्री	अवि	14		शि. कक्षा 9			
		9. मधुलता	"	"	14					पुत्री-1
2296	2509	श्री धर्मचन्द पल्लीवाल 2 सुशीला	प प्र.	वि.	33	हा सै	नौकरी	श्वे म. भरतपुर	104, पटेल नगर, भोटवाड़ा, जयपुर, फो.न 64138	
			पत्नी	वि.	30	हा सै.				पुत्र-1, पुत्री-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2297	2510	श्री नारायणदास पत्नीदास	प प्र	वि	38	मैट्रिक	गर्गिस	जन	खेडा	48, जगदीश बाँलानी, (हिंडीन)	फोन 75087
		पुत्र श्री गंगावनसजी								भद्रसन नगर के पास, टोना पाटन, जयपुर,	
		2 पुष्पादेवी	पत्नी	वि	36	साक्षर					
		3 सुमलचंद	पुत्र	भवि	18		शि बी ए (प्रथ)				
		4 देवेन्द्रकुमार	पुत्र		16		शि कक्षा 9				
		5 कविता	पुत्री	,	14		शि कक्षा 8				
2298	2511	श्री नारायणदास पत्नीदास	प प्र	वि	82		विश्राम	श्वे म	सवाई	पत्नीदास हाउस, वायमू का चौक	फोन 64138 कार्या 75087
		पुत्र श्री सोहनपालजी							माधोपुर		
		2 भगवानदास	पुत्र	वि	44	एम काम	मैनजर			पौ वालो का रास्ता, जयपुर	
		3 कालीदेवी	पुत्रवधू	वि	40	हा स				फोन 43001	
		4 सुनीता	पौत्री	भवि	17		शि बी ए (प्रथ)				
		5 प्रमोदकुमार	पौत्र	,	20		शि बी ए (द्वि व)				
		6 अनिता	पौत्री	,,	13		शि कक्षा 9				
		7 भजय	पौत्र	,,	16		शि हा स				
		8 उत्तमचंद	पुत्र	वि	42	बी पॉम	नौनरी सहा निदेशक				फोन 75087
		9 लक्ष्मीदेवी	पुत्रवधू	वि	40	हा स					
		10 सुनीता	पौत्री	भवि	20		शि बी ए (प्रथ)				
		11 भजू	पौत्री	भवि	15		शि कक्षा 9				
		12 सीमा	पौत्री	भवि	13		शि कक्षा 8				
2299	2512	श्री प्रेमचंद पत्नीदास	प प्र	वि	54	बी ए	डिबीजनल एनाउन्टेंट	जन	बरोली	1068, रामनगर	पी डब्ल्यू डी
		पुत्र श्री कैसरीचंदजी								शाहीनगर जयपुर	सवाईमाधोपुर
		2 मीनादेवी	पत्नी	वि	50	मिडिक					
		3 सुरेन्द्रकुमार	पुत्र	वि	26	हा स	कनिष्ठ लिपिक				
		4 मधु	पुत्रवधू	वि	21	एम ए	शिक्षा विभाग				
		5 सुशीलकुमार	पुत्र	भवि	20		शि बी ए (द्वि व)				
300	2513	श्री प्रेमप्रकाश पत्नीदास	प प्र	वि	46	इंटर	राजकीय सेवा		घागरा	47, गोविन्द नगर	
		पुत्र स्व श्री प्यारेलालजी					निरीक्षक			घाभर रोड, जयपुर	
		2 शबुन्तला	पत्नी	वि	40						
		3 विमलकुमार	पुत्र	भवि	23	एम पॉम	शिक्षार्थी				
		4 राजेशकुमार	पुत्र	भवि	20		शि बी ए (द्वि व)				

पुत्र 1

पुत्र 2 पुत्री 1

	5. अजयकुमार	पुत्र	अवि	16		शि. कक्षा 11			
	6 प्रनीता	पुत्री	अवि	15		शि कक्षा 10			
2301 2514	श्री भगवतोलाल पल्लीवाल	प प्र	वि	56	मैट्रिक	सेवा निवृत्त	जैन	हिण्डीन	111, शिवाजीनगर, वी.के.इन्जीनियरिंग
	पुत्र श्री दुर्गाप्रसादजी								शालीमार फंक्ट्री, बक्स, रामा रौलिंग
	2. रामदेईदेवी	पत्नी	वि.	50					चौराहे के पास, मिल के पास,
	3. जिनेशकुमार	पुत्र	वि.	30	बी.ए., एल.एल.बी.				भोटवाड़ा, जयपुर
	4. कमलादेवी	पुत्रवधु	वि	25	सैंक.				
	5. वीरेन्द्रकुमार	पुत्र	अवि	18	मिडिल				
	6. प्रमोदकुमार	पुत्र	अवि	15	मैट्रिक				
2302 2515	श्री भागचन्द्र पल्लीवाल	प प्र	वि.	43	बी.ए. सा. शास्त्री, व अध्यापक	शिक्षा शास्त्री, साहित्यरत्न	श्वे मु		30, गोविन्दनगर, संस्कृत शिक्षा
	पुत्र स्व. श्री ग्यारसीरामजी								आमेर रोड, जयपुर राजस्थान, जयपुर
	2. शकुन्तला	पत्नी	वि	38					
	3. लता	पुत्री	अवि	17		शि. बी.ए. (प्र.व.)			
	4. बबीता	पुत्री	अवि	15		शि. हा सै.			
2303 2516	श्री मूढलकुमार पल्लीवाल	प प्र	वि.	30	बी.कॉम.		जैन	आगरा	फो. 66098 एस.बी.बी.जे.
	पुत्र श्री ज्ञानचन्द्रजी								चांदपोल ब्रांच, जयपुर
	2 मधु	पत्नी	वि.	25	बी.ए. (द्वि.व.)				
2304 2517	श्री महावीरप्रसाद पल्लीवाल	प प्र	वि.	37	बी.ए., बी.एड	लेखाकार	जैन	हिण्डीन	चौपड़ा सदन, मठ का मनोवैज्ञानिक
	पुत्र श्री छाजूलालजी								कुआ, के. जी. बी. का चिकित्सालय, जयपुर
	2. मायादेवी	पत्नी	वि	34	मिडिल				रास्ता, जीहरी बाजार, फो नं. 43737
2305 2518	श्री महावीरप्रसाद पल्लीवाल	प प्र	वि	36	बी.कॉम	लेखाकार	जैन	अलीपुर	12, कल्याण कॉलोनी, राज. राज्य विद्युत,
	पुत्र श्री हजारीलालजी							(भरतपुर)	टोक फाटक, जयपुर मण्डल, जयपुर
	2. उर्मिला	पत्नी	वि.	32	प्रथमा				
	3. नीरज	पुत्र	अवि.	14		शि. कक्षा 10			
2306 2519	श्री मेघराज पल्लीवाल	प. प्र.	वि	32	मिडिल	वाइन्डर	जैन	करौली	मधुसूदन पुजारी का राजकीय केन्द्रीय
	पुत्र श्री रगूलालजी								मकान, बोहराजी का मुद्रणालय, जयपुर
	2. कुसुमलता	पत्नी	वि.	30	मिडिल				दरवाजा, के.जी.बी. का रास्ता, जीहरी
2307 2570	श्री रंगूलाल पल्लीवाल	प.प्र.	वि.	58	मिडिल	सेवा निवृत्त	जैन	करौली	बाजार, जयपुर 4820, सोतियो की गली, के.जी.बी. का
	पुत्र स्व. श्री स्वरूपचन्द्रजी								रास्ता, जीहरी बाजार, जयपुर
	2. रामकली	पत्नी	वि	55	साक्षर				
	3. रामबाबू	पुत्र	वि.	26	मैट्रिक	टी.वी. मेकेनिक			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 हाहणवा	पुनवपू	वि	24	हा स					
		5 बापोरकुमार	पुन	प्रवि	20	निहित	निम्न मेजर				
2308	2521	6 मुनेकुमार	पुन	प्रवि	16		नि १००० 10				
		धी रमेश पत्नीबाब	प प्र	वि	35	मेट्रिक	गोहरी	ध्व स	गवाई	C/o घात्माशम जा	
		पुन धी कमलपत्नी						माधपुर		गना नवा, पो वाला	
2309	1267	धी रमेशबाब पत्नीबाब	प प्र	वि	58	बी एतगो	ध्यागार	श्वे रमा		मधुवन, जे 39 इच्छा	
		पुन धा राजगानवी								माण सी स्वोम,	
		2 मीमा	पत्नी	वि	52	एम ए एल गी	मविम			जयपुर	
		3 नमड	पुनी		26						
		4 पत्र	पुन	प्रवि	21	बी गाम					
2310	2522	धी रित्तबणब पत्नीबाब	प प्र	वि	45	बी गाम	ट गीपान मुपटवाईजर जट	नवबड	3985	सोषड नवन, वार्यांनय	
		पुन धी उमेरीराजत्री						(नरतपुर)		एम एस वी वा महा प्रमि 7,	
		2 उमणीगानवी	पिता	विपुर	65	मिहित				रास्ता जोहरी बाजार	इराई-जयपुर
		3 न हादेरी	पत्नी	वि	42	मिहित				जयपुर	
		4 मनीगपुमार	पुन	वि	24	हा स	व्यवसाय			पा न 40440	प्रहिमा एडवरटाईजस
		5 नेतू	पुनवपू	वि	21	बी ए					सीषड नवन, जोहरी
		6 राजकुमार	पुन	प्रवि	20	हा से	व्यवसाय				बाजार, जयपुर
		7 पडात्रकुमार	पुन	प्रवि	18	हा स	निक्षार्थी				
2311	2527	धी सेतोप्रभाष पत्नीबाब	प प्र	वि	68	मेट्रिक	सवा निवत्त	जन	भरतपुर	15 डी, वापूरपर,	
		पुन धी पत्रागानवी								जयपुर-15	
		2 घातरनीनेरी	पत्नी	वि	65						
		3 घात्रकुमार	पुन	वि	49	बी ए	सवित				
		4 रुजन	पुनवपू	वि	45	मेट्रिक	सवित				
		5 रविप्रकाश	पुन	वि	35	मेट्रिक	रत्न व्यवसाय				
		6 लता	पुनवपू	वि	30	मेट्रिक					
		7 घात्रय	पुन	वि	28	बी ए	दुगान				
		8 मुनीता	पुनवपू	वि	24	बी ए					
		9 नीरा	पत्नी	प्रवि	21						
		10 वर्षा	पत्नी	प्रवि	19						
		11 मीमा	पत्नी	प्रवि	16						

2312	1199	श्री लखमीचन्द पल्लीवाल पुत्र श्री सोहनलालजी	प प्र	वि	69	मैट्रिक	प्रेस-कार्य	श्वे.जैन	आगरा	458, नाटानियो का रास्ता, जयपुर	किशोर निवास, ज्योति मुद्रणालय, जयपुर
		2. बालसुन्दरी	पत्नी	वि	65						
		3. सजय	पौत्र	अवि	19		शि. बी.एससी.				
		4. राजीव	पौत्र	अवि.	17		शि. बी कॉम.				
2313	2523	श्री विनोदकुमार पल्लीवाल पुत्र श्री विरधीचन्दजी	प प्र.	वि.	27	बी.ए.,बी.एड.	नौकरी	श्वे स्था	स. माधोपुर	C/O श्री गोविन्दराज जी शर्मा, मेहरो का रास्ता, रामगज बाजार, जयपुर	कार्या. फो. 64138
		2. पुष्पादेवी	पत्नी	वि.	23	हा सै.					
		3. गोपाललाल	भ्राता	अवि.	22	बी.ए (द्वि व)	सर्विस				
2314	1245	श्री विमलकुमार पल्लीवाल पुत्र श्री प्रभुदयालजी	प. प्र.	अवि.	21	इन्जी. डि. (इलै.)	सुपरवाइजर	जैन	हिण्डौन	म न 15, ढेर का बालाजी, जयपुर	परताप राज. कॉंपर फॉइल्स एण्ड कं. लि., जयपुर
		2. दिनेशचन्द्र	भ्राता	अवि.	17		शि. हा.सै.				
2315	400/ 145	श्री सुगनचन्द पल्लीवाल पुत्र श्री सूरजमलजी	प प्र	वि	45	साक्षर	व्यवसाय	जैन		1613, सोथली वालो की गली, चौडा रास्ता, जयपुर	महावीर आईस फॅक्ट्री, बान्दीकुई
		2. अनारदेवी	पत्नी	वि.	42	साक्षर					
		3. सरला	पुत्री	अवि	26	बी.ए.					
		4. सुभाषचन्द	पुत्र	अवि	25	बी.कॉम., एलएल.बी.					
		5. विनीता	पुत्री	अवि.	20		शि बी ए. (द्वि.व.)				
		6. मिशला	पुत्री	अवि	18		शि. हा.सै.				
		7. सुधा	पुत्री	अवि.	14		शि. सैक.				
6	2524	श्री सुमेरचन्द पल्लीवाल पुत्र श्री सेठ उदयचन्दजी	प प्र.	वि.	48	एम ए ,एलएल.बी. डी.एल.एल.	श्रम कल्याण अधि	जैन	करीली	5ख-2, शास्त्री नगर, हा बोर्ड, जयपुर	राज. स्टेट एग्री इण्ड. कारपो., फो. 64403, 68361
		2. सन्तोष	पत्नी	वि.	44	मैट्रिक					
		अनिल	पुत्र	अवि.	24	बी एससी.	बैंक सेवा				राज. बैंक.
		समीता	पुत्री	अवि.	20		शि. एम कॉम.				एम.आई.रोड, जयपुर
		3. साधना	पुत्री	अवि	18		शि. बी.ए. (अ.व.)				
		6. सुनील	पुत्र	अवि.	17		शि. हा.सै				
2317	427	श्री सुमेरचन्द पल्लीवाल पुत्र श्री जगनलालजी	प.प्र.	अवि.	44	एम ए, एलएल.बी. एल एस.जी.डी	नौकरी	जैन	गगापुर	C-135, दयानन्द मार्ग, तिलकनगर, जयपुर	जयपुर विकास प्रा. जयपुर फो.न. 63234
2318	2525	श्री शिखरचन्द पल्लीवाल पुत्र स्व. श्री फूलचन्दजी	प प्र	वि.	35	मैट्रिक	व्यवसाय	जैन		प्लाट नं.8, नृमिहनगर, आनन्दलैम्प के पीछे, भोटवाडा, जयपुर-12	फो न. 842779
		2. किरणदेवी	पत्नी	वि.	32						

पुत्र-1

पुत्र-1, पुत्रिया-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2319	2526	श्री हरिश्चन्द्र पत्नीबाल पुत्र स्व श्री फूलचन्दजी 2 मुधी	प प्र पत्नी	वि वि	30 28	मैट्रिक मिडिन	नोगरी	श्वे स्था पुत्र 2, पुत्री 1	भरतपुर		राजरूपी टाक की गद्दी, जोहरी बाजार, जयपुर एक्सटेनशन 210
2326	2538	श्री हरीशचन्द्र पत्नीबाल पुत्र श्री रिदीचन्दजी 2 नमला 3 राजीव 4 नजीबकुमार	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र	वि वि श्रवि श्रवि	43 38 20 18	बी काम इटर 20 18	व्यापार शि बी बॉम शि बी ए (प्र व)	जन पुत्री 1	गगापुरमिटी गगापुर हाउस, धी वालावा रास्ता जयपुर फोन 41921		
2327	2539	श्री विश्वनाथ पत्नीबाल पुत्र श्री रिदीचन्दजी 2 आशा 3 राजेश	प प्र पत्नी भतीजा	वि वि श्रवि	45 35 21	बी काम इटर एम ए	व्यापार	जन पुत्र 2, पुत्री 2	गगापुरसिटी गगापुर हाउस, धी वालो का रास्ता, जयपुर, फोन 41921		
2328	2540	श्री ईश्वरीलाल पत्नीबाल पुत्र श्री भवरनालजी 2 कचन	प प्र पत्नी	वि वि	32 28	बी ए मैट्रिक	कानून की पुस्तक विशेषता	श्वे म पुत्र 2, पुत्री 1	उदयपुर		राज बुव सेटर 251, रास्ता भीवराम जी की कोठी, रामगज बाजार जयपुर 3
2329	2541	श्री चड्ढाल पत्नीबाल पुत्र श्री चिरजीलालजी 2 सम्पतिदेवी 3 अमरचन्द 4 मिशलादेवी 5 कलाशचन्द 6 रामकुमारी 7 हेमल	प प्र पत्नी पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र	वि वि वि वि वि श्रवि	82 78 40 35 30 26 14	मिडिल	रत्न व्यवसाय	जन श्वे साधा (सवाईमाधोपुर)	साधा लक्ष्मीवन, एम एस धी ना रास्ता जयपुर		
2330	2542	श्री बाबूलाल पत्नीबाल पुत्र श्री चिमनलालजी 2 जिनेशकुमार	प प्र पुत्र	वि श्रवि	50 26	बी ए, प्रार टी एस बी ए, एलएल बी	तहसीलदार एडवोकेट	जन महुध्रा (सवाईमाधोपुर)			जिलाधीश कार्यालय, जयपुर हाई कोर्ट, जयपुर जैम्बर-10

2331	2543	श्री आनन्दप्रसाद पत्नीवास पुत्र एच. श्री मोहनचन्द्र-जी	प.प.	वि.	49	इन्टर	राज्य कर्मचारी	जैन	बंद	एच-27(ए) जैन मंदिर जिलाधीन कार्यालय (भरतपुर)	के पान, किसान मार्ग, जयपुर मधुवन, जयपुर फोन 74638 बी.पी.
		2. नारायणी	माता	नियवा	70						
		3. मधुवती	पत्नी	वि.	40	मिडिल					
		4. महेशचन्द्र	भ्राता	वि.	28	बी.कॉम, एलएल.बी.	राज्य कर्मचारी				
		5. राजश्री	भ्रा.वधू	वि	25	एम.ए					
2332	2544	श्री रमेशचन्द्र पत्नीवास पुत्र एच. श्री कानोडीवासजी	प.प्र.	वि.	35	मैट्रिक	नीकरी	श्वे म	हिण्डोन	श्रीमप्रकाश स्वामी का मकान, बह्यपुरी, सुरें	
		2. राजुग	पत्नी	वि	30						
		3. बनपानी	पुत्र	प्रवि	18		शि. बी कॉम			पुत्री-1	के नीचे, जयपुर फोन 40306
2333	2545	श्री मनमोहन पत्नीवास पुत्र श्री ज्ञानानन्दजी	प.प्र.	वि	32	बी.एससी.	टेलीफोन एक्स मे सेवारत	जैन	बरगमा हिण्डोन		सांगानेरी रोड, टेगी एएम., जयपुर फोन 41600
		2. राधिका	पत्नी	वि.	26	बी.ए.	कार्यालय सहायक जिना प्रबन्धक			पुत्र-1	
2334	2546	डा. जी. सी. पत्नीवास पुत्र एच. श्री एम. एन. जैन	प.प.	वि.	52	एम.प्रो.टी.ए.प्रो	मविस प्रभारी, टी.जी., जी.एन.एम.	जैन	श्वे करीली	ए-12, इन्द्रपुरी हॉलोनी, लालकोठी, टोक रोड, जयपुर	
		2. बीना	पत्नी	वि	47	मैट्रिक	व्यवसाय चिकित्सा सिलार्ड में डि.				
		3. राकेश	पुत्र	प्रवि	17		शि. हा. से.				
2335	2547	शिवरत्न पत्नीवास 2. नरमोदी	प.प.	वि.	56		वकासत	जैन	हरसाना	पानडीवाला भवन, परशुराम मार्ग, मरुभर सवामजी का रास्ता, प्रिन्टिंग के ग्रन्डर, जयपुर, फोन 45757	पुरानी बस्ती, जयपुर
		3. शिवकुमार	पुत्र	वि	30	बी.कॉम., एनएन.बी.	वकासत				
		4. बीना	पुत्रवधू	वि	26	बी.ए.					
		5. नरेशकुमार	पुत्र	वि.	28	बी.कॉम., एनएन.बी.	वकासत				
		6. रेणु	पुत्रवधू	वि	25	बी.ए.					
		7. स्निग्धकुमार	पुत्र	प्रवि.	25	बी.कॉम.	रत्न व्यवसाय				
		8. पतिव्रतकुमार	पुत्र	प्रवि	22	बी.कॉम., एनएन.बी.					
		9. उषा	पुत्री	प्रवि	20	बी.ए.					
		10. विजा	पुत्री	प्रवि	18	बी.ए.					
		11. संस्था	पुत्री	प्रवि	14	नैक					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पोरवाल											
2320	1190	श्री घनश्याम पोरवाल पुत्र श्री सुरजमलजी 2 दशना	प प्र	वि	28	एम कॉम	सविस	श्री जन	उज्जन	1588, खेजडे वा रास्ता, इन्दिरा बाजार जयपुर	फोन 75526
2321	1991	श्री टीकमचंद पोरवाल पुत्र श्री रामकुमारजी 2 चयनकुमारी 3 प्रजुनी 4 नीतू	पत्नी प प्र	वि वि	22 34	मैट्रिक बी कॉम एलएल बी		पुत्रिया-2 श्री स्वा स माधोपुर		2310 श्री वाला रा रास्ता जयपुर फा 45393	कार्यालय फो 44169
2322	1146	श्री धमचंद पोरवाल पुत्र श्री शकरलालजी	प प्र	वि	26	बी काम	मि नया 9 मि नया 7 स्टेनोग्राफर (घघेजी)	जन	पटोनी (टोह)	म न 747, मिथराजजी वा रास्ता, इन्दिरा बाजार व पाग, जयपुर	कार्यालय महालगाकार (म न) राजस्थान जयपुर फो 68431 जयपुर विभाग प्राधिकारण, जयपुर
		2 सुरेन्द्रकुमार	भ्राता	वि	23	बी ए	एग्जेंटिंग ड्राफ्टमेन (सिविल) मि बी ए (ट्रिव)				
		3 विजेन्द्रकुमार	भ्राता	प्रवि	19						
		4 शान्ति	पत्नी	वि	21						
2323	1739	श्रीमती नवदावेवी पोरवाल पत्नी श्री चुनीलालजी	प प्र	विधवा	70					पुन-1 श्री मं	
2324	1132	श्री नबरलाल पोरवाल पुत्र स्व श्री बजरगलालजी 2 हनुमानप्रसाद 3 सन्तोष 4 विमलकुमार 5 सुशीला	प प्र	विधुर	56		राजकीय गवामिबुद्ध	जा	घनेरी (म माधोपुर)	पारवाल भवन म न 3774, मरानीराम बाग श्री मनी व श्री बी वा रास्ता जयपुर फा न 42142 पी पी प्लाट नं 131, गाविन्द नगर, (पूर्व) घामेरगाड, जयपुर	रा पत्रिहन् निगम जयपुर
2325	1159	श्री हनुमचंद पोरवाल पुत्र श्री हमीरमनजी 2 हेमलता	प प्र	वि	22	एम ए, बी एमबी मैट्रिक हा म मैट्रिक एम ए	कनिष्ठ लेखानार जिजी व्यवसाय स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	जन	म माधोपुर	334, घानकुं वा रास्ता, किगापाल बाजार जयपुर	शाशांत ममाहर्वा नेनी उस्ता -



परिशिष्ट